



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26—मई 2, 2008 (वैशाख 6, 1930)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26—MAY 2, 2008 (VAISAKHA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0077/3/56/91--राष्ट्रपति ने श्री बाला रवीन्द्र नाथ, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो को दिनांक 28.02.2008 अपराह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 02.04.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 01 अप्रैल 2008

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-05--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व
इस कार्यालय के श्री विजय कुमार गोसाई, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

सं. डब्ल्यू.एम.1/क्यू-73(जी)/खण्ड-IV/01-03-- महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए

प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई है।

1. श्री शंकर कुमार प्रामाणिक

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-1 के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (लेखा)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 28 नवम्बर 2007

सं. 3332/बी/ए-35018/उपमहानिदेशक(वित्त)/96-19सी--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 11.04.2001 के पत्र सं. 11030/17/93-आई.ए.एस.(II) के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के राज्य संवर्ग को धारित 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ए. मुखोपाध्याय तथा जो वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को 15.09.2005 से प्रभावित प्रोफॉर्मा आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 22,400-525-24,500/- रुपये के अधिसमयमान में पदोन्नत करते हैं।

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते उपमहानिदेशक (कार्मिक)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. 7/2(2)/2008-एसयूएस/2314--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

में पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान	तिथि से
सर्वश्री				
1.	लाला राम	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500	01.08.2007
2.	प्रताप कुमार पांडा	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500	01.08.2007
3.	शैलेन्द्र बहादुर	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500	01.08.2007

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

कार्यालय मु.वा. (न. दि. क्षे.)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 27/13/90-मु.वा.(न.दि.क्षे.)/स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्री देवराज डोमाजी बाकडे, मुख्य वास्तुक (न. दि. क्षे.) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, दिनांक 31.03.2008 अपराह्न से भारत सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त होते हैं।

विजय प्रकाश राव
संपर्क अधिकारी, मु.वा. (न.दि.क्षे.)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. आर ओ सी/दिल्ली/560(5)/एस एम/6003/11502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और क्रमांक 1 से 6300 तक की कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं:--

List 560(5) Companies

S.No.	CIN	Company Name
1	U22219HR1932PTC000085	प्रिंटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2	U99999DL1937PTC000459	मॉडल बील्डींग कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
3	U99999DL1945PTC000831	लैंड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
4	U99999DL1945PTC000846	डी जी एल प्राईवेट लिमिटेड
5	U51909HR1946PTC001200	कृष्ण इन्डुस्ट्रिज एण्ड जनरल मील्स प्राईवेट लिमिटेड
6	U99999DL1948PTC001363	बीकैट एण्ड को.प्राईवेट.लिमिटेड.
7	U99999DL1948PTC001380	नोर फ़ोल्क सीन्डिकेट(इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
8	U60231HR1949PTC001476	सतनाम ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
9	U74140DL1948PTC001483	जवाहर सिंह बिक्रम सिंह प्राईवेट लिमिटेड.
10	U99999DL1948PTC001504	मॉडल एन्जीनीअरींग एण्ड कंस्ट्रक्शन को (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
11	U51502HR1950PTC001624	जानकी दास अण्डको प्राईवेट लिमिटेड
12	U99999DL1949PTC001630	जानना दवा खाना प्राईवेट लिमिटेड
13	U51909DL1949PTC001667	सीलांद (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14	U99999DL1949PTC001705	बी के खन्ना एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
15	U92112DL1950PTC001741	अपर इंडिया ठेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
16	U51909HR1952PTC001746	आरिफ़ सीन्डिकेट प्राईवेट लिमिटेड
17	U51909DL1950PTC001756	श्री रंग ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
18	U60231HR1952PTC001761	लाहोर पिंडी ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
19	U99999DL1950PTC001843	खन्ना ट्रेडिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
20	U51909DL1951PTC001909	शंकसन प्राईवेट लिमिटेड
21	U60231DL1951PTC001978	दिल्ली गूड्स कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
22	U99999DL1952PTC002168	वेल वर्थ प्राईवेट लिमिटेड
23	U51909DL1952PTC002193	आर.बी.एल.तीर्थ राम शाह ईश्वर दास प्राईवेट.लिमिटेड.
24	U99999DL1953PTC002234	टेप्लिटज़ एरटेद वाटर को प्राईवेट लिमिटेड
25	U60231HR1958PTC002242	दादरी हरियाणा ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
26	U99999DL1953PTC002304	बावा टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड
27	U99999DL1955PTC002471	ऑल इंडिया पुब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
28	U51398DL1955PTC002529	स्टान्डर्ड ज्यूएलर्स प्राईवेट लिमिटेड
29	U99999DL1956PTC002618	स्पार्टन बटेरिस प्राईवेट लिमिटेड
30	U99999DL1956PTC002620	दिल्ली सिलिकेट एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
31	U99999DL1956PTC002632	हांडीक्राफ़्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
32	U34301HR1967PTC002720	विश्व कर्मा एन्जीनीअरींग को प्राईवेट लिमिटेड
33	U99999DL1957PTC002775	व्हिटेक्रोफ़्ट मॅनुफ़ैक्चरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
34	U99999DL1957PTC002801	दिल्ली कश्मीर गूड्स ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
35	U63090DL1957PTC002816	लाब्ड मास्टर ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
36	U99999DL1956PTC002821	परताप ट्रान्सपोर्ट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
37	U51909DL1957PTC002835	शमा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
38	U99999DL1957PTC002842	प्रोसेस एनग्रेवर्स प्राईवेट लिमिटेड
39	U74999DL1958PTC002966	स्टर्लिन्ग इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
40	U99999DL1959PTC003020	वैस्ट इंडिया एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
41	U99999DL1959PTC003030	सुपरफाइन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
42	U99999DL1959PTC003120	अद्वान्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

43	U63090DL1959PTC003127	पटिआला गूड्स बूकिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
44	U99999DL1960PTC003181	ग्रेह लक्ष्मी कोलोनिजर्ज प्राईवेट लिमिटेड
45	U99999DL1960PTC003206	मीलहार्ड प्राईवेट लिमिटेड
46	U99999DL1960PTC003233	एक्स्चूशन इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
47	U99999DL1960PTC003277	क्वालिटी ऑफिस अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
48	U99999DL1960PTC003283	पद्मिनी मेटल्स एण्ड इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
49	U74130DL1960PTC003330	ओस ओशीटेद मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
50	U99999DL1960PTC003339	ट्रेड्नास्टर्ज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
51	U99999DL1960PTC003349	ग्लोब अंडवर्टायजिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
52	U36997DL1961PTC003435	हेर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53	U65921DL1961PTC003460	फायनान्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
54	U55101DL1961PTC003473	होटेल खयाम प्राईवेट लिमिटेड
55	U99999DL1961PTC003502	मीतवक्स इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
56	U99999DL1961PTC003556	दिल्ली बॉम्बे ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
57	U99999DL1961PTC003577	राजिंदर फ़्लोर एण्ड अलाईव इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
58	U33309DL1962PTC003619	लाडली प्रसाद एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
59	U99999DL1962PTC003770	चांद नारायण दत्त एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
60	U34300DL1962PTC003777	विशाल ऑटो इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
61	U99999DL1962PTC003778	डॉन फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
62	U99999DL1962PTC003783	नोर्थ ईस्ट रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
63	U67120DL1962PTC003790	एवेरिसे प्राईवेट लिमिटेड
64	U99999DL1962PTC003839	वर्ल्ड ट्रेवल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
65	U27109DL1963PTC003878	वसुधा वीजय उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
66	U99999DL1963PTC003916	दे-विन्हाट एन्टरप्राईसीस प्राईवेट लिमिटेड
67	U99999DL1963PTC003937	नानक चांद दत्ता प्राईवेट लिमिटेड
68	U99999DL1963PTC003943	मेल्पो प्राईवेट लिमिटेड
69	U99999DL1963PTC003950	पाकर्सन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
70	U45201DL1963PTC003998	हरसन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
71	U99999DL1963PTC004008	जूलेंद प्राईवेट लिमिटेड
72	U51909DL1963PTC004011	गोल्ड्स ग्रीन प्राईवेट लिमिटेड
73	U36999DL1963PTC004015	नुसिल ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
74	U51909DL1963PTC004048	कोको फ़्लेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
75	U67120DL1963PTC004059	अरोड़ा बियोपर को प्राईवेट लिमिटेड
76	U63090DL1964PTC004122	दिल्ली गोल्डन ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
77	U99999DL1964PTC004128	विष्णु ब्रथर्ज इन्सुलेटेड केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
78	U99999DL1964PTC004150	कोह-आई-नूर लांडेड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
79	U45201DL1964PTC004170	आदर्श बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
80	U27109DL1964PTC004187	साणीफ़िक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
81	U99999DL1964PTC004238	सनराईझ पेंट इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
82	U25199DL1965PTC004331	ओरनो रब्वर प्राईवेट लिमिटेड
83	U99999DL1965PTC004364	आर्को प्लास्टिक एण्ड मेटल इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
84	U36991DL1965PTC004443	अम्बितियोउस गोल्ड निब म्ग को प्राईवेट लिमिटेड
85	U51109DL1965PTC004455	इन्डस्ट्रियल क्रेन एण्ड फ्रैक्चरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
86	U99999DL1965PTC004467	होमेर केमेरेस प्राईवेट लिमिटेड

87	U99999DL1965PTC004468	गैको प्राईवेट लिमिटेड
88	U99999DL1965PTC004471	इस्स मोटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
89	U33309DL1965PTC004472	टिमेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
90	U99999DL1965PTC004477	दीपइंद्र प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
91	U99999DL1965PTC004517	बीस एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
92	U99999DL1966PTC004536	कन्सोल एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
93	U74992DL1966PTC004539	लॉर्ड बिटुमेन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
94	U21012DL1966PTC004579	पेपज़ एण्ड काग़ज़िंस प्राईवेट लिमिटेड
95	U99999DL1966PTC004582	स्कोबा एन्जीन्यरींग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड.
96	U24299DL1966PTC004585	इंटरकेम कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
97	U99999DL1966PTC004607	आलवीन मेक्यूरई नोर्थन इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड
98	U23209DL1966PTC004630	गीरशान इन्डस्ट्रियल को प्राईवेट लिमिटेड
99	U99999DL1966PTC004633	हरियाणा कोलोनिज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
100	U99999DL1966PTC004641	दुरपेक कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
101	U99999DL1966PTC004684	हरि चांद अगरवाल एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
102	U63040DL1967PTC004688	एकनोमिक ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
103	U99999DL1967PTC004696	एंटटे प्राईवेट लिमिटेड
104	U99999DL1967PTC004698	एस्के सेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
105	U99999DL1967PTC004752	अमालामाटेद मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
106	U99999DL1967PTC004775	रेमंड एण्ड ईनेस्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
107	U99999DL1967PTC004779	ज्ञान भारती प्राईवेट लिमिटेड
108	U24114DL1967PTC004790	सुमन उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
109	U99999DL1967PTC004820	बाबा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
110	U32109DL1967PTC004821	मधु इलेक्ट्रॉनिक्स(इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
111	U24239DL1968PTC004847	मेदी पेक मग प्राईवेट लिमिटेड
112	U99999DL1968PTC004875	अंजा प्राईवेट लिमिटेड
113	U51909DL1968PTC004884	लिल्लेसन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
114	U99999DL1968PTC004923	मॉडर्न इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
115	U99999DL1968PTC004928	क्विलयोपतरा कॉस्मेटिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
116	U99999DL1968PTC004936	सिटी गैस एण्ड एन्जीन्यरींग को प्राईवेट लिमिटेड
117	U99999DL1968PTC004955	लाईन मटेरियल्स(इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
118	U99999DL1968PTC004967	सनराइज़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
119	U99999DL1949PTC004973	इन्विलिश साईकल एण्ड मोटर को (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
120	U99999DL1969PTC005039	वर्ल्डवेज़ टूरीस्ट्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
121	U15432HR1969PTC005079	मार्कंडे खांडसारी उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
122	U99999DL1969PTC005129	गुप्ताजी प्राईवेट लिमिटेड
123	U34300DL1969PTC005133	टयाल ऑटोमोबाइल एण्ड ऑटोमोबाइल इन्फ्रैक्चरल इन्फ्रैक्चरल प्राईवेट लिमिटेड
124	U29792DL1969PTC005159	लक्ष्मण इलेक्ट्रो मीकैनिक्ल प्राईवेट लिमिटेड
125	U99999DL1969PTC005164	एक्सीक्यूटीव एण्ड मैनेजमेन्ट प्रोग्राम्स प्राईवेट लिमिटेड
126	U99999DL1969PTC005173	युनिवरसल होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
127	U99999DL1969PTC005179	विंडसर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
128	U99999DL1970PTC005212	जेम्स व्हीलवेज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
129	U99999DL1970PTC005264	मनवासी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
130	U99999DL1970PTC005275	नोवेल ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड

131	U99999DL1970PTC005376	कस्लिवाल होटेल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
132	U99999DL1970PTC005379	भुटोरिया ओईल मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
133	U99999DL1970PTC005411	भर्ज एनर्जिज प्राईवेट लिमिटेड
134	U99999DL1970PTC005412	सूरो फ़ोरेस्ट प्रोडक्ट्स कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
135	U28939DL1970PTC005415	टेक्को एन्जीन्यरींग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
136	U45201DL1970PTC005423	सम्राट बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
137	U92114HR1970PTC005425	नीलम टेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
138	U99999DL1970PTC005431	मीरा मॅजिक कट्ज़(डी)प्राईवेट लिमिटेड
139	U74950DL1970PTC005485	अंबर इन्डस्ट्रिअल पॅकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
140	U25209DL1971PTC005500	एक्सकट टेक्नोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
141	U99999DL1971PTC005506	ईशान एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
142	U99999DL1971PTC005534	अग्नि इंजीनियर्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
143	U99999DL1971PTC005554	ए के साईकल इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट लिमिटेड
144	U99999DL1971PTC005579	स्टान्डार्ड फ़ास्टनर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
145	U63090DL1971PTC005597	बेस्टो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
146	U99999DL1971PTC005629	कुमार ब्रानो पौडर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
147	U99999DL1971PTC005658	अंजनेया कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
148	U99999DL1971PTC005661	अरूण मिनिना एण्ड मॅटल इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट लिमिटेड.
149	U01222DL1971PTC005667	मेहफ़ी फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
150	U99999DL1971PTC005670	मार्केटिंग ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
151	U99999DL1971PTC005684	मेहता मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
152	U15142DL1971PTC005697	कैमिकल कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
153	U22219DL1971PTC005705	तीन कोन्तायनर्ज़ एण्ड प्रिंटर प्राईवेट लिमिटेड
154	U99999DL1971PTC005714	शौस सिक्चुरिटी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
155	U99999DL1971PTC005721	स्वराजिया संदेश प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
156	U55101DL1971PTC005723	आल्प्स वाइन शॉप प्राईवेट लिमिटेड
157	U19122DL1971PTC005744	युनाइटेड बाग्स (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
158	U28999DL1971PTC005784	अल्लिज़न कास्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
159	U99999DL1971PTC005808	सूरडील्स प्राईवेट लिमिटेड
160	U74140DL1971PTC005809	के.पी.सत्य एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड.
161	U99999DL1971PTC005841	आलेस्को स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
162	U99999DL1971PTC005861	स्टार फ़न प्राईवेट लिमिटेड
163	U99999DL1971PTC005876	चंद्र ऑटो स्पॅस एण्ड अलाईव्ड इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट लिमिटेड
164	U70101DL1971PTC005894	बंसल देवलपमेन्ट को प्राईवेट लिमिटेड
165	U74140DL1971PTC005896	एशिआ प्रोजेक्ट्स देवलपमेन्ट को प्राईवेट लिमिटेड
166	U99999DL1971PTC005899	बंसल पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
167	U74210DL1971PTC005907	टॅक्सटाईल टेक्नोलोजिस्ट्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
168	U99999DL1971PTC005910	ईस्टर्न रिसर्च अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
169	U19201DL1972PTC005929	भारत विनाइल प्राईवेट लिमिटेड.
170	U99999DL1972PTC005931	एम्के वूलैन मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड.
171	U18101DL1972PTC005936	कठपाल ब्रधर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
172	U99999DL1972PTC005943	सडोर टेक्नो ब्रास प्राईवेट लिमिटेड
173	U99999DL1972PTC005944	अशोका अलोय स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
174	U51909DL1972PTC005949	रूंगटा एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

175	U99999DL1972PTC005953	अशोक कुमार गुप्ता एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
176	U99999DL1972PTC005970	बूलल्स ब्रेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
177	U21099DL1972PTC006018	श्रीनिवास पेपर इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
178	U31909HR1972PTC006025	क्वालिटी मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
179	U99999DL1972PTC006034	मार्केटिंग कन्सुमर्स इन्फ्रानिटुम प्राईवेट लिमिटेड
180	U99999DL1972PTC006054	केल्प्रो प्राईवेट लिमिटेड
181	U99999DL1972PTC006055	स्योन्सोर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड.
182	U51909DL1972PTC006057	बेरिंग सेल्स कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
183	U99999DL1972PTC006066	अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
184	U99999DL1972PTC006069	संजीव प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
185	U73101DL1972PTC006082	के.एल.प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
186	U99999DL1972PTC006097	साधुगर्ह ऑग्रिकल्चरल इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
187	U01111DL1972PTC006098	राजपुरा अंग्रो इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
188	U99999DL1972PTC006120	जनरल मेटालिका को प्राईवेट लिमिटेड
189	U51109DL1972PTC006138	इंटरइंडिया एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
190	U99999DL1972PTC006159	कुंदन सन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
191	U99999DL1972PTC006160	ओमेगा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
192	U51109DL1972PTC006192	कोंबीनेद एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
193	U99999DL1972PTC006196	बलवंत ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
194	U99999DL1972PTC006199	दाता कोन्वर्शन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
195	U99999DL1972PTC006201	नव भारत स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
196	U99999DL1972PTC006207	सौन्द ईलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
197	U29299DL1972PTC006212	ट्रिडेंट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
198	U99999DL1972PTC006226	एक्सपोर्ट हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड
199	U15428DL1972PTC006277	जनरल मालस्सेस को प्राईवेट लिमिटेड
200	U99999DL1972PTC006327	विंडसर होटेल प्राईवेट लिमिटेड
201	U99999DL1972PTC006340	सुप्रिम पॉलीविनीले प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
202	U99999DL1972PTC006344	महाराजेस फूटवीस प्राईवेट लिमिटेड
203	U74210DL1972PTC006355	एम एस जे (एन्जीन्यरींग)एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
204	U99999DL1972PTC006362	एन्जीन्यरींग एण्ड टेक्निकल सर्वीसीज़ लिमिटेड
205	U99999DL1909PTC006372	शिवस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
206	U99999DL1972PTC006375	ड्रीमलैंड होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
207	U26109DL1973PTC006447	फ़िब्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
208	U99999DL1973PTC006458	गुरू वायू ओक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड.
209	U31404DL1973PTC006462	साहनी बटेरिस प्राईवेट लिमिटेड
210	U70101DL1973PTC006488	अतुल पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
211	U70101DL1973PTC006516	कैलाश अपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
212	U99999DL1973PTC006533	ड्रेसको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
213	U74210DL1973PTC006537	इन्डस्ट्रियल इम्पेक्स प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड
214	U99999DL1973PTC006538	टैपेरेटे विनिलर्स प्राईवेट लिमिटेड
215	U51505DL1973PTC006542	भारतीय एन्जीन्यरींग इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
216	U99999DL1973PTC006569	सुमीत प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
217	U74994DL1901PTC006571	आलमबना प्राईवेट लिमिटेड.
218	U74210DL1973PTC006583	फ़िफ़्लो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

219	U34300DL1973PTC006615	रेक्स ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U99999DL1973PTC006620	लिकर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
221	U99999DL1973PTC006672	ट्रान्समोटर को प्राइवेट लिमिटेड
222	U99999DL1973PTC006707	जी.एस. मार्टिन एण्ड को. प्राइवेट. लिमिटेड.
223	U99999DL1973PTC006723	इन्कोर प्राइवेट.लिमिटेड.
224	U28939DL1973PTC006728	फ़िनेमेज़रे टूल्स मग को प्राइवेट लिमिटेड
225	U99999DL1973PTC006756	ईडेल एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट.लिमिटेड.
226	U99999DL1973PTC006765	बाठला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
227	U22219DL1973PTC006767	कुइकल प्रिंटर एण्ड पुब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
228	U99999DL1973PTC006775	कांचनचंगा क्लोथिंग को प्राइवेट लिमिटेड
229	U99999DL1973PTC006779	लक्ष्मी अलोय स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
230	U99999DL1973PTC006781	आर पी एन्जीन्यरिंग इंडस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
231	U24289DL1973PTC006782	सिंहफेल्ड फर्मसटिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
232	U99999DL1973PTC006800	माथुर पेपर्स एण्ड फ़ोइल्स प्राइवेट लिमिटेड
233	U99999DL1973PTC006821	मामचंद गिरीलाल प्राइवेट लिमिटेड
234	U99999DL1973PTC006825	टी आर फायनान्सियल कन्सलतन्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
235	U99999DL1973PTC006834	टूल मास्टर प्राइवेट लिमिटेड
236	U99999DL1973PTC006852	नव शील अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
237	U22110DL1973PTC006857	आनोल्ड पुब्लिशर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
238	U27209DL1973PTC006868	माथुर स्टील इंडस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
239	U99999DL1973PTC006886	नालंदा इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
240	U99999DL1973PTC006900	आफ्रो स्पेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
241	U74992DL1973PTC006911	अम्बोको फार्मसटिकल प्राइवेट लिमिटेड
242	U74140DL1973PTC006923	हितकारी एण्ड हितकारी प्राइवेट लिमिटेड
243	U34300DL1973PTC006935	बुडोय (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
244	U28121HR1973PTC006957	निकोप मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U21012DL1973PTC006979	कोरोक्राफ्ट पेपर प्राइवेट लिमिटेड
246	U99999DL1973PTC007002	किशको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
247	U99999DL1973PTC007006	कृष्ण वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड
248	U99999DL1973PTC007007	रॉक वेल एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
249	U99999DL1974PTC007039	वीणा दीप प्राइवेट लिमिटेड
250	U99999DL1974PTC007049	तटको(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
251	U99999DL1974PTC007052	ए एण्ड पी ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड
252	U99999DL1974PTC007067	युनिवरसल पंप्स प्राइवेट.लिमिटेड.
253	U74140DL1974PTC007077	मदनलाल एण्ड फ़्लौर मील्स प्राइवेट लिमिटेड
254	U99999DL1974PTC007096	वार्ड एन्जीन्यरिंग प्राइवेट लिमिटेड
255	U18101HR1974PTC007099	श्रीगला लूम टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
256	U99999DL1974PTC007102	गल्क ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
257	U99999DL1974PTC007103	कमल नयनतारा प्राइवेट लिमिटेड
258	U99999DL1974PTC007113	के सी ओवरसीज़ एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
259	U99999DL1974PTC007168	रेसीन अधेसिव इंडस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
260	U99999DL1974PTC007193	सुभ चिंतक को प्राइवेट लिमिटेड
261	U29299DL1974PTC007218	दुसेन्बुएरी मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
262	U99999DL1974PTC007228	ब्लू मून ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड

263	U29299DL1974PTC007237	दाप्स क्रेगोगोनिकस प्राईवेट लिमिटेड
264	U32109DL1974PTC007238	काप्बेल्ट्रोनिक्स एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
265	U99999DL1974PTC007258	तीनमूर्ति एन्जीन्यरींग इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
266	U99999DL1974PTC007259	ब्राइट डिस्ट्रिबुटर्स प्राईवेट लिमिटेड
267	U99999DL1974PTC007285	बींगो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
268	U34300DL1974PTC007299	शाद(इंडिया) एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
269	U99999DL1974PTC007306	आरेश (फ़ूरनीशर्स) प्राईवेट लिमिटेड
270	U99999DL1974PTC007327	दाट वुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
271	U99999DL1974PTC007340	पोल्टा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
272	U99999DL1974PTC007342	डेसोरे प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
273	U18101DL1974PTC007346	लीनकर्ज शर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
274	U24209DL1974PTC007354	दुर्गा कैमिकल एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
275	U99999DL1974PTC007356	रोली एण्ड पोली प्राईवेट लिमिटेड
276	U99999DL1974PTC007368	लक्ष्मी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
277	U18101HR1974PTC007370	अहुजा टैक्सटाइल्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
278	U99999DL1974PTC007394	सोना इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
279	U99999DL1974PTC007400	सोचीशिबा एन्जीन्यरींग को प्राईवेट लिमिटेड
280	U29299DL1974PTC007409	लीडिंग एन्जीन्यरींग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
281	U99999DL1974PTC007412	विकटरी वीवर्ज प्राईवेट लिमिटेड
282	U99999DL1974PTC007419	जगत रेफ़ाक्टोरीस प्राईवेट लिमिटेड
283	U99999DL1974PTC007428	स्काईलार्क अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
284	U99999DL1974PTC007445	एसेन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
285	U24299DL1974PTC007465	सुपरियर सीन्डाट्स प्राईवेट लिमिटेड.
286	U01111DL1974PTC007469	गोवन फ़ार्म्स एण्ड ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
287	U99999DL1974PTC007485	देवेलोप इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
288	U29299DL1974PTC007487	तेलेविस्ता इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
289	U74140DL1974PTC007488	एस के पेट्रोलेउम कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
290	U99999DL1974PTC007517	जे जी फ़िल्म्स (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
291	U99999DL1974PTC007534	गिस्को एजन्सीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
292	U99999DL1974PTC007536	टैपियोन इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड
293	U99999DL1974PTC007554	क्रोस्सोइड्स प्राईवेट लिमिटेड
294	U99999DL1974PTC007558	एस एस प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
295	U51909DL1974PTC007574	ए एल बी एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
296	U27109DL1975PTC007579	रुचीका स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
297	U63090DL1975PTC007593	खुशरंग टूवलरस प्राईवेट लिमिटेड
298	U63090DL1975PTC007595	ज्योति ट्रान्स्पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
299	U99999DL1975PTC007605	हॉक ट्रान्सपोर्ट को प्राईवेट लिमिटेड
300	U60231DL1975PTC007606	आदर्श शक्ती टूवल्स प्राईवेट लिमिटेड
301	U99999DL1975PTC007643	जेम स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
302	U99999DL1975PTC007658	कैपिटल होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
303	U22110DL1975PTC007660	हेम पुब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
304	U51909DL1975PTC007703	ओखला ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
305	U18101DL1975PTC007709	शकुंतला सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
306	U45203DL1975PTC007716	के.पी.एस.कन्स्ट्रक्टर्स (इंटेनेशन) प्राईवेट लिमिटेड.

307	U26911DL1975PTC007721	एशियन सिरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
308	U26911DL1975PTC007721	एशियन सिरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
309	U29299DL1975PTC007725	पम्ब लोआडिलप्रतर्ज प्राईवेट लिमिटेड
310	U99999DL1975PTC007732	एस ताजी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
311	U51225DL1975PTC007742	बंसल स्पाइसीज़ एण्ड कौडित प्राईवेट लिमिटेड
312	U24246DL1975PTC007746	फिलिप्स जोआन्स एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
313	U24239DL1975PTC007749	फिनोलैब्स प्राईवेट लिमिटेड
314	U99999DL1975PTC007769	सन्मति एन्जीन्यरिंग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
315	U99999DL1975PTC007778	अम्बाला फ्रेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
316	U99999DL1975PTC007789	रोमिन कन्सल्टिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
317	U74300DL1975PTC007828	अकसारा अंड्वर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
318	U99999DL1975PTC007834	हरिश सी. दुगल (एजन्सीस) प्राईवेट लिमिटेड
319	U99999DL1975PTC007840	इंटेग्लियो अंड्वर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
320	U63090DL1975PTC007848	डिस्टिन्क्टिव टूवल प्राईवेट लिमिटेड
321	U17299DL1975PTC007864	अनू किनड्रिंग मील्स प्राईवेट लिमिटेड
322	U99999DL1975PTC007880	वैशाली मल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
323	U99999DL1975PTC007882	दिल्ली हाइड्रोकार्बोन्स प्राईवेट लिमिटेड
324	U18101DL1975PTC007925	कांती एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
325	U34300DL1975PTC007943	तेरे जोगा प्राईवेट लिमिटेड
326	U34300DL1975PTC007957	मारुएल ऑटो इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
327	U99999DL1975PTC007970	वोड्नो(इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
328	U21099DL1975PTC007999	चनिता पेपर एण्ड बोर्ड मील्स प्राईवेट लिमिटेड
329	U99999DL1975PTC008002	फाईव स्टार अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
330	U99999DL1975PTC008006	गे मेदीका प्राईवेट लिमिटेड
331	U99999DL1975PTC008011	ओबराय शीप रेपेरर्ज प्राईवेट लिमिटेड
332	U22910DL1901PTC008014	दर्पण पुब्लिशर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
333	U99999DL1976PTC008026	स्टेट कैमिकल्स एण्ड फर्मसटिकल्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
334	U99999DL1976PTC008068	कटेक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
335	U99999DL1976PTC008076	ला मेडिका मनु फ्रेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
336	U99999DL1976PTC008077	शाहद्रा इन्डस्ट्रिअल ओईल सप्लायर्स एण्ड मॅनुफ्रेक्चररज प्राईवेट लिमिटेड
337	U74140DL1976PTC008086	क्रिस्सेंट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
338	U99999DL1976PTC008087	शंकर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
339	U99999DL1976PTC008091	कथालय प्राईवेट लिमिटेड
340	U99999DL1976PTC008111	गोता स्टील्स एण्ड फ़ॉर्गिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
341	U99999DL1976PTC008125	सेवनसीज़ ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
342	U24299DL1976PTC008131	अमर रबबर (कैमिकल्स) इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
343	U74120DL1976PTC008145	दिल्ली कम्प्यूटर एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
344	U99999DL1976PTC008151	संगीता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
345	U27109DL1976PTC008161	विक्रान्त स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
346	U28991DL1976PTC008165	जेफरसन बोल्ड्स (इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
347	U51311DL1976PTC008176	रेफ्लेक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
348	U01403DL1976PTC008179	रश्मे फ़ार्म एण्ड इम्प्लेमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
349	U99999DL1976PTC008197	आच्छेस प्रोजेक्ट्स अण्डिफ़नान्स कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

350	U99999DL1976PTC008199	पूर्वी अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
351	U25207HR1976PTC008216	सुदेश स्टील इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
352	U45201DL1976PTC008296	धर्म चांद जैन प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
353	U99999DL1976PTC008303	वेल्वेथ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
354	U18101DL1976PTC008313	मेजर दुला सिंघेडसन्स प्राईवेट लिमिटेड
355	U99999DL1976PTC008319	गाडवेल सिक्यूरिटी सर्विसीज प्राईवेट लिमिटेड
356	U99999DL1976PTC008323	दास्सेन (इंडिया) (पी) लिमिटेड
357	U99999DL1976PTC008327	सिल्वानो टेलीविजन डेलेक्ट्रॉनिक्स (आई) लिमिटेड
358	U99999DL1976PTC008341	एक्सिब कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
359	U18101DL1976PTC008349	क्राउन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
360	U63090DL1976PTC008350	मेकाईर प्राईवेट लिमिटेड
361	U29299DL1976PTC008367	मास्टर फॅन्स प्राईवेट लिमिटेड
362	U99999DL1976PTC008373	एनपी एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड
363	U65921DL1976PTC008377	अंकुर अस्सोसिएट्स (पी) लिमिटेड
364	U99999DL1976PTC008382	ग्रेवाल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड.
365	U99999DL1976PTC008388	मोनोचा टाकज प्राईवेट लिमिटेड
366	U99999DL1976PTC008389	इंगल चार्टर्स (पी) लिमिटेड
367	U99999DL1976PTC008394	दिल्ली सिने (पी) लिमिटेड
368	U99999DL1976PTC008412	कास्नाल्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
369	U99999DL1976PTC008426	रानीसती पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
370	U99999DL1976PTC008427	एअर एण्ड सी एजेंट्स (पी) लिमिटेड
371	U99999DL1976PTC008437	एस जे रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
372	U99999DL1977PTC008486	आर डी अऊइयोनिकस प्राईवेट लिमिटेड
373	U34107DL1977PTC008488	तालान्सिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
374	U22110DL1977PTC008560	शुभम पुब्लिशिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
375	U25199HR1977PTC008562	मेकूरई रबबर मग.को प्राईवेट लिमिटेड
376	U99999DL1977PTC008572	पिया फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
377	U99999DL1977PTC008589	रेमिन ओईल प्रोडक्शन इन्व्हीप्मेन्ट को (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
378	U99999DL1977PTC008592	शमसन्स (आई) प्राईवेट लिमिटेड
379	U99999DL1977PTC008608	अमरोही कॅमिकल एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
380	U99999DL1977PTC008613	र्य्न ड्रागचेम प्राईवेट लिमिटेड
381	U99999DL1977PTC008619	साई खोसला (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
382	U99999DL1977PTC008623	रॉयल स्पाइसीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
383	U25113DL1977PTC008645	माच्छेस तुबेसण्ड्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
384	U99999DL1977PTC008663	जॅनी डायइंग एण्ड हेंडलूम इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
385	U51909DL1977PTC008665	शुभम इंटरनटीक ऑनल प्राईवेट लिमिटेड.
386	U51109DL1977PTC008702	पिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
387	U24231DL1977PTC008703	आर पी ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
388	U64120DL1977PTC008704	जे एम वाच एण्ड वर्ड सर्विसीज प्राईवेट लिमिटेड
389	U99999DL1977PTC008715	एंपायर ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड
390	U99999DL1977PTC008722	अरावली टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
391	U51909DL1977PTC008768	आरती एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
392	U99999DL1977PTC008777	ड्रेगोन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
393	U19210DL1977PTC008790	शिवालिक तननारी प्राईवेट लिमिटेड

394	U99999DL1977PTC008802	इन्डस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
395	U99999DL1977PTC008824	प्रुडेन्टिआल एन्जीन्यरींग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
396	U99999DL1978PTC008870	बंसीलाल पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
397	U24231HR1978PTC008872	शिवालिक फर्मेसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
398	U99999DL1978PTC008883	बाजल बोल्लींग को प्राईवेट लिमिटेड
399	U26101DL1978PTC008892	ब्लैक डायमंड ग्लास्सवारेस प्राईवेट लिमिटेड
400	U15549DL1978PTC008903	दिल्ली फुट ब्रेवेरिस प्राईवेट लिमिटेड
401	U99999DL1978PTC008987	आरिसन क्रिस्टालोईड्स प्राईवेट लिमिटेड
402	U45201DL1978PTC008993	अपोलो एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
403	U31300HR1978PTC009021	प्रेस्तिज एन्जीन्यरींग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
404	U99999DL1978PTC009040	कपूर इन्डस्ट्रिअल टिम्बर्ज प्राईवेट लिमिटेड
405	U99999DL1978PTC009048	क्रौन एलेक्ट्रोईक्स प्राईवेट लिमिटेड
406	U99999DL1978PTC009055	अर्चना केबल इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट लिमिटेड
407	U99999DL1978PTC009060	अवाम जरनल प्राईवेट लिमिटेड
408	U99999DL1978PTC009065	दिल्ली शू को प्राईवेट लिमिटेड
409	U99999DL1978PTC009073	सट्सूम टूल्स (एशिया) प्राईवेट लिमिटेड
410	U74210DL1978PTC009087	के प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
411	U99999DL1978PTC009088	सूरज फिशेरिस प्राईवेट लिमिटेड
412	U01229DL1978PTC009119	सन्चिक्स फ्राम्स प्राईवेट लिमिटेड
413	U74210DL1978PTC009141	गंजूएस डिझाईनर्स कम्बाइन प्राईवेट लिमिटेड
414	U99999DL1978PTC009182	रंजीता इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
415	U99999DL1978PTC009196	कृष्ण ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
416	U74210DL1978PTC009208	इंडियन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
417	U74999DL1978PTC009221	गरोडिआ एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
418	U99999DL1978PTC009298	महारानी क्रिएशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
419	U99999DL1978PTC009307	ग्लोब लीनकर्ज प्राईवेट लिमिटेड
420	U99999DL1978PTC009308	मॉडर्न डिआलानोड इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट लिमिटेड
421	U24299DL1978PTC009321	सुपेटेन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
422	U99999DL1978PTC009376	खन्ना इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
423	U99999DL1979PTC009400	बलजीत पेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
424	U51420DL1979PTC009408	ब्रह्मा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
425	U99999DL1979PTC009413	कोबिक्स मार्केटिंग एण्ड सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड
426	U70101DL1979PTC009417	प्रीतमसन्स बोल्लर्ज प्राईवेट लिमिटेड
427	U19129DL1979PTC009418	सिद्धार्थ एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
428	U27109DL1979PTC009437	गौरव एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
429	U99999DL1979PTC009502	सहगल होसेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
430	U25199DL1979PTC009505	महावीर वाक्कम मेटालीजर्ज प्राईवेट लिमिटेड
431	U99999DL1979PTC009517	एम के गुप्ता एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
432	U51229DL1979PTC009534	सरीन ब्रवालिटी फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
433	U25199DL1979PTC009557	वंदना रुबेरेंडचेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
434	U99999DL1979PTC009572	धीर होसिएरी एण्ड वूलेन मील्स प्राईवेट लिमिटेड
435	U51396DL1979PTC009583	बजाज पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
436	U99999DL1979PTC009586	आर पी इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
437	U51909DL1979PTC009594	दुबारी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

438	U99999DL1979PTC009614	आग्रिक्ट्रिको एन्जीन्यरिंग एण्ड कॅमिकल को प्राईवेट लिमिटेड
439	U99999DL1979PTC009616	बथिजा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
440	U99999DL1979PTC009625	नोवा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
441	U51216DL1979PTC009640	जी एण्ड ए लीडरमान प्राईवेट लिमिटेड
442	U99999DL1979PTC009664	एकांत होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
443	U99999DL1979PTC009696	दर्शन एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
444	U51109DL1979PTC009737	ओर्फेउस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
445	U99999DL1979PTC009775	ए के आल्ट्राबेस प्राईवेट लिमिटेड
446	U99999DL1979PTC009807	गोल्डन वील्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
447	U99999DL1979PTC009814	रन्बीस प्राईवेट लिमिटेड
448	U99999DL1979PTC009833	साकेत इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
449	U45201DL1979PTC009840	हीनदान कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
450	U99999DL1979PTC009849	ए हांडीक्राफ्ट इत्र प्राईवेट लिमिटेड
451	U34300DL1979PTC009861	गोल्ड ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड
452	U99999DL1979PTC009905	मूनलाईट पेन्सिल्स प्राईवेट लिमिटेड
453	U31909HR1979PTC009911	दीनकर एलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
454	U99999DL1979PTC009936	एल एम एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
455	U99999DL1979PTC009955	ब्लोस्सोम पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
456	U99999DL1979PTC009972	संत बीर सिंह एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
457	U67120DL1979PTC009975	साउथ दिल्ली एरेक्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
458	U25199DL1979PTC009994	हिल्टन रबबर एण्ड टायर इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
459	U51909DL1979PTC010030	रेंज इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
460	U74999DL1979PTC010068	मानकपुर फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
461	U31909DL1979PTC010069	ग्रंडले केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
462	U45201DL1979PTC010071	स्नेह बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
463	U24231HR1980PTC010121	नस्कैट फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
464	U99999DL1980PTC010133	लोनियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
465	U99999DL1980PTC010178	हिंदुस्तान फ्रेंचिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
466	U99999DL1980PTC010196	अवरन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
467	U61100DL1980PTC010198	ट्रान्शिप प्राईवेट लिमिटेड
468	U32102DL1980PTC010212	एअरवेव रेडिओ इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
469	U60231DL1980PTC010215	निर्माण रोड कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
470	U45201DL1980PTC010233	पोदार कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
471	U99999DL1980PTC010246	सेनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
472	U99999DL1980PTC010320	अनंत कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
473	U74210DL1980PTC010321	बींगरा कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
474	U99999DL1980PTC010327	राज नवल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
475	U45201DL1980PTC010345	सुधा कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
476	U99999DL1980PTC010367	मोहिनी बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
477	U99999DL1980PTC010388	रिब एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
478	U99999DL1980PTC010389	एस आर ए इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
479	U99999DL1980PTC010413	क्रोमेक्स सेल्स को प्राईवेट लिमिटेड
480	U27101DL1980PTC010441	सोनाली स्टील कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
481	U99999DL1980PTC010453	मूलामल अमरनाथ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

482	U99999DL1980PTC010489	सैल्यूनेशन प्राईवेट लिमिटेड
483	U24114DL1980PTC010500	सूचेम प्राईवेट लिमिटेड
484	U99999DL1980PTC010516	एम जी मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
485	U99999DL1980PTC010519	नव भारत कॅमिकल्स एण्ड डेटगैट्स प्राईवेट लिमिटेड
486	U99999DL1980PTC010533	अद्वान्स ओप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
487	U99999DL1980PTC010535	यू एस आर टेक्नो मार्केटिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
488	U99999DL1980PTC010567	कूलमेर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
489	U99999DL1980PTC010577	सतलज केबल इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
490	U23201DL1980PTC010584	कोटियोइल्स प्राईवेट लिमिटेड
491	U29130DL1980PTC010585	अके सीटरेड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
492	U25203DL1980PTC010586	पापू इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
493	U99999DL1980PTC010592	रोस्सेल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
494	U99999DL1980PTC010766	नव-युग दाता प्रोसेस्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
495	U17111DL1980PTC010795	सेट्लोन प्राईवेट लिमिटेड
496	U28129DL1980PTC010810	त्रिशूल एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
497	U99999DL1980PTC010826	फ़ोक्स एण्ड विंग्स प्राईवेट लिमिटेड
498	U51909DL1980PTC010846	विश्व जूट एण्ड कर्मांडिज प्राईवेट लिमिटेड
499	U45201DL1980PTC010855	बीमोहा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
500	U19201DL1980PTC010892	अजय पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
501	U99999DL1980PTC010912	ताशीटार्डम फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
502	U36941DL1980PTC010936	पीडिपेपर को प्राईवेट लिमिटेड
503	U99999DL1980PTC010948	एन्को फ़्रेड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
504	U99999DL1980PTC010959	कपूर ट्रेवल एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
505	U18101DL1980PTC010963	डी इ एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
506	U65992DL1980PTC011015	डेक्वेल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
507	U99999DL1980PTC011025	तलवार इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
508	U21019DL1980PTC011071	एनसन पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
509	U63040DL1980PTC011080	औटबोन्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
510	U70101DL1980PTC011081	नैन्वा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
511	U99999DL1980PTC011090	गौतम फ़िल्म्स(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
512	U99999DL1980PTC011117	रघुनाथ अमित कुमार कॅमिकल इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
513	U28991DL1980PTC011135	जैकसन फ़ास्टनर्ज प्राईवेट लिमिटेड
514	U99999DL1980PTC011152	सिंहएस कॉटन कोन्वेक्सियोन प्राईवेट लिमिटेड
515	U99999DL1980PTC011160	सूमता इम्पेक्स को प्राईवेट लिमिटेड
516	U99999DL1980PTC011173	टोनी टन ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
517	U99999DL1980PTC011187	माथुर अलोय इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
518	U01222DL1980PTC011198	एस्सेक्स हॅचरीस प्राईवेट लिमिटेड
519	U29123DL1981PTC011252	अस्पेक ग्लोडमटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
520	U24139DL1981PTC011336	त्रिशूल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
521	U99999DL1981PTC011349	इंकोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
522	U99999DL1981PTC011361	दिल्ली पिगमेंट इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
523	U99999DL1981PTC011435	रमस्को एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
524	U32105DL1981PTC011460	एन्बी टेक्निका प्राईवेट लिमिटेड
525	U29299HR1981PTC011465	एवरेस्ट प्लेटर्ज प्राईवेट लिमिटेड

526	U31909DL1981PTC011468	स्कंद कम्प्यूटर सर्वोसीझ प्राइवेट लिमिटेड
527	U99999DL1981PTC011501	इंटरनेशनल सिक्कना (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
528	U25202DL1981PTC011509	ईएके पेंकेजींग प्राइवेट लिमिटेड
529	U99999DL1981PTC011515	गीतांजली एनिमिसेरिंग इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
530	U45201HR1981PTC011537	समता फ़ौन्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड
531	U51109DL1981PTC011540	आय पी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
532	U99999DL1981PTC011558	अस्सोसिएटेड जिनको प्राइवेट लिमिटेड
533	U23209DL1981PTC011561	खेतान पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
534	U55101DL1981PTC011576	एस बी एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड
535	U99999DL1981PTC011579	दिल्ली बिसनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
536	U45201DL1981PTC011607	श्याम इस्टेट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड
537	U99999DL1981PTC011653	जे के झेड अविटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
538	U99999DL1981PTC011655	गणपति रोलर फ़्लौर मील्स प्राइवेट लिमिटेड
539	U99999DL1981PTC011665	तेरीटेक प्राइवेट लिमिटेड
540	U99999DL1981PTC011674	जाज़्ज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
541	U99999DL1981PTC011720	वीनस प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
542	U99999DL1981PTC011724	कुलवंत सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
543	U45303DL1981PTC011728	रूप एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
544	U51397DL1981PTC011729	स्टार डूकी प्राइवेट लिमिटेड
545	U29220DL1981PTC011731	बी एल जी अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
546	U99999DL1981PTC011740	कालिंदी बील्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड
547	U99999DL1981PTC011756	आद्मेक्स प्राइवेट लिमिटेड
548	U99999DL1981PTC011758	जगसन्स इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
549	U99999DL1981PTC011809	अल्फ़ एण्ड अस्सोसिएटेड कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
550	U23203DL1981PTC011838	सुर्य स्क्वीन्दर्ज प्राइवेट लिमिटेड
551	U74210DL1981PTC011891	हॉली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
552	U24134DL1981PTC011893	शंभू नाथ प्लास्टिसिज़र्ज प्राइवेट लिमिटेड
553	U99999DL1981PTC011901	अन हंक कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
554	U99999DL1981PTC011915	लोर्ड कृष्ण एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
555	U99999DL1981PTC011934	बेटर होम प्राइवेट लिमिटेड
556	U99999DL1981PTC011935	अर्जन मीकैनिक्ल इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
557	U99999DL1981PTC011942	कन्सोलिडेटेड कम्प्यूटर सर्वोसीझ प्राइवेट लिमिटेड
558	U99999DL1981PTC011947	प्रिती प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
559	U99999DL1981PTC011963	अर्जन स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
560	U99999DL1981PTC011974	प्रीति शिपिंग एण्ड चार्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड
561	U99999DL1981PTC011985	वैस्टर्न मरीन प्राइवेट लिमिटेड
562	U34103DL1981PTC012002	बी के एम ट्रैवल्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
563	U99999DL1981PTC012006	एस.के. सेठ एन्जीन्यरींग को. प्राइवेट लिमिटेड.
564	U15419DL1981PTC012013	रॉयल बकर प्राइवेट लिमिटेड
565	U51909DL1981PTC012119	मैक्सिम टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
566	U51505DL1981PTC012130	अवंती एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
567	U99999DL1981PTC012136	डी पी जी सी रोड लीनकर्ज प्राइवेट लिमिटेड.
568	U70101DL1981PTC012157	विद्या इस्टेट्स एण्ड अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
569	U99999DL1981PTC012158	त्यागी एण्ड राग प्राइवेट लिमिटेड

570	U51909DL1981PTC012160	नरूला एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
571	U99999DL1981PTC012199	मित्तल वार्नीशेस एण्ड इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
572	U99999DL1981PTC012204	हेली कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
573	U31300DL1981PTC012206	संदीपराज इन्सुलेटेड वायरस प्राईवेट लिमिटेड
574	U99999DL1981PTC012208	मूनलाईट पेंसिल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
575	U63090DL1981PTC012213	कोछर फ्रेट कंरीज प्राईवेट लिमिटेड
576	U99999DL1981PTC012235	एल्विरा प्राईवेट लिमिटेड
577	U99999DL1981PTC012239	अवंत ग्रेड कोस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
578	U27109DL1981PTC012244	सन्त्रोस कारामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
579	U24299DL1981PTC012250	रोजर्स कमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
580	U74993DL1981PTC012265	विनायक आर्देवर्तिसर्ज प्राईवेट लिमिटेड
581	U40200HR1981PTC012279	इंटरनेशनल स्क्वीन्दर्ज प्राईवेट लिमिटेड
582	U65921DL1981PTC012308	क्व प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
583	U99999DL1981PTC012311	अर्विद्र अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
584	U99999DL1981PTC012369	हिमाचल अलोय्स एण्ड स्टील कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
585	U45201DL1981PTC012378	नाबाको कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
586	U99999DL1981PTC012399	टेंपेरिटे एन्जीन्यरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
587	U99999DL1981PTC012411	रेडिकन प्राईवेट लिमिटेड
588	U99999DL1981PTC012443	एम पी ए एनिमीइंग प्राईवेट लिमिटेड
589	U74950DL1981PTC012445	महल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड.
590	U15142DL1981PTC012455	जिंदल वनस्पति उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
591	U99999DL1981PTC012475	रश्मि इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
592	U99999DL1981PTC012496	थेता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
593	U39109HR1981PTC012509	मारी गोल्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
594	U45201DL1981PTC012519	जगमीत बील्डर्ज एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
595	U18101DL1981PTC012588	एस.एस.विनत बक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
596	U70101DL1981PTC012605	पद्मा वती इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड.
597	U99999DL1981PTC012651	बी.पी.एन्जीन्यरिंग सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
598	U99999DL1981PTC012660	कयाम खानी कंस्ट्रक्शन (इंटरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड
599	U24246DL1981PTC012686	किस्मे इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
600	U99999DL1981PTC012690	खुशी एट्मेस प्राईवेट लिमिटेड
601	U92112DL1981PTC012751	केशव पिकटर्स प्राईवेट लिमिटेड
602	U74210DL1981PTC012766	दिल्ली टेक्नो-केम इन्डस्ट्रियल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
603	U99999DL1981PTC012779	एस एस बी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
604	U55101DL1981PTC012839	सुशुम ओवरसीज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
605	U99999DL1981PTC012854	इंटरनेशनल रेसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
606	U99999DL1981PTC012866	मोनाक कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
607	U01111DL1981PTC012926	साहनी एण्ड कोहली एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
608	U28992DL1982PTC013003	अम कृषिक प्राईवेट लिमिटेड
609	U31909DL1982PTC013021	रचना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
610	U99999DL1982PTC013046	के के इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
611	U99999DL1982PTC013072	निस बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
612	U99999DL1982PTC013082	दिव्या प्लास्टिक पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
613	U18101DL1982PTC013083	बीत एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

614	U99999DL1982PTC013085	दरबार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
615	U32309DL1982PTC013112	सातो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
616	U99999DL1982PTC013116	सिंह फ़ोर्सेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
617	U99999DL1982PTC013118	बिहारीजी मलीब्ल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
618	U22110HR1982PTC013140	स्वर्ण पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
619	U55101DL1982PTC013151	सोनी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
620	U99999DL1982PTC013153	पासिफ़िक ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
621	U28991DL1982PTC013162	ज्योति ऑटो एण्ड फ़ोर्जींग प्राईवेट लिमिटेड
622	U99999DL1982PTC013163	सिंघल अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
623	U92111DL1982PTC013169	बी आर ए एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
624	U24132DL1982PTC013171	एप्टक इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
625	U45201DL1982PTC013175	के.सी. छिब्रर एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
626	U99999DL1982PTC013210	मिडलैंड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
627	U36109HR1982PTC013213	देवशोक कार्ड बोर्ड इंडस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
628	U99999DL1982PTC013225	अवतार प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
629	U99999DL1982PTC013238	भावना एण्ड भारती को प्राईवेट लिमिटेड
630	U15511DL1982PTC013264	मेलको विन्स प्राईवेट लिमिटेड
631	U65921DL1982PTC013265	आत्मा राम इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
632	U99999DL1982PTC013270	देवीदयाल कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
633	U31909HR1982PTC013320	जैन इलेक्ट्रो प्राईवेट लिमिटेड
634	U70101DL1982PTC013344	गुल्फ़ रियल ईस्टेट एण्ड ट्रेड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
635	U99999DL1982PTC013348	अन कन्सल्टन्सी प्राईवेट लिमिटेड
636	U15311DL1982PTC013351	अग्रवाल फ़्लौर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
637	U99999DL1982PTC013397	स्टान्डर्ड गार्डन कारेतकज प्राईवेट लिमिटेड
638	U28113DL1982PTC013457	बहामी कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
639	U99999DL1982PTC013461	गोन्डल्स प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
640	U99999DL1982PTC013464	कंपअबले कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
641	U99999DL1982PTC013475	दौलत सन्स एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
642	U74300DL1982PTC013496	नोर्थन आइवर्टिसज़ एण्ड फ़्रॅब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
643	U51109DL1982PTC013515	वास अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
644	U51109DL1982PTC013533	दुर्गे एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
645	U63090DL1982PTC013545	एशियन क्लीअरिंग प्राईवेट लिमिटेड
646	U18101DL1982PTC013551	स्वस्तिक फ़ेशन्स (पी) लिमिटेड
647	U31909HR1982PTC013583	सिड्को एलेक्ट्रोडिज़ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
648	U19129DL1982PTC013587	गंडलै सीन्टेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
649	U74210DL1982PTC013621	टी एम एफ़ कन्सलतन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
650	U22219HR1982PTC013622	हरियाणा सौराज पेपर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
651	U99999DL1982PTC013636	सहयोग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
652	U18101DL1982PTC013656	त्रिशूल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
653	U99999DL1982PTC013668	त्रिलीन्क प्राईवेट लिमिटेड
654	U99999DL1982PTC013681	चेत राम बील्डिज़ प्राईवेट लिमिटेड
655	U29192DL1982PTC013711	अमोकिंग रेफ़्रिजरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
656	U27320DL1982PTC013720	राधन्स प्राईवेट लिमिटेड
657	U99999DL1982PTC013761	शारदा टेक्निकल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

658	U29199HR1982PTC013764	टोहाननगर मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
659	U17115DL1982PTC013770	एस.डी. मित्तल (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
660	U51109DL1982PTC013795	प्रेस्तिज लीनकज प्राईवेट लिमिटेड
661	U25114DL1982PTC013815	लकी रेन्नीदज प्राईवेट लिमिटेड
662	U99999DL1982PTC013842	किसा एक्स्त्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
663	U70101DL1982PTC013851	बैकुंठ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
664	U99999DL1982PTC013899	सागरिका प्राईवेट लिमिटेड
665	U99999DL1982PTC013904	अमूल्य इंटेरिओर डेकोरेटर्स एण्ड पुब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
666	U99999DL1982PTC013909	बीर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
667	U15411DL1982PTC013922	निस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
668	U24239DL1982PTC013939	जास्पर फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
669	U99999DL1982PTC013951	अद्वान्स कोर्पोरेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
670	U24239DL1982PTC013952	ऊनिटेर्म इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
671	U45203DL1982PTC013965	आर एस अगरवाल एण्ड को. प्राईवेट लिमिटेड
672	U99999DL1982PTC013975	केदार जग्गी पेपर एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
673	U99999DL1982PTC014008	तेग फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
674	U99999DL1982PTC014026	हरियाणा युनाईटेड फ़ोर्ज प्राईवेट लिमिटेड
675	U99999DL1982PTC014032	कलसन इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
676	U51311DL1982PTC014047	एस्के फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
677	U36998DL1982PTC014129	अमूलय आयाट निर्याट प्राईवेट लिमिटेड
678	U51909DL1982PTC014130	ब्रूक ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
679	U21014DL1982PTC014142	साई पेकज प्राईवेट लिमिटेड
680	U99999DL1982PTC014150	जानी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
681	U27209DL1982PTC014178	अनुभव स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
682	U45201DL1982PTC014190	खेम चांद शर्मा एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
683	U99999DL1982PTC014194	अकी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
684	U51101DL1982PTC014203	गैलेंट ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
685	U99999DL1982PTC014224	कमल एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
686	U99999DL1982PTC014231	एस.एम.जे.आर. मेटल एण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
687	U74300DL1982PTC014239	हेड स्टर्ट अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
688	U45203DL1982PTC014258	ओएसिस ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
689	U99999DL1982PTC014294	ओफ़ोन लिफ़्टिंग को प्राईवेट लिमिटेड
690	U99999DL1982PTC014298	रवीकुल हेरिस प्राईवेट लिमिटेड
691	U99999DL1982PTC014417	सूरी ट्रेड एण्ड कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
692	U99999DL1982PTC014426	पार्वटिया न्युज़ पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
693	U99999DL1982PTC014433	तूरकोम अन्सिलिआरीस प्राईवेट लिमिटेड
694	U99999DL1982PTC014466	ए एम टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
695	U99999DL1982PTC014486	कोपेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
696	U29120DL1982PTC014513	ओशन वाल्वेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
697	U01401HR1982PTC014532	गोयल अग्रोस प्राईवेट लिमिटेड.
698	U99999DL1982PTC014569	अनौशका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
699	U99999DL1982PTC014590	गौरी ज़िपर्स प्राईवेट लिमिटेड
700	U24231DL1982PTC014609	गाप्पएस इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
701	U99999DL1982PTC014623	स्काईलार्क निर्माण एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड

702	U19129DL1982PTC014632	कल्मिन लेंदर केम प्राईवेट लिमिटेड
703	U18101DL1982PTC014672	मधु कुंज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
704	U51909DL1982PTC014673	पानबन (फर्निचर) प्राईवेट लिमिटेड
705	U99999DL1982PTC014682	जुप्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
706	U22110DL1982PTC014713	प्रिसेत (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
707	U99999DL1982PTC014779	सनी ओरे प्राईवेट लिमिटेड
708	U99999DL1982PTC014780	डेल्टा फ्लशिल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
709	U99999DL1982PTC014790	सुर्य पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
710	U99999DL1982PTC014800	योको पैट्स प्राईवेट लिमिटेड
711	U26922DL1982PTC014803	मयूर सिरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
712	U99999DL1982PTC014837	एश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
713	U45201DL1982PTC014841	नव गृह निर्माण (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
714	U18101DL1982PTC014864	साकवी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
715	U74140DL1983PTC014935	शानमैरी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
716	U99999DL1983PTC014938	अन गूड्स प्राईवेट लिमिटेड
717	U17222DL1983PTC014939	महाराजा कार्पेट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
718	U99999DL1983PTC014977	सोन्नक सिक्कुरिटी मोनिटरिंग प्राईवेट लिमिटेड
719	U99999DL1983PTC015005	विराट टेक्नो-ट्रेक प्राईवेट लिमिटेड
720	U99999DL1983PTC015044	राम फुड प्रेसर्वेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
721	U99999DL1983PTC015063	इंटरनैशनल देवलपमेन्ट एण्ड एन्जीन्यरिंग अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
722	U99999DL1983PTC015066	डेल्टा डायमन्ड केम प्राईवेट लिमिटेड
723	U99999DL1983PTC015106	अल्मशाल मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
724	U99999DL1983PTC015144	एंजल बस्सको प्राईवेट लिमिटेड
725	U99999DL1983PTC015147	अंकुर टैक्सटाइल्स मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
726	U99999DL1983PTC015164	दीपक ज़िन्कोट्स प्राईवेट लिमिटेड
727	U24246DL1983PTC015169	प्यूर कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
728	U99999DL1983PTC015175	प्रिमीयर मनपावर प्राईवेट लिमिटेड
729	U99999DL1983PTC015181	प्रशांत कैमिकल्स एण्ड फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
730	U36992DL1983PTC015185	उत्तम इन्डस्ट्रियल एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
731	U85110DL1983PTC015203	ड्र. आई कोहलीएस क्लिनिक प्राईवेट लिमिटेड
732	U99999DL1983PTC015204	एम वी शिपिंग एण्ड ऑफशोरे सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
733	U18109DL1983PTC015221	बीजय धिल्लोन प्राईवेट लिमिटेड
734	U34300DL1983PTC015222	हार्डसीज़ मस्तिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
735	U99999DL1983PTC015224	पॉल इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
736	U99999DL1983PTC015227	जय देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
737	U99999DL1983PTC015253	देव एण्ड डेवी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
738	U35923DL1983PTC015281	एम एन अरोड़ा अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
739	U99999DL1983PTC015307	आकाश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
740	U34300DL1983PTC015331	मिडलैंड मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
741	U51909HR1983PTC015354	इमासेन अल्फा प्राईवेट लिमिटेड
742	U74950DL1983PTC015367	जक्रसो पैक एंड्स प्राईवेट लिमिटेड
743	U99999DL1983PTC015375	अनुशा फर्टिलीज़र एण्ड अग्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
744	U99999DL1983PTC015378	सेलेक्ट्रिकास प्राईवेट लिमिटेड
745	U31503DL1983PTC015397	सननेत लॉप्स एण्ड लुमिनेस प्राईवेट लिमिटेड

746	U99999DL1983PTC015448	पियोनीर ऑटो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
747	U24121DL1983PTC015460	मोहित कार्बाईड एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
748	U99999DL1983PTC015482	स्पीडकन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
749	U99999DL1983PTC015497	प्रशांत ट्रीलर्ज प्राईवेट लिमिटेड
750	U99999DL1983PTC015550	अमित मेटल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
751	U27205HR1983PTC015551	केंट टाईम इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
752	U24246DL1983PTC015560	जैकसन कोस्मेटिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
753	U24119DL1983PTC015591	हिंद बायोजन प्राईवेट लिमिटेड
754	U51109DL1983PTC015594	सवी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
755	U99999DL1983PTC015634	रोहतगी प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
756	U51109DL1983PTC015695	प्रेसियोउस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
757	U99999DL1983PTC015712	पॉल ट्रैवल्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
758	U99999DL1983PTC015735	सुपर मूलटिप्लेक्स कन्सल्टन्सी एण्ड सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड
759	U51909DL1983PTC015748	महाराजा किचेन ऐड प्राईवेट लिमिटेड
760	U24119DL1983PTC015769	पाणिपत कार्बोनिक् गैस इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
761	U99999DL1983PTC015823	गुलाटी भार्गव एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
762	U99999DL1983PTC015824	बलबीर एच टोनाग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
763	U22212DL1983PTC015825	बी के रेप्रो ऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड
764	U99999DL1983PTC015842	गोल्ड रोबोट टोय्स एण्ड गेम्स प्राईवेट लिमिटेड
765	U99999DL1983PTC015899	गुरु कन्वर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
766	U99999DL1983PTC015907	बिप ऑटो पाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
767	U99999DL1983PTC015916	बुशाल फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
768	U99999DL1983PTC015921	फ्राबिका सिल्क मील्स प्राईवेट लिमिटेड
769	U99999DL1983PTC015962	सवाद सिक्यूरिटी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
770	U99999DL1983PTC015967	ट्रेहान इन्सूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
771	U45201DL1983PTC015975	जी.एस.लुश्रा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
772	U51103DL1983PTC015990	श्री हरि प्रीसिशन टूल्स एण्ड दीस प्राईवेट लिमिटेड
773	U99999DL1983PTC015991	दीक्षा होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
774	U99999DL1983PTC016006	हकूमत राय एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
775	U29302DL1983PTC016008	ऊनिक किचेन-एड्स प्राईवेट लिमिटेड
776	U99999DL1983PTC016014	महारानी सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड
777	U99999DL1983PTC016024	भीवाडी सिमेंट उद्योग प्राईवेट लिमिटेड.
778	U15541DL1983PTC016033	कैपा कोला को प्राईवेट लिमिटेड
779	U31102DL1983PTC016086	औरिक ट्रान्सफॉर्मरज इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
780	U99999DL1983PTC016090	त्रि स्टार विडिओट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
781	U99999DL1983PTC016095	युनाईटेड कन्सोर्टीअम प्राईवेट लिमिटेड
782	U99999DL1983PTC016101	चोपड़ा मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
783	U99999DL1983PTC016118	गोर्डन हर्बर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
784	U99999DL1983PTC016124	डी पी एस पेंकेजींग एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
785	U31506DL1983PTC016145	किरन लुमिनरेस प्राईवेट लिमिटेड
786	U17112HR1983PTC016179	पंचशील टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड.
787	U99999DL1983PTC016198	गंडोत्रा सन्स प्राईवेट लिमिटेड
788	U19201HR1983PTC016219	बोनी शु कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
789	U23201DL1983PTC016290	रोक्सी पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड

790	U63040DL1983PTC016308	सितक टूस एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
791	U99999DL1983PTC016319	सेतरा एन्जीन्यरिंग इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
792	U99999DL1983PTC016376	मलाबार सेंदल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
793	U99999DL1983PTC016381	बैजनाथ प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
794	U99999DL1983PTC016404	सुपरियर होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
795	U99999DL1983PTC016416	जसवरी एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
796	U99999DL1983PTC016421	जी.डबल्यू.सी. ट्रेवल एण्ड टूस प्राईवेट लिमिटेड
797	U99999DL1983PTC016423	जैन साविंग्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
798	U99999DL1983PTC016424	न्यू मीडिया मर्कज प्राईवेट लिमिटेड
799	U99999DL1983PTC016491	मन्झू थिएटर प्राईवेट लिमिटेड.
800	U99999DL1983PTC016507	नामऋषीका एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
801	U99999DL1983PTC016539	बुलबुल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
802	U99999DL1983PTC016541	रोज शुस प्राईवेट लिमिटेड
803	U24119DL1983PTC016543	एच.डी.कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
804	U99999DL1983PTC016557	अन्मीटेक टेक्नो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
805	U99999DL1983PTC016571	गूली किच्चेन्वारेस प्राईवेट लिमिटेड.
806	U15139DL1983PTC016590	नित्या फ़ूड प्रोडक्ट्स(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
807	U99999DL1983PTC016616	बनज प्राईवेट लिमिटेड
808	U51909DL1983PTC016623	मेवाती (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
809	U26922HR1983PTC016625	इतहाद सिरॅमिक एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
810	U15209HR1983PTC016650	फ़रिदाबाद दायरीस प्राईवेट लिमिटेड
811	U99999DL1983PTC016714	पी.यू. प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
812	U99999DL1983PTC016749	कोना कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
813	U99999DL1983PTC016755	एच.एस. सूरी इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
814	U99999DL1983PTC016756	कुइक कलर प्रोसेसिंग लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड
815	U99999DL1983PTC016760	बाबा बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
816	U28991DL1983PTC016763	दैवभीत इंडिया एन्जीन्यरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
817	U99999DL1983PTC016794	सिकन्द्रा एलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
818	U99999DL1983PTC016812	सीन्डिकेट केब सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
819	U99999DL1983PTC016819	२००० सेन्चरी प्लास्टिक इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
820	U51909DL1983PTC016829	रणसेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
821	U99999DL1983PTC016831	मित्तल अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
822	U99999DL1983PTC016870	पवार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
823	U99999DL1983PTC016912	ऊषा तरुकी प्लंट्स प्राईवेट लिमिटेड
824	U60210DL1983PTC016917	साया ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
825	U99999DL1983PTC016924	मेसे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
826	U99999DL1983PTC016925	आर.पी. अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
827	U99999DL1983PTC016934	श्री दुर्गा लैंड एण्ड हाऊसींग को प्राईवेट लिमिटेड
828	U24244DL1983PTC016950	बी.के. पेफ़ुमर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
829	U99999DL1983PTC016957	अंकुर कॉन्टिनेन्टल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
830	U99999DL1983PTC016960	इंद्र गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
831	U28939DL1983PTC016976	शिवानी हाईवेर एण्ड ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
832	U99999DL1983PTC016977	इंडिपेंडेंट टेलीवीज़न को प्राईवेट लिमिटेड
833	U99999DL1983PTC016982	गोल्डन फ़लकॉन टूस प्राईवेट लिमिटेड

834	U70101DL1983PTC017013	अन्शुल गुप्ता इस्टेट्स एंजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
835	U99999DL1983PTC017015	साई मॅटल इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
836	U31300DL1983PTC017044	हंसा वायर्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
837	U99999DL1983PTC017057	करनानी पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
838	U99999DL1983PTC017064	टेरेसा फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
839	U99999DL1983PTC017065	भारत अपर लेंडर एण्ड शुस प्राईवेट लिमिटेड
840	U99999DL1983PTC017066	रेक्स ड्येज एण्ड प्रिंटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
841	U99999DL1983PTC017085	बेल्स स्टील प्राईवेट लिमिटेड
842	U99999DL1983PTC017086	नर्मदा ड्रग को प्राईवेट लिमिटेड
843	U29225DL1983PTC017142	मदन एन्जीन्यरींग टूल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
844	U51909DL1983PTC017157	रचना ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
845	U99999DL1983PTC017158	सागर मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
846	U99999DL1983PTC017188	इंटर्ग्रेटेड माईक्रो कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
847	U99999DL1983PTC017209	प्रगति एलेक्ट्रोप्लाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
848	U99999DL1983PTC017210	मफरुब केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
849	U99999DL1983PTC017242	मनदीप मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
850	U51496DL1983PTC017244	मंशा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
851	U99999DL1983PTC017258	अद्वान्स पुलसर डिगीटाल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
852	U99999DL1984PTC017275	अप्रिन्टो पैक प्राईवेट लिमिटेड
853	U29299DL1984PTC017286	केनवाल इंजीनियर्स इंडस्ट्रिज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
854	U99999DL1984PTC017311	हिटेक कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
855	U99999DL1984PTC017318	स्काईलार्क स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
856	U34300DL1984PTC017329	हरियाणा ऑटोमोबाइल अन्सिलारीस एण्ड इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
857	U99999DL1984PTC017337	बिसुआल बिसनेस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
858	U71110DL1984PTC017342	कैलाश गराजेस प्राईवेट लिमिटेड
859	U99999DL1984PTC017365	वैश इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
860	U99999DL1984PTC017402	वितेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
861	U51396DL1984PTC017409	अर्चना पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
862	U99999DL1984PTC017419	शरद कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
863	U99999DL1984PTC017424	दास मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
864	U99999DL1984PTC017429	होरिजोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
865	U28129HR1984PTC017458	टी पी एस पैकैगिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
866	U31909DL1984PTC017464	तर्जियान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
867	U24231HR1984PTC017474	सन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
868	U65910DL1984PTC017482	थापर प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड.
869	U99999DL1984PTC017485	स्वान स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
870	U99999DL1984PTC017545	मेटवूड पियोडुक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
871	U99999DL1984PTC017546	करन फ्रोम्स प्राईवेट लिमिटेड
872	U99999DL1984PTC017562	एंपेक्स कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
873	U99999DL1984PTC017565	डेप्रेन्ता प्राईवेट लिमिटेड
874	U99999DL1984PTC017577	ए१ कुतब एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
875	U99999DL1984PTC017607	रेवाड़ी ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
876	U51909DL1984PTC017612	कोबीनेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
877	U24232DL1984PTC017685	नुचेम फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

878	U45201DL1984PTC017703	निधि बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
879	U99999DL1984PTC017705	वीनस टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
880	U31909DL1984PTC017707	अपोलो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
881	U18101DL1984PTC017742	सौभाग्य सुटिंग प्राईवेट लिमिटेड
882	U30001DL1984PTC017753	ऑफिस एड्स प्राईवेट लिमिटेड
883	U99999DL1984PTC017782	सेटेक सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
884	U99999DL1984PTC017790	ए एन ए एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
885	U45201DL1984PTC017804	एम एम वी प्रोपर्टीस एण्ड ट्रेडिंग को प्राईवेट लिमिटेड
886	U99999DL1984PTC017809	टामाशा क्रिएशन (एक्स्पर्ट) प्राईवेट लिमिटेड
887	U24299DL1984PTC017822	लिली कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
888	U32204DL1984PTC017833	एको एन्जीन्यरींग एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
889	U99999DL1984PTC017837	नंदी ऑर्गानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
890	U99999DL1984PTC017860	कोरोमंडल गिप्सूम प्राईवेट लिमिटेड
891	U99999DL1984PTC017882	मल्होत्रा पेपर्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
892	U17111DL1984PTC017902	बाबा सुपर कलर प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
893	U99999DL1984PTC017908	इसिर सच प्राईवेट लिमिटेड
894	U31503DL1984PTC017909	मार्गो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
895	U15319DL1984PTC017911	मोदी स्टले प्राईवेट लिमिटेड
896	U17115DL1984PTC017934	बदर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड.
897	U99999DL1984PTC017971	सरला कैमिकल्स इन्डस्ट्रिज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
898	U99999DL1984PTC017981	शम्भावी गैस गैट्स प्राईवेट लिमिटेड
899	U99999DL1984PTC018016	जिंदल केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
900	U99999DL1984PTC018024	अक्षर पुब्लिशिंग को प्राईवेट लिमिटेड
901	U99999DL1984PTC018027	स्टार मोटर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
902	U24231DL1984PTC018063	टोशिनवाल सोमानी लेबोरेटोरिस प्राईवेट लिमिटेड
903	U99999DL1984PTC018071	पोप्लोन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
904	U99999DL1984PTC018109	मोहित प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
905	U99999DL1984PTC018132	एस.जे. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
906	U99999DL1984PTC018135	शार्प ल्या प्राईवेट लिमिटेड
907	U99999DL1984PTC018154	एस.बी. सिरॅमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
908	U99999DL1984PTC018174	दासानी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
909	U99999DL1984PTC018201	सुप्रिम टेक्नो कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
910	U17219DL1984PTC018206	सायमन होसिएरी इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
911	U99999DL1984PTC018207	दयाल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
912	U99999DL1984PTC018218	नोयम्के ठोरोछेड ब्रीदर्स प्राईवेट लिमिटेड
913	U74140DL1984PTC018244	ए.के.आर.सूरवींग को प्राईवेट लिमिटेड.
914	U99999DL1984PTC018266	आंटिक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड.
915	U99999DL1984PTC018280	स्पेन्स केम प्राईवेट लिमिटेड
916	U65922DL1984PTC018283	ब्रासिका हाऊसींग प्राईवेट लिमिटेड.
917	U65921DL1984PTC018285	सिन्नुस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड.
918	U99999DL1984PTC018293	युनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
919	U99999DL1984PTC018301	अल्मेडिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
920	U99999DL1984PTC018303	पिरुस चटेलस प्राईवेट लिमिटेड
921	U99999DL1984PTC018319	गगन टैक्सटाईल मील्स प्राईवेट लिमिटेड.

922	U13209HR1984PTC018326	बजरंग दास मॅटल प्राईवेट लिमिटेड
923	U99999DL1984PTC018332	वेस्टर्न एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
924	U29210DL1984PTC018335	जनपथ ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड.
925	U99999DL1984PTC018340	जनपथ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
926	U99999DL1984PTC018344	आर एम ट्रेड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
927	U70101DL1984PTC018347	एल एम आर प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
928	U99999DL1984PTC018350	कर्तिकर्स प्राईवेट लिमिटेड.
929	U99999DL1984PTC018389	अद्राश वूलेन इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
930	U99999DL1984PTC018408	ग्रुप हाऊज़िंग कन्सलतन्ट्स एण्ड बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
931	U99999DL1984PTC018429	ड्र सूरज मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
932	U99999DL1984PTC018445	सी एम ए एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
933	U17118DL1984PTC018455	देस्ट प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड
934	U99999DL1984PTC018478	शीना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
935	U74300DL1984PTC018490	डोल्फोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
936	U99999DL1984PTC018492	इब्ल कम्प्यूटर मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
937	U99999DL1984PTC018493	रुब्बेरागे इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
938	U99999DL1984PTC018510	ईडिका वाल्वेस एण्ड रेगुलाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
939	U99999DL1984PTC018519	वागू सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
940	U51399DL1984PTC018523	स्नो फ़्लकेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
941	U70109DL1984PTC018530	अक्रील् हाऊज़िंग प्राईवेट लिमिटेड.
942	U99999DL1984PTC018564	सेटर्न कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
943	U99999DL1984PTC018571	मार्स बील्डर्ज़ फ़न्ड
944	U70109DL1984PTC018573	टेटर हाऊज़िंग प्राईवेट लिमिटेड
945	U70101DL1984PTC018574	श्रुति पॉलीमार्ब प्राईवेट लिमिटेड
946	U99999DL1984PTC018585	अद्वान्स हौसेहोल्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
947	U99999DL1984PTC018589	मामो अड्स प्राईवेट लिमिटेड
948	U32303DL1984PTC018638	एस्की इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
949	U99999DL1984PTC018640	प्रुडेन्टिआल कैमिकल्स एण्ड गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
950	U99999DL1984PTC018669	इंटर कॉन्टिनेन्टल फ़्रेशन वेअर प्राईवेट लिमिटेड.
951	U99999DL1984PTC018674	देल्को एअर ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
952	U99999DL1984PTC018698	नवयुग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
953	U74210DL1984PTC018712	कासाप एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड.
954	U51420DL1984PTC018723	चिक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
955	U27109DL1984PTC018738	वीक्रम गॅस कोन्तायनर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
956	U99999DL1984PTC018743	सैयद एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
957	U74999DL1984PTC018765	नेवागे सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
958	U74300DL1984PTC018786	त्रि-मूर्ति अंडवर्टायजिंग को प्राईवेट लिमिटेड
959	U99999DL1984PTC018822	साज स्टील प्राईवेट लिमिटेड
960	U99999DL1984PTC018861	जे.चंद्र ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड.
961	U99999DL1984PTC018882	रायन्बो लेबोरेटोरिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
962	U99999DL1984PTC018905	स्कन्लेन्स ओप्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
963	U99999DL1984PTC018911	नोईदा शट्स मकज़ प्राईवेट लिमिटेड.
964	U11202HR1984PTC018912	राजगरिआ ओईल मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
965	U99999DL1984PTC018921	कज इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.

966	U99999DL1984PTC018926	फुजी शिबा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
967	U70101DL1984PTC018939	वैशाली लैंड एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
968	U17299DL1984PTC018952	बुद्ध टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड.
969	U74140DL1984PTC018972	इंटेग्रेटेड कॉर्पोरेट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
970	U99999DL1984PTC018986	रोज़का लामिनाट्स प्राईवेट लिमिटेड.
971	U99999DL1984PTC018989	स्का फूड्स प्राईवेट लिमिटेड.
972	U45201DL1984PTC019000	शैल्टर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड.
973	U17222DL1984PTC019021	स्तेवीक अलाईड प्राईवेट लिमिटेड.
974	U99999DL1984PTC019053	रघु श्री इंजीनियर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
975	U99999DL1984PTC019073	मित्तल स्लीन्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
976	U99999DL1984PTC019078	महेशका इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
977	U99999DL1984PTC019087	ब्रधज़ एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
978	U18101DL1984PTC019109	त्रिजया ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
979	U99999DL1984PTC019120	मुनीश इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
980	U99999DL1984PTC019134	प्रगति फ़र्टिलीज़र प्राईवेट लिमिटेड
981	U99999DL1984PTC019153	ए.एम. अरूट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
982	U99999DL1984PTC019156	क्रिस्टल ऑडिओ विडिओ अप्लिआन्स प्राईवेट लिमिटेड
983	U24119HR1984PTC019160	सुखराम दास कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
984	U99999DL1984PTC019179	मेकास प्राईवेट लिमिटेड
985	U99999DL1984PTC019194	सुरिंद्र अलोयस प्राईवेट लिमिटेड
986	U99999DL1984PTC019220	अनू प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
987	U32101DL1984PTC019225	मास्टफोन इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
988	U99999DL1984PTC019259	एंपेक्स एन्टरप्राईसीस(इंडिया) पी लिमिटेड
989	U31103DL1984PTC019272	वी.के.स्टैपींग प्राईवेट लिमिटेड
990	U99999DL1984PTC019285	स्वागत ठैमोदे प्राईवेट लिमिटेड
991	U51909DL1984PTC019324	विक्टोप्री मर्चेंडिसे प्राईवेट लिमिटेड.
992	U99999DL1984PTC019331	ऋषाब उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
993	U51909DL1984PTC019363	स्टेलार इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
994	U99999DL1984PTC019389	रेगेंट पेपर मील्स(अमेठी) प्राईवेट लिमिटेड
995	U19202DL1984PTC019404	रॉयल फूटवेअर प्राईवेट लिमिटेड
996	U36104DL1984PTC019436	जैन एण्ड जैना फ़ोम्स प्राईवेट लिमिटेड.
997	U51909DL1984PTC019472	स्केन ट्रेडिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
998	U99999DL1984PTC019549	साक्षी इंजीनियर्स एण्ड बील्डर प्राईवेट लिमिटेड
999	U99999DL1984PTC019553	वस्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1000	U99999DL1984PTC019562	संगम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1001	U99999DL1984PTC019570	नोईदा ऑग्रो प्राईवेट लिमिटेड.
1002	U99999DL1984PTC019592	आर.आर.कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1003	U99999DL1984PTC019682	नोक्वोन प्राईवेट लिमिटेड
1004	U51909DL1984PTC019693	हिम ट्रेडर प्राईवेट लिमिटेड
1005	U99999DL1984PTC019731	प्रकाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1006	U22190DL1985PTC019754	स्पॅनटेक पुब्लिशर प्राईवेट लिमिटेड
1007	U99999DL1985PTC019773	शेरू लीठर प्राईवेट लिमिटेड
1008	U99999DL1985PTC019782	वेल्लमके फ़रनेसीस प्राईवेट लिमिटेड
1009	U99999DL1985PTC019795	फेंटेम इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1010	U18101DL1985PTC019812	कापकॉन गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1011	U99999DL1985PTC019813	मोनाक ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1012	U99999DL1985PTC019826	सुप्रिया ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1013	U99999DL1985PTC019870	ओरिएन्टल फ्लोर कोवर्गिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1014	U34300DL1985PTC019876	इंडिया टूरिज्म प्राईवेट. लड.
1015	U99999DL1985PTC019885	ऑक्युरेट मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1016	U99999DL1985PTC019910	ऋषि राज होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1017	U18101DL1985PTC019927	राग्लिंगने कलेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1018	U99999DL1985PTC019934	सतीरानी कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1019	U51219DL1985PTC019947	वरुण कर्मर्शिअल एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड.
1020	U24239DL1985PTC019953	नोबल लेबॉरेटरीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1021	U99999DL1985PTC019979	टेक्स्टूस् प्राईवेट लिमिटेड
1022	U99999DL1985PTC019983	गिरराज एक्सपोर्ट्स एण्ड इन्डस्ट्रिस् प्राईवेट लिमिटेड
1023	U99999DL1985PTC019996	कंदर्पा अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1024	U70101DL1985PTC020007	ओरिएन्ट प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1025	U99999DL1985PTC020028	कराज ट्रेडिंग को. प्राईवेट.लिमिटेड.
1026	U99999DL1985PTC020073	संदर्भ फ्रेशन सेटर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1027	U99999DL1985PTC020080	सोनिया इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1028	U99999DL1985PTC020145	स्बल मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1029	U99999DL1985PTC020164	उडी ईलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1030	U99999DL1985PTC020172	रावत फ्रिजिकेशन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1031	U99999DL1985PTC020244	नोर्चेम फार्मेक्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1032	U99999DL1985PTC020247	दम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1033	U99999DL1985PTC020255	एक्स्क्लुसिफ़ ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1034	U99999DL1985PTC020277	शगुन मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1035	U99999DL1985PTC020290	शिप्रा ग्लुए एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1036	U51909DL1985PTC020335	अविक् एक्स्पॉर्ट हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
1037	U18109DL1985PTC020366	अग्रवाल अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1038	U51499DL1985PTC020370	लिद्दुल्स दाता सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1039	U17299DL1985PTC020385	दुग्गर स्पीत्रज प्राईवेट लिमिटेड
1040	U99999DL1985PTC020396	सन्प्रलेमे गॅजेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1041	U15549HR1985PTC020399	सेन्या ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1042	U92111DL1985PTC020425	बी. एण्ड बी.विडिओ प्राईवेट.लिमिटेड.
1043	U99999DL1985PTC020427	सोलिस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1044	U45201DL1985PTC020432	एस.जी.कंस्ट्रक्शन को. प्राईवेट लिमिटेड
1045	U99999DL1985PTC020442	बीजय गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1046	U99999DL1985PTC020453	सन्प्रलेमे ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1047	U25201DL1985PTC020460	प्लेक्सिकोम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1048	U29302DL1985PTC020460	सीरोक स्क्वीन्दर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1049	U27310DL1985PTC020500	स्टील क्राफ्ट्स पाणिपत प्राईवेट लिमिटेड
1050	U99999DL1985PTC020514	एस.एस.बल्वेस प्राईवेट लिमिटेड
1051	U74140DL1985PTC020518	एच.एम.ए. कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड
1052	U51909DL1985PTC020526	गिगा एक्सिम प्राईवेट.लिमिटेड.
1053	U99999DL1985PTC020535	नवयुग टायर्स प्राईवेट लिमिटेड

1054	U99999DL1985PTC020539	सागर प्लास्टो केम प्राईवेट लिमिटेड
1055	U99999DL1985PTC020551	स्तेजेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1056	U99999DL1985PTC020586	जूदरिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1057	U34300HR1985PTC020590	के.एन.के.कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1058	U36101DL1985PTC020616	ब्रिटे प्लाईवूड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1059	U99999DL1985PTC020630	त्राईअंगल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1060	U28932DL1985PTC020632	हूदसन होसेस प्राईवेट लिमिटेड
1061	U99999DL1985PTC020697	संत कैमिकल्स एण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1062	U74210DL1985PTC020732	विमलेश एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1063	U51909DL1985PTC020733	हेबा कन्सल्टन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1064	U99999DL1985PTC020741	रुकमणि सिमेंट को प्राईवेट लिमिटेड
1065	U99999DL1985PTC020742	तिरुपति अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1066	U17118DL1985PTC020744	जय दी सीन्टेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1067	U99999DL1985PTC020745	रामन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1068	U99999DL1985PTC020764	प्रशांति साई इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड तेलिकम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
1069	U99999DL1985PTC020777	ए. केमेरामन्स प्राईवेट लिमिटेड
1070	U27101DL1985PTC020806	शिव शक्ती ग्रीडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1071	U99999DL1985PTC020820	स्मरा प्राईवेट लिमिटेड
1072	U99999DL1985PTC020831	विजयानंद वूलन मील्स प्राईवेट लिमिटेड
1073	U99999DL1985PTC020835	एम.ए. कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1074	U99999DL1985PTC020849	राज धनी प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
1075	U99999DL1985PTC020860	नरिंद्र लीडरिओड्स प्राईवेट लिमिटेड
1076	U99999DL1985PTC020861	मोना केम फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
1077	U99999DL1985PTC020867	चिब स्टील फ़र्निचर प्राईवेट लिमिटेड
1078	U05001DL1985PTC020879	एम्बसी फ़िशेरिस प्राईवेट लिमिटेड
1079	U27100DL1985PTC020891	विनीत मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1080	U99999DL1985PTC020911	शाफ़ली फाईबर एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1081	U99999DL1985PTC020928	न्यू एरा अन्सिलारीस प्राईवेट लिमिटेड
1082	U31909DL1985PTC020957	आस्था इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1083	U99999DL1985PTC020986	सविगो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1084	U99999DL1985PTC020995	सुविन मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1085	U27109DL1985PTC020997	अवदेश अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
1086	U99999DL1985PTC021010	सोना सिंह ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
1087	U99999DL1985PTC021034	सामा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1088	U99999DL1985PTC021063	सुरेंद्र स्त्रुक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड
1089	U99999DL1985PTC021084	बी.आर.कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1090	U99999DL1985PTC021108	फ़रिदाबाद फ़ाईबरज प्राईवेट लिमिटेड
1091	U99999DL1985PTC021110	ठापसन्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1092	U99999DL1985PTC021119	बेकोन पैट्स प्राईवेट लिमिटेड
1093	U99999DL1985PTC021124	टैपिरिटे एअर-कंडिशनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1094	U45203DL1985PTC021133	करतार सिंह एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1095	U74300DL1985PTC021139	गोवन अंड्वर्टायजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1096	U99999DL1985PTC021148	के पी इन्डुक्को स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1097	U99999DL1985PTC021152	ज्युपीटर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1098	U65999DL1985PTC021157	ऊनिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1099	U18101DL1985PTC021162	कुमार अपरेट अक्ससरीस को. प्राईवेट लिमिटेड
1100	U99999DL1985PTC021172	पासिफिक प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1101	U27104DL1985PTC021206	सी एण्ड एम आइवर्टिसर्ज एण्ड मार्केटिंग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1102	U99999DL1985PTC021228	त्रिभुवन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1103	U99999DL1985PTC021232	पंचशील ऑटोवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1104	U34300DL1985PTC021280	एम्बी अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1105	U99999DL1985PTC021281	एस.एच.पी.पैकेजिंग इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1106	U29193DL1985PTC021288	खाप्स विरयोर प्राईवेट लिमिटेड
1107	U99999DL1985PTC021303	बर्चवुड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1108	U74300DL1985PTC021313	माला पब्लिसिटी सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1109	U99999DL1985PTC021366	जनक राज गुप्ता एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1110	U27202DL1985PTC021375	सुराना धातु प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1111	U99999DL1985PTC021400	पोलर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1112	U99999DL1985PTC021411	मेर्कूरई पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
1113	U99999DL1985PTC021412	मेर्कूरई केस्टर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1114	U01122DL1985PTC021450	मंगा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1115	U19202HR1985PTC021463	आनंद फूट वेअर प्राईवेट लिमिटेड
1116	U55101DL1985PTC021471	दून वेली होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1117	U99999DL1985PTC021478	अद्वान्स टेक्नोमेड प्राईवेट लिमिटेड
1118	U72200DL1985PTC021499	कुइक सिस्टम सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
1119	U99999DL1985PTC021515	जनवती फ़्लोर मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1120	U99999DL1985PTC021541	एस.एस.अलोय्स प्राईवेट लिमिटेड
1121	U74140DL1985PTC021553	क्लक.ओफ़िंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1122	U55101DL1985PTC021558	होटेल रजत प्राईवेट लिमिटेड
1123	U74140DL1985PTC021565	आर.एम.कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1124	U32109DL1985PTC021571	नोईदा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1125	U99999DL1985PTC021605	ओ एण्ड के इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1126	U29308DL1985PTC021636	स्पिडर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1127	U74995DL1985PTC021654	बेस्ट लिआसियोन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1128	U74999DL1985PTC021666	किकसर प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
1129	U99999DL1985PTC021677	टावर बेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1130	U67120DL1985PTC021684	निवेश इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1131	U99999DL1985PTC021704	सेवन सीज़ फ़िशरिज प्राईवेट लिमिटेड
1132	U99999DL1985PTC021743	भारत ब्रेस एण्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1133	U92490DL1985PTC021750	गीतांजली फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1134	UY2413DL1985PTC021783	फ़्रेंड्स पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1135	U31300DL1985PTC021830	मनोज इन्सूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
1136	U99999DL1985PTC021859	ऊनी स्यास डायनामिक प्राईवेट लिमिटेड
1137	U99999DL1985PTC021911	बंसल फूटवार् प्राईवेट लिमिटेड
1138	U29219DL1985PTC021921	अमाल्यामाटेड मोल्दींग प्राईवेट लिमिटेड
1139	U18101DL1985PTC021922	गड गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1140	U27107DL1985PTC021946	मानव मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1141	U18109DL1985PTC021954	स्क गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड

1142	U99999DL1985PTC021973	हैमलिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1143	U20221DL1985PTC021984	पाल वीडोस एण्ड वुडक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
1144	U52603DL1985PTC021993	क्लारिओन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1145	U99999DL1985PTC021995	मकी रबर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1146	U99999DL1985PTC022005	कौर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1147	U99999DL1985PTC022011	कोबीनेद फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1148	U65993DL1985PTC022012	युनाईटेड इलेक्ट्रो वेल्ड आर्क मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
1149	U24211DL1985PTC022032	स्म दास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1150	U99999DL1985PTC022044	चंदु मेटल प्राईवेट लिमिटेड
1151	U99999DL1985PTC022054	वन्वीक प्रोटेन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1152	U99999DL1985PTC022108	भ्स सेल्स को प्राईवेट लिमिटेड
1153	U99999DL1985PTC022109	अल्फ़ा बेफ़ा कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1154	U99999DL1985PTC022134	शिवम कार्गो सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1155	U99999DL1985PTC022156	इन्डो मोल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
1156	U24119DL1985PTC022174	जैनसन्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1157	U99999DL1985PTC022175	सी.आर. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1158	U99999DL1985PTC022213	ओम शीव शक्ती प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1159	U99999DL1985PTC022220	स्टार ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1160	U99999DL1985PTC022235	ट्रैडिका इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राईवेट लिमिटेड
1161	U22219DL1985PTC022248	स्केन टाईप प्राईवेट लिमिटेड
1162	U99999DL1985PTC022294	मुंद्रा टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1163	U25201DL1985PTC022333	अंकर पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1164	U99999DL1985PTC022336	शाहीना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1165	U99999DL1985PTC022338	पशुपति बोतलर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1166	U99999DL1985PTC022347	फ़ास्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1167	U99999DL1985PTC022355	इंटर कॉन्टिनेन्टल पैट्स प्राईवेट लिमिटेड
1168	U99999DL1985PTC022356	मीसाक्की इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1169	U99999DL1985PTC022368	बक पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1170	U34300DL1985PTC022394	गरूड ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड
1171	U72200DL1985PTC022398	कॉस्मॉस कम्युनिकेशन्स एण्ड कंप्यूटर सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1172	U99999DL1985PTC022406	रोज्का वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1173	U99999DL1985PTC022435	मनसन पॉली कॉम्प प्राईवेट लिमिटेड
1174	U18101DL1985PTC022453	रतन टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1175	U85110DL1985PTC022461	होप होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
1176	U51909DL1985PTC022465	वीनू डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1177	U99999DL1985PTC022477	प्रगति अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1178	U99999DL1985PTC022514	अहुजा इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1179	U27109HR1985PTC022518	मिनाक्षी इसपाट उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
1180	U99999DL1985PTC022527	ईद कैन बायोकेम प्राईवेट लिमिटेड
1181	U45201DL1985PTC022535	बी.बी.बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1182	U72200DL1985PTC022545	मैक कंप्यूटर्ज़ एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1183	U99999DL1985PTC022556	वाय.एस. मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1184	U99999DL1985PTC022567	मल्होत्रा सिरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1185	U99999DL1985PTC022596	अकयस ज्योति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1186	U99999DL1985PTC022637	पत्रा कोना प्राईवेट लिमिटेड
1187	U99999DL1985PTC022640	सिम्प्लेक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1188	U34300DL1985PTC022647	राजनाथ एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1189	U29150DL1985PTC022648	ओमेगा एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1190	U33121DL1985PTC022677	फोयनिकस कंट्रोल इन्व्हीप्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
1191	U01222HR1985PTC022690	हच्च ब्रो प्राईवेट लिमिटेड
1192	U63040DL1985PTC022698	नाम्स्ते ट्रैवल प्राईवेट लिमिटेड
1193	U51909DL1985PTC022699	सरीन अजनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1194	U99999DL1985PTC022702	अर्मंडा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1195	U65202DL1985PTC022738	मेकस्टर ओवरसीज़ कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1196	U99999DL1985PTC022779	सरम एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1197	U30005DL1985PTC022787	क्रिस्सेंट कम्प्यूटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1198	U22803DL1985PTC022803	कन्सोलिडेटेड सी फार्मिंग एण्ड शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
1199	U34300DL1985PTC022804	एम.जे.ऑटो फ़ॉर्गिंग प्राईवेट लिमिटेड
1200	U28991DL1985PTC022807	रेक फ़ास्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
1201	U63040DL1985PTC022808	हरीटज इंडिया टूल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1202	U99999DL1985PTC022854	राजहंस प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1203	U74210DL1985PTC022863	एवरेस्ट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1204	U51390DL1985PTC022884	सुपर अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1205	U99999DL1985PTC022888	एपेक्स टेलीव्होन प्राईवेट लिमिटेड
1206	U99999DL1985PTC022891	गीती कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1207	U65921DL1985PTC022905	प्रोम्ट प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1208	U99999DL1985PTC022913	रुहीका इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1209	U34300DL1985PTC022915	गुल्फ रेप्रीजेंट वक्स प्राईवेट लिमिटेड
1210	U22211DL1986PTC022975	धृवको प्रिंटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1211	U99999DL1986PTC022977	निकिटारोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1212	U22211DL1986PTC022986	मिलाप प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1213	U99999DL1986PTC023016	माईक्रो मायन्टीनान्स प्राईवेट लिमिटेड
1214	U99999DL1986PTC023030	शिवाजी कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1215	U99999DL1986PTC023050	डी एस्स ओईल एक्स्ट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1216	U70101DL1986PTC023075	रविन्द्र अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1217	U99999DL1986PTC023079	सेबा (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1218	U99999DL1986PTC023088	अब दाता सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1219	U99999DL1986PTC023093	जस्सीन इन्सुमेन्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
1220	U99999DL1986PTC023096	जैनचंदनानी ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1221	U99999DL1986PTC023100	डी डी एस कुइल्ड्स हांडीक्राफ़्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1222	U29294DL1986PTC023104	गायत्री मशीनेरिस प्राईवेट लिमिटेड
1223	U29299DL1986PTC023105	हरियाणा मेटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1224	U36101DL1986PTC023106	जे एम कालिया एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1225	U99999DL1986PTC023109	स्टेपिंग स्टोन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1226	U99999DL1986PTC023115	कमल टैक्सटाईल इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1227	U99999DL1986PTC023116	एच एन फायनान्सियल मैनेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
1228	U31909DL1986PTC023132	जेता एनजी कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड

1229	U99999DL1986PTC023151	ट्रेस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1230	U15499DL1986PTC023152	गजराज फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1231	U99999DL1986PTC023156	जे टी भारज एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1232	U99999DL1986PTC023167	शिवालिक एक्सेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1233	U99999DL1986PTC023177	क्स्पोलोगिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1234	U99999DL1986PTC023212	मिक्रोबिट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1235	U24221DL1986PTC023245	गोल्ड सील फिगमेंट्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1236	U51211DL1986PTC023257	आर.के. ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1237	U99999DL1986PTC023259	एस आर क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1238	U51909DL1986PTC023269	मॉडर्न मार्चेंडिसे प्राईवेट लिमिटेड
1239	U99999DL1986PTC023282	साई अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1240	U99999DL1986PTC023334	रोहित अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1241	U99999DL1986PTC023344	ऑर्किड अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
1242	U99999DL1986PTC023381	मनोज अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1243	U99999DL1986PTC023387	पाल्म बीच एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1244	U29199DL1986PTC023405	ब्लिस आनंद इन्डुस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
1245	U01122HR1986PTC023420	हनी त्री हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
1246	U99999DL1986PTC023424	जुकीका फुड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
1247	U99999DL1986PTC023434	हरि ओम लामिनट्स प्राईवेट लिमिटेड
1248	U67190DL1986PTC023442	पवन कन्सलतन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1249	U99999DL1986PTC023452	क्राफ्ट मूलटिप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1250	U99999DL1986PTC023456	तारा सीन्टेसीस एण्ड पेकारिंग्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1251	U27101DL1986PTC023458	बजाज उटेन्सिल्स प्राईवेट लिमिटेड
1252	U99999DL1986PTC023467	एस.एम.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1253	U70109DL1986PTC023500	रविन्द्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
1254	U51909DL1986PTC023527	वी.आर.ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1255	U99999DL1986PTC023555	ऊनिक फ्रूटवेअर एण्ड होसिएरी प्राईवेट लिमिटेड
1256	U28991DL1986PTC023560	रेक स्क्वूज प्राईवेट लिमिटेड
1257	U74210DL1986PTC023567	बेगम इंडिया कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1258	U51909DL1986PTC023576	सुपरस्टार इम्पेक्स लीनकर्स प्राईवेट लिमिटेड
1259	U74202DL1986PTC023610	सवितकर कम्प्युनिकेशन सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1260	U32301DL1986PTC023626	प्रिमीयर राडिओस प्राईवेट लिमिटेड
1261	U99999DL1986PTC023627	कॉम्पलीन्क कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1262	U99999DL1986PTC023628	शीरान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1263	U15511DL1986PTC023632	प्रेम नाथ बालकिशन ब्रेत्रिस प्राईवेट लिमिटेड
1264	U19202DL1986PTC023644	सुमित पॉलीमर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1265	U15419DL1986PTC023647	मीलर अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1266	U99999DL1986PTC023653	न्यू एरा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1267	U45201DL1986PTC023657	बिक्रम बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1268	U99999DL1986PTC023674	सिग्नमनोडे प्राईवेट लिमिटेड
1269	U99999DL1986PTC023683	नतूरल फुड प्रोडक्ट्स पी लिमिटेड
1270	U29306DL1986PTC023686	पुनीत होम अप्लिआन्सीज़ पी लिमिटेड
1271	U22122DL1986PTC023702	दाशॉग पुब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1272	U99999DL1986PTC023715	शारदा मूवीस पी लिमिटेड

1273	U99999DL1986PTC023728	एशिया स्लोट्स पी लिमिटेड
1274	U99999DL1986PTC023734	गौतम रेफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड
1275	U99999DL1986PTC023736	सोमानी कर्मशिल को प्राईवेट लिमिटेड
1276	U99999DL1986PTC023756	आलुफो मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1277	U31909DL1986PTC023764	पॉली सालेसक प्राईवेट लिमिटेड
1278	U99999DL1986PTC023785	ऊनिक फुएलेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1279	U99999DL1986PTC023808	एन.एन.कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1280	U99999DL1986PTC023825	रीक्टिव डायस एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1281	U99999DL1986PTC023836	साई होमयो प्राईवेट लिमिटेड
1282	U24239DL1986PTC023841	क्रॉस हैल्थ केअर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1283	U99999DL1986PTC023864	बाबलातूरिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1284	U99999DL1986PTC023875	एस.के.अंग्रो एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1285	U18101DL1986PTC023889	सैटेक्स एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1286	U70101DL1986PTC023902	रावत लैंड एण्ड हाऊज़िंग प्राईवेट लिमिटेड
1287	U99999DL1986PTC023911	बून ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1288	U25199DL1986PTC023929	वेस्टा रबज़ प्राईवेट लिमिटेड
1289	U99999DL1986PTC023939	के.स्पेन(इंडिया)प्राईवेट लिमिटेड
1290	U24114HR1986PTC023965	बूब्लर दी कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1291	U19202DL1986PTC023985	एस्कोट शुस प्राईवेट लिमिटेड
1292	U99999DL1986PTC024000	मणीकरन मोटर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1293	U70101DL1986PTC024013	दीप बील्डज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1294	U99999DL1986PTC024043	कोन्वेक्ट एअर प्राईवेट लिमिटेड
1295	U31900DL1986PTC024046	मोंगा इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1296	U24119DL1986PTC024050	क़र्यो मेडिकल गासेस प्राईवेट लिमिटेड
1297	U99999DL1986PTC024052	ही टेक ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1298	U99999DL1986PTC024062	शांती एनामल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1299	U70101DL1986PTC024067	ज्क आनंद एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1300	U99999DL1986PTC024071	कुबेर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1301	U70101DL1986PTC024082	वीस्डम इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1302	U99999DL1986PTC024085	मातृ पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
1303	U99999DL1986PTC024096	यतेन्द्र मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
1304	U45201DL1986PTC024103	आदर्श प्रोमोटोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1305	U63040DL1986PTC024187	कम्फर्ट ट्रेवल्स पी.लिमिटेड
1306	U29305DL1986PTC024205	स्तेफाब डोमेस्टिक अप्लिआन्सीज़ कम्पनी पी.लिमिटेड
1307	U99999DL1986PTC024234	एन.आई.पी. ऑर्गानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1308	U99999DL1986PTC024288	आम्क कन्सलतन्ट्स पी.लिमिटेड
1309	U74210DL1986PTC024289	सॉटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1310	U31200DL1986PTC024310	स्काईलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1311	U99999DL1986PTC024314	नलवा पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
1312	U29306DL1986PTC024390	कुमार कम्फर्ट एअर प्राईवेट लिमिटेड
1313	U27101DL1986PTC024435	बंसल ऑटो एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1314	U18101DL1986PTC024439	अंग्रो गार्मेट्स पेंगुफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1315	U74210DL1986PTC024457	एस.एल.एच ट्रेडिंग एण्ड एण्ड कोन्वेक्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1316	U01121DL1986PTC024458	विनोद जैन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1317	U99999DL1986PTC024466	पिक पॅक एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1318	U99999DL1986PTC024469	निकोन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1319	U99999DL1986PTC024504	ऊषा ऑटो स्पॅर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1320	U99999DL1986PTC024506	अलाईड प्लास्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1321	U24239HR1986PTC024523	बी के मेदीकेअर प्राईवेट. लिमिटेड.
1322	U24216DL1986PTC024526	स्टानक्र ऑर्गानिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1323	U51505DL1986PTC024535	शारयाद ट्रेडिंग एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1324	U51909DL1986PTC024538	यादव ट्रेडिंग एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1325	U74140DL1986PTC024553	ए.ए. मॅनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1326	U99999DL1986PTC024555	साकर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1327	U25206DL1986PTC024577	प्रोसिशन पॉलीटेक इन्डस्ट्रीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1328	U99999DL1986PTC024596	नोवा शुस प्राईवेट. लिमिटेड.
1329	U63040DL1986PTC024599	स्काईवेन्चर ट्रेवल इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1330	U24239HR1986PTC024606	आविद फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1331	U99999DL1986PTC024620	वर्यात डायमन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड.
1332	U74210DL1986PTC024658	मन्जुला डिझाइन सेंटर प्राईवेट. लिमिटेड.
1333	U99999DL1986PTC024659	सी.एस.मोदी एण्ड कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1334	U17113DL1986PTC024700	विनेक्स वूलेन इन्डस्ट्रीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1335	U99999DL1986PTC024746	सचदेव एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1336	U99999DL1986PTC024776	शान सौन्ड सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1337	U99999DL1986PTC024777	एम जय मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
1338	U99999DL1986PTC024782	पेरियार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1339	U41000DL1986PTC024803	चेक वाटर प्राईवेट.लिमिटेड.
1340	U70109DL1986PTC024822	भाटिया एण्ड कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
1341	U99999DL1986PTC024828	क़र्यो इन्व्हीमेन्ट ट्रान्सपोर्ट बंद कम्प्रेस्सिंग को.प्राईवेट लिमिटेड.
1342	U31101DL1986PTC024851	एम.जी. पॉवर सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1343	U51101DL1986PTC024864	रचना एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1344	U51310DL1986PTC024903	हरकिशन लाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
1345	U99999DL1986PTC024911	युनाईटेड एक्स्को इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1346	U28099DL1986PTC024930	फ़ेड्स लोकिंग देविसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1347	U99999DL1986PTC024971	राजेश्वर दयाल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1348	U29200DL1986PTC024984	ग्रॅ एन्जीन्यरींग प्राईवेट. लिमिटेड.
1349	U99999DL1986PTC024995	प्राईम देविसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1350	U99999DL1986PTC025018	नोर्थ इंडिया एन्जीन्यरींग वर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1351	U25209DL1986PTC025043	सुर्य सीनटेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1352	U65993DL1986PTC025057	बेटा फ़ाक्स्टेल प्राईवेट. लिमिटेड.
1353	U99999DL1986PTC025063	हीनदान होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1354	U99999DL1986PTC025070	आशीष इन्डस्ट्रियल मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1355	U45202HR1986PTC025083	जामनिकहीरा बील्डज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1356	U65992DL1986PTC025085	वस्को एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1357	U20101DL1986PTC025089	बहूबलिदेवेलोपज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1358	U45203DL1986PTC025113	ओपल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1359	U45203DL1986PTC025115	मीनटेक बील्डज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1360	U99999DL1986PTC025134	ब्लू लाईन बील्डज़ प्राईवेट. लिमिटेड.

1361	U24231DL1986PTC025138	लियाबले टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राईवेट. लिमिटेड.
1362	U45203DL1986PTC025157	अन्नू बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1363	U70101DL1986PTC025177	बाठला अपार्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1364	U74140DL1986PTC025185	बी.एम.सी. फायनान्सियल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1365	U74210DL1986PTC025218	मान युतिलिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1366	U18101DL1986PTC025231	ग्लामोर ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1367	U19201DL1986PTC025244	रुचीका फ़ूटवीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1368	U70101DL1986PTC025254	केला सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1369	U27101DL1986PTC025259	खंडेलवाल इसपाट प्राईवेट. लिमिटेड.
1370	U70101DL1986PTC025281	शिवानी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1371	U55101DL1986PTC025288	प्रशांत मंदाकिनी होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1372	U99999DL1986PTC025290	स्वामी ओक्सीजन प्राईवेट. लिमिटेड.
1373	U24121DL1986PTC025300	कतो पॉलिश इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1374	U28996DL1986PTC025304	स्वीटहोम अणिलआन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1375	U99999DL1986PTC025311	हवील ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1376	U63040DL1986PTC025315	इंटर पोईत ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1377	U25209DL1986PTC025329	दुरहा मशीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1378	U17229DL1986PTC025340	ड्रीम फ़्लोर कारपेट प्राईवेट. लिमिटेड.
1379	U74140DL1986PTC025381	इम्पैक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1380	U17111DL1986PTC025383	बुद्ध ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1381	U30007DL1986PTC025393	जे डो कोम्पेट प्राईवेट. लिमिटेड.
1382	U99999DL1986PTC025408	अमित फ़ास्टर्न इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1383	U15312HR1986PTC025430	चुग(इंडिया)अग्रवाल राईस मीलर प्राईवेट. लिमिटेड.
1384	U27101DL1986PTC025433	आनंद फ़ॉर्गिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1385	U99999DL1986PTC025453	सबिसा ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1386	U21014DL1986PTC025461	अप्पले पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1387	U99999DL1986PTC025479	परमार कैमिकल्स एण्ड फ़र्टिलीज़र प्राईवेट. लिमिटेड.
1388	U24322DL1986PTC025489	केमिकसोन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1389	U92113DL1986PTC025502	ट्वेंटी फ़र्स्ट सेन्चरी स्टडियोस प्राईवेट. लिमिटेड.
1390	U32101DL1986PTC025503	वूडू एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1391	U74210DL1986PTC025521	काबा कन्सलतन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1392	U99999DL1986PTC025535	नर्बदा स्क्वल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1393	U51909DL1986PTC025559	ऊनीको मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1394	U51909DL1986PTC025585	वेगितमिन्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1395	U51909DL1986PTC025587	नतूरल हैल्थ फ़ार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1396	U99999DL1986PTC025589	इंडियन साफ़्टी मैचस कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1397	U74300DL1986PTC025615	अडवर्थ पब्लिक रेलेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
1398	U30007DL1986PTC025616	इन्वोवेटिवे सॉफ़्टवेयर रेसोर्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1399	U19116HR1986PTC025617	संजय लीटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1400	U74300DL1986PTC025640	शेम्स कम्प्युनिकेशन्स अम्बित प्राईवेट. लिमिटेड.
1401	U31300DL1986PTC025642	मेहरो केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1402	U99999DL1986PTC025669	सैनसन कार्गो एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1403	U99999DL1986PTC025674	नोर्थ साउथ अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1404	U99999DL1986PTC025681	बॉसै कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.

1405	U05002DL1986PTC025772	यू.आर.फिशेरिस प्राईवेट लिमिटेड.
1406	U24231DL1986PTC025793	राजस्थान इन्सोकिटसिदेस प्राईवेट लिमिटेड.
1407	U72309DL1986PTC025805	बनकंपिटल सीस्तेक प्राईवेट लिमिटेड.
1408	U31909DL1986PTC025816	जनएरिक हर्दवारे प्राईवेट लिमिटेड.
1409	U99999DL1986PTC025819	लक्ष्मण दास जय किशन दास एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
1410	U99999DL1986PTC025822	दूरअबले टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1411	U99999DL1986PTC025833	टोयऑटोआ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1412	U24299DL1986PTC025843	कॉस्मोलॉब फ़ोर्मूलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
1413	U99999DL2000PTC025850	उदय एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1414	U74140DL1986PTC025892	जी.एस.अस्सोसिएटेड प्राईवेट लिमिटेड.
1415	U99999DL1986PTC025899	दीपा पेंकेजींग एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1416	U99999DL1986PTC025946	अनुपमा नूरसेरी एण्ड फ़ार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1417	U99999DL1986PTC025948	कोन्कोर कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1418	U99999DL1986PTC025969	जिंदल फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड.
1419	U34105DL1986PTC026001	पाए मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1420	U93090DL1986PTC026009	नान्वीक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
1421	U51109DL1986PTC026011	तलवार ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1422	U99999DL1986PTC026016	अड्न्मार्क कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1423	U99999DL1986PTC026027	व्ट फार्मकोन लेबोरतियरीस प्राईवेट लिमिटेड.
1424	U99999DL1986PTC026059	अमित प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड.
1425	U99999DL1986PTC026078	वेल्वीशेर कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1426	U22219DL1986PTC026096	राजसन स्पॉटेक्स मोल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1427	U51311DL1986PTC026108	मेक्रो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1428	U99999DL1986PTC026126	हिंद कम्प्यूटर्ज तेले कम्युनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड.
1429	U63040DL1986PTC026133	तोशर ट्रेवल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1430	U99999DL1986PTC026136	इंदु कोमुटर्ज एण्ड मैनेजमेन्ट सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
1431	U99999DL1986PTC026145	नानक ऑटो पाटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1432	U99999DL1986PTC026147	पोपुलर हाऊझींग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1433	U99999DL1986PTC026163	एस.एस.पेपर प्रिंट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1434	U72200DL1986PTC026167	अप्लिकोन कम्प्यूटर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1435	U34300DL1986PTC026177	माच्छलेस रेडियेटर प्राईवेट लिमिटेड.
1436	U74140DL1986PTC026219	एन एम डी कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1437	U99999DL1986PTC026248	शीव शंकर बौलडर्ज एण्ड प्रोमोटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1438	U99999DL1986PTC026274	डेल्टा प्रोटेन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1439	U99999DL1986PTC026282	श्री गिरधारी फ़ौन्डारी एण्ड वर्क शॉप प्राईवेट. लिमिटेड.
1440	U26109DL1986PTC026285	वार्शनेय ग्लास प्राईवेट. लिमिटेड.
1441	U18101DL1986PTC026296	क्लासिक हांडीक्राफ़्ट्स एंपोरिअम प्राईवेट. लिमिटेड.
1442	U99999DL1986PTC026304	एंपायर मेटल्स एण्ड कर्मांडिटिज प्राईवेट. लिमिटेड.
1443	U99999DL1986PTC026308	हिंदुस्तान अपाएल प्राईवेट. लिमिटेड.
1444	U74210DL1986PTC026309	प्रि अविआ टेक प्राईवेट. लिमिटेड.
1445	U99999DL1986PTC026340	तोफ़्ट लॅक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1446	U70101DL1986PTC026356	घज़ियाबाद देवेलोपर्ज प्राईवेटलिमिटेड
1447	U99999DL1986PTC026369	अलाईद कॉन्ट्रैक्ट्स एण्ड इंटरकन्सल्ट प्राईवेट लिमिटेड
1448	U99999DL1986PTC026381	कनिका होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.

1449	U99999DL1986PTC026391	ब्रको एन्जीन्यरिंग वक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1450	U51909DL1986PTC026394	जी.सी. खन्ना एण्ड कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1451	U99999DL1986PTC026407	ईशाणी ऑटो प्राईवेट. लिमिटेड.
1452	U99999DL1986PTC026409	एस.आर. मिन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1453	U34300DL1986PTC026419	टेक्नोकोम अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1454	U99999DL1986PTC026426	वीम्सा स्क्वल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1455	U19202DL1986PTC026442	नोवा पॉलीमर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
1456	U99999DL1986PTC026447	हप्प मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1457	U99999DL1986PTC026475	जगदंबा प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1458	U99999DL1986PTC026489	स्टेप उप अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1459	U99999DL1986PTC026493	मौलीमेक्स किचन एड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1460	U51109DL1986PTC026497	लॉटेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1461	U99999DL1986PTC026501	अबले कम्प्यूटर फ़ॉर्मस प्राईवेट. लिमिटेड.
1462	U63090DL1986PTC026506	पेफ़ेक्ट हांद्लींग एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1463	U72200DL1986PTC026521	इन्वोवीजन मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1464	U99999DL1986PTC026532	सेफ़ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1465	U99999DL1986PTC026549	बाबु ठेकर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1466	U99999DL1987PTC026562	किछा ऑर्गेनिक कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1467	U99999DL1987PTC026564	प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1468	U51909DL1987PTC026569	फ़ेमस सेल्स एण्ड मार्केटिंग को प्राईवेट लिमिटेड
1469	U99999DL1987PTC026570	तांबी एरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1470	U99999DL1987PTC026592	बालाजी फ़ार्मस प्राईवेट लिमिटेड
1471	U26931DL1987PTC026611	परसुराम ब्रिक कील्न प्राईवेट लिमिटेड
1472	U31300DL1987PTC026626	श्री कैलाश मनसरोवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1473	U99999DL1987PTC026666	स्टर्लिंग ओईल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1474	U51311DL1987PTC026672	माया हाऊस होल्ड अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1475	U99999DL1987PTC026687	एंपेक्स कॉर्पोरेट अडिक्सोर्स प्राईवेट लिमिटेड
1476	U99999DL1987PTC026704	साग अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1477	U31900DL1987PTC026809	त्रिवेनी मिक्रोकिकुइल्स प्राईवेट लिमिटेड
1478	U99999DL1987PTC026837	श्रीव शक्ती इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1479	U70101DL1987PTC026838	बुद्धविहार हाऊज़िंग एण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1480	U99999DL1987PTC026853	ओमेसिआ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1481	U99999DL1987PTC026875	सर्वोदय प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1482	U99999DL1987PTC026884	के.एन.डी. स्टील इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1483	U99999DL1987PTC026896	ट्रावेसे टूल्स एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1484	U15319DL1987PTC026905	गजानंद फ़्लौर मील्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1485	U45201DL1987PTC026908	सनराईज़ रियल इस्टेट प्राईवेट. लिमिटेड.
1486	U63040DL1987PTC026917	सत प्रोपर्टीस एण्ड बील्डिंज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1487	U36999DL1987PTC026933	इन्सुलटेक इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1488	U18101DL1987PTC026943	अर्चना हांडीक्राफ़्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1489	U74140DL1987PTC026951	एल के आर इम्पेक्स एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1490	U99999DL1987PTC026975	इलु मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1491	U51506DL1987PTC026976	रेन्ज कम्प्यूटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1492	U74999DL1987PTC026987	सुप्रिम स्कॅनिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.

1493	U15201DL1987PTC026988	शारदा आईस फ्रैक्टरी प्राईवेट. लिमिटेड.
1494	U99999DL1987PTC026990	हय्सेकरिती सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1495	U51311DL1987PTC027019	अर्थ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1496	U74210DL1987PTC027037	युनाईटेड अपार्टमेंट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1497	U99999DL1987PTC027052	क्रीटिव टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1498	U99999DL1987PTC027109	कारनिक एन्जीन्यरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1499	U99999DL1987PTC027111	कनसन्स प्लास्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1500	U99999DL1987PTC027134	स्टेलर कलेंदर्स एण्ड प्लानर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1501	U36999DL1987PTC027146	शिवकरण फिशोरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
1502	U74210DL1987PTC027208	स्नेह कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1503	U72200DL1987PTC027218	अंटलास कोमुटर्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1504	U99999DL1987PTC027242	ऊनिग्रॉफिक इक्विप्मेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1505	U99999DL1987PTC027280	अतुलित एजन्सीस इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1506	U99999DL1987PTC027289	गिल ऑटो इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
1507	U74210DL1987PTC027306	जे के स्टील इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1508	U99999DL1987PTC027308	कमन ओबरायसन डिगिंग एण्ड प्रोसेस्सिंग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1509	U51398DL1987PTC027309	प्रिया शिपब्रेकर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1510	U99999DL1987PTC027348	रॉयल ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
1511	U70109DL1987PTC027442	आर वी देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1512	U99999DL1987PTC027484	सिरोही सीन्टेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1513	U99999DL1987PTC027510	अपरइंद फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
1514	U99999DL1987PTC027518	ऊनिग्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1515	U99999DL1987PTC027538	खंडेलवाल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1516	U99999DL1987PTC027556	एंड बजार (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1517	U45202DL1987PTC027605	शर्मा देवेलोपर्स एण्ड कोलोनिजर्स प्राईवेट.लिमिटेड
1518	U51109DL1987PTC027630	के चून कोन्वेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1519	U45201DL1987PTC027646	नंदीनी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1520	U99999DL1987PTC027647	फ्रेंड्स रोलिंग मील्स प्राईवेट लिमिटेड
1521	U99999DL1987PTC027650	सन्नृफिंग शीट्स प्राईवेट लिमिटेड
1522	U99999DL1987PTC027671	विक्टर एन्जीन्यरिंग को प्राईवेट लिमिटेड
1523	U99999DL1987PTC027674	के एण्ड के पॉसिडक प्राईवेट लिमिटेड
1524	U99999DL1987PTC027680	सुपर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1525	U51909DL1987PTC027689	आत्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1526	U31402DL1987PTC027690	सूम्मीत एक्कमूलाटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1527	U15139DL1987PTC027691	हप्ल फूड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1528	U99999DL1987PTC027714	उष्णते फर्मसटिकल्स प्राईवेट-लिमिटेड
1529	U19202DL1987PTC027717	गेनुइन लेंडर प्राईवेट लिमिटेड
1530	U27109DL1987PTC027724	ऊनीसर्व पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
1531	U63040DL1987PTC027736	सेन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1532	U74140DL1987PTC027742	वहाल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1533	U36991DL1987PTC027754	हेट टो हेट कार्ड को प्राईवेट लिमिटेड
1534	U15549DL1987PTC027763	पेप ड्रिन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
1535	U51432DL1987PTC027783	अमा बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
1536	U99999DL1987PTC027808	टीना पलास प्राईवेट लिमिटेड

1537	U99999DL1987PTC027832	प्रेरित स्पोर्ट्स एण्ड एन्जीनियरींग प्राईवेट लिमिटेड
1538	U99999DL1987PTC027834	ग्रेस फूटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
1539	U99999DL1987PTC027855	अर्थिक्स पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
1540	U22121DL1987PTC027900	प्र पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1541	U29305DL1987PTC027905	गोवर होम अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1542	U71110DL1987PTC027950	फ्रलकॉन कार रेन्टल प्राईवेट लिमिटेड
1543	U99999DL1987PTC027954	लाल ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1544	U18101DL1987PTC027964	फर्स्ट रेसौक प्राईवेट लिमिटेड
1545	U51909DL1987PTC027996	लियाबले ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1546	U99999DL1987PTC028011	अल्कोन लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड
1547	U99999DL1987PTC028022	कम्प्युटर लैंड प्राईवेट लिमिटेड
1548	U99999DL1987PTC028078	इन्डस टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
1549	U18101DL1987PTC028087	परीक्षा फ्रेंशन सव्ट लिमिटेड
1550	U28997DL1987PTC028110	रतन अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
1551	U51909DL1987PTC028117	वरुण अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1552	U99999DL1987PTC028122	ए सी के अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1553	U24139DL1987PTC028128	क्वालिटी सीनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1554	U99999DL1987PTC028130	शुभम फ्रोम्स प्राईवेट लिमिटेड
1555	U27109DL1987PTC028132	ए आर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
1556	U99999DL1987PTC028155	मनहल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1557	U51909DL1987PTC028156	जेकपोट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1558	U99999DL1987PTC028169	सबीज पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
1559	U74110DL1987PTC028177	फ्रिकोन सर्वोसीज प्राईवेट लिमिटेड
1560	U99999DL1987PTC028188	दुर्गा पॉली पैक इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1561	U99999DL1987PTC028196	सेफ्टी स्टील्स रोपेस प्राईवेट लिमिटेड
1562	U01122DL1987PTC028204	मिड मॅक बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1563	U99999DL1987PTC028209	केवन्स क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड
1564	U85110DL1987PTC028214	एस.बी. हेल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
1565	U99999DL1987PTC028215	वी.के. कस्तीजा अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1566	U99999DL1987PTC028216	किक्स अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1567	U30007DL1987PTC028226	प्लुस कम्प्युटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1568	U25112DL1987PTC028239	अक्षय ऑटो ट्यूब्स एण्ड रबबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1569	U99999DL1987PTC028258	लाहोर मोटर ड्राईवींग कॉलेज प्राईवेट लिमिटेड
1570	U25111DL1987PTC028262	सचदेव रबबर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1571	U99999DL1987PTC028299	रविन्द्र प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1572	U99999DL1987PTC028319	सोनी फ्रेट कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
1573	U15311DL1987PTC028320	घज़ियाबाद फ़्लौर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
1574	U63040DL1987PTC028322	फ़ेसिलिटेशन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1575	U99999DL1987PTC028331	सुनयना हाऊज़िंग को प्राईवेट लिमिटेड
1576	U74140DL1987PTC028357	ग्लोबेफ़न (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1577	U25209DL1987PTC028359	शाह केन प्राईवेट लिमिटेड
1578	U99999DL1987PTC028392	मिल्टन कीस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1579	U99999DL1987PTC028405	न्यू रॉयल फ़ायर वर्क्स मैन्युफ़ैक्चररज प्राईवेट लिमिटेड
1580	U65921DL1987PTC028407	सामरिका फ़र्निचर प्राईवेट लिमिटेड

1581	U99999DL1987PTC028428	क्राउन ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1582	U99999DL1987PTC028436	स्ट्रिट्ट इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1583	U99999DL1987PTC028440	गिरिराज ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1584	U99999DL1987PTC028449	ओड्र ट्रैवल्स एण्ड कार्गो मोज़र्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1585	U99999DL1987PTC028453	प्रेसितेक देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1586	U45201DL1987PTC028456	सूमंगलम बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1587	U27105HR1987PTC028463	कालका रोलर फ़्लौर मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1588	U19129DL1987PTC028483	नवीन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1589	U99999DL1987PTC028490	कूललेन्बर्ग हजोर्थ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1590	U45201DL1987PTC028520	रज़ा एण्ड रया को प्राईवेट लिमिटेड
1591	U30007DL1987PTC028533	सार टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1592	U99999DL1987PTC028567	इमेजोर प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1593	U99999DL1987PTC028615	बबल्स अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1594	U45200DL1987PTC028624	अशोक कमल कंपिटल बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1595	U99999DL1987PTC028627	सिल्गा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1596	U99999DL1987PTC028640	फोरवेज़ टूर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1597	U24232DL1987PTC028668	ऊनिमेक लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड
1598	U99999DL1987PTC028705	ऊनी बाल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1599	U24222DL1987PTC028708	टी.सी. गुलियानी एण्ड को प्राईवेट लिमिटेड
1600	U99999DL1987PTC028709	गणपति जेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1601	U99999DL1987PTC028715	जनप्रिय अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1602	U99999DL1987PTC028717	हरि चांद जय राम शाह प्राईवेट लिमिटेड
1603	U20299DL1987PTC028734	सत्य प्लाइवूड इन्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
1604	U99999DL1987PTC028751	कोहिनूर रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1605	U99999DL1987PTC028767	मेवाट ग्रित उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
1606	U63040DL1987PTC028780	कोन्दूर ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1607	U99999DL1987PTC028784	अब्स एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1608	U99999DL1987PTC028800	जगदंबा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
1609	U51909DL1987PTC028820	मेकबर अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1610	U15141DL1987PTC028829	नीतू शाह रेफ़ाईनरी प्राईवेट लिमिटेड
1611	U99999DL1987PTC028830	डेल्टा डीझाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
1612	U92120DL1987PTC028837	विस्तार प्रेसेन्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1613	U34300DL1987PTC028845	रेस्वी एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1614	U51909DL1987PTC028852	परगांव पैट्स एण्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1615	U99999DL1987PTC028857	पी के फ़ूल्ड्री फ़ार्म प्राईवेट लिमिटेड
1616	U33203DL1987PTC028861	आर के ओप्टिकल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1617	U99999DL1987PTC028869	फोर सीसन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1618	U99999DL1987PTC028873	ओप्टिमा इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1619	U99999DL1987PTC028890	कॉन फ्रेट प्राईवेट लिमिटेड
1620	U45201DL1987PTC028896	स्लफ़ बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1621	U63040DL1987PTC028905	शिवानी ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1622	U99999DL1987PTC028938	खैतान फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1623	U51501DL1987PTC028998	विक्टर फ़ॉर्गिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1624	U99999DL1987PTC029016	सुबेर सी विटमिन्स प्राईवेट लिमिटेड

1625	U27104DL1987PTC029018	डायमन्ड फ़ास्टनर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1626	U51221HR1987PTC029029	क्राज़ी फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
1627	U19119DL1987PTC029030	सिटी प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
1628	U99999DL1987PTC029089	रिसिंह स्टार इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1629	U99999DL1987PTC029092	शारदा होमियो लेबॉरेटरिस प्राईवेट लिमिटेड
1630	U99999DL1987PTC029099	किंग्स अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1631	U99999DL1987PTC029101	निर्मला फ़र्टिलीज़र एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1632	U33130DL1987PTC029109	द्वेनेउजेन एन्जिनरिंग प्राईवेट लिमिटेड
1633	U92114DL1987PTC029116	स्पार्क कलर लॅब प्राईवेट लिमिटेड
1634	U63040DL1987PTC029123	स्काण्ड इन्वियान ओवरसीज़ ट्रैवल्स एण्ड ट्रावे प्राईवेट लिमिटेड
1635	U99999DL1987PTC029124	मुकेश वायर नेटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1636	U99999DL1987PTC029150	अलारी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1637	U99999DL1987PTC029159	मून प्रिंटर्ज एण्ड पुब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
1638	U23201DL1987PTC029203	एस. ऑटोमोबाइल्स स्पेशीयलिटीस एण्ड लुब्रिकैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1639	U28112DL1987PTC029222	एस्स वी एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1640	U99999DL1987PTC029226	इन्साफ़ एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1641	U99999DL1987PTC029231	डी.ए. प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1642	U32101DL1987PTC029241	ट्रिउणे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1643	U70101DL1987PTC029245	अवंती इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1644	U70101DL1987PTC029247	गोमती इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1645	U31200DL1987PTC029266	एस.एम. कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1646	U17119HR1987PTC029268	आर.सी. वूलेन इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1647	U52322DL1987PTC029269	विक्टर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1648	U45202DL1987PTC029294	केशा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1649	U99999DL1987PTC029306	सुभ पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1650	U25201DL1987PTC029314	एस.एस. अन्विलारीस निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
1651	U99999DL1987PTC029321	एडमको एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1652	U99999DL1987PTC029329	गुजरातिया बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1653	U99999DL1987PTC029337	अफ़र एनर्जी एण्ड फ़ुएल्स प्राईवेट लिमिटेड
1654	U70109DL1987PTC029353	क्लस इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1655	U15209DL1987PTC029386	बन्ना होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1656	U15139HR1987PTC029407	सुमित्रा ब्रेवेरिस प्राईवेट लिमिटेड
1657	U99999DL1987PTC029413	साउथ एशिआ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
1658	U52396DL1987PTC029445	सुनीता अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1659	U99999DL1987PTC029452	सरस्वती टैक्सटाइल इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1660	U99999DL1987PTC029477	एल आर टायर इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1661	U99999DL1987PTC029519	कैपिटल स्किन को प्राईवेट लिमिटेड
1662	U51109DL1987PTC029545	एम अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1663	U99999DL1987PTC029559	कॉन्कियोउस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1664	U63040DL1987PTC029573	पेरामाउन्ट एअर टूथ एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
1665	U63090DL1987PTC029650	फ़ास्ट मोवर्ज कागो एजट्स प्राईवेट लिमिटेड
1666	U18101DL1987PTC029667	एफ़पी किनट्रिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1667	U92112DL1987PTC029676	आर्कति माधवीसीओन प्राईवेट लिमिटेड
1668	U99999DL1987PTC029690	नेवरा सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड

1669	U24238DL1987PTC029692	टिडको अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1670	U45201DL1987PTC029696	नारायण बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1671	U99999DL1987PTC029709	एस.के. कोकेरिस प्राईवेट लिमिटेड
1672	U99999DL1987PTC029736	प्रत्याभूत अवस वीकास प्राईवेट लिमिटेड
1673	U51226DL1987PTC029814	लेक्टोपेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1674	U99999DL1987PTC029835	ए.जे. विनट्रिंग मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1675	U99999DL1987PTC029843	ऊनी इन्स्युरेंस प्लनर्ज एण्ड इंडेमिती कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1676	U52190DL1987PTC029863	सुमति एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1677	U31909DL1987PTC029868	ऊनिटेक कन्ट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1678	U74210DL1987PTC029875	तलुपुल एन्जीन्यरींग कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड
1679	U18101DL1987PTC029876	फ्रेशनवेज ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1680	U99999DL1987PTC029879	गीता फ्रुट्स एण्ड वेजेटेब्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1681	U99999DL1987PTC029888	ए एल गासेस प्राईवेट लिमिटेड
1682	U74210DL1987PTC029893	बी.इ. सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड
1683	U99999DL1987PTC029987	ए एस ए रब्वर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1684	U32109HR1987PTC029997	ए.ए. टेक्नोलोजी २००० प्राईवेट लिमिटेड
1685	U99999DL1987PTC029999	हिम सिलेन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1686	U32201DL1987PTC030002	मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1687	U45201DL1987PTC030014	प्रियादर्शीनि बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1688	U51109DL1987PTC030069	स्पुटिनक एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1689	U99999DL1987PTC030149	जे डी एम एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1690	U31300DL1988PTC030171	हिमालय टेलीकोड्स प्राईवेट लिमिटेड
1691	U15135HR1988PTC030189	चैम्पियन एडिबले प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड
1692	U01119HR1988PTC030197	जवार फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
1693	U26921HR1988PTC030198	आर्य सिरॅमिक्स इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1694	U33119DL1988PTC030219	बीला होस्पिलेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1695	U99999DL1988PTC030222	प्रेकोन कन्ट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1696	U22219HR1988PTC030224	एमसन्स प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
1697	U01409DL1988PTC030232	वतिका इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1698	U27202HR1988PTC030234	सुपर-टेक वायर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1699	U29299DL1988PTC030239	ए टो झेड इंजीनियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1700	U99999DL1988PTC030257	क्रक्ट्रो-डिगीटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1701	U32300DL1988PTC030285	बब्बर वीजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1702	U99999DL1988PTC030293	त्रिजन कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1703	U01405HR1988PTC030308	जी.बी. गिब्रिना प्रेस्सिंग एण्ड ओईल मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
1704	U25202HR1988PTC030326	दत्त पॅक-ओ-प्रॉट प्राईवेट लिमिटेड
1705	U55101HR1988PTC030335	शबनम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1706	U74999HR1988PTC030346	रोमा प्रोफाईल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1707	U31300HR1988PTC030356	सिया राम एलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
1708	U99999DL1988PTC030359	पराग फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1709	U26915HR1988PTC030382	जैन सिरॅमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1710	U99999DL1988PTC030410	सीनरगी टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
1711	U31300DL1988PTC030416	कनिष्क केबल्स एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
1712	U99999DL1988PTC030440	मनोरमा वैद एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड

1713	U17110HR1988PTC030446	ए.वी. टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1714	U33125DL1988PTC030449	हरियाणा सायन्टिफिक को प्राईवेट लिमिटेड
1715	U15311HR1988PTC030450	पेक्स रोलर फ़्लोर मील्स प्राईवेट लिमिटेड
1716	U99999DL1988PTC030462	न्यू इंडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1717	U99999DL1988PTC030474	जेकी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1718	U99999DL1988PTC030476	वेन्चर कम्प्यूटैनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
1719	U70101HR1989PTC030499	स्टार लैंड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1720	U99999DL1988PTC030524	ऊनिफ़िकल हाऊज़िंग एण्ड प्रोजेक्ट्स सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1721	U31909DL1988PTC030530	अस्सोसिएटेड इंटरकॉम सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड
1722	U31101HR1989PTC030555	इराम एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1723	U24294HR1989PTC030584	मेघा मुसिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1724	U22110DL1988PTC030590	केसन्स प्रिंटेज प्राईवेट लिमिटेड
1725	U99999DL1988PTC030602	क्लासिक कोलेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
1726	U45203DL1988PTC030604	विश्वकर्मा कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1727	U01111HR1989PTC030607	पी दी अंग्रो इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड.
1728	U14291HR1989PTC030628	ब्लैक डायमंड मिन्स एण्ड ग्राणौट प्राईवेट लिमिटेड.
1729	U99999DL1988PTC030638	जगदंबा स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
1730	U99999DL1988PTC030644	राज गणेश फ़िनान्सिएज (पी) लिमिटेड
1731	U80301DL1988PTC030666	ऊनिवक सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1732	U29230HR1989PTC030668	लक्ष्मी रिसर्च लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड.
1733	U35301DL1988PTC030675	इम्प्रिमीस ट्रिडेंट प्राईवेट लिमिटेड
1734	U99999DL1988PTC030689	हिंदुस्तान रोलिंग शूटिंग एण्ड एन्जीन्यरींग वर्क्स (पी) लिमिटेड
1735	U99999DL1988PTC030696	श्याम मेच-इक्वीप प्राईवेट लिमिटेड
1736	U34300HR1989PTC030700	मयानी ऑटो इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड.
1737	U99999DL1988PTC030705	शारदा एण्ड अस्सोसिएट्स को प्राईवेट लिमिटेड
1738	U17115DL1988PTC030715	सचदेव ओवरसीज (पी) लिमिटेड
1739	U99999DL1988PTC030740	के विडिओटेक प्राईवेट लिमिटेड
1740	U99999DL1988PTC030759	रुचीका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
1741	U99999DL1988PTC030761	सिग्नेट लीडरिटे प्राईवेट लिमिटेड
1742	U29120DL1988PTC030767	फ़्लौएरी कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड
1743	U74210DL1988PTC030768	डी.ए. इन्डस्ट्रियल कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1744	U70101DL1988PTC030780	राहुल प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1745	U60231DL1988PTC030786	रफ़को रोडवेज (पी) लिमिटेड
1746	U74300DL1988PTC030817	एडविस कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1747	U70101DL1988PTC030837	पेलिकन बील्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
1748	U99999DL1988PTC030914	स्वरमील अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1749	U99999DL1988PTC030925	ग्राफ़िक पेस्टिसिड्स प्राईवेट लिमिटेड
1750	U34300HR1990PTC030960	रोस स्टीरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड.
1751	U99999DL1988PTC030973	आर.आर.मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
1752	U55101DL1988PTC030994	फेअरवे होटेल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
1753	U99999DL1988PTC031000	एस ए एल शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
1754	U36991HR1990PTC031005	मोना स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1755	U24232HR1990PTC031027	पेंटरनल फ़र्मसाइकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1756	U99999DL1988PTC031027	भूलटिपले कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1757	U51490HR1990PTC031064	अरावली एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1758	U99999DL1988PTC031073	क्रिस्पी एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1759	U24299DL1988PTC031121	हंसा ओईल को प्राईवेट लिमिटेड
1760	U99999DL1988PTC031150	डेल्टा पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1761	U99999DL1988PTC031173	माच्छेस एअरकंडिशनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1762	U18101DL1988PTC031176	क्रफ़ाब एक्सपोर्ट्स पी. लिमिटेड.
1763	U74999HR1991PTC031185	बी.आर. गासेस प्राईवेट.लिमिटेड.
1764	U26910HR1991PTC031206	कुसुम सिरॅमिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1765	U60231DL1988PTC031207	अब्क कार्गो कैरिअर्स पी. लिमिटेड.
1766	U99999DL1988PTC031232	मास्टर कास्सेटी पी. लिमिटेड.
1767	U63090DL1988PTC031246	अब्क फ़्रेटज़ पी. लिमिटेड.
1768	U17297HR1991PTC031263	चारले स्पीनरज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1769	U99999DL1988PTC031283	कुणाल लॅड एण्ड कोलोनिअर्ज़ पी. लिमिटेड.
1770	U99999DL1988PTC031288	सुभ कन्सलतन्ट्स पी. लिमिटेड.
1771	U31300HR1991PTC031319	आर.बी.सी. स्मेल्टिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
1772	U99999DL1988PTC031325	इस्टेंड इम्पेक्स पी. लिमिटेड.
1773	U51226DL1988PTC031389	गणेश पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
1774	U70100HR1991PTC031396	रस्तोगी बील्डज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
1775	U99999DL1988PTC031431	पनोरमिक मंत्रेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1776	U99999DL1988PTC031441	स्क एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड.
1777	U17297HR1991PTC031442	जे.पी. टैक्सटाईल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1778	U45201DL1988PTC031447	शीव इन्डस्ट्रिअल रिसर्च एण्ड देवलपमेन्ट कन्सलतन्ट्स पी. लिमिटेड.
1779	U99999DL1988PTC031448	दिपन्क मार्केटिंग अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1780	U99999DL1988PTC031450	सोनू एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1781	U70101DL1988PTC031467	झंकार कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड.
1782	U99999DL1988PTC031478	प्रोमिनेंट वरुल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड.
1783	U74999HR1991PTC031484	स्कम्स एक्सपो इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
1784	U29120DL1988PTC031488	देव लिके इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1785	U15544HR1991PTC031490	वशिष्ठ आईस एण्ड कोल्ड स्टोर्गे प्राईवेट.लिमिटेड.
1786	U51909DL1988PTC031509	दलीप ओईल इन्डस्ट्रिअस प्राईवेट लिमिटेड.
1787	U99999DL1988PTC031514	जे आर म्युझिक प्राईवेट लिमिटेड.
1788	U24299DL1988PTC031521	शिवालिक पैट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1789	U21012DL1988PTC031535	नव भारत पूलप्स प्राईवेट लिमिटेड.
1790	U72200DL1988PTC031537	अनुज सॉफ़्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड.
1791	U74999DL1988PTC031553	हुबे लिघ्टेर एअर प्राईवेट लिमिटेड.
1792	U24246HR1992PTC031587	रन्स एण्ड दोलीस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1793	U21014HR1992PTC031604	राजसन ठर्मोपॅक प्राईवेट.लिमिटेड.
1794	U74999DL1988PTC031609	के एम सोफ़्टेक प्राईवेट लिमिटेड.
1795	U31900DL1988PTC031612	टेक्नोक्रेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1796	U32109DL1988PTC031618	ओलिम्पस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1797	U74999DL1988PTC031635	बंसल फ़र्निचर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड.
1798	U19201DL1988PTC031638	फ़िक्सवेल फ़ूटवीस प्राईवेट लिमिटेड.
1799	U99999DL1988PTC031653	भूपेंद्र बील्डज़ एण्ड डिज़ाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड.
1800	U26933HR1992PTC031657	सर्वेश्वर सिरॅमिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.

1801	U27109DL1988PTC031661	जेनोन ट्रेड लीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड.
1802	U99999DL1988PTC031693	ल्ल मार्केट लीन्क प्राईवेट लिमिटेड.
1803	U65921DL1988PTC031701	फुहर बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1804	U99999DL1988PTC031711	चीवालीका बील्डर्ज एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1805	U24241HR1992PTC031731	जे.टी. हेल्थ केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
1806	U27109HR1992PTC031735	सुपरहित ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
1807	U74140DL1988PTC031738	फ्रिन्ग्रो कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1808	U99999DL1988PTC031757	बीजमन फ्रामको प्रिंटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1809	U29120HR1992PTC031762	सीको प्लेउमटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1810	U17222DL1988PTC031766	जेफीर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1811	U74910HR1992PTC031777	यासीन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1812	U25199HR1992PTC031802	नू-पोलिट जोईटींग्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
1813	U13204DL1988PTC031813	ट्रेंड सेटर्ज माटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1814	U99999DL1988PTC031829	सतलाईट बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1815	U99999DL1988PTC031832	मॉनिंग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1816	U85110HR1992PTC031836	चंद्रवती होस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
1817	U24239HR1992PTC031843	निष्कोन कॅमिकल्स एण्ड फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1818	U99999DL1988PTC031843	अमर प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
1819	U51909DL1988PTC031864	पॉलीगोन होटेल इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1820	U74140DL1988PTC031874	इ.मेक्स कर्मेकियोतेक प्राईवेट लिमिटेड
1821	U51100DL1988PTC031878	श्रेष्ठ इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1822	U99999DL1988PTC031883	महेश्वरी यार्न सप्लाय एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1823	U99999DL1988PTC031885	नोईदा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1824	U65929HR1993PTC031890	बी.बी. कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1825	U20211DL1988PTC031923	सोना लामिनट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1826	U51100DL1988PTC031951	शुबिज्ञ एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड.
1827	U21093DL1988PTC031954	एन. कुमार कनोडिया पेपर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1828	U27106HR1993PTC031967	वईवेल्थ्या एनर्जी कॉन्जर्वेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1829	U29211HR1993PTC031973	क्वस्त एक्सट्रुडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1830	U99999DL1988PTC031980	धारा ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1831	U80221DL1988PTC032033	शिवालिक शिक्षा प्रणाली प्राईवेट लिमिटेड.
1832	U32109HR1993PTC032035	एन.के. कम्प्युटर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड.
1833	U45102DL1988PTC032044	अहुजा सेकोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
1834	U15201HR1993PTC032048	योगेश मीळकोप्रोडुक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1835	U74999HR1993PTC032053	अतुल स्टैंपींग्स प्राईवेट लिमिटेड
1836	U99999DL1988PTC032064	लिआंत बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1837	U99999DL1988PTC032065	डिआलेक्स मार्केटिंग सर्वीसीज प्राईवेट लिमिटेड.
1838	U74999HR1993PTC032068	कटारिया पोतेरिस प्राईवेट लिमिटेड
1839	U74140DL1988PTC032093	देलफी कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1840	U85110DL1988PTC032134	बालाजी मेडिकल एण्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड.
1841	U26932HR1993PTC032142	एक्वेस्ट पॉली पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
1842	U51100DL1988PTC032146	क्रॉस मेनएस अपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1843	U24230DL1988PTC032155	जिंदल प्लास्टिसिजर्ज प्राईवेट लिमिटेड.

1844	U30009HR1993PTC032163	दीपक कम्युटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1845	U23200DL1988PTC032184	ब्रिटेप्रलो फिल्टर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1846	U31200DL1988PTC032193	रिलोकसन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1847	U51909HR1994PTC032198	अवतार इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1848	U99999DL1988PTC032207	मायर मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
1849	U24299DL1988PTC032227	कयो पंककेम प्राईवेट लिमिटेड
1850	U51311HR1994PTC032235	झन्कता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1851	U33201HR1994PTC032240	के.के. लेबो टेक इन्वुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
1852	U63040DL1988PTC032247	एक्सप्रेस कोन्वेक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
1853	U65921DL1988PTC032250	रक्षा इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
1854	U27104DL1988PTC032254	सिक एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
1855	U17231HR1994PTC032256	जी.टी. कोटसीन प्राईवेट लिमिटेड
1856	U51505HR1994PTC032258	कॉम्पिटेंट ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
1857	U74999HR1994PTC032262	मा मा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
1858	U28113HR1994PTC032264	आरिहंत फास्टर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1859	U24119HR1994PTC032272	हरियाणा इन्फोर्माणिकस प्राईवेट लिमिटेड
1860	U99999DL1988PTC032288	ड्रोन टिम्बर एण्ड प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
1861	U32101DL1988PTC032292	मारुती कोपपाड इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
1862	U74140HR1994PTC032305	विश्व कर्मा बिसनेस कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1863	U29199HR1994PTC032309	क्लभ एंटीप्रिस एण्ड सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
1864	U99999DL1988PTC032310	शिप्रा मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड.
1865	U72501DL1988PTC032315	मंगा इन्फोर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1866	U01121HR1994PTC032320	पेस मुश्रूमस प्राईवेट लिमिटेड
1867	U29120DL1988PTC032329	सेवथं बोरवेल प्राईवेट लिमिटेड.
1868	U17111HR1994PTC032363	गंगोत्री हार्डीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1869	U31909DL1988PTC032373	मोनेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1870	U25209DL1988PTC032380	सोलितरे प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
1871	U25209DL1988PTC032383	आकन्शा इन्डस्ट्रियल मशीन्स सप्लाय एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1872	U60231DL1988PTC032416	ट्रान्स हिमालयन एक्स्पेडिशनस प्राईवेट लिमिटेड.
1873	U45201DL1988PTC032424	अभिजित ब्रीडर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1874	U63090DL1988PTC032429	स्पीडवेज फ्रेट फोर्वाडर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
1875	U31300DL1988PTC032438	फ्रेंड्स आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1876	U99999DL1988PTC032448	डाक एन्जीन्यरींग अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1877	U72100DL1988PTC032457	वीसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1878	U45201DL1988PTC032461	गैलक्सी कंस्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
1879	U17111HR1994PTC032471	नीस्था यार्न्स प्राईवेट लिमिटेड
1880	U18101DL1988PTC032482	पूजा ड्रेससेस प्राईवेट लिमिटेड
1881	U31909DL1988PTC032496	रघु टेक्नालोगीस प्राईवेट लिमिटेड
1882	U22219DL1988PTC032502	अभीवृद्धि पुब्लिशर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1883	U25191HR1995PTC032521	सियाराम पॉलीट्युब्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
1884	U74999HR1995PTC032522	समीर पोतेरिस प्राईवेट लिमिटेड.
1885	U40200HR1995PTC032523	कुबेर गासेस प्राईवेट लिमिटेड.
1886	U23201HR1995PTC032530	फतेहाबाद फुएल प्राईवेट लिमिटेड.
1887	U15421HR1995PTC032545	के.एम.एस. रेफ्रेक्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड.

1888	U29191HR1995PTC032547	हुडा एस्स एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
1889	U17299DL1988PTC032555	डायमन्ड सिल्क मील प्राईवेट लिमिटेड
1890	U01112DL1988PTC032558	प्रोग्रेसीव टिम्ब्रड्स प्राईवेट लिमिटेड
1891	U51311HR1995PTC032566	विनवेल एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
1892	U74999HR1995PTC032567	वीकी टेक्निकल सपोर्ट एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1893	U99999DL1988PTC032568	टन सुर टन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
1894	U99999DL1988PTC032587	गूडविल टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1895	U33301HR1995PTC032602	अटलास वाच इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1896	U99999DL1988PTC032602	राय प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
1897	U99999DL1988PTC032625	डेल्टा स्पीककोम प्राईवेट लिमिटेड
1898	U29199DL1988PTC032628	परविन मेचाणीकल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
1899	U24239HR1995PTC032690	ए.जी. फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1900	U99999DL1988PTC032708	जितेंद्र ओईल्स प्राईवेट लिमिटेड
1901	U17210HR1995PTC032710	लाधर टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1902	U21011HR1995PTC032712	एस.डी. पेपर्स एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
1903	U17119HR1995PTC032717	मंगला जूट एण्ड फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1904	U24246HR1995PTC032719	स्प्लेंदोर कॉस्मेटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1905	U22110DL1988PTC032726	मधुर एण्ड चाइल्ड केअर पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1906	U65910DL1988PTC032742	सुमित्रा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1907	U51213HR1995PTC032743	नोर्थन पौल केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
1908	U99999DL1988PTC032743	केमेलिआ टी को.प्राईवेट लिमिटेड
1909	U24110HR1995PTC032754	बाबा कोलौस प्राईवेट. लिमिटेड.
1910	U99999DL1988PTC032761	वाधवा अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
1911	U24120HR1995PTC032765	शाहबाद फ़र्टिलीज़र्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1912	U74140HR1995PTC032774	स्टेबल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1913	U01112HR1995PTC032775	नितिन सीड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
1914	U20101DL1988PTC032779	जॉली प्लाईवूड प्राईवेट लिमिटेड
1915	U99999DL1988PTC032786	ओनाल स्टीरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
1916	U19129DL1988PTC032788	आशीष लेंदर क्लॉथ प्राईवेट लिमिटेड
1917	U51909DL1988PTC032803	डिस्टिन्क्शन इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1918	U74210DL1988PTC032804	त्रीकाल दर्शा कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड
1919	U17117HR1995PTC032813	विमल कार्पेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1920	U01122DL1988PTC032814	मल्टी फ़्रील्ड ऑगो इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
1921	U31504DL1988PTC032825	लाल इलेक्ट्रिकल अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1922	U27209DL1988PTC032833	कम्पोज़िशन अलोय्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1923	U72200DL1988PTC032835	बटेक कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1924	U29191DL1988PTC032852	ओम फ़ेफ़िगरेशन प्राईवेट लिमिटेड
1925	U99999DL1988PTC032855	बाल-सूनी माइक्रोवे प्राईवेट लिमिटेड
1926	U18101DL1988PTC032882	वीडेरिटे फ़ैशन इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
1927	U32109DL1988PTC032887	इन्डो हितेक प्राईवेट लिमिटेड
1928	U21010HR1995PTC032892	वाधवा अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1929	U27209DL1988PTC032894	सोकेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1930	U01120HR1995PTC032897	सिलेक्ट ब्लोस्सोम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1931	U55109DL1988PTC032908	धनोल्टी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1932	U63040DL1988PTC032910	महारानी ट्रैवल एण्ड ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1933	U32109DL1988PTC032913	योशिदा इलेक्ट्रो कुल प्राईवेट लिमिटेड
1934	U99999DL1988PTC032920	एसक्वायर ट्रैवल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1935	U51229DL1988PTC032928	अपूरव ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
1936	U99999DL1988PTC032938	क्लाउड निन कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
1937	U99999DL1988PTC032948	लैसर कम्युटर सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1938	U45303DL1988PTC032970	हाई टेक्नान एन्जीन्यरिंग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
1939	U99999DL1988PTC032974	धनवंत्री आयुर्वेदिक प्राईवेट लिमिटेड
1940	U40108DL1988PTC032991	युनाइटेड सीनेतैक प्राईवेट लिमिटेड
1941	U27310HR1996PTC032992	चौधरी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड.
1942	U99999DL1988PTC032999	आर.वी.कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड.
1943	U92113DL1988PTC033001	एन.जी.विडिओ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
1944	U72200HR1996PTC033010	डी डी एस कम्युटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
1945	U24119HR1996PTC033016	पी.एस.जी. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
1946	U99999DL1988PTC033019	रेड बेरोन कौरिर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1947	U27106HR1996PTC033028	गुरू मार्कंडेधर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड.
1948	U29299DL1988PTC033034	टेक्नो रोल्ल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
1949	U27201HR1996PTC033039	जगदंबा प्रोबेरेस प्राईवेट लिमिटेड.
1950	U70101HR1996PTC033058	शिवन्क अंग्रो लैंड देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड.
1951	U99999DL1988PTC033060	योनिंग अपेटिल प्राईवेट लिमिटेड
1952	U99999DL1988PTC033112	कुन्ड सन कन्सल्टन्सी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1953	U22110DL1988PTC033115	डेस्क टॉप पुब्लिशर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1954	U99999DL1988PTC033116	अंगड प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
1955	U67120HR1996PTC033118	स्वाधीन सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
1956	U99999DL1988PTC033125	प्रेम पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
1957	U30007DL1988PTC033143	सिसोरेक्स कम्युटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1958	U72300HR1996PTC033147	मिक्सेल्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.
1959	U51909DL1988PTC033150	मोडे ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1960	U32101DL1988PTC033162	चावला टी.वी. कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1961	U27103HR1996PTC033179	आर.एस.डी. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड.
1962	U28939DL1988PTC033179	सुर्य इन्डस्ट्रिअल टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
1963	U51101DL1988PTC033185	विचित्र ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1964	U99999DL1988PTC033190	दिवेचा फाईबर ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
1965	U74999DL1988PTC033214	मर्ग एंड प्रीट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1966	U70200HR1996PTC033217	लक्ष्मी टूल्स एण्ड वुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
1967	U99999DL1988PTC033219	पक्क वेल्योईत देवार्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
1968	U51222DL1988PTC033224	स्वप्न लिवे स्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
1969	U15511DL1988PTC033228	साई डिस्टिलर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
1970	U25111DL1988PTC033235	मेग रब्वर इन्डुस्ट्रिअल्स प्राईवेट लिमिटेड
1971	U74999HR1996PTC033239	क्लिअर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
1972	U30007DL1988PTC033240	अभीरुची एड्स प्राईवेट लिमिटेड
1973	U99999DL1988PTC033258	शरन (त्रि) पोर्टफ़ोलियो एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1974	U72900HR1996PTC033276	ब्रह्मा अंटलांटा टेक्नोलोजी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.
1975	U24241HR1996PTC033283	स्काईलैब ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड.

1976	U99999DL1988PTC033299	इंद्रप्रस्थ बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1977	U74210DL1988PTC033305	अक्रायान कन्सल्टन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1978	U29120DL1988PTC033326	सन हाइड्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
1979	U99999DL1988PTC033327	टेक्नीस कंस्ट्रक्शन्स एण्ड बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1980	U17297HR1996PTC033331	ओप्क टेक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1981	U28932DL1988PTC033355	सुचेता एग्निनीरिंग्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
1982	U17115HR1996PTC033365	हरियाणा स्पीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
1983	U27107HR1996PTC033374	चौधरी अलॉयस प्राईवेट. लिमिटेड.
1984	U99999DL1988PTC033391	मल्होत्रा कौन्सिलिन्ग् प्राईवेट. लिमिटेड.
1985	U24302DL1988PTC033393	श्री बाहुबली सोल्यूटिन्ग् प्राईवेट लिमिटेड
1986	U51503HR1996PTC033395	तिरुमला इसपाट एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
1987	U51909DL1988PTC033410	अलाईड फ़ोर्ज प्राईवेट लिमिटेड
1988	U63023DL1988PTC033415	अंकुर दायरीस प्राईवेट लिमिटेड
1989	U99999DL1988PTC033418	ऊनिक कन्वर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
1990	U24111HR1996PTC033421	हिमान्क सरस्वती प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
1991	U99999DL1988PTC033429	दीक्षित मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
1992	U99999DL1988PTC033441	सागर वीडोतेक प्राईवेट लिमिटेड
1993	U63090DL1988PTC033447	फ़ास्ट फ़िर्वार्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
1994	U27105HR1997PTC033449	टोहना स्टील इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
1995	U29261HR1997PTC033454	लोकेश टूल्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
1996	U74210DL1988PTC033456	न्यूटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
1997	U99999DL1988PTC033463	सविता प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
1998	U99999DL1988PTC033480	गे टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
1999	U25209HR1997PTC033481	एच.डी. प्लास्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
2000	U99999DL1988PTC033481	कसले पीर्ज एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2001	U45201DL1988PTC033492	सिन्सयर बुइल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2002	U63090DL1988PTC033501	ऊनीकोर्प ट्रेड लीन्क सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2003	U70101DL1988PTC033520	सुप्रिम इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
2004	U51109DL1988PTC033522	डिस्कोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2005	U36101DL1988PTC033542	फ़ुट्रिक बिस्नेस फ़रनिचर्स प्राईवेट लिमिटेड
2006	U45209DL1988PTC033562	सचिन बंधु देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2007	U51311DL1988PTC033589	पूनम ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2008	U29292HR1997PTC033625	बी एल रेफ़्रेक्टोरीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2009	U25209DL1988PTC033675	सुप्रिया प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
2010	U01401HR1997PTC033682	किसन इरिगेशन को (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2011	U31103HR1997PTC033690	वेलटेक पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2012	U15142HR1997PTC033720	ए.डी.बी. अंग्रे ओईल प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2013	U99999DL1988PTC033720	ब्लू चिप रबबर इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2014	U74210HR1997PTC033749	सैलेन्ड्र इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2015	U99999DL1988PTC033771	सावित्री गुणवती एण्ड सन प्राईवेट. लिमिटेड.
2016	U99999DL1988PTC033785	दम होटेल्स एण्ड बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड.
2017	U29191HR1997PTC033787	ऊनिक एक्सीडिशनर्ज (पी) लिमिटेड.
2018	U52602HR1997PTC033800	स्पीड लाईन अप्लिआन्सीज़ सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2019	U17112HR1997PTC033802	हरपत राय कोटिंग्रिन्ग (पी) लिमिटेड.

2020	U99999DL1988PTC033804	ही-टेक एपोकस-सील प्राईवेट.लिमिटेड.
2021	U45209HR1997PTC033810	दनसन कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड.
2022	U15311DL1988PTC033813	कालरा फ़्लोर मील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2023	U15499DL1988PTC033814	सेन परफ़ेक्टो फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2024	U64204HR1997PTC033816	प्रोफ़ेक्शनल केबल व्यु नेटवर्क प्राईवेटलिमिटेड
2025	U99999DL1988PTC033840	म्ब्र इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड.
2026	U27109DL1988PTC033857	जगविन एन्जीन्यरिंग इन्वियेन्ट एण्ड टूल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2027	U31909DL1988PTC033861	टर्णक्स कम्पोनेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2028	U29230DL1988PTC033867	ओथेन्टिक एलेक्ट्रोड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2029	U99999DL1988PTC033887	कीप कूल इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2030	U74995HR1998PTC033896	कालस्पेक इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2031	U74140HR1998PTC033903	लव गायन एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2032	U63040DL1988PTC033910	किंग्स ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट. लिमिटेड.
2033	U51395DL1988PTC033912	इ.एल.एलेक्ट्रॉनिक इन्वुमेन्टेशन प्राईवेट.लिमिटेड.
2034	U99999DL1988PTC033922	जय माता टूरस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2035	U22110HR1998PTC033923	बक्षी बुक सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
2036	U51431DL1988PTC033923	हरजीत ब्रधर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2037	U55101DL1988PTC033932	ला साग्रिता होटेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2038	U99999DL1988PTC033940	मेरी हिल्लस टूरीस्ट रेसोर्ट प्राईवेट.लिमिटेड.
2039	U74140DL1988PTC033943	राजे अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2040	U33121HR1998PTC033962	कुडली टूल्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2041	U21104DL1988PTC033981	रून पेंकेजिंग इन्डस्ट्रिज प्राईवेट.लिमिटेड.
2042	U15419HR1998PTC033987	जी. फ़ूड्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2043	U72900DL1988PTC033989	एम.जी.एम. सॉफ़्टवेयर एण्ड बिसनेस कन्सलतन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2044	U99999DL1988PTC033993	पद्मावती कन्सल्टन्सी सर्विस प्राईवेट.लिमिटेड.
2045	U99999DL1988PTC034006	एकता फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2046	U52190HR1998PTC034011	जे.आर. मार्केटर प्राईवेट लिमिटेड
2047	U99999DL1998PTC034017	राज ओक्सिड प्राईवेट लिमिटेड
2048	U99999DL1988PTC034017	श्रीराम ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2049	U32109HR1998PTC034022	शिव फ़िल्म्स एण्ड म्यूज़िक को. (पी) लिमिटेड.
2050	U65921DL1988PTC034044	ए.के.आई. इस्टेट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2051	U15432DL1988PTC034046	कन फ़ूड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2052	U64120DL1988PTC034052	गरुर एक्सप्रेस कुरिअर सर्विसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2053	U72900HR1998PTC034074	सिस-इन्फ़ोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
2054	U55101HR1998PTC034075	मॅरीगोल्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2055	U31399HR1998PTC034102	एमेलसन होम अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2056	U99999DL1988PTC034110	जे एण्ड जे इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2057	U63013DL1988PTC034140	ईस्टवैस्ट सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2058	U51496HR1999PTC034144	क्रोम स्टार कॅमिकल वक्स (पी) लिमिटेड.
2059	U33139HR1999PTC034159	लोनिलफ़े मेदीकेअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2060	U72200HR1999PTC034209	विशेष इन्फ़ोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
2061	U74920HR1999PTC034212	कोप्स सिक्यूरिटी सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2062	U17110DL1988PTC034215	शीव गोरख होसिएरी मील्स प्राईवेट लिमिटेड
2063	U99999DL1988PTC034230	राजेंद्र नरसिंग एण्ड मॅटरनिति होम प्राईवेट लिमिटेड

2064	U01211HR1999PTC034236	गीतांजली हेंचरीस प्राईवेट लिमिटेड
2065	U25200DL1988PTC034240	बेंट ब्रोस ठैर्मोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
2066	U26940DL1988PTC034256	सूरज सिमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
2067	U99999DL1988PTC034268	विर्गो वुमन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2068	U99999DL1988PTC034278	रेक्टोफ़ाब प्राईवेट लिमिटेड
2069	U34102HR1999PTC034281	गुरदयाल मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2070	U24114HR1999PTC034288	विवेक डायइंग एण्ड प्रोसेसिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
2071	U64110DL1988PTC034310	रामेक्स सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2072	U74140HR1999PTC034314	हाब एण्ड रेहाब इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2073	U24235HR1999PTC034343	फार्मसिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2074	U99999DL1988PTC034347	केल्विन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
2075	U99999DL1988PTC034355	मारुती अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2076	U32309HR1999PTC034366	डूबी डिगीताल ब्रोडकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
2077	U52335DL1988PTC034367	अचिनाशी सेलींग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
2078	U99999DL1988PTC034376	फ़ेज़ तेज़ीटेबल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2079	U51909DL1988PTC034389	अहिंसा ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2080	U63031DL1988PTC034394	शीवकाशी रोड कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
2081	U51397HR1999PTC034400	एवंट्स हैल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड
2082	U74140DL1988PTC034405	गोगिया इन्वेस्टमेंट्स कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2083	U24119HR2000PTC034406	बंडलास कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2084	U99999DL1988PTC034413	कन हिटाशी बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2085	U21012DL1988PTC034422	टेक्निकल ग्राफ़्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2086	U24302DL1988PTC034432	आरिस्टो पॉलीकोट्स प्राईवेट लिमिटेड
2087	U72100HR2000PTC034458	भारत भारती नेतवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2088	U17297DL1989PTC034487	नोवेल्टी सिनिंग मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
2089	U74210DL1989PTC034505	ए.ए. घारे डिज़ाइन कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2090	U99999DL1989PTC034523	एस.वी. अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2091	U51909HR2000PTC034523	एल.आर. कोल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2092	U29219DL1989PTC034536	इंडियन स्प्रेयज़ प्राईवेट लिमिटेड
2093	U99999DL1989PTC034544	ईस्ट वेंस्ट अडिक्सज़ प्राईवेट लिमिटेड
2094	U29302DL1989PTC034546	पेन्तगोन किचेन मात्स एण्ड इमेस्टिक अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2095	U99999DL1989PTC034562	मिडएअर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2096	U70101DL1989PTC034566	उना कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2097	U99999DL1989PTC034573	बी.आर. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2098	U74219DL1989PTC034575	मन वी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2099	U45201DL1989PTC034587	एस.जे. बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2100	U51311DL1989PTC034613	हितेक हिंद इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2101	U99999DL1989PTC034615	अमित ईलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड तेलेकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2102	U74999DL1989PTC034620	जैन प्रूफ़िक्स इंडस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2103	U99999DL1989PTC034649	आर.ए. एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2104	U99999DL1989PTC034669	चौरदिया फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
2105	U51311DL1989PTC034673	श्री कोलोरिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2106	U99999DL1989PTC034675	विचार न्यूज़ सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2107	U70101DL1989PTC034687	क्लर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड

2108	U65999DL1989PTC034727	काउंटडौन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2109	U99999DL1989PTC034729	कोन्टेक एकोडिशनर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2110	U33125DL1989PTC034734	घज़ीपुरिया इलेक्ट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
2111	U99999DL1989PTC034740	एस्पी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2112	U99999DL1989PTC034753	हेल्म सोकेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2113	U99999DL1989PTC034755	के.डी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2114	U99999DL1989PTC034757	के. दीक्षा बील्डर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2115	U99999DL1989PTC034764	आर.के. ट्रान्समिशन प्राइवेट लिमिटेड
2116	U99999DL1989PTC034769	मलिक ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2117	U99999DL1989PTC034781	इंद्र कलर लेंब प्राइवेट लिमिटेड
2118	U99999DL1989PTC034790	शो कमिकल इंडस्ट्रिज़ प्राइवेट लिमिटेड
2119	U45201DL1989PTC034799	लविश प्रोमोटर्ज़ एण्ड बील्डर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2120	U99999DL1989PTC034811	एक्स्क्लुसिव ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
2121	U99999DL1989PTC034818	पूनम कमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2122	U99999DL1989PTC034837	बी.एम. ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2123	U99999DL1989PTC034877	कुणाल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2124	U70101DL1989PTC034887	बहुता कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2125	U51909DL1989PTC034889	विठल इंग्रेड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2126	U67120DL1989PTC034904	योगी होल्दींग्स प्राइवेट लिमिटेड
2127	U63040DL1989PTC034907	एक्स्प्लोर इंडिया ट्रैक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
2128	U51420DL1989PTC034910	राम इसपाट प्राइवेट लिमिटेड
2129	U99999DL1989PTC034947	परमानंद होटल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2130	U99999DL1989PTC034978	पंकज ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2131	U60231DL1989PTC035002	नीलकंठ कैरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड
2132	U15311DL1989PTC035005	जिंदल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2133	U70101DL1989PTC035018	नोशन डेज़ी आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2134	U32101DL1989PTC035055	मां इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2135	U45201DL1989PTC035082	श्री लालजी हाऊज़िंग प्राइवेट लिमिटेड
2136	U70109DL1989PTC035084	धनीका प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
2137	U99999DL1989PTC035094	राम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
2138	U70109DL1989PTC035115	अंकित प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2139	U99999DL1989PTC035118	दुर्गा मोनोमर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2140	U34300DL1989PTC035120	जयमाता ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
2141	U70101DL1989PTC035129	शियोम अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
2142	U34201DL1989PTC035163	दप्स एन्जीन्यरींग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2143	U99999DL1989PTC035206	ब्लू डायमंड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2144	U51496DL1989PTC035251	टेक्नो एंजट्स प्राइवेट लिमिटेड
2145	U51909DL1989PTC035295	पूनम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2146	U22219DL1989PTC035322	पात्रिका प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2147	U63640DL1989PTC035341	इन्स्टीले होल्यदय प्लमर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
2148	U99999DL1989PTC035369	डी.एस. फ़ैब्रिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2149	U99999DL1989PTC035381	सीबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2150	U70101DL1989PTC035384	विननर ट्रेडर्ज़ एण्ड प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
2151	U99999DL1989PTC035400	नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

2152	U99999DL1989PTC035404	अक्शन कुरिअर सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
2153	U99999DL1989PTC035405	कुइक सेफ़ सूरे कौरिअर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2154	U99999DL1989PTC035418	हर्डेल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2155	U15412DL1989PTC035479	वालिया फ़ुड एन्टरप्राईसीस प्राईवेट लिमिटेड
2156	U32101DL1989PTC035481	सिरोही एलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2157	U45201DL1989PTC035484	सहयोग देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2158	U99999DL1989PTC035493	रीगल इन्डस्ट्रिअल डिरैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
2159	U01122DL1989PTC035524	क्लासिक्स फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
2160	U99999DL1989PTC035540	ऊनी फ़्लोन प्राईवेट लिमिटेड
2161	U74940DL1989PTC035542	अजंता कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
2162	U18109DL1989PTC035547	अनुराधा अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
2163	U51909DL1989PTC035559	कन्सोलिडेटेड कन्स्यूमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2164	U99999DL1989PTC035575	योगेंद्र पाल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
2165	U99999DL1989PTC035588	परनामी वूलेन्स प्राईवेट लिमिटेड
2166	U99999DL1989PTC035605	जोसफ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2167	U85199DL1989PTC035620	पुरातन हैलथ सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2168	U51494DL1989PTC035641	कुणाल फ़ैब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
2169	U99999DL1989PTC035672	एनर्जी फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2170	U63040DL1989PTC035674	विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2171	U99999DL1989PTC035688	प्रदीप चौधरी एण्ड कम्पनी (देवलपमेन्ट कंट्रोल्लर्स) प्राईवेट लिमिटेड
2172	U70101DL1989PTC035709	विक्टोरिआ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2173	U99999DL1989PTC035716	टीमुप सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
2174	U99999DL1989PTC035743	स्विक्लक कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2175	U99999DL1989PTC035751	सनराम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2176	U99999DL1989PTC035825	बालाजी प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2177	U24242DL1989PTC035826	लुस्त्रे कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2178	U99999DL1989PTC035846	सेठ बील्डर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2179	U22121DL1989PTC035847	दिनांक पुब्लिशिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड.
2180	U99999DL1989PTC035867	राजेश्वरी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2181	U85110DL1989PTC035885	नर हैलथ केअर प्राईवेट लिमिटेड.
2182	U99999DL1989PTC035896	सतगुरु एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2183	U99999DL1989PTC035901	मा-मा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2184	U27101DL1989PTC035911	अमर अल्लोय्स प्राईवेट लिमिटेड.
2185	U99999DL1989PTC035912	संटेक्स यार्न प्राईवेट लिमिटेड.
2186	U99999DL1989PTC035921	गंगा दूर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2187	U99999DL1989PTC035925	जमिन फ़ूटवेअर प्राईवेट लिमिटेड.
2188	U99999DL1989PTC035938	सुपर ऑटोमोबाइल अप्लिआन्सीज़ एण्ड वेरहाउझिंग सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
2189	U50300DL1989PTC035939	आर.एस. ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड.
2190	U99999DL1989PTC035949	पेटमन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2191	U70101DL1989PTC035977	प्रकाश प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
2192	U29142DL1989PTC035986	भिवानी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड.
2193	U99999DL1989PTC035988	हरमैन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड.
2194	U99999DL1989PTC035992	त्रिनिटी कन्ट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.

2195	U99999DL1989PTC036004	स्पाकटेक दीस एण्ड मौल्ड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2196	U74140DL1989PTC036006	गर्ग पवन कुमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2197	U99999DL1989PTC036111	लीस्शा अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2198	U24299DL1989PTC036116	आरीन्सो अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2199	U28991DL1989PTC036134	हरि किशन श्री किशन प्राईवेट.लिमिटेड.
2200	U99999DL1989PTC036143	एम्क टेक्निकल सर्वीसीज़ इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
2201	U99999DL1989PTC036157	करसन्स ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2202	U99999DL1989PTC036173	हितहाश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2203	U72502DL1989PTC036175	बोर्डलेट सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2204	U99999DL1989PTC036181	एस्के होलिदय रिसोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2205	U45201DL1989PTC036193	स्प्रिंग फ़ार्म्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2206	U99999DL1989PTC036197	हिमाचल प्रोमोटर्ज़ एण्ड देवेलोपर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2207	U99999DL1989PTC036210	लॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2208	U30007DL1989PTC036223	मेडकॉन इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2209	U29299DL1989PTC036226	प्रिमा टेक सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2210	U99999DL1989PTC036247	जोशी मेहरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2211	U99999DL1989PTC036249	सूरप्रिसे बील्डर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2212	U99999DL1989PTC036272	स्लिक कोरिएर्ज़ एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2213	U99999DL1989PTC036280	इंडूप ट्रेडिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2214	U99999DL1989PTC036286	जे.एम.वी.डी. पिपेस प्राईवेट.लिमिटेड.
2215	U99999DL1989PTC036309	बाल शान फ़ार्म्स एण्ड लैंड देवेलोपर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2216	U99999DL1989PTC036313	ए.सी.इ. अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2217	U45201DL1989PTC036334	गुलिस्तान बील्डर्ज़ एण्ड देवेलोपर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2218	U65910DL1989PTC036336	व्क्स बील्डर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2219	U99999DL1989PTC036348	एस.पी. फूड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2220	U20296DL1989PTC036436	ट्रिडेंट पॉलीबट्टन प्राईवेट.लिमिटेड.
2221	U99999DL1989PTC036454	ईनदूर सिल्क प्लंट्स मॅनुफ़ेक्चरिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2222	U45203DL1989PTC036458	नोमीता बील्डर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2223	U99999DL1989PTC036495	एंड अलीन अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2224	U51431DL1989PTC036500	रक्स वूडवूल प्राईवेट. लिमिटेड.
2225	U99999DL*1989PTC036501	राम ब्रिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2226	U99999DL1989PTC036524	तरून प्लास्टिक इंडस्ट्री प्राईवेट.लिमिटेड.
2227	U52322DL1989PTC036546	मल्होत्रा एक्सिम प्राईवेट.लिमिटेड.
2228	U51909DL1989PTC036547	दिया प्रीट कुइप्मेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2229	U51109DL1989PTC036559	इम्प्रेशन एक्स्पॉर्ट प्राईवेट.लिमिटेड.
2230	U29111DL1989PTC036568	क्यूपनिक इन्डस्ट्रिअल गासेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2231	U99999DL1989PTC036590	स्क्नी एण्ड शोन्टेक प्राईवेट. लिमिटेड.
2232	U99999DL1989PTC036592	दीवान एण्ड कम्पनी स्टॉक एण्ड शॉर कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2233	U74140DL1989PTC036595	सारस्वत अस्सोसिएट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2234	U99999DL1989PTC036602	ट्रिओनिक्स टेक्नोलोजी प्राईवेट. लिमिटेड.
2235	U99999DL1989PTC036625	परम लेंडर इन्डस्ट्रिअल प्राईवेट. लिमिटेड.
2236	U63040DL1989PTC036650	सिस ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2237	U99999DL1989PTC036658	मेकस्टर टेलीकोम प्राईवेट.लिमिटेड.
2238	U01122DL1989PTC036679	कन्सी अंग्रो एण्ड बायोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.

2239	U99999DL1989PTC036693	साउथ एशियन रेटीट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2240	U99999DL1989PTC036695	सनत स्क्वूज एण्ड वायर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2241	U16008DL1989PTC036703	यमू पान मसाला एण्ड फ्राग्रान्सीज प्राईवेट.लिमिटेड.
2242	U45201DL1989PTC036705	शक्ती बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2243	U51909DL1989PTC036706	निधि ओवरसीज प्राईवेट.लिमिटेड.
2244	U27203DL1989PTC036751	मेको अलोय्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2245	U45201DL1989PTC036766	बंगलोर बील्डर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2246	U24132DL1989PTC036792	एस.जे. पॉलीमर प्राईवेट लिमिटेड
2247	U99999DL1989PTC036797	आर एण्ड ए एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2248	U99999DL1989PTC036812	राजीव इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2249	U51909DL1989PTC036820	रांचर्ज मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2250	U51109DL1989PTC036864	प्लुटो एजन्सीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2251	U99999DL1989PTC036870	पंडित्स डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2252	U99999DL1989PTC036878	जी.के. क्रिएशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2253	U99999DL1989PTC036885	निर्माण टूल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2254	U11001DL1989PTC036907	आकाश गंगा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2255	U26954DL1989PTC036931	न्डसा ब्रिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2256	U74210DL1989PTC036940	इंटेग्रेटेड पावरटेक प्राईवेट.लिमिटेड.
2257	U99999DL1989PTC036952	यमूनाचल इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2258	U29305DL1989PTC036957	लाजेर अपिल आन्सीज प्राईवेट.लिमिटेड.
2259	U51109DL1989PTC036967	कॉस्मॉस रजनीश एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2260	U72900DL1989PTC036983	अविरोल डाटाटेक प्राईवेट.लिमिटेड.
2261	U24114DL1989PTC036992	ऋतुराज सेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2262	U37107DL1989PTC037006	एसकवायर डिस्त्रिब्युटिंग एण्ड सर्वीसिंग कम्पनी (न्यू दिल्ली) प्राईवेट. लिमिटेड.
2263	U99999DL1989PTC037014	त्रिमूर्ति प्रोपर्टीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2264	U99999DL1989PTC037021	ऊनिक पॉलीकोन्तायनर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2265	U99999DL1989PTC037034	नतेक कोन्तायनर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2266	U65999DL1989PTC037046	डिस्क (इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी) प्राईवेट.लिमिटेड.
2267	U74210DL1989PTC037062	त्रिस्टार एन्जीन्यरींग कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2268	U29299DL1989PTC037068	स्वर्णा मोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2269	U99999DL1989PTC037105	क्रिएशन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2270	U51909DL1989PTC037108	गोवरसन्स ट्रेडिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2271	U99999DL1989PTC037130	क्राटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2272	U27202DL1989PTC037135	के.एम.वायर ड्रॉइंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2273	U99999DL1989PTC037165	कमलीवाला कम्पर्टर्ज प्राईवेट.लिमिटेड
2274	U51109DL1989PTC037173	वेन्वर ट्रेडर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2275	U99999DL1989PTC037201	सिस्टमाटिका एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2276	U99999DL1989PTC037204	ही-टेक फ़ोम कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2277	U30007DL1989PTC037207	अंबा पेरिफेरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2278	U45201DL1989PTC037223	राजेश प्रोमोटर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2279	U21099DL1989PTC037228	स्वामी पुलप एण्ड पेपर प्राईवेट.लिमिटेड.
2280	U99999DL1989PTC037233	एक्सेल टेक्नो-कम्प्युटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2281	U99999DL1989PTC037249	हिमांशु एंड प्राईवेट.लिमिटेड.
2282	U99999DL1989PTC037273	अद्वैतामे मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.

2283	U51109DL1989PTC037299	अमालामाटेद ऑटो एजेन्सी प्राईवेट.लिमिटेड.
2284	U18101DL1989PTC037313	वी.के.टयाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2285	U99999DL1989PTC037320	इबा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2286	U99999DL1989PTC037332	आनआदि अस्सियोशीट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2287	U55101DL1989PTC037337	स्नेचवन फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2288	U99999DL1989PTC037462	एंपेक्स गासेस एण्ड लिक्विड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2289	U51100DL1989PTC037476	इयोन मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टन्सी प्राईवेट.लिमिटेड.
2290	U99999DL1989PTC037483	दी एस्स स्टील मील्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2291	U99999DL1989PTC037503	ठकरान कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट.लिमिटेड.
2292	U99999DL1989PTC037542	इन्डो-केम इम्पेक्स इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
2293	U51491DL1989PTC037571	साईकम्पिब्बोन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2294	U29307DL1989PTC037578	सुर्य एनर्जी कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2295	U99999DL1989PTC037593	गोबिंद शूटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
2296	U99999DL1989PTC037602	अनूराज इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2297	U99999DL1989PTC037621	रॉयल किच्चेन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2298	U70101DL1989PTC037639	क्वन बीलडर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2299	U99999DL1989PTC037648	के.एन.के. पिपेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2300	U30007DL1989PTC037661	सिसटेक कम्प्यूटर सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2301	U99999DL1989PTC037674	के.एस. एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2302	U31909DL1989PTC037681	एच.आई.सी. टेक्नोक्रेट्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
2303	U45203DL1989PTC037695	रेप्रकोन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2304	U99999DL1989PTC037700	कुइक्वेल सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2305	U99999DL1989PTC037706	बी.एन. सिलिकट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2306	U99999DL1989PTC037728	ट्रिडेंट कर्टन्स एण्ड लेबल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2307	U26955DL1989PTC037753	आर.पी. मार्वल पैकुटिल्लु प्राईवेट. लिमिटेड.
2308	U99999DL1989PTC037774	वी. फ़ोर्ब्स सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2309	U99999DL1989PTC037791	अतुल्य मार्केटिंग एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2310	U99999DL1989PTC037801	तोफू प्रोटेन प्राईवेट. लिमिटेड.
2311	U29192DL1989PTC037816	पीकोन इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2312	U99999DL1989PTC037837	होर्नबिल टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2313	U99999DL1989PTC037839	औरिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2314	U99999DL1989PTC037863	नरिंद्र नाथ एण्ड सन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2315	U99999DL1989PTC037864	अरावली होटेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2316	U25239DL1989PTC037871	ओर्गनोन लेबॉरेटरिस प्राईवेट.लिमिटेड.
2317	U32204DL1989PTC037914	अलिआन्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2318	U51909DL1989PTC037916	सी.डी. इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2319	U99999DL1989PTC037923	ओशन पॉवर प्राईवेट. लिमिटेड.
2320	U99999DL1989PTC037937	गणपति पैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2321	U99999DL1989PTC037942	मोहित फ़ेब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2322	U99999DL1989PTC037968	पनोरमिक येलो पागेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2323	U63040DL1989PTC037970	रोलेक्स ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2324	U63040DL1989PTC037998	सितारा ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2325	U51311DL1989PTC038004	मार्टिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2326	U99999DL1989PTC038012	ला फ़ैशन गार्मेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.

2327	U52190DL1989PTC038019	तृप्ति कमर्शियल सर्वोसीझ प्राईवेट.लिमिटेड.
2328	U15139DL1989PTC038025	सेलेस्तिअल फूड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2329	U99999DL1989PTC038040	बी. वर्मा जेव्वरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2330	U99999DL1989PTC038051	सुकम तेलिकम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2331	U99999DL1989PTC038088	युनाईटेड दाताबेस इंडिया (वैस्ट ज़ोन) प्राईवेट. लिमिटेड.
2332	U51311DL1989PTC038102	कॉंबईद एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2333	U70101DL1989PTC038105	मार्गदर्शक देवेलोपर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2334	U72900DL1989PTC038109	इन्सिष्ट कम्प्युटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2335	U99999DL1989PTC038158	चेतन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2336	U99999DL1989PTC038164	पन्सी रिसर्च लेबोरेटरिस प्राईवेट.लिमिटेड.
2337	U14101DL1989PTC038168	मस्टोगी ग्रॅणार्ड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2338	U18101DL1989PTC038182	सवी अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2339	U20219DL1989PTC038203	वीक्यू बोर्ड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2340	U01222DL1989PTC038207	हेरी पुल्ट्रिस प्राईवेट.लिमिटेड.
2341	U45201DL1989PTC038210	कॉन्टैम्पररी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2342	U51909DL1989PTC038214	वीड्स मार्केटिंग सर्वोसीझ प्राईवेट.लिमिटेड.
2343	U29308DL1989PTC038240	तलत ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2344	U99999DL1989PTC038247	सेलसीकेम फार्मा प्राईवेट.लिमिटेड.
2345	U24232DL1989PTC038253	कल्पतरू बसिक ड्रग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2346	U99999DL1989PTC038262	मदानी इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2347	U99999DL1989PTC038275	कारावन कुरिअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2348	U51398DL1989PTC038282	लुणावत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2349	U99999DL1989PTC038305	इन्सिटू फ़ॉर्मिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2350	U51507DL1989PTC038348	लाईफ़ केअर सर्जिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2351	U99999DL1989PTC038351	डेकोन ड्रग्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2352	U99999DL1989PTC038359	आस्वान ट्रैवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2353	U18201DL1989PTC038382	क्लस्सिक प्रोसेसर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2354	U99999DL1989PTC038398	बल्लभ गई फ़ार्म्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2355	U99999DL1989PTC038407	स्म ऑटो दीलर्स एण्ड लेंसोर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2356	U51109DL1989PTC038413	एडुकेशन सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2357	U99999DL1989PTC038414	मोहाच फ़ाईबर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2358	U74210DL1989PTC038465	अनुपम साणीतरीवारेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2359	U99999DL1989PTC038474	अनिका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2360	U99999DL1989PTC038487	बाल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2361	U17299DL1989PTC038492	आकृति फ़ेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2362	U35921DL1989PTC038516	मेट्रो रिम्स इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
2363	U51102DL1989PTC038571	संघी पेट्रोकैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2364	U99999DL1989PTC038575	क्लास्सिक फ़रनीशर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2365	U85110DL1989PTC038593	हेलींग टोचेस होस्पिटल एण्ड नरसिंग होम प्राईवेट.लिमिटेड.
2366	U24304DL1989PTC038605	जे.आर. अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2367	U99999DL1989PTC038610	मैनका बोल्टर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2368	U99999DL1989PTC038636	बोस डब्लर आर्किटेक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2369	U24299DL1989PTC038637	सुगम बैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2370	U51494DL1989PTC038639	हरीटज इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.

2371	U51398DL1989PTC038652	स्पैन वी ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2372	U99999DL1989PTC038659	ए.आर. गुप्ता एण्ड सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2373	U22299DL1989PTC038672	जयदीप एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2374	U17222DL1989PTC038704	पाणिपत स्पीनर प्राईवेट. लिमिटेड.
2375	U99999DL1989PTC038724	प्रिमी कन्सेप्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2376	U51109DL1989PTC038726	सैमैक्स सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2377	U99999DL1989PTC038749	पी.जी. इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्प्युटर प्राईवेट लिमिटेड.
2378	U51398DL1989PTC038756	बी आर्यन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2379	U99999DL1989PTC038764	समून्डरा ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2380	U70101DL1990PTC038785	ट्स प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2381	U99999DL1990PTC038793	हेंट बीट फिटनेस सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
2382	U70101DL1990PTC038810	साबरे इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2383	U99999DL1990PTC038815	सुदामा प्लास्टो प्राईवेट. लिमिटेड.
2384	U45203DL1990PTC038816	ट्रिडेंट कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
2385	U74140DL1990PTC038833	दमैक कन्सल्टन्ट्स एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2386	U99999DL1990PTC038865	राजहंस कौरिर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2387	U29142DL1990PTC038872	न्क स्टील ट्युब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2388	U51909DL1990PTC038882	मुकुल इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2389	U63040DL1990PTC038884	मियामी इंटरनेशनल ट्रेवल प्राईवेट. लिमिटेड.
2390	U92113DL1990PTC038889	डेस्कटॉप विडिओ प्रोडक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
2391	U99999DL1990PTC038920	स्टीलुस फ़ायर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2392	U99999DL1990PTC038924	मापास एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2393	U31200DL1990PTC038947	टिक तक इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2394	U99999DL1990PTC038960	मिडलैंड फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2395	U99999DL1990PTC038979	शॉप्पर्स पेरदाईस प्राईवेट. लिमिटेड.
2396	U74210DL1990PTC038980	स्वाब्लम कम्प्युटर प्राईवेट. लिमिटेड.
2397	U29191DL1990PTC038988	सूरव रेफ्रिजेशन इन्डस्ट्रीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2398	U99999DL1990PTC039007	रश्मि सेन्चरी रेन्ट-ए-कार प्राईवेट. लिमिटेड.
2399	U24139DL1990PTC039008	सनशेड औनिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2400	U99999DL1990PTC039028	अमरनाथ हरबंस लाल ज्यूएलर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2401	U99999DL1990PTC039065	दीक्षित ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2402	U99999DL1990PTC039072	गम्मा टेलीस्केच (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2403	U27102DL1990PTC039075	डेल्टा स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2404	U99999DL1990PTC039076	लोहिया इंस्टेट एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2405	U99999DL1990PTC039081	एन्कोर प्रिंटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2406	U51494DL1990PTC039083	खंडेलवाल एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
2407	U31909DL1990PTC039093	के.वी. कम्पोज़िट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2408	U99999DL1990PTC039096	नियो इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इन्सुलेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
2409	U26299DL1990PTC039117	ओरेल फुस्सली इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2410	U74210DL1990PTC039133	बन्मिक कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
2411	U51109DL1990PTC039147	अलका मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2412	U51397DL1990PTC039160	वैलफेअर ट्रेडिंग एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2413	U99999DL1990PTC039166	सोनी साणीतास (मार्केटिंग) प्राईवेट. लिमिटेड.
2414	U99999DL1990PTC039172	कुणाल इस्टेट्स एण्ड देलेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

2415	U99999DL1990PTC039187	एफ सी कौरिएज प्राईवेट. लिमिटेड.
2416	U99999DL1990PTC039200	नरड कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2417	U99999DL1990PTC039221	मेडेरा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2418	U01111DL1990PTC039232	महाराजा फार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2419	U99999DL1990PTC039239	जगन्नाथ रियल ईस्टेट प्राईवेट. लिमिटेड.
2420	U99999DL1990PTC039240	शेरस्था इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2421	U99999DL1990PTC039248	याग दत्त होटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2422	U63040DL1990PTC039252	सोग ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2423	U01122DL1990PTC039254	कृष्ण कृषी वीकास प्राईवेट. लिमिटेड.
2424	U25209DL1990PTC039259	डी.एन.एस. प्लास्टिसिजर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2425	U17229DL1990PTC039279	पर्सियन कारपेट मैन्युफैक्चररज प्राईवेट. लिमिटेड.
2426	U99999DL1990PTC039283	पी एम मेडिकल प्लेसेमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2427	U99999DL1990PTC039296	एस.एम. एअरकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
2428	U99999DL1990PTC039314	बबुशा वनस्पति प्राईवेट. लिमिटेड.
2429	U99999DL1990PTC039315	लार्क फिशिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2430	U31300DL1990PTC039322	अभिषेक इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2431	U99999DL1990PTC039361	फेअर डिटेक्टिव एजेन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
2432	U19201DL1990PTC039363	उजाला फूटवीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2433	U51909DL1990PTC039369	शेर-इ-पंजाब एन्जीन्यरींग वर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2434	U18101DL1990PTC039385	अंगड डिझाइन प्राईवेट. लिमिटेड.
2435	U99999DL1990PTC039407	ट्रियोडस सिक्क्यूरिटी सर्विसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2436	U15205DL1990PTC039417	कट्यानी कोल्डस्टोरेज प्राईवेट. लिमिटेड.
2437	U99999DL1990PTC039423	साई वीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2438	U99999DL1990PTC039428	टिमेलेस टूथ प्राईवेट. लिमिटेड.
2439	U99999DL1990PTC039431	पालिका स्टोर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2440	U99999DL1990PTC039448	आधुनिक मर्चेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2441	U99999DL1990PTC039454	पुनिया एलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2442	U99999DL1990PTC039456	शैलजा ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2443	U99999DL1990PTC039496	आरो टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2444	U99999DL1990PTC039522	वेन्जिक फार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2445	U31300DL1990PTC039531	परिना कंडक्टर्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2446	U45201DL1990PTC039539	महा दीप्ता देवेलोपर्स एण्ड बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2447	U72200DL1990PTC039547	खन्ना एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2448	U99999DL1990PTC039548	फेअर ऑग्रो-वन्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2449	U51311DL1990PTC039552	वर्टेक्स ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2450	U99999DL1990PTC039570	प्रवसी इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
2451	U74210DL1990PTC039604	आर्य डिझाइन कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2452	U74140DL1990PTC039612	कट्याल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2453	U17119DL1990PTC039631	वी.टैक्स फाईबर एण्ड फ्रेमिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2454	U99999DL1990PTC039633	स्पीडमैक्स कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2455	U45201DL1990PTC039642	एशिआड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2456	U17119DL1990PTC039647	आदिनाथ वूलें मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2457	U99999DL1990PTC039669	प्रोमिक्क इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2458	U72200DL1990PTC039681	कोम्प्यूटिड सिस्टम टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.

2459	U99999DL1990PTC039690	एक्स-बीम्स टेक्निकल सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2460	U51312DL1990PTC039707	सक्वी फूटवेअर प्राईवेट.लिमिटेड.
2461	U99999DL1990PTC039713	म्ब्र टावर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2462	U70100DL1990PTC039716	हीन्मिक इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2463	U99999DL1990PTC039741	रियल टाईम इंटेरिओर डेकोरेटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2464	U99999DL1990PTC039777	पेर्फेक्ट स्टील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2465	U99999DL1990PTC039796	रूपीस दातावीज़न कम्प्यूटर सर्विसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2466	U99999DL1990PTC039798	विशी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2467	U99999DL1990PTC039814	उपदेश चेमिकलास प्राईवेट.लिमिटेड.
2468	U99999DL1990PTC039827	धनोरिवालाएस वाइन ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2469	U99999DL1990PTC039845	एअर ब्रीज कौरिएर्ज़ एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2470	U99999DL1990PTC039881	स्वस्तिक होसिएरी प्राईवेट. लिमिटेड.
2471	U99999DL1990PTC039910	एड्न एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2472	U51109DL1990PTC039913	ट्रिडेंट ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2473	U29299DL1990PTC039927	केल्विन ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2474	U51431DL1990PTC039968	गरिमा टिम्बर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2475	U99999DL1990PTC039973	असमर सोआप्स एण्ड देटगैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2476	U24110DL1990PTC039983	ए टो झेड केम प्राईवेट.लिमिटेड.
2477	U99999DL1990PTC040009	निरंजन पॉलीमर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2478	U99999DL1990PTC040016	एक्सक्लुजिव कोन्फेक्शनेरी प्राईवेट.लिमिटेड.
2479	U51311DL1990PTC040021	क्वब एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2480	U24241DL1990PTC040025	प्रेम सोप एण्ड देटगैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2481	U99999DL1990PTC040027	भानु सेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2482	U99999DL1990PTC040076	हपक्ट्स मार्केटिंग एण्ड एक्स्पॉर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
2483	U99999DL1990PTC040091	सिमको वाल्वेस प्राईवेट लिमिटेड
2484	U99999DL1990PTC040103	सननेत ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2485	U17297DL1990PTC040132	सिद्धांत ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2486	U99999DL1990PTC040143	ओशन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2487	U99999DL1990PTC040144	काबूटेर कुरिअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2488	U24299DL1990PTC040148	वेल क्रॉप पेस्टिसिदेस प्राईवेट.लिमिटेड.
2489	U31506DL1990PTC040170	मेफेअर लुमिनेर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2490	U34300DL1990PTC040177	कृपाराम ऑटो इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2491	U74999DL1990PTC040179	म्ज डेसिग्नेरएस कलेक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
2492	U51909DL1990PTC040180	प्रेसेन्टेशन एक्सिम प्राईवेट.लिमिटेड.
2493	U01222DL1990PTC040198	खान ब्रोइटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2494	U33201DL1990PTC040203	विक्टरी ऑप्टिकल्स प्राईवेट. .लिमिटेड.
2495	U51909DL1990PTC040210	म्ब एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
2496	U99999DL1990PTC040211	रोशन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2497	U51432DL1990PTC040213	मोहक ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2498	U99999DL1990PTC040228	यशटेक एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2499	U99999DL1990PTC040229	चिन् प्रेस एण्ड प्रकाशन प्राईवेट.लिमिटेड.
2500	U74210DL1990PTC040307	राजीव गोयल आर्किटेक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2501	U99999DL1990PTC040311	स्मा मार्केटिंग सर्विसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2502	U99999DL1990PTC040312	सेसिले इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.

2503	U99999DL1990PTC040345	डी.डी.ट्रैवल एण्ड टूरस प्राईवेट.लिमिटेड.
2504	U24299DL1990PTC040349	कपूर पॉलीमैक एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2505	U29308DL1990PTC040375	ग्लो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2506	U72300DL1990PTC040379	नवशेक कम्प्यूटर सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2507	U99999DL1990PTC040398	एन.जी. बील्डर्ज़ एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2508	U99999DL1990PTC040402	हिंद पॉलीमर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2509	U99999DL1990PTC040427	प्रोक्सिमीली सर्वोसीज़ (इनिडा) प्राईवेट. लिमिटेड.
2510	U45201DL1990PTC040444	अधुनिका इस्टेट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2511	U99999DL1990PTC040446	त्रिसन्स बील्डर्ज़ एण्ड प्रोमोटर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2512	U99999DL1990PTC040454	कुंज पेंकेजींग प्राईवेट. लिमिटेड.
2513	U99999DL1990PTC040458	निधि लेंदर टेक प्राईवेट. लिमिटेड.
2514	U99999DL1990PTC040465	ऑडिओक्राफ्ट कुइप्मेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2515	U45201DL1990PTC040483	ओआम प्रोजेक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2516	U27109DL1990PTC040493	विष्णु आइरन इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2517	U99999DL1990PTC040494	डी.एफ. कम्प्युनिकेशन कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2518	U18101DL1990PTC040512	रिच्व गार्मेट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2519	U99999DL1990PTC040521	मदीना कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2520	U99999DL1990PTC040524	कम्पले-मेड प्राईवेट.लिमिटेड.
2521	U32101DL1990PTC040534	दीना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2522	U30007DL1990PTC040568	सोनास्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2523	U51495DL1990PTC040618	एन.एम. ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2524	U99999DL1990PTC040637	ग्रंडलै मेडिकल सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
2525	U74999DL1990PTC040646	सकटमैन चार्टरिंग एण्ड शिपिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2526	U63040DL1990PTC040651	स्काईलार्क एअरवेज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2527	U17112DL1990PTC040659	नीससन फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2528	U99999DL1990PTC040676	लखनपाल कॅमिकल्स एण्ड पेस्टिसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2529	U99999DL1990PTC040685	राजयोग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2530	U99999DL1990PTC040688	भाईजीएस फ़्लौर मील्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2531	U74140DL1990PTC040700	मिनालि मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2532	U99999DL1990PTC040740	टू फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2533	U31300DL1990PTC040757	नेल्कोन केबल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2534	U99999DL1990PTC040769	जी.आर. ग्रोणाईट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2535	U74140DL1990PTC040776	यशो मीडिया सर्वोसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2536	U51909DL1990PTC040781	डीन मार्केटिंग एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2537	U99999DL1990PTC040787	प्लूमागे प्लास्टिक प्राईवेट.लिमिटेड.
2538	U99999DL1990PTC040823	इन्डो कोरीन इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2539	U29299DL1990PTC040828	रेदीऊम ऑटो एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2540	U45201DL1990PTC040841	आरेना कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2541	U45201DL1990PTC040851	कलगीहंर बील्डर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2542	U99999DL1990PTC040862	पार्थ ओईल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2543	U99999DL1990PTC040863	एलिगंट डिटेक्टिव एजेन्सी प्राईवेट. लेफ़्टनेन्ट.
2544	U99999DL1990PTC040883	बिसेन स्ट्रुमीत एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2545	U99999DL1990PTC040908	मीनाक्षी होम अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2546	U99999DL1990PTC040918	निदल इम्पेक्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.

2547	U18101DL1990PTC040933	गौरीका गार्मेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2548	U51420DL1990PTC040935	ईदसेरजीत मेटल प्राइवेट. लिमिटेड.
2549	U24299DL1990PTC040939	पासिफिक एरोसोल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2550	U99999DL1990PTC040965	न्या इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2551	U99999DL1990PTC040972	दर्शन लाल ज्यूएलर्जी प्राइवेट. लिमिटेड.
2552	U31200DL1990PTC040975	मेटल टेकनिक (इंडिया) प्राइवेट.लिमिटेड.
2553	U18101DL1990PTC040984	ज्वाक ज़िप्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2554	U29302DL1990PTC041004	ओसवाल अप्लिआन्सीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
2555	U99999DL1990PTC041033	करन वूलेन मील्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2556	U99999DL1990PTC041036	सारिका बील्डर्ज़ प्राइवेट.लिमिटेड.
2557	U72900DL1990PTC041050	ओरक्ल दाता सिस्टम्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2558	U74300DL1990PTC041057	नॉ मार्केटिंग कन्सलतन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2559	U99999DL1990PTC041079	डूड एण्ड सन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2560	U99999DL1990PTC041132	विन्लेब इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2561	U51109DL1990PTC041133	स्किन क्राफ्ट इम्पेक्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2562	U99999DL1990PTC041138	रोय ओवरसीज़ एण्ड टेक्निकल कन्सलतन्ट्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2563	U99999DL1990PTC041144	हिंदुस्तान ग्रॅण्डाइट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2564	U74999DL1990PTC041148	क्वालिटी मैनेजमेन्ट नेटवर्क प्राइवेट. लिमिटेड.
2565	U85110DL1990PTC041156	पारस होटेल्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2566	U99999DL1990PTC041167	मट्रिक्स इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट. लिमिटेड.
2567	U70101DL1990PTC041172	मधुनीर इस्टेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2568	U65921DL1990PTC041189	अस्सेत देवेलोपर्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2569	U51494DL1990PTC041196	टू वॅल्यू अपरेल्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2570	U29299DL1990PTC041201	सू-केम मशीन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2571	U99999DL1990PTC041202	किडीरे (इंडिया) फर्मसटिकल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2572	U99999DL1990PTC041209	रागे क्राफ्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2573	U99999DL1990PTC041211	दिल्ली न्युज़ मीडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
2574	U74210DL1990PTC041212	बिजित एन्जीन्यरींग कन्सलतन्ट्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2575	U63040DL1990PTC041238	फ्रीडर टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2576	U51229DL1990PTC041240	इंडियन स्पाइसीज़ एण्ड प्रोसेस्सेड फूड्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2577	U99999DL1990PTC041284	आळेक फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2578	U51909DL1990PTC041289	अपन दुकान डीपार्टमेंटल स्टोर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2579	U99999DL1990PTC041331	अल्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2580	U99999DL1990PTC041332	सतिसेक्शन डोमेस्टिक एड्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2581	U51909DL1990PTC041342	साई ओवरसीज़ प्राइवेट.लिमिटेड.
2582	U99999DL1990PTC041359	आड्वंट मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
2583	U18101DL1990PTC041370	विद्या वस्त्र प्राइवेट. लिमिटेड.
2584	U99999DL1990PTC041373	ऊनिक वूल प्रोसेसर्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2585	U99999DL1990PTC041374	न्यू बीम फ़ेरो अलॉयस प्राइवेट. लिमिटेड.
2586	U72200DL1990PTC041385	पेरिस्कोप सॉफ्टवेयर प्राइवेट.लिमिटेड.
2587	U51909DL1990PTC041422	चंदर प्रभु एजन्सीस प्राइवेट. लिमिटेड.
2588	U15202DL1990PTC041429	अंग्रो इंडिया मल्ट्स प्राइवेट.लिमिटेड.
2589	U74210DL1990PTC041430	अज्क कन्सलतन्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
2590	U99999DL1990PTC041463	मेरिटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.

2591	U99999DL1990PTC041487	हिमजेंट एक्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
2592	U33130DL1990PTC041507	स्म ही-वक सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2593	U45201DL1990PTC041536	सोमबीलडर्ज (तपा) प्राईवेट. लिमिटेड.
2594	U65923DL1990PTC041539	डक्म एंफ्लोयीस वालफेअर कम्पाय प्राईवेट. लिमिटेड.
2595	U18109DL1990PTC041564	आल्प्स इंडिया क्लोथींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2596	U99999DL1990PTC041576	हेमकुंठ बीलडर्ज एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2597	U99999DL1990PTC041598	न्यू टेक फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2598	U29192DL1990PTC041604	मेहता मीकेनिकल वर्क्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2599	U99999DL1990PTC041618	शिवालिक बीलडर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2600	U99999DL1990PTC041623	जे.डी.सी. एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2601	U99999DL1990PTC041673	अन्निका ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2602	U99999DL1990PTC041675	अन्निका कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2603	U99999DL1990PTC041683	लोकेश लूमटैक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2604	U29299DL1990PTC041690	झीगा इररीगेशन कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2605	U99999DL1990PTC041725	आक्ट कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2606	U99999DL1990PTC041732	एक्सेल ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2607	U99999DL1990PTC041736	ट्रेकन एन्जीन्यरींग कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2608	U99999DL1990PTC041740	अमीर दीवान फार्म्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2609	U99999DL1990PTC041751	कॉबट कम्प्यूटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2610	U29308DL1990PTC041780	टेली क्क प्राईवेट. लिमिटेड.
2611	U27109DL1990PTC041840	गेनुइन स्टील अल्लोयस प्राईवेट. लिमिटेड.
2612	U99999DL1990PTC041851	सेवन कॉबोन्स स्तुतियोस प्राईवेट. लिमिटेड.
2613	U24119DL1990PTC041865	सन रेप्रोचेम प्राईवेट. लिमिटेड.
2614	U31200DL1990PTC041870	पन्शू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2615	U31200DL1990PTC041909	फिनेक्स इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2616	U99999DL1990PTC041934	के.एन. बीलडर्ज एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2617	U45201DL1990PTC041945	पूजा हाऊसींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2618	U24246DL1990PTC041972	रॉकलैंड आरामटिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2619	U32101DL1990PTC042006	हिटेक अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2620	U51909DL1990PTC042011	रेगल्रोबेस प्राईवेट.लिमिटेड.
2621	U32201DL1990PTC042012	जसमीत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2622	U99999DL1990PTC042029	प्रोमोडिआल गुर्मे प्राईवेट. लिमिटेड.
2623	U99999DL1990PTC042037	सुजू प्रोपर्टीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2624	U99999DL1990PTC042071	इम्प्लिकार कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
2625	U99999DL1990PTC042120	जी.आर. मेटल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2626	U51109DL1990PTC042145	इम्पीरियल ट्रेडर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2627	U52322DL1990PTC042150	प्रल्हाद एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2628	U99999DL1990PTC042163	हैद्राऊ कॉन एन्जीन्यरींग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2629	U99999DL1990PTC042198	माकन रब्लर प्राईवेट. लिमिटेड.
2630	U19111DL1990PTC042212	नित्सू लेंदर प्राईवेट. लिमिटेड.
2631	U99999DL1990PTC042215	रामेश्वरम कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
2632	U51311DL1990PTC042224	सुकन्या अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2633	U99999DL1990PTC042236	एल्सीन सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2634	U99999DL1990PTC042254	शशी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

2635	U99999DL1990PTC042266	शिवम होम अप्लिआन्सीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2636	U18101DL1990PTC042277	मिड-टाउन ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2637	U74300DL1990PTC042282	शले अड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2638	U51909DL1990PTC042284	मूनलाईट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2639	U99999DL1990PTC042293	हीवान फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2640	U33112DL1990PTC042331	लालसन दिआग्नोस्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2641	U74140DL1990PTC042354	जी.ए. मैनेजमेन्ट एण्ड एंटरप्रेनेउर्स सर्वीसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2642	U99999DL1990PTC042358	ईह एन्जीन्यरींग प्राईवेट. लिमिटेड.
2643	U55101DL1990PTC042385	बक होटेल एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2644	U51909DL1990PTC042394	रुची ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2645	U99999DL1990PTC042399	पाल्तेक इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2646	U72100DL1990PTC042405	ए.जी. कम्प्यू-ग्राफिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2647	U27310DL1990PTC042407	इंद्र राज बत्रा स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2648	U24222DL1990PTC042444	भुनित कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2649	U99999DL1990PTC042450	मनचंदा इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2650	U73100DL1990PTC042459	लूंबा लेबॉरेटरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
2651	U99999DL1990PTC042481	अंट्रिक्स एअरवेज प्राईवेट. लिमिटेड.
2652	U19201DL1990PTC042485	शास्लीमार लेंदर इन्डस्ट्रियल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2653	U99999DL1990PTC042507	साप अलोयस प्राईवेट. लिमिटेड.
2654	U51909DL1990PTC042508	एलिंगट मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2655	U18101DL1990PTC042532	लाईट बिन्त्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2656	U99999DL1990PTC042555	स्टेग फूटवेअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2657	U99999DL1991PTC042562	वीक्रम फ्रेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2658	U99999DL1991PTC042567	रास्लीन आर्ट प्रिंटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2659	U24131DL1991PTC042585	आशीष पॉलीटेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2660	U51399DL1991PTC042588	आर्टिसन हांडीक्राफ्ट्स सेराय प्राईवेट. लिमिटेड.
2661	U99999DL1991PTC042620	हेल्पींग हैंड्स सर्वीसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2662	U99999DL1991PTC042627	दीशे अप्लिआन्सीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2663	U99999DL1991PTC042638	सोवेरीन ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2664	U17223DL1991PTC042641	ऊमेश वूलेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2665	U99999DL1991PTC042694	दरेक्स इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2666	U51311DL1991PTC042697	वी.ए.पी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2667	U99999DL1991PTC042699	क्रॉसफील्ड लैंड देवेलोपर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2668	U99999DL1991PTC042714	परवट स्पिनिंग एण्ड वीबींग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2669	U51909DL1991PTC042720	स्टुडियो स्पेल एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2670	U17101DL1991PTC042744	कयेम ऑलुमिनिअम प्राईवेट. लिमिटेड.
2671	U99999DL1991PTC042756	प्रोफेसोर एन.के. सिंह अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2672	U74999DL1991PTC042767	पुनर्वसू सीनरगी सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2673	U72200DL1991PTC042777	लोहरा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2674	U32109DL1991PTC042790	मल्टीदाता मेडिकल फीसिक्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2675	U99999DL1991PTC042799	आर.जे. स्टीलमन इंडस्ट्री प्राईवेट. लिमिटेड.
2676	U26109DL1991PTC042806	न्यू एरा ग्लास इंडस्ट्रिय प्राईवेट. लिमिटेड.
2677	U99999DL1991PTC042816	बुशी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

2678	U99999DL1991PTC042834	नियोन टेलीकोम इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2679	U99999DL1991PTC042849	इंटरविशन केबल्स सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड
2680	U99999DL1991PTC042861	कास्पिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2681	U24139DL1991PTC042868	मोनटाना टेप्स प्राईवेट.लिमिटेड
2682	U99999DL1991PTC042877	पारुआ सन्स मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2683	U99999DL1991PTC042890	रवीश कास्सीफ्रेट इन्डस्ट्रिज प्राईवेट.लिमिटेड.
2684	U99999DL1991PTC042892	रिवाज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2685	U51109DL1991PTC042904	फर्स्ट स्टॉप सेल्स प्राईवेट.लिमिटेड..
2686	U99999DL1991PTC042912	परवियोन टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2687	U51311DL1991PTC042938	एस एण्ड ए प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2688	U45201DL1991PTC042964	रेपिड कन्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2689	U99999DL1991PTC042969	कॉल टेक डायइंग मील्ल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2690	U99999DL1991PTC042983	रण टेक बुक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2691	U99999DL1991PTC042992	मध्यांत फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2692	U99999DL1991PTC042996	वृद्धि कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2693	U99999DL1991PTC043013	प्राण्टी बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2694	U99999DL1991PTC043041	इंडिया ज़िपर्स एण्ड एलास्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2695	U70101DL1991PTC043045	सुमन कोलोनीसर्ज प्राईवेट.लिमिटेड.
2696	U99999DL1991PTC043072	जी.पी. प्रोपर्टीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2697	U99999DL1991PTC043107	सनव्यु होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2698	U51492DL1991PTC043126	साधु राम किशन चांद प्राईवेट.लिमिटेड.
2699	U31300DL1991PTC043136	वुभू इन्डस्ट्रिज प्राईवेट.लिमिटेड.
2700	U99999DL1991PTC043152	समुद्र कम्प्युटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
2701	U99999DL1991PTC043160	निर्मल कोगेज बेल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
2702	U80302DL1991PTC043191	अपार्टमेन्ट दातामॅटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2703	U74210DL1991PTC043193	ओन जॉब इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2704	U99999DL1991PTC043196	परतेक कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2705	U15549DL1991PTC043213	रीलायन्स बेवरागेस प्राईवेट. लिमिटेड.
2706	U63040DL1991PTC043242	बीकानेर पंजाब रोड कॅरिअर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2707	U32101DL1991PTC043259	एन वी इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2708	U99999DL1991PTC043270	आनप्रिया मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2709	U99999DL1991PTC043271	ए.टच सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2710	U99999DL1991PTC043296	सिद्धी यिनायक इलेक्ट्रो देविजीज प्राईवेट.लिमिटेड.
2711	U99999DL1991PTC043304	रागिनी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
2712	U99999DL1991PTC043346	वरून ओल्चेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
2713	U45202DL1991PTC043354	महाशक्ती कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2714	U74950DL1991PTC043370	अल गैक (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड
2715	U45202DL1991PTC043378	वीजय कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड सिविल इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2716	U27109DL1991PTC043400	मेहंदीपुर स्टील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2717	U99999DL1991PTC043403	सर्वेसा इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2718	U99999DL1991PTC043422	मोट्यो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2719	U99999DL1991PTC043433	गौरव प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2720	U99999DL1991PTC043436	शैला एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2721	U22219DL1991PTC043470	सेनसार्क प्रेस प्राईवेट. लिमिटेड.

2722	U51397DL1991PTC043471	न्क्स मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2723	U50101DL1991PTC043486	सन्मति ऑटो ट्रेडर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2724	U99999DL1991PTC043496	प्रतेक सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2725	U51909DL1991PTC043499	वी-फाईन एस्सेन्टिआल होम प्रोडक्ट्स एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2726	U26942DL1991PTC043509	दक्षदीप कम्प्युटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2727	U99999DL1991PTC043510	साई सिमेंट वर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2728	U99999DL1991PTC043524	प्रत्युषा एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2729	U99999DL1991PTC043533	इमेज बील्डर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2730	U99999DL1991PTC043534	जे.एस. बिबरेजीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2731	U31900DL1991PTC043581	ह्यूब प्रीसिशन कम्पोनेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2732	U99999DL1991PTC043592	यंग कम्युनिकेशन प्राईवेट.लिमिटेड.
2733	U63040DL1991PTC043605	नीरू ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2734	U99999DL1991PTC043635	प्राईम हेर्ट केअर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट.लिमिटेड.
2735	U45201DL1991PTC043648	शिवलिक स्त्रुक्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2736	U36104DL1991PTC043678	गोल्डस्टार कोर्डर प्राईवेट. लिमिटेड.
2737	U99999DL1991PTC043690	कोल्ड स्टील एक्स्पुशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2738	U99999DL1991PTC043715	एंपेक्स फूटवेअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2739	U32109DL1991PTC043741	रेम्को कम्पोनेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2740	U99999DL1991PTC043753	बोग लेंदर गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2741	U99999DL1991PTC043777	ए.पी. वायर एण्ड केबल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2742	U51311DL1991PTC043779	मयंक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2743	U65910DL1991PTC043800	सोर्ड सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2744	U99999DL1991PTC043817	मट कोन्पुटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2745	U51109DL1991PTC043835	देवीना मर्चेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2746	U99999DL1991PTC043857	बिर्दी मार्केटिंग (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
2747	U99999DL1991PTC043899	टैक्सफ़ेब एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2748	U74210DL1991PTC043918	फ़ैज़ इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2749	U67120DL1991PTC043927	फ़ेडेक्स कार्गो एण्ड कौरिएर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2750	U99999DL1991PTC043952	अक्षय फ़ूड्स एण्ड बिबरेजीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2751	U92111DL1991PTC043981	आभार मोवीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2752	U99999DL1991PTC044000	दुर्गा अपार्टमेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2753	U51909DL1991PTC044006	फ़िब्रो अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2754	U24222DL1991PTC044030	बाली पॉलीमर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2755	U24221DL1991PTC044078	विंटर ग्रीन्स टैक्सकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
2756	U26956DL1991PTC044079	प्रेश इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2757	U99999DL1991PTC044106	विनोदेश पॉलीइन्क्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2758	U99999DL1991PTC044107	मान टावर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2759	U99999DL1991PTC044123	महाशक्ती बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2760	U99999DL1991PTC044128	पार्वती मशीन टूल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2761	U99999DL1991PTC044142	अविव फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2762	U51216DL1991PTC044165	रूसीडा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2763	U51909DL1991PTC044168	एस.ए. सेल्स कॉम्पअर्मी प्राईवेट. लिमिटेड.
2764	U51109DL1991PTC044175	ओम कन्सिगनी एजेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2765	U99999DL1991PTC044189	न्यू एनर्जी टेक्नोलोजी एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.

2766	U74300DL1991PTC044205	राही आर्ट सर्वोसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2767	U21022DL1991PTC044224	न्यू गायत्री पाकवेज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2768	U70101DL1991PTC044227	एम.बहल एण्ड कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2769	U74210DL1991PTC044246	स्कोपिक इंडिया इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2770	U99999DL1991PTC044250	ब्रस्ट इंडिया होटेल्स ट्रैवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट.लिमिटेड.
2771	U22122DL1991PTC044259	न्युज़ॉय पब्लिकेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2772	U51311DL1991PTC044268	लादी तोशी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2773	U99999DL1991PTC044275	कॉमेट ट्रेडर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2774	U24231DL1991PTC044278	सुपर विटमिन्स एण्ड दुगोस प्राईवेट.लिमिटेड.
2775	U92412DL1991PTC044283	सिनिंग हिल्लस कंट्री क्लब प्राईवेट.लिमिटेड.
2776	U01214DL1991PTC044326	ए.बी. स्टड एण्ड ऑग्रिकल्चरल फ़ार्म प्राईवेट. लिमिटेड.
2777	U99999DL1991PTC044341	हिमगिरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2778	U63040DL1991PTC044349	इसान ट्रैवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2779	U99999DL1991PTC044354	डिस्कोवेरी इंटरनेशनल प्राईवेट.लिमिटेड.
2780	U63090DL1991PTC044360	मिकडो एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
2781	U99999DL1991PTC044375	अमोल कैमिकल्स लेबॉरेटरिस प्राईवेट.लिमिटेड.
2782	U45201DL1991PTC044379	मानसी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट.लिमिटेड.
2783	U99999DL1991PTC044404	गडन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2784	U51909DL1991PTC044412	अल्मज इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2785	U99999DL1991PTC044448	टोरुस तेगस प्राईवेट.लिमिटेड.
2786	U99999DL1991PTC044486	जे.एम.डी. एन्टरप्राईसीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2787	U99999DL1991PTC044499	दिनेश एन्विरोन्मेन्टल सर्वोसीज़ पोलुशन कन्ट्रोल एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट . लिमिटेड.
2788	U19119DL1991PTC044533	आर.ए.एस. फ़ूटवेअर प्राईवेट.लिमिटेड.
2789	U51311DL1991PTC044542	गस्व ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2790	U99999DL1991PTC044563	पस्टेल ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2791	U99999DL1991PTC044566	कम्स (इंडिया) रेक्सप्रेस कार्ड प्राईवेट.लिमिटेड.
2792	U99999DL1991PTC044570	मिलन रास्ता एण्ड फ़ुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड
2793	U99999DL1991PTC044574	प्रभा प्रोडक्ट्स एण्ड बील्डर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2794	U63031DL1991PTC044578	कैप्ट. आर.एस. सिंधु ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
2795	U51101DL1991PTC044586	बोन टन इक्स्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2796	U51399DL1991PTC044598	गुप्ता सप्लायर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2797	U31503DL1991PTC044609	सैंडी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2798	U51311DL1991PTC044636	डिसेंट सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2799	U74210DL1991PTC044653	शीरीश मालपाणी एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2800	U99999DL1991PTC044661	सुन्डौन मैन्युफ़ेक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2801	U74140DL1991PTC044678	मूरगाई अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2802	U74210DL1991PTC044692	इ.एस. इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2803	U99999DL1991PTC044707	वाइटसिटी बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2804	U31900DL1991PTC044730	शक्ती हन्कुक प्राईवेट. लिमिटेड.
2805	U99999DL1991PTC044752	माया प्लास्टिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2806	U99999DL1991PTC044788	इंदफ़िन -टेक कन्सल्टन्सी प्राईवेट.लिमिटेड.
2807	U99999DL1991PTC044797	निकी इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2808	U41909DL1991PTC044806	बापाल ट्रेडिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2809	U99999DL1991PTC044812	वृन्दावन इस्टेट्स प्राईवेट.लिमिटेड.

2810	U99999DL1991PTC044840	उत्सव प्लास्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
2811	U25209DL1991PTC044842	सतगुरु प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्राईवेट.लिमिटेड.
2812	U74999DL1991PTC044852	वीनस प्रीसिशन पाटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2813	U99999DL1991PTC044862	वीजन ईथर कम्युनिकेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2814	U51909DL1991PTC044878	ज्जस मेदीकेअर प्राईवेट.लिमिटेड.
2815	U36101DL1991PTC044902	दुरा बुइल्ट फ़र्निचर प्राईवेट.लिमिटेड.
2816	U99999DL1991PTC044917	स्टान्डार्ड मिनियामूरे सर्कीट ब्राकर प्राईवेट. लिमिटेड.
2817	U99999DL1991PTC044918	जय कृष्ण सिमेंट वर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2818	U74999DL1991PTC044933	डेक-होम अप्लिआन्सीज प्राईवेट.लिमिटेड
2819	U99999DL1991PTC044941	अरविंद टेक्नो कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2820	U74999DL1991PTC044956	बीरबल गिफ़्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2821	U63040DL1991PTC044962	डिज़ाईनर्स टूल्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट. लिमिटेड.
2822	U99999DL1991PTC044968	एन .एन. स्क्रिबेनेर इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
2823	U99999DL1991PTC045006	नूमेरोनिकस सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2824	U99999DL1991PTC045009	पीस टूल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2825	U99999DL1991PTC045034	टिमेलेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2826	U99999DL1991PTC045044	रज्जिगंडा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2827	U67120DL1991PTC045082	आस्था होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2828	U24114DL1991PTC045099	अयोध्या कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2829	U99999DL1991PTC045103	स्पेस सॉफ़्टवेयर प्राईवेट.लिमिटेड.
2830	U99999DL1991PTC045119	आकारशान ट्रेवलस एण्ड कागों प्राईवेट.लिमिटेड.
2831	U99999DL1991PTC045143	ट्रेड सेटर्ज अप्लिआन्सीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2832	U74999DL1991PTC045148	हेलिकोन मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2833	U27204DL1991PTC045158	स्वीटी कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2834	U99999DL1991PTC045169	स्वस्तिक वास्तार उद्योग प्राईवेट.लिमिटेड.
2835	U99999DL1991PTC045190	पट्टार कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2836	U99999DL1991PTC045203	क्लब स्टील एण्ड अलॉयस प्राईवेट.लिमिटेड.
2837	U99999DL1991PTC045227	सब ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
2838	U99999DL1991PTC045245	तास्ती टी पेकागर प्राईवेट.लिमिटेड.
2839	U99999DL1991PTC045265	त्रीवेनी एक्स्ट्रुडिऑस प्राईवेट.लिमिटेड.
2840	U17102DL1991PTC045318	जैन इन्डस्ट्रिज प्राईवेट.लिमिटेड.
2841	U99999DL1991PTC045368	जय अंबिका प्लास्टिक मोलडींग प्राईवेट. लिमिटेड.
2842	U27101DL1991PTC045392	महादेव रोलिंग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2843	U99999DL1991PTC045399	इम्स मरीन कन्सल्टन्सी एण्ड कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2844	U51311DL1991PTC045450	रकुल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2845	U99999DL1991PTC045464	फ़ौरिएर इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2846	U51909DL1991PTC045505	चरणजीत लाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
2847	U34300DL1991PTC045530	मोहिंद्र ऑटो प्राईवेट. लिमिटेड.
2848	U99999DL1991PTC045539	ट्रान्स मीडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
2849	U99999DL1991PTC045547	दल्शेम वेशीप (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2850	U92490DL1991PTC045555	गूदकित ऑडिओ विसुआल्स प्राईवेट..लिमिटेड.
2851	U51109DL1991PTC045558	स्विफ़्ट डिस्टिलेरिस प्राईवेट. लिमिटेड
2852	U99999DL1991PTC045571	रोटमैन ट्रेवलस प्राईवेट.लिमिटेड.
2853	U99999DL1991PTC045573	शिप्रा टूल्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.

2854	U22219DL1991PTC045575	पेट्रियट पुब्लिशर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2855	U17102DL1991PTC045579	हिमांशु स्टील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2856	U99999DL1991PTC045602	ए.एस. परमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2857	U74999DL1991PTC045615	आर. टेलीकोम बिसनेस सर्वीसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2858	U52399DL1991PTC045617	शबाब-इ- खल प्राईवेट.लिमिटेड.
2859	U63090DL1991PTC045627	स्पैरो कुरिअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2860	U99999DL1991PTC045631	त्रिशूल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2861	U99999DL1991PTC045647	मानव फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2862	U99999DL1991PTC045655	प्रलेक्स फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2863	U17299DL1991PTC045694	कूमाउ वूलैन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2864	U99999DL1991PTC045744	ए.डी. फ़ुएल इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
2865	U74300DL1991PTC045803	सीनोप्सिस अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2866	U45201DL1991PTC045815	रावत प्रोमोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2867	U99999DL1991PTC045817	क्वालिटी केटरर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2868	U99999DL1991PTC045822	बोलगा पिग्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2869	U74920DL1991PTC045830	बी.एच. मनपॉवर अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2870	U22121DL1991PTC045855	शब्दार्थ संचार प्राईवेट.लिमिटेड.
2871	U22121DL1991PTC045855	शब्दार्थ संचार प्राईवेट.लिमिटेड.
2872	U51909DL1991PTC045856	नोर्थ दिल्ली ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2873	U70109DL1991PTC045863	स्वर्ण कमल अपार्टमेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2874	U70109DL1991PTC045884	मेहर देवेलोपर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2875	U99999DL1991PTC045885	चक्र अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
2876	U26941DL1991PTC045896	नव भारत सेमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2877	U99999DL1991PTC045897	पुष्प मोहन प्रोडक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2878	U51109DL1991PTC045912	एवरलाईट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2879	U51420DL1991PTC045922	कूटीर मेटल्स उद्योग प्राईवेट.लिमिटेड.
2880	U99999DL1991PTC045928	सोढ़ी सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2881	U70101DL1991PTC045961	मेट्रो फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2882	U51101DL1991PTC045967	इक्म ट्रान्सवर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड
2883	U99999DL1991PTC045990	सनया अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2884	U74300DL1991PTC046000	ऊर्मंग ऑडिओवाइस आडवर्टिसर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2885	U99999DL1991PTC046023	एमेस प्रोमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2886	U72200DL1991PTC046024	वीज़न टेक्नोलोजीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2887	U99999DL1991PTC046036	निमबी स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2888	U31102DL1991PTC046043	नोवोमेक प्रोडक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2889	U99999DL1991PTC046052	वेबीक ड्रेज कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2890	U99999DL1991PTC046071	हालोनिकस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2891	U80302DL1991PTC046072	नोस्त्रुम कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
2892	U99999DL1991PTC046073	साक्षी ओवेरेस प्राईवेट.लिमिटेड.
2893	U99999DL1991PTC046096	शान ओइल फ़्रील्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2894	U99999DL1991PTC046102	प्रिंस हर्बल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2895	U99999DL1991PTC046123	गुरमीत अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2896	U99999DL1991PTC046155	कैलासपति मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2897	U99999DL1991PTC046184	कुंडली ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

2898	U65910DL1991PTC046186	मिड ईस्ट फ़ार्म प्राईवेट. लिमिटेड.
2899	U99999DL1991PTC046188	मिड वेस्ट इन्क्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2900	U99999DL1991PTC046189	अता कन्सलतन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2901	U65910DL1991PTC046196	कुसुम फ़ार्म्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2902	U99999DL1991PTC046211	कप्स एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
2903	U45201DL1991PTC046226	कपिल बील्डिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2904	U99999DL1991PTC046268	बित्स एण्ड बट्स सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2905	U99999DL1991PTC046278	प्रियंका सप्लाइर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2906	U99999DL1991PTC046289	कुइक कोल मोवर्ज़ एण्ड सप्लाइर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2907	U51219DL1991PTC046303	युबिल ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2908	U51311DL1991PTC046407	एन एनियरीना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2909	U33119DL1991PTC046410	एक्सोतिक हेब्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2910	U45201DL1991PTC046466	डेम्बला बील्डिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2911	U99999DL1991PTC046470	डिस्कोवेरी मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2912	U99999DL1991PTC046475	अक्शन रबर्ज़ (इंडिया)प्राईवेट. लिमिटेड.
2913	U24241DL1991PTC046483	अर्वा सीन्डेत प्राईवेट. लिमिटेड.
2914	U99999DL1991PTC046489	एप्स टेक्नोलोजी प्राईवेट. लिमिटेड.
2915	U99999DL1991PTC046522	एस.स्पेस ओनिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2916	U18101DL1991PTC046541	स्पॉट-कनोट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2917	U99999DL1991PTC046542	शिव च्लोरिदेस प्राईवेट.लिमिटेड.
2918	U51395DL1991PTC046543	कोकून मेकॉतिल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2919	U45202DL1991PTC046547	एठेना प्रोपेटीस एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2920	U45202DL1991PTC046559	पार्कव्यू कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2921	U99999DL1991PTC046562	पटियाल अंग्रो फ़ुएल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2922	U99999DL1991PTC046566	गायत्री ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट.लिमिटेड.
2923	U29192DL1991PTC046576	चैम्पियन एअर कंडिशनिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2924	U99999DL1991PTC046627	मेन्वाह फ़िल्म्स एण्ड वीडियो स्टुडियो प्राईवेट.लिमिटेड.
2925	U99999DL1991PTC046632	सम ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2926	U99999DL1991PTC046633	करेम फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2927	U15142DL1991PTC046636	न्यू सनमान ओईल एण्ड कॅमिकल्स इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2928	U25207DL1991PTC046641	यशीटे प्लास्टिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2929	U17299DL1991PTC046669	अपर क्लास अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2930	U27106DL1991PTC046701	एन.आर. स्टील्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2931	U99999DL1991PTC046743	के.बी. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट.लिमिटेड.
2932	U99999DL1991PTC046745	शांती फ़र्टिलीज़र प्राईवेट. लिमिटेड.
2933	U51909DL1991PTC046747	निफ़हा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2934	U99999DL1991PTC046754	के.एम. कन्सलतन्ट्स एण्ड इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2935	U99999DL1991PTC046755	शालीमार दूस् प्राईवेट.लिमिटेड.
2936	U51494DL1991PTC046757	कॉस्मो फ़ाशियोनस प्राईवेट.लिमिटेड.
2937	U99999DL1991PTC046760	प्रोन्टो कौरिएज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2938	U99999DL1991PTC046779	ओकी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2939	U99999DL1991PTC046782	राम इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2940	U99999DL1991PTC046793	बजाज आईस कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट.लिमिटेड.
2941	U99999DL1991PTC046821	लुरे कर्मेटिक्स प्राईवेट.लिमिटेड.

2942	U99999DL1991PTC046829	श्याम सवेरा को-कौरिर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2943	U99999DL1991PTC046837	कोकील एक्सपोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2944	U99999DL1991PTC046839	दादी तेलेवीज़न एण्ड तेले कम्युनिकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
2945	U99999DL1991PTC046844	अजय सेमेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2946	U99999DL1991PTC046848	गाव कम्युटर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2947	U99999DL1991PTC046855	पुनम लेंदर प्राईवेट.लिमिटेड.
2948	U51311DL1991PTC046883	रिची रिच ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2949	U51109DL1991PTC046889	फ़्लोरिड एजन्सीस प्राईवेट.लिमिटेड.
2950	U99999DL1991PTC046890	ब्लोस्सोम एक्सपोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2951	U65992DL1991PTC046924	प्रान्स कर्टून्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2952	U99999DL1991PTC046939	श्रुबी प्रिंट्स एण्ड पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2953	U51909DL1991PTC046946	पेन्गुइन ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2954	U99999DL1992PTC046947	सूलाह कैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2955	U74140DL1992PTC046993	भगवान एक्सपोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2956	U99999DL1992PTC047048	अन्यिमे अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2957	U35121DL1992PTC047070	कुक्कु ट्रैवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2958	U74300DL1992PTC047073	डोनल आइवटर्सज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2959	U51909DL1992PTC047083	लहर एक्सपोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2960	U51909DL1992PTC047102	हरमीना आर. एक्सपोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2961	U99999DL1992PTC047108	सेकंडलाईफ़ सर्जिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2962	U74994DL1992PTC047131	फ़्लौ टेक कूलींग टावर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
2963	U52322DL1992PTC047152	संटना एक्सपोटर्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
2964	U99999DL1992PTC047228	बी.एस. रेज़ीड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2965	U74140DL1992PTC047232	कुमार सॉफ़्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2966	U99999DL1992PTC047244	पहूजा फ़ाशोईन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2967	U99999DL1992PTC047257	बकेमंस इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2968	U63040DL1992PTC047270	उथन टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2969	U99999DL1992PTC047276	ह्यूरो पॉवर इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2970	U99999DL1992PTC047289	अमित लीडर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2971	U99999DL1992PTC047293	एस.के. मेंगनीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2972	U99999DL1992PTC047309	नूपूर ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2973	U99999DL1992PTC047326	श्री हरिवंश टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2974	U99999DL1992PTC047330	ए.डी. रेफ़्रिजेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
2975	U51909DL1992PTC047353	विवेकनंदा मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2976	U99999DL1992PTC047364	अल्लाटिआ मिल्क प्राईवेट. लिमिटेड.
2977	U51228DL1992PTC047370	ए. सूद एण्ड को. प्राईवेट. लिमिटेड.
2978	U36109DL1992PTC047404	तुश एण्ड टी इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
2979	U85110DL1992PTC047407	अलिआन्स बॉडी केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
2980	U51909DL1992PTC047409	हर्ष कॉपिअर्स मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
2981	U24299DL1992PTC047415	जम्ड कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2982	U99999DL1992PTC047432	टेक्नीसकील एन्जीन्यरींग प्राईवेट.लिमिटेड.
2983	U51909DL1992PTC047434	डी.एन. एंटाप्रिज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
2984	U99999DL1992PTC047441	जे.एन. नंदा टेक्निकल लेबॉरेटरी प्राईवेट.लिमिटेड.
2985	U99999DL1992PTC047501	मणिका सर्वोसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.

2986	U99999DL1992PTC047515	के.आर. अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड
2987	U80302DL1992PTC047569	दोपलर सेन्टर फ़ोर अल्ट्रासौन्ड एण्ड वस्कुलर स्टडीस प्राईवेट. लिमिटेड.
2988	U31200DL1992PTC047664	बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2989	U99999DL1992PTC047675	संचिता पेट्रोफ़ोम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2990	U99999DL1992PTC047695	असालतनगर फ़ौज़ी प्राईवेट. लिमिटेड.
2991	U99999DL1992PTC047699	एक्स्टोस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2992	U99999DL1992PTC047732	वंश इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
2993	U51505DL1992PTC047776	सुपर फ़ैक्स मशीन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2994	U99999DL1992PTC047788	विशिष्ट कैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2995	U72200DL1992PTC047826	फ़लकॉन ट्योप्रीपिक आर्ट (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2996	U99999DL1992PTC047842	इयफ़ल कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
2997	U72200DL1992PTC047845	इन्फ़ोलीन्क्स कम्प्युटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
2998	U45201DL1992PTC047859	अंबिका देवेलोपर्ज़ एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
2999	U99999DL1992PTC047861	आर.एल. ट्रान्सपोर्ट को. प्राईवेट. लिमिटेड.
3000	U51109DL1992PTC047866	जाम अस्सोसिएट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3001	U74140DL1992PTC047872	इमेगा इंजीनियर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3002	U99999DL1992PTC047900	प्लेउत्रोल इन्जुमेन्टेशन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3003	U80302DL1992PTC047907	ए.एम. रॉय कम्प्युटर्ज़ एज्युकेशन सेन्टर प्राईवेट.लिमिटेड.
3004	U99999DL1992PTC047920	आनंद पैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3005	U24231DL1992PTC047938	गुप्ता मेदीकेअर प्राईवेट.लिमिटेड.
3006	U99999DL1992PTC047942	विनिको कैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3007	U99999DL1992PTC047950	तोफ़ज़ुल फ़ायनान्स्यल एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3008	U99999DL1992PTC047988	प्रिमल बीलडर्ज़ एण्ड ईस्टेट देवेलोपर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
3009	U51909DL1984PTC047992	चॉईस मार्केटिंग एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3010	U99999DL1992PTC047993	राणा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3011	U99999DL1992PTC048023	नॉ एन्टरप्राईसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3012	U99999DL1992PTC048033	गौरजिया कैमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3013	U21012DL1992PTC048038	अक्स पॉलीमर्ज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
3014	U99999DL1992PTC048052	लेंडर फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3015	U67120DL1992PTC048065	मैनहॅटन सिक्युरिटिज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
3016	U99999DL1992PTC048096	आकारशान मीडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
3017	U51909DL1992PTC048102	रमिन्दर एक्स्पो एण्ड इम्पो प्राईवेट.लिमिटेड.
3018	U99999DL1992PTC048110	ट्रिपलेएस एंटीप्रिस प्राईवेट.लिमिटेड.
3019	U99999DL1992PTC048139	त्रि अम्बिकी फूड्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3020	U99999DL1992PTC048158	मेरिदिन ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
3021	U45201DL1992PTC048164	बहल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
3022	U99999DL1992PTC048173	टॉप प्लस ओवेरेस प्राईवेट.लिमिटेड.
3023	U99999DL1992PTC048180	अंकित सप्लाइर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3024	U99999DL1992PTC048256	लेगेंड मेकॉतिल प्राईवेट. लिमिटेड.
3025	U99999DL1992PTC048266	रछोया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3026	U99999DL1992PTC048274	क्रोस्सिन्द एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
3027	U99999DL1992PTC048280	वीआ सिक्युरिटिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3028	U32109DL1992PTC048284	वर्ता सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.

3029	U99999DL1992PTC048285	आरिहंत टेरी टोएल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3030	U99999DL1992PTC048287	अंटिक्स एक्सिम इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3031	U99999DL1992PTC048299	करेस ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3032	U99999DL1992PTC048327	सिनिंग ईथ फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3033	U99999DL1992PTC048329	स्पेक्त्रम क्रिस्टल ग्लास प्राईवेट. लिमिटेड.
3034	U99999DL1992PTC048331	अक्रायान मल्टीचेंनेल मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3035	U99999DL1992PTC048338	निस नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
3036	U99999DL1992PTC048348	श्री कृष्ण इस्टेट्स देवेलोपर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3037	U99999DL1992PTC048354	सलोनी होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3038	U99999DL1992PTC048397	संजीवनी एडुकेशन सिस्टम्स कम्प्युटर दिविज़न प्राईवेट. लिमिटेड.
3039	U70101DL1992PTC048404	विश्व लक्ष्मी बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3040	U99999DL1992PTC048422	कम्प्रेसर कुइप्मेंट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3041	U99999DL1992PTC048439	एस.आर.जी.सायन्टिफ़िक कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3042	U27203DL1992PTC048450	श्री बालाजी नामे प्लेट प्राईवेट. लिमिटेड.
3043	U99999DL1992PTC048468	कन्योन फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3044	U17115DL1992PTC048473	सुलोचना यार्न्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3045	U99999DL1992PTC048478	शिवानी फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3046	U51311DL1992PTC048485	आर.पी. सेठी एण्ड असोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3047	U99999DL1992PTC048497	एस.के.जे.होसिएरीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3048	U70101DL1992PTC048514	एस.सी. गुप्ता देवेलोपर्स एण्ड बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3049	U99999DL1992PTC048536	खुराना शॉर्स एण्ड सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3050	U18101DL1992PTC048540	पर्ल गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3051	U74140DL1992PTC048574	फ़िन्वर्थ एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3052	U24999DL1992PTC048575	इन्ज़ोसिल कॅमिकल्स एण्ड कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3053	U99999DL1992PTC048652	विश्वलक्ष्मी टूल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3054	U99999DL1992PTC048685	शिल्पी टावर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3055	U99999DL1992PTC048693	वी.एस. सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3056	U99999DL1992PTC048723	गंधर्व प्रकाशन प्राईवेट. लिमिटेड.
3057	U99999DL1992PTC048737	क्रॉस कंट्री तेलीविज़न एण्ड केबल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3058	U99999DL1992PTC048780	ए एण्ड पी ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3059	U99999DL1992PTC048792	इंटेग्रेटेड स्वीच देवलपमेंट एण्ड नेटवर्किंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3060	U99999DL1992PTC048793	राजधानी रेडीमेडे गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3061	U51109DL1992PTC048855	रूट्स मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3062	U99999DL1992PTC048884	पतमा प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3063	U99999DL1992PTC048892	महालक्ष्मी मधर एण्ड चाइल्ड होस्पिटल प्राईवेट. लिमिटेड.
3064	U99999DL1992PTC048971	अर्चना एन्विरन टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3065	U99999DL1992PTC049028	दास अंडवटायजिंग एण्ड कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3066	U74140DL1992PTC049033	सोफ़्ट्ट्रोनिक्स इन्फ़ोर्मेशन टेक्नोलोजी इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3067	U72300DL1992PTC049039	नुक्लेउस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3068	U99999DL1992PTC049060	खंडूजा आर्किटेक्ट्स एण्ड बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3069	U99999DL1992PTC049095	सुपर एअर कंडिशनिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3070	U99999DL1992PTC049118	दूधवाल दायरीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3071	U99999DL1992PTC049126	शिवोक्स फाइन प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

3072	U01214DL1992PTC049150	अस्सोसिएटेड होर्स ब्रीडींग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
3073	U99999DL1992PTC049169	बीजय ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3074	U72200DL1992PTC049174	जस एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3075	U99999DL1992PTC049188	कैपिटल कम्युनिकेशन्स कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
3076	U74999DL1992PTC049192	सलोनी मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
3077	U99999DL1992PTC049211	दोमिनस जीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3078	U99999DL1992PTC049216	इस्सांत फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3079	U99999DL1992PTC049219	वरुण अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3080	U30007DL1992PTC049247	प्रोलिफिक कम्युटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
3081	U99999DL1992PTC049256	ठाकुरजी सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3082	U99999DL1992PTC049273	शिरोमणि सिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3083	U51909DL1992PTC049274	लीम्को ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3084	U99999DL1992PTC049293	अपार मेकॉतिल प्राईवेट. लिमिटेड.
3085	U36939DL1992PTC049316	उपहार स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
3086	U99999DL1992PTC049389	प्राईम कोलेक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3087	U99999DL1992PTC049390	पैट्रियट सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3088	U51215DL1992PTC049394	चोपड़ा अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3089	U05001DL1992PTC049399	सी.सी. कतामरन्स चारटर प्राईवेट. लिमिटेड.
3090	U99999DL1992PTC049404	त्रि-लोक कार्गो मोवर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
3091	U74999DL1992PTC049408	माटेल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3092	U99999DL1992PTC049415	पशुपति रोलिंग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3093	U74300DL1992PTC049422	एस एण्ड ए अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3094	U99999DL1992PTC049424	त्रिस्टार फ़ोईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3095	U24299DL1992PTC049446	उपहार ऑग्रोकेमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3096	U51909DL1992PTC049483	दोर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3097	U20211DL1992PTC049504	प्रिमीयर प्लिवूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3098	U51505DL1992PTC049519	सॅम ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3099	U64204DL1992PTC049532	स्प्लश कोवेरागे (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3100	U99999DL1992PTC049550	इंटेग्रेटेड सिक्कूरिटी सर्वीसीज़ (एक्सर्वीसमान) प्राईवेट. लिमिटेड.
3101	U99999DL1992PTC049645	ग्रोफ़ास्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3102	U99999DL1992PTC049710	फ़्रांचीसे एशिआ प्राईवेट. लिमिटेड.
3103	U99999DL1992PTC049711	मूलटिप्लेक्स सेल्स एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3104	U25209DL1992PTC049714	एमिनेंट लगेज प्राईवेट. लिमिटेड.
3105	U25209DL1992PTC049720	निशांत पॉली केम प्राईवेट. लिमिटेड.
3106	U74210DL1992PTC049758	सिन्हा एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3107	U74210DL1992PTC049793	प्रिमीयर एन्जीन्यरिंग एण्ड एकोनोमिक कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3108	U74219DL1992PTC049803	ब्लू सीस इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
3109	U99999DL1992PTC049804	अलाईड सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3110	U51494DL1992PTC049821	पॉली गोन इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3111	U29308DL1992PTC049832	मंगला इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3112	U99999DL1992PTC049855	फ़्रेशन सिटी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3113	U99999DL1992PTC049862	कैपिटल एअर प्राईवेट. लिमिटेड.
3114	U70109DL1992PTC049870	एस.एस. प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.

3115	U99999DL1992PTC049889	करन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3116	U51109DL1992PTC049907	रामरत्न ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3117	U99999DL1992PTC049911	ट्रेंटर सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3118	U99999DL1992PTC049924	जित्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3119	U99999DL1992PTC049928	भगवती डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3120	U74999DL1992PTC049954	नोबल हितेक सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3121	U99999DL1992PTC049963	लुनर जेव्वरी को. प्राईवेट. लिमिटेड.
3122	U99999DL1992PTC050006	लवली टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3123	U74999DL1992PTC050016	तारा चांद स्पिनिंग मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3124	U99999DL1992PTC050065	इरीस फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3125	U99999DL1992PTC050080	माईक्रो पल्स कम्पोनैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3126	U99999DL1992PTC050084	बलविंदर कैमिकल्स एण्ड कोन्तायनर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3127	U99999DL1992PTC050085	पिरामिड टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3128	U99999DL1992PTC050098	नेहा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3129	U99999DL1992PTC050169	आर्ज अमिन्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3130	U99999DL1992PTC050218	कमल फूड्स एण्ड स्पाइसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3131	U99999DL1992PTC050222	घौसिआ बील्डर्ज़ अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3132	U99999DL1992PTC050237	नियोन ग्लास एण्ड आर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
3133	U99999DL1992PTC050238	सिरोही एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3134	U72200DL1992PTC050248	एस.एम. दातणेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3135	U51399DL1992PTC050272	गोवे मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3136	U26941DL1992PTC050323	रोहित सिमेंट इन्डस्ट्रीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3137	U99999DL1992PTC050393	आंदम सिस्टम्स कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3138	U99999DL1992PTC050399	ईशान एअरकंडिशनिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3139	U99999DL1992PTC050429	आंबे ओईल मील प्राईवेट. लिमिटेड.
3140	U99999DL1992PTC050448	कैपिटल फ़िशेरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
3141	U74210DL1992PTC050450	नभ ऑटोमोबाइल प्राईवेट. लिमिटेड.
3142	U74210DL1992PTC050474	मिकान्यू टेक्नोलोजीस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3143	U99999DL1992PTC050491	दोक्स ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3144	U74140DL1992PTC050548	सवेकर कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3145	U99999DL1992PTC050567	हेमिल्टन हीडे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3146	U51909DL1992PTC050611	रोटास इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3147	U18101DL1992PTC050633	के बी अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3148	U51909DL1992PTC050641	ऑपेरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3149	U99999DL1992PTC050651	बियोफ़र इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3150	U99999DL1992PTC050652	ग्रोमोरे पेकागिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3151	U99999DL1992PTC050655	अर्चीस कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3152	U25209DL1992PTC050656	तारा सील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3153	U99999DL1992PTC050738	लक्सव ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3154	U99999DL1992PTC050746	मेक देटर्गेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3155	U99999DL1992PTC050751	सुनीला फ़ाब्स प्राईवेट लिमिटेड
3156	U72100DL1992PTC050754	सुपरा फ़ैक्ससिने प्राईवेट लिमिटेड
3157	U18201DL1992PTC050770	कोनेल गुप्ता प्रिटींग प्राईवेट. लिमिटेड.
3158	U74910DL1992PTC050775	ग्वेस कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

3159	U51909DL1992PTC050802	वैभव ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3160	U24299DL1992PTC050810	परमेश्वर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3161	U99999DL1992PTC050817	लुप्त ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3162	U74999DL1992PTC050818	रेड रोज इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3163	U99999DL1992PTC050859	साहिल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3164	U32302DL1992PTC050898	मल्टी डिमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3165	U74999DL1992PTC050914	ले रोजलाइन ब्यूटी एण्ड हेल्थ सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
3166	U99999DL1992PTC050944	देस्ट्ली मार्केटिंग एण्ड अंक्वार्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3167	U99999DL1992PTC050945	रशीदीन बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3168	U51109DL1992PTC050975	ए.बी. स्तेवियार सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3169	U65910DL1992PTC051013	एफ़.एस. मट्टा एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
3170	U99999DL1992PTC051032	कॉन्टेक कन्सुलतन्ड्स ब्रील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3171	U99999DL1992PTC051054	शार्प किनट्वीस प्राईवेट लिमिटेड
3172	U99999DL1992PTC051073	बानी फ़ेशन प्राईवेट लिमिटेड
3173	U63040DL1992PTC051091	आर्क टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3174	U14109DL1992PTC051101	निकी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
3175	U99999DL1992PTC051112	इन्डस गूड ईर्थ होम्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3176	U63040DL1992PTC051120	वीशी टूर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3177	U99999DL1992PTC051144	वी.एस. डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3178	U63090DL1992PTC051154	आनंद कार्गो मोवर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3179	U51909DL1992PTC051214	स्टेग एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
3180	U99999DL1992PTC051216	पूजा सिक्कुरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3181	U99999DL1992PTC051268	सपम फ़र्मर्ज़ टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
3182	U51223DL1992PTC051273	अंदमेन एक्सोतिका अक्रफ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3183	U92112DL1992PTC051278	आकांक्षा फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3184	U99999DL1992PTC051304	जी.डी.डी.एम. मॅनेजमेन्ट कन्सलतन्ड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3185	U99999DL1992PTC051364	अगरवाल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
3186	U99999DL1992PTC051365	डिनापेक कोरिएर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3187	U51109DL1992PTC051373	बार्को ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3188	U99999DL1992PTC051405	दार्मेन एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
3189	U01122DL1992PTC051408	अश्वनी फ़ार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3190	U99999DL1992PTC051500	ओरिजिनल फ़ूड्स एण्ड ड्रिन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3191	U18101DL1993PTC051531	के. सिंकड्स एक्सपोर्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3192	U55101DL1993PTC051573	सर्वऑल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
3193	U99999DL1993PTC051611	वैष्णो फ़्लोट ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3194	U99999DL1993PTC051629	स्काई लाईट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3195	U17299DL1993PTC051676	अर्चित हेंडलूम प्राईवेट लिमिटेड
3196	U99999DL1993PTC051704	विकवे एन्जीन्यरींग को. प्राईवेट लिमिटेड
3197	U99999DL1993PTC051725	सूरजपुर पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3198	U99999DL1993PTC051740	वालेंटिनोस गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3199	U99999DL1993PTC051748	बाज़गर एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
3200	U99999DL1993PTC051792	लारा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3201	U99999DL1993PTC051807	एसारम एअर ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3202	U99999DL1993PTC051833	दिल्ली हरियाणा मद्रास ट्रान्सपोर्ट को. प्राईवेटलिमिटेड

3203	U99999DL1993PTC051838	एक्सेल टी.वी.प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3204	U99999DL1993PTC051875	यू.डी. कम्प्यूटर कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3205	U99999DL1993PTC051948	ब्रवालिटी प्रोफ़ेशनल कन्सोर्टीअम प्राईवेट लिमिटेड
3206	U60200DL1993PTC051987	शर्क ट्रान्सपोर्ट को.प्राईवेट लिमिटेड
3207	U51109DL1993PTC051993	हन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3208	U99999DL1993PTC052027	बिसनेस एज्युकेशन अप्लिकेशन ट्रेनिंग सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3209	U51909DL1993PTC052052	विनायक फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3210	U70101DL1993PTC052062	जगसन पाल हाऊज़िंग प्राईवेट लिमिटेड
3211	U74910DL1993PTC052179	अन्ना पुर्ण कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3212	U99999DL1993PTC052180	यंग किनल्स प्राईवेट लिमिटेड
3213	U93010DL1993PTC052230	स्पॉट क्लीनर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3214	U99999DL1993PTC052289	ही-स्काई स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3215	U99999DL1993PTC052347	डायमन्ड एज कटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3216	U72100DL1993PTC052376	सुपेट्रॉन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3217	U99999DL1993PTC052416	अन्शूओ कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
3218	U99999DL1993PTC052418	पोसिटिव पुब्लिशर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3219	U27106DL1993PTC052489	हुसाका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3220	U51109DL1993PTC052550	एलेगन्स वोवेन लेक्स् प्राईवेट लिमिटेड
3221	U32109DL1993PTC052579	ब्लू चिप तेलेट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3222	U63040DL1993PTC052591	ऑल वेज़ मार्केटिंग एण्ड ट्रेवल सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3223	U99999DL1993PTC052636	के.एस. मर्चेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3224	U99999DL1993PTC052663	गणपति ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
3225	U99999DL1993PTC052673	ईसीमोव इन्डस्ट्रियल कुइप्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3226	U99999DL1993PTC052677	वैशाली पैनल बोर्ड इन्डस्ट्रियस प्राईवेट लिमिटेड
3227	U74210DL1993PTC052707	इंद्रेप हाइड्रोकार्बोन प्राईवेट लिमिटेड
3228	U99999DL1993PTC052720	चिनातन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3229	U17297DL1993PTC052724	मोदीनगर टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
3230	U99999DL1993PTC052727	प्राईज़ प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3231	U99999DL1993PTC052739	आलीगढ़ पिपेस प्राईवेट लिमिटेड
3232	U99999DL1993PTC052744	हनी होलडिंग प्राईवेट लिमिटेड
3233	U51505DL1993PTC052748	ब्रुक कम्पेरिशयल प्राईवेट लिमिटेड
3234	U99999DL1993PTC052775	मॉडर्न एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3235	U99999DL1993PTC052778	बाटला बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3236	U74999DL1993PTC052784	टयाल ट्युब्स प्राईवेट लिमिटेड
3237	U52110DL1993PTC052822	सुविधा डीपार्टमेंटल स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
3238	U32303DL1993PTC052860	सुपर टी माग्नेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3239	U99999DL1993PTC052878	अद्वान्स कन्सुमर एफिसीन्सी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3240	U51494DL1993PTC052879	महितास एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3241	U99999DL1993PTC052885	गूडफ्रैण्ड प्रोपर्टीस एण्ड इन्डस्ट्रियस प्राईवेट लिमिटेड
3242	U67190DL1993PTC052907	इन्फोत्रोनिक बिसनेस सर्विसीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3243	U45201DL1993PTC052941	अमोस रील्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
3244	U99999DL1993PTC052948	बेउपरा कन्सल्टन्सी एण्ड सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3245	U45201DL1993PTC052978	प्रसाद देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3246	U99999DL1993PTC053019	ब्रह्म इन्फोर्मेशन सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड

3247	U99999DL1993PTC053038	ब्राइटवेज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3248	U74300DL1993PTC053062	अल्ट्रा अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
3249	U74940DL1993PTC053070	प्रोलिफिक प्रिंटर प्राईवेट लिमिटेड
3250	U99999DL1993PTC053097	रील कैमिकल्स इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
3251	U51432DL1993PTC053108	सुरिंद्र सण्ड सप्लाय को. प्राईवेट लिमिटेड
3252	U52609DL1993PTC053131	सुप्रिम दीसेल्स सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3253	U99999DL1993PTC053140	गरिमा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3254	U99999DL1993PTC053150	दन्सुइ कन्सलतन्ट्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3255	U41719DL1993PTC053187	अजय सन्स प्राईवेट लिमिटेड
3256	U99999DL1993PTC053189	तलवार रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
3257	U14101DL1993PTC053228	गणपति माब्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
3258	U51311DL1993PTC053230	लकिन आइम्स एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3259	U19202DL1993PTC053247	केमी फूटवीस प्राईवेट लिमिटेड
3260	U24232DL1993PTC053254	ओशो ड्रग मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3261	U74140DL1993PTC053259	सोशियल सूरवीस (गलुप पोल) इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3262	U63040DL1993PTC053264	इन्डस इंटर मॉडल कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
3263	U99999DL1993PTC053291	संघर्ष प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3264	U51311DL1993PTC053305	बिग चॉईस फ्रॅशन प्राईवेट लिमिटेड
3265	U24231DL1993PTC053335	स्टर्लिंग देन्टल कुइज्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3266	U52322DL1993PTC053337	स्पैरो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3267	U92112DL1993PTC053338	अक्कस मुवी प्राईवेट लिमिटेड
3268	U99999DL1993PTC053368	सागर अल्मिघ्टी सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3269	U99999DL1993PTC053373	इन्दोफ़ोरे इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3270	U29197DL1993PTC053380	आरौ हेड एनवीरोटेक प्राईवेट लिमिटेड
3271	U99999DL1993PTC053381	स्पर्श शिपिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
3272	U51909DL1993PTC053423	नीस्मो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3273	U99999DL1993PTC053453	ग्राफिक कोम्प्युटेशन एण्ड सॉफ्टवेयर (आई) प्राईवेट लिमिटेड
3274	U99999DL1993PTC053495	दील कम्प्युटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3275	U99999DL1993PTC053521	भूटानी प्राईवेट लिमिटेड
3276	U99999DL1993PTC053554	दागसन प्रोक्सेसिड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3277	U51109DL1993PTC053591	एच.एच. इंटरनेशनल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3278	U99999DL1993PTC053644	सुपर दे पी अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3279	U99999DL1993PTC053656	सतन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3280	U99999DL1993PTC053659	सूर्योदय होलडिंग प्राईवेट लिमिटेड.
3281	U99999DL1993PTC053673	शोरनर कुरिअर एण्ड कार्गो सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3282	U99999DL1993PTC053689	राज श्री मार्केटिंग एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3283	U72100DL1993PTC053702	रिसिंह सन सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
3284	U99999DL1993PTC053709	रिषभ लॅम्ब्स प्राईवेट लिमिटेड.
3285	U63033DL1993PTC053712	अंदिश एअर सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3286	U63033DL1993PTC053716	ओपेन स्काई कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
3287	U51497DL1993PTC053762	रूसाग्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
3288	U51311DL1993PTC053769	हैंड्सोम ट्रेडिंग एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3289	U99999DL1993PTC053774	एंपायर ट्रेवल्स एण्ड टूर प्राईवेट लिमिटेड.
3290	U99999DL1993PTC053818	नाज़ेर स्पोट्स वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड

3291	U99999DL1993PTC053850	मोमिन लतीफ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3292	U99999DL1993PTC053853	सोनू सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.
3293	U99999DL1993PTC053857	सत्य फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
3294	U99999DL1993PTC053859	हेलो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
3295	U29220DL1993PTC053870	सीम्फोनी ट्रेडलीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड.
3296	U99999DL1993PTC053902	एस.बी.जे.एम. इसपाट प्राईवेट लिमिटेड.
3297	U99999DL1993PTC053910	निर्मल ही फ्राब्स प्राईवेट लिमिटेड.
3298	U99999DL1993PTC053916	बीमेक्स कोन्वोस एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3299	U99999DL1993PTC053917	वैस्ट पोईत इंटीरियर्स डोझाईन्स, एक्विबिशन्स एण्ड सर्वीसीझ(दिल्ली)प्राईवेट लिमिटेड,
3300	U51494DL1993PTC053949	बागडिया इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड.
3301	U51494DL1993PTC053993	एक्स्क्लुसिफ़ फ़ैशन प्राईवेट लिमिटेड
3302	U63040DL1993PTC054061	ईर्थ विंड्स ट्रैवल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3303	U99999DL1993PTC054069	गिरी एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
3304	U99999DL1993PTC054083	ही-स्काई इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3305	U99999DL1993PTC054219	ऊनिक फ़ोम एण्ड कोईर प्राईवेट. लिमिटेड.
3306	U92112DL1993PTC054239	नोचेत एण्ड देव फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड.
3307	U99999DL1993PTC054276	सेफ़ सिर्फ़इत्स प्राईवेट लिमिटेड
3308	U74210DL1993PTC054287	वेदास कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3309	U99999DL1993PTC054322	अल्फ़ा गिप्सूम प्राईवेट लिमिटेड
3310	U17115DL1993PTC054337	नाममो शिवय सिल्क मील्स प्राईवेट लिमिटेड
3311	U28939DL1993PTC054374	एस्सी इन्स्ट्रिअल एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
3312	U99999DL1993PTC054408	क्रिकसन इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3313	U99999DL1993PTC054450	सनशाईन सिलिकेट प्राईवेट लिमिटेड
3314	U74140DL1993PTC054453	त्रिमूर्ति सिक्यूरिटी सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
3315	U51399DL1993PTC054494	जसको मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3316	U74999DL1993PTC054524	स्टार टेलीकोम प्राईवेट लिमिटेड
3317	U99999DL1993PTC054537	जामा गार्मेन्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3318	U99999DL1993PTC054543	नीतारा शेल्टर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3319	U99999DL1993PTC054546	अमीता पेकागिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3320	U67120DL1993PTC054557	एस एण्ड एफ़ सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3321	U99999DL1993PTC054684	हाप इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3322	U74920DL1993PTC054688	अर्नाफ़ सिक्यूरिटी सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
3323	U99999DL1993PTC054697	ऊशभ अलोय्स प्राईवेट लिमिटेड
3324	U72200DL1993PTC054709	एलेक्ट्रॉनिक डिज़ाईन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3325	U99999DL1993PTC054726	अलका आइरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
3326	U74140DL1993PTC054743	अनुलक कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3327	U67120DL1993PTC054748	पल सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3328	U99999DL1993PTC054752	हौरौस अग्री सेमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3329	U99999DL1993PTC054764	राजमल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3330	U99999DL1993PTC054768	आरसन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3331	U99999DL1993PTC054777	ऑल वेज़ कागों सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
3332	U31909DL1993PTC054802	मैसूर स्वीच गीयर्स प्राईवेटलिमिटेड
3333	U51909DL1993PTC054809	नेस्टर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
3334	U99999DL1993PTC054830	मदोरी ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड

3335	U99999DL1993PTC054848	प्रेम शुक्ला इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3336	U99999DL1993PTC054851	ए एच वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
3337	U99999DL1993PTC054867	मधुवन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3338	U99999DL1993PTC054892	कालिंदी ट्रेवल एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
3339	U29130DL1993PTC054896	इंडियन बेरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3340	U99999DL1993PTC054906	एंप्रो सोना ऑफशोरे प्व लिमिटेड
3341	U27101DL1993PTC054919	मीटुन अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
3342	U99999DL1993PTC054931	पेरेक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3343	U99999DL1993PTC054942	एन्ट्रि देस्टिन प्राईवेट लिमिटेड
3344	U99999DL1993PTC054947	फ़ायर डस्ट इंडिया ऑटोमोबाइल्स एण्ड रेनोइस प्राईवेट लिमिटेड
3345	U99999DL1993PTC054976	सोही गंगेस कनाल होलिदय होम प्राईवेट लिमिटेड
3346	U99999DL1993PTC055004	बाबरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3347	U63040DL1993PTC055005	उपासका ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड.
3348	U45201DL1993PTC055014	निज़ो कोन्वुशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
3349	U99999DL1993PTC055042	माप्स मर्चेंडिसिंह प्राईवेट लिमिटेड
3350	U28991DL1993PTC055056	राजस्थान ऑटो स्पीन्निंग्स प्राईवेट लिमिटेड.
3351	U99999DL1993PTC055059	अरावली मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3352	U99999DL1993PTC055061	जय माता पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3353	U99999DL1993PTC055084	निखिल पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3354	U25209DL1993PTC055097	आर.डी. पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3355	U99999DL1993PTC055113	इन्दोर्स सेफ्टी देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3356	U51909DL1993PTC055115	हीलोक इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3357	U51909DL1993PTC055131	टिमेत एन्जीन्यरींग एण्ड मार्केटिंग अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
3358	U45209DL1993PTC055132	शमीम बील्डज़ प्ल्ट लिमिटेड
3359	U99999DL1993PTC055153	रेनबो बील्डज़ प्राईवेट लिमिटेड
3360	U99999DL1993PTC055195	करिअर मैनेजमेन्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3361	U99999DL1993PTC055199	शिप्रा एअरवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
3362	U51909DL1993PTC055230	रतीसन्स ट्रेडिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
3363	U99999DL1993PTC055243	इती श्री इटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
3364	U99999DL1993PTC055250	प्रलुके ट्रेवलरस प्राईवेट लिमिटेड
3365	U17119DL1993PTC055324	सनराज विनत फ़ैब प्राईवेट लिमिटेड.
3366	U64201DL1993PTC055335	रुरल पेजिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
3367	U27320DL1993PTC055371	तोमर स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3368	U99999DL1993PTC055374	आर्तिका जेम्स एण्ड जेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3369	U99999DL1993PTC055381	स्कायडार्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3370	U51494DL1993PTC055398	कामी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3371	U99999DL1993PTC055406	सिस्टम चेमिनीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3372	U51909DL1993PTC055476	अपार इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3373	U99999DL1993PTC055480	मकान कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3374	U99999DL1993PTC055489	शिल्पी क्रीटिव प्राईवेट लिमिटेड
3375	U99999DL1993PTC055490	देव शिल्पी अंडवटॉयजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3376	U99999DL1993PTC055496	स्टार गार्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3377	U99999DL1993PTC055520	नोर्टन हाइड्रो पॉवर जेनरेशन को. लिमिटेड
3378	U99999DL1993PTC055541	क्वक ट्रेवलस एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड

3379	U99999DL1993PTC055542	फुजिटेक कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3380	U51109DL1993PTC055581	अंसा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3381	U99999DL1993PTC055582	व्सा गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3382	U51909DL1993PTC055585	जेरा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
3383	U74210DL1993PTC055606	इन-डेकोर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3384	U27106DL1993PTC055610	ए.डी. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3385	U99999DL1993PTC055613	बसंत सिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3386	U99999DL1993PTC055624	फ्लोक्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3387	U99999DL1993PTC055651	करतार पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3388	U67190DL1993PTC055658	एच.एस. गालार्न कन्सल्टन्सी सर्विसीज प्राईवेट लिमिटेड
3389	U27101DL1993PTC055675	कनिका मार्केटिंग एण्ड मॅनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3390	U63040DL1993PTC055679	माप अवियाशन प्राईवेट लिमिटेड
3391	U99999DL1993PTC055681	न्डट इसपाट टेस्ट होम्स प्राईवेट लिमिटेड
3392	U99999DL1993PTC055685	निम्बळे पॅकवेल प्राईवेट लिमिटेड
3393	U64120DL1993PTC055689	राजधानी सिक्यूरिटी एण्ड डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड
3394	U99999DL1993PTC055704	सेलेक्स अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
3395	U63040DL1993PTC055732	नोर्थ स्टार एअरलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
3396	U31909DL1993PTC055762	ट्रान्स एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
3397	U99999DL1993PTC055775	मोटिवेशन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3398	U99999DL1993PTC055778	ट्रिस्टिकोने कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3399	U99999DL1993PTC055799	ऊनी रेमेदीस प्राईवेट लिमिटेड
3400	U99999DL1993PTC055832	अजुनी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3401	U99999DL1993PTC055834	एवेकॉम ट्रेडिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड.
3402	U74210DL1993PTC055847	केअर कम्मेरिशियल प्राईवेट लिमिटेड
3403	U99999DL1993PTC055848	प्लास्टो प्रोसेसर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3404	U64120DL1993PTC055958	वायू सेवा कौरिएज(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3405	U74210DL1993PTC055982	क्वस्ट कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3406	U70101DL1993PTC055988	गगनदीप देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3407	U45203DL1993PTC055992	देवी प्रकाश मित्तल ग्रुप को. प्राईवेट लिमिटेड
3408	U51311DL1993PTC055995	अड्वैट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3409	U99999DL1993PTC055999	डॉमिनंट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
3410	U65993DL1993PTC056020	सी.लाल प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3411	U99999DL1993PTC056027	फायनी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3412	U99999DL1993PTC056050	तासी फ्रोजन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3413	U99999DL1993PTC056115	प्क अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
3414	U99999DL1993PTC056121	अत्तर फ्राईबर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3415	U99999DL1993PTC056134	टाइगर प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3416	U99999DL1993PTC056138	एस.एस. शॉर केअर सर्विसीज प्राईवेट लिमिटेड
3417	U99999DL1993PTC056173	साका कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3418	U99999DL1993PTC056178	सुखर्मेन क्लोरोचेम प्राईवेट लिमिटेड
3419	U51398DL1993PTC056189	टी सोलुशन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3420	U99999DL1993PTC056191	के पी वी प्लेसेमेन्ट एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसीज प्राईवेट लिमिटेड
3421	U33125DL1993PTC056198	लगेश एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3422	U22121DL1993PTC056199	लर्निंग पुब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड

3423	U99999DL1993PTC056205	विर्गुस मेदीकेअर प्राईवेट लिमिटेड
3424	U99999DL1993PTC056226	स्म एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3425	U31909DL1993PTC056238	स्टेलार टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3426	U55101DL1993PTC056260	ट्रेज़र होलिदय रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3427	U17115DL1993PTC056281	श्री चंडी यार्न प्रोसेसर्स पी.लिमिटेड.
3428	U99999DL1993PTC056292	नोवेल क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3429	U99999DL1993PTC056303	लीगल इंगल्स कन्सल्टिंग सर्वीसीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3430	U22219DL1993PTC056305	गोवर्धन लेबलेट्स एण्ड पेकागिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3431	U51311DL1993PTC056331	जी.एस. फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3432	U99999DL1993PTC056333	पायस फ़ूड्स प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
3433	U74210DL1993PTC056364	सिटिज़न पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3434	U31300DL1993PTC056367	नवकेश अलोय्स प्राईवेट लिमिटेड
3435	U99999DL1993PTC056393	सर्वे प्रोग्रामर इनीतियाटर्स एण्ड को-ऑर्डिनाटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3436	U99999DL1993PTC056398	जी मेकांतिल प्राईवेट लिमिटेड
3437	U99999DL1993PTC056399	कालिका ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3438	U99999DL1993PTC056403	अगरवाल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3439	U99999DL1993PTC056408	श्री गरूड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
3440	U99999DL1993PTC056411	नाफ़को होम अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3441	U17115DL1993PTC056413	तनु टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
3442	U99999DL1993PTC056423	करन एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
3443	U99999DL1993PTC056435	मैरथोन हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड
3444	U99999DL1993PTC056473	श्रीयंग एक्सपोटर्स एण्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3445	U99999DL1993PTC056504	होमकर्ज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3446	U99999DL1993PTC056528	टिटिक्षा मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3447	U51399DL1993PTC056552	सोहना एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3448	U99999DL1993PTC056558	शिव सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
3449	U45201DL1993PTC056566	डी.डी. इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3450	U67120DL1993PTC056577	त्रिनेत्र सिक्योरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3451	U99999DL1993PTC056587	देफ़िनिट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3452	U74140DL1993PTC056595	माश कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3453	U18101DL1993PTC056606	टी.सी. सिल्क मील्स प्राईवेट लिमिटेड
3454	U99999DL1993PTC056613	कम्पेल सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3455	U92114DL1993PTC056616	डेक्टरा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3456	U99999DL1993PTC056630	मजेस्टिक टूट्स एण्ड ट्रेवल्ल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3457	U99999DL1993PTC056632	आल्पिने रोबोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3458	U51398DL1993PTC056701	रोहीका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3459	U63040DL1993PTC056713	अहलुवालिया ट्रेवल सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3460	U99999DL1994PTC056733	टूस्व इन्फ़ॉर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3461	U99999DL1994PTC056747	आज्ञा इनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
3462	U99999DL1994PTC056757	मिडास टच प्रोफ़ेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड
3463	U99999DL1994PTC056758	चारू चंद्र पुब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
3464	U99999DL1994PTC056765	काप्स अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3465	U63040DL1994PTC056777	जी.बी. एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड

3466	U74210DL1994PTC056786	सत्रावीआ सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
3467	U24239DL1994PTC056821	मित्तल हेर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
3468	U99999DL1994PTC056851	नसीब पुत्र एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3469	U99999DL1994PTC056905	ग्रीन सर्कल अँड्वर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3470	U72200DL1994PTC056907	सुवन्स सोफ्टो प्राईवेट लिमिटेड
3471	U99999DL1994PTC056913	दीप फ़ागनेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
3472	U99999DL1994PTC056951	सतनाम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3473	U99999DL1994PTC056994	अन्श मीडिया एस्प्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3474	U74300DL1994PTC057012	जेमिनी डेसिग्नस प्राईवेट लिमिटेड
3475	U30007DL1994PTC057021	क्स्कालिब्रे सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड.
3476	U74300DL1994PTC057028	इन्सट अँड्वर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
3477	U99999DL1994PTC057054	जगमोहन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3478	U32109DL1994PTC057070	करम ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
3479	U92111DL1994PTC057086	त्रिविधा कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3480	U99999DL1994PTC057090	सुर्य केरोसीन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3481	U99999DL1994PTC057093	नुपुर होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
3482	U99999DL1994PTC057106	समान्वाय्स होसटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3483	U51909DL1994PTC057122	वर्ब पॉलीपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3484	U99999DL1994PTC057161	गणपति शीव शंकर सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
3485	U99999DL1994PTC057173	जिंगम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
3486	U74130DL1994PTC057186	शराग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3487	U99999DL1994PTC057193	आरिओन इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3488	U24231DL1994PTC057214	प्रिन्टो फ़ोर्मूलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3489	U99999DL1994PTC057215	ट्रेक्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3490	U25209DL1994PTC057220	विवा प्लास्टिक्स एण्ड प्लाईवूड इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
3491	U67120DL1994PTC057230	विलाद कन्सल्टन्सी सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
3492	U99999DL1994PTC057242	आर. पॉल इंटरनेशनल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
3493	U99999DL1994PTC057252	धूरे ईंठर्मोवर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3494	U99999DL1994PTC057262	कर्तिकम एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
3495	U99999DL1994PTC057269	मोरे फूड्स एण्ड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3496	U99999DL1994PTC057272	लान्सर्ज मॅनेजमेन्ट सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
3497	U99999DL1994PTC057311	स्काई हाई ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
3498	U99999DL1994PTC057314	कांती कम्युटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3499	U99999DL1994PTC057321	मोन्तौस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
3500	U01111DL1994PTC057325	सर्सा अँग्रो को. प्राईवेट लिमिटेड
3501	U99999DL1994PTC057371	गिन्नी युतिलिटी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3502	U99999DL1994PTC057378	साया सिंग्स प्लट लिमिटेड
3503	U99999DL1994PTC057429	सैनी हेर क्लिनिक प्राईवेट लिमिटेड
3504	U99999DL1994PTC057444	ए आर एस ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3505	U51311DL1994PTC057454	रन्क ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
3506	U99999DL1994PTC057457	वीसा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
3507	U99999DL1994PTC057467	दुर्गा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3508	U99999DL1994PTC057484	केमिंडा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
3509	U99999DL1994PTC057504	अम्ब्रोसे फायनान्सियल एण्ड क्रेडिट कन्सल्टंट प्राईवेट लिमिटेड

3510	U27109DL1994PTC057533	निगम शर्मा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3511	U25199DL1994PTC057538	ईस्टर्न लॉटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3512	U51909DL1994PTC057539	आर्को एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3513	U51909DL1994PTC057542	गूड ग्राम डिझाईन प्राईवेट लिमिटेड
3514	U99999DL1994PTC057559	बेकोन मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3515	U99999DL1994PTC057562	हिंदुस्तान फ्रिजेशन प्राईवेट लिमिटेड
3516	U72200DL1994PTC057578	उल्ट्रा मेट इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3517	U99999DL1994PTC057582	कोलसन पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3518	U40107DL1994PTC057613	एअर इम्पैक्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3519	U51909DL1994PTC057637	ग्रीन फ्रील्ड ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
3520	U99999DL1994PTC057641	टू वीज़न ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
3521	U99999DL1994PTC057645	शरद माथुर डीझाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
3522	U74210DL1994PTC057669	डेमिन्जो टेक्नो लैब प्राईवेट लिमिटेड
3523	U99999DL1994PTC057685	कमल फ़्लौर मील्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
3524	U51909DL1994PTC057686	ओएसिस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3525	U17297DL1994PTC057752	इंडियन हेरिटेज प्राईवेट लिमिटेड
3526	U51226DL1994PTC057783	दीप वॉली टी प्राईवेट लिमिटेड
3527	U67120DL1994PTC057800	संदीरा होल्दींग्स प्राईवेट लिमिटेड
3528	U99999DL1994PTC057821	पियोनीर औइल्स प्राईवेट लिमिटेड
3529	U55101DL1994PTC057841	अमेरिकन गोल्फ एण्ड रिसोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3530	U17151DL1994PTC057851	ला केंपाजिन दू मोडे इनिआ प्राईवेट लिमिटेड
3531	U29302DL1994PTC057877	किंग होम अप्लिआन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
3532	U99999DL1994PTC057906	सिगनालय टोबेको कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3533	U99999DL1994PTC057909	कम्प्यूट्रेक सिस्टम एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
3534	U29192DL1994PTC057928	युनाईटेड एअर कॉडिशनर्ज प्राईवेट
3535	U99999DL1994PTC057930	लीनीगे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3536	U99999DL1994PTC057949	स्काई टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3537	U18101DL1994PTC057950	गोबिंद विनतर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3538	U99999DL1994PTC057957	स्टीप्स एण्ड स्लोपेस रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3539	U74994DL1994PTC057970	सपन इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
3540	U99999DL1994PTC057980	मोनार्क ऑटो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3541	U99999DL1994PTC057981	प्रिम बूलक ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
3542	U99999DL1994PTC057989	डेल्टा बिसनेस मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
3543	U55101DL1994PTC057998	आर.के. वेद एण्ड डिस्टिलिट्स दिविन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3544	U63090DL1994PTC058049	मिशन एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
3545	U63090DL1994PTC058082	महामाया एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड.
3546	U99999DL1994PTC058103	सन सिगन कमपुत्र ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
3547	U99999DL1994PTC058112	अवोन कुरिअर एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
3548	U99999DL1994PTC058142	सन्सिगन कम्प्यूटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3549	U27209DL1994PTC058220	संगो मेटल प्राईवेट लिमिटेड
3550	U99999DL1994PTC058248	शूदही एनवीरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3551	U99999DL1994PTC058258	मिराज स्क्रीन प्रिंटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3552	U99999DL1994PTC058299	धवन स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3553	U99999DL1994PTC058306	डिमेन्शन कम्प्यूटर्ज प्राईवेट लिमिटेड

3554	U99999DL1994PTC058316	विक्रांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3555	U29214DL1994PTC058326	जे.पी. अंग्रो इम्प्लेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3556	U99999DL1994PTC058375	आल्कार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3557	U99999DL1994PTC058394	फाईन फोटो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
3558	U33112DL1994PTC058400	डी.के. हेल्थवेज प्राइवेट लिमिटेड.
3559	U99999DL1994PTC058424	वित्पुविशी फ़िगुरेसेट प्राइवेट लिमिटेड
3560	U99999DL1994PTC058425	इंटर फ़ेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3561	U99999DL1994PTC058493	तुलजा एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3562	U63040DL1994PTC058496	सन्वेसर ट्रैवल्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
3563	U15549DL1994PTC058504	अलाईड बिबरेजीस को. प्राइवेट लिमिटेड
3564	U72900DL1994PTC058521	टुडे बिसनेस दाता प्राइवेट लिमिटेड
3565	U99999DL1994PTC058538	मॅक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3566	U99999DL1994PTC058604	नरवाल रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3567	U51909DL1994PTC058696	एस.एम. गुप्ता को. प्राइवेट लिमिटेड
3568	U18101DL1994PTC058702	ऋशब डिज़ाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड
3569	U57311DL1994PTC058720	अन्डेटो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3570	U71301DL1994PTC058721	कम्बाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3571	U25209DL1994PTC058724	लालो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
3572	U99999DL1994PTC058728	तालहगत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3573	U99999DL1994PTC058734	कोनिका सर्जिकल कुइपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3574	U31102DL1994PTC058784	ऊनिवेशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3575	U45201DL1994PTC058790	इंद्रसन्स बील्डर्ज एण्ड देवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3576	U34300DL1994PTC058815	निप्पोमेक्स ब्राकेस प्राइवेट लिमिटेड
3577	U63040DL1994PTC058873	बाहुबली ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3578	U99999DL1994PTC058890	एन.एम.एस. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3579	U62100DL1994PTC058899	आर जे फ़्रेट मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड
3580	U51109DL1994PTC058900	ट्रसेकेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3581	U99999DL1994PTC058914	रेगेन्सी रेन्नीट्स प्राइवेट लिमिटेड
3582	U99999DL1994PTC058939	हेडडेलबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3583	U99999DL1994PTC058967	आर स्टील वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
3584	U99999DL1994PTC058977	बसंत समीर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3585	U22121DL1994PTC059013	इंडिया टिम्स प्राइवेट लिमिटेड
3586	U99999DL1994PTC059074	पालदीप पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3587	U99999DL1994PTC059077	इंगल फुसेगीस प्राइवेट लिमिटेड
3588	U45209DL1994PTC059175	गुरुकृपा आरामटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3589	U99999DL1994PTC059176	विमलेश स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
3590	U99999DL1994PTC059206	साकूमस मिन्स एण्ड माब्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
3591	U99999DL1994PTC059217	पेंगोडा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3592	U99999DL1994PTC059249	फ़िर्म मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड.
3593	U99999DL1994PTC059255	मनोज पेंकेजींग प्राइवेट लिमिटेड
3594	U99999DL1994PTC059274	मल्ली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3595	U99999DL1994PTC059291	शॉर पोर्ट पोर्टफ़ोलियो सर्विसीझ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3596	U17222DL1994PTC059310	नेक-एन-नेक फ़ेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3597	U31909DL1994PTC059343	म्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3598	U99999DL1994PTC059368	मयंक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3599	U99999DL1994PTC059380	शंग्रिला टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
3600	U99999DL1994PTC059386	जय माता मंटल कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3601	U51311DL1994PTC059429	वी.एस.ए. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3602	U99999DL1994PTC059456	जाईटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3603	U99999DL1994PTC059466	एन पी रेफ़िनेरिस प्राईवेट लिमिटेड
3604	U31101DL1994PTC059470	एस जी जेनराटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3605	U99999DL1994PTC059481	सत्तार किचेन वेअर प्राईवेट लिमिटेड
3606	U99999DL1994PTC059488	अभय टैक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
3607	U99999DL1994PTC059509	अर्चना फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3608	U24222DL1994PTC059532	आलिशान पैटर्न एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3609	U28994DL1994PTC059542	लिफ़्टण्ड ब्राइट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3610	U51909DL1994PTC059583	मीररा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3611	U74140DL1994PTC059597	राज्मे कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3612	U63040DL1994PTC059634	वकेशनस आब्रोड प्राईवेट लिमिटेड
3613	U21012DL1994PTC059635	आर.आर. पेपर प्राईवेट लिमिटेड
3614	U92114DL1994PTC059646	करिश्मा फ़िल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3615	U99999DL1994PTC059661	इंडिया फ़ाक्सोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
3616	U99999DL1994PTC059698	रेक्लाईमड रबबर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
3617	U99999DL1994PTC059707	सृष्टि ट्रेड लीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3618	U51311DL1994PTC059711	फ़िगुरे फ़ैशन प्राईवेट लिमिटेड
3619	U51909DL1994PTC059724	बुबना अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
3620	U99999DL1994PTC059732	प्रीतम सिंह एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
3621	U99999DL1994PTC059766	गूडलाईफ़ मैलॉर्डर प्राईवेट लिमिटेड
3622	U51909DL1994PTC059797	के एन आर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3623	U99999DL1994PTC059842	लक्ष्मी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
3624	U99999DL1994PTC059869	अक्षय अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
3625	U99999DL1994PTC059933	सोहेल ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3626	U63040DL1994PTC059997	स्पैन वर्ल्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
3627	U99999DL1994PTC060005	विभा एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
3628	U99999DL1994PTC060066	सर्व्वांट ऑडवर्टायजिंग एण्ड प्रिंटिंग सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3629	U99999DL1994PTC060070	अचटे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3630	U99999DL1994PTC060092	इंटर क्राफ़्ट विन्टवोर्स कन्सोलिडेटेड प्राईवेट लिमिटेड
3631	U99999DL1994PTC060095	पटौदी ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
3632	U99999DL1994PTC060107	मशो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3633	U99999DL1994PTC060123	नवोदित मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
3634	U99999DL1994PTC060124	मिड टाउन सेन्ट्रल होटेल प्राईवेट लिमिटेड
3635	U99999DL1994PTC060134	वेदिक हरबल इंडिया फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3636	U33112DL1994PTC060140	कैलाश होम हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
3637	U33119DL1994PTC060160	कार्डिआक इलेक्ट्रोमेडिकल कुइप्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3638	U24129DL1994PTC060161	हक पेस्टिसिदेस प्राईवेट लिमिटेड
3639	U72200DL1994PTC060316	श्रीमेन्ट कम्युनिकेशन एण्ड एलेक्ट्रोनिक प्राईवेट लिमिटेड
3640	U74995DL1994PTC060328	आद्रोविग सिक्यूरिटी एण्ड डेटेक्टिव्स प्राईवेट लिमिटेड
3641	U63040DL1994PTC060338	पंडचे टूंसित कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

3642	U02423DL1994PTC060357	सुपेमेग ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
3643	U99999DL1994PTC060401	सतगुरू ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3644	U99999DL1994PTC060424	शेहशाह एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3645	U99999DL1994PTC060446	अभीनंद इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3646	U51909DL1994PTC060457	चेतन इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3647	U18101DL1994PTC060508	पिन ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3648	U99999DL1994PTC060528	सुर्य एअरलीन्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3649	U74999DL1994PTC060533	इटोकी मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3650	U99999DL1994PTC060545	शाहनूर केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
3651	U51909DL1994PTC060547	सन्ड्यालिआ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3652	U99999DL1994PTC060599	धनीशा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
3653	U52321DL1994PTC060638	मास्टर फ्रांचीसे प्राईवेट लिमिटेड
3654	U85110DL1994PTC060667	कोठारी मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
3655	U99999DL1994PTC060705	सेरटेक ईस्ट वेस्त फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
3656	U22219DL1994PTC060707	कुरुक्षेत्र कम्प्युटर कन्सेप्ट (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3657	U51219DL1994PTC060714	सभार ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3658	U17298DL1994PTC060729	अदिती टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
3659	U99999DL1994PTC060757	आल्युसिस्टिक आडवॉर्टिसज़ प्राईवेट लिमिटेड
3660	U99999DL1994PTC060791	जुरास्सीक कम्प्युटर्ज सर्विक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3661	U71110DL1994PTC060847	साई काब्स प्राईवेट लिमिटेड
3662	U67120DL1994PTC060885	सृष्टी मॅनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3663	U14219DL1994PTC060902	कोलर मिनिना को. प्राईवेट लिमिटेड
3664	U99999DL1994PTC060915	क्रुइसे एण्ड इन्सेन्टिव ट्रेवल स्पेशीयलिटीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3665	U51215DL1994PTC060945	जपना इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
3666	U51311DL1994PTC060960	आकाश गंगा बील्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3667	U99999DL1994PTC061012	फ़्रयुज़न एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
3668	U70101DL1994PTC061061	सुप्रिम प्रोमोटर्ज प्व डल्ट्ड
3669	U99999DL1994PTC061084	ती इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3670	U51311DL1994PTC061094	विन्वीक एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
3671	U99999DL1994PTC061120	ईन्डकर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3672	U63040DL1994PTC061125	आस्त्रोनोम ट्रेवल एण्ड टूरस प्राईवेट. लिमिटेड.
3673	U99999DL1994PTC061146	श्री जगदीश अग्रो इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
3674	U99999DL1994PTC061167	मप्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3675	U99999DL1994PTC061188	अंतरटिका एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3676	U99999DL1994PTC061242	जुनिपेर डिस्टिलेरिस एण्ड बेवेरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
3677	U29211DL1994PTC061254	इन्दु ही टेक सीड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3678	U99999DL1994PTC061297	शांता ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3679	U24114DL1994PTC061303	पाल एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
3680	U99999DL1994PTC061318	शम्भावी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3681	U99999DL1994PTC061358	क्व पोटफॉलियो एण्ड मॅनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3682	U51507DL1994PTC061372	पॉली कम्प्युटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3683	U51491DL1994PTC061383	साहसारा वर्ल्डवाइड प्राईवेटलिमिटेड
3684	U74140DL1994PTC061387	अचिन प्रिंट्स फ़ाब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3685	U51311DL1994PTC061424	फ़ोर्स दी मजेउरे अपरेल्स प्राईवेटलिमिटेड

3686	U99999DL1994PTC061431	कन्सोलिडेटेड फ्रेमतागे प्राईवेट लिमिटेड
3687	U99999DL1994PTC061445	नंधी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3688	U99999DL1994PTC061460	ओरिजिनल टीम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3689	U99999DL1994PTC061470	ब्लू स्टार ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3690	U99999DL1994PTC061479	कारेफ्री इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3691	U99999DL1994PTC061487	ओशयनिक अक्वाकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
3692	U45201DL1994PTC061499	एस.आर.बील्डकॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3693	U21098DL1994PTC061527	गोल्ड लीफ़ कार्बोन्स प्राईवेट लिमिटेड
3694	U99999DL1994PTC061538	एस्सेंट क्रिएशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3695	U99999DL1994PTC061551	स्नस माईक्रो एलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड
3696	U51311DL1994PTC061562	रेकोन एक्स्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
3697	U51909DL1994PTC061618	श्री विनायक एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3698	U55101DL1994PTC061631	कोन्वोय होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3699	U99999DL1994PTC061653	फ़ास्ट एंड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3700	U65993DL1994PTC061656	दक्ष सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
3701	U99999DL1994PTC061669	शाबा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3702	U99999DL1994PTC061673	एन कॉनदिया प्राईवेट लिमिटेड
3703	U99999DL1994PTC061679	जैसामंद लेक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3704	U33119DL1994PTC061692	परतेक बायो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3705	U24233DL1994PTC061779	सैनी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3706	U99999DL1994PTC061827	सोलो मिआ फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3707	U99999DL1994PTC061838	मार्स ग्राफ़िक्स प्राईवेट लिमिटेड
3708	U99999DL1994PTC061862	पंचतरनी शीप ब्रेकज़ प्राईवेट लिमिटेड
3709	U99999DL1994PTC061863	शुद्ध फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3710	U99999DL1994PTC061875	केशव एन्टरप्राईसीस प्राईवेट लिमिटेड
3711	U51311DL1994PTC061892	जेड कम्पेरिशियल प्राईवेट लिमिटेड
3712	U99999DL1994PTC061930	मानव डेज़र्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3713	U99999DL1994PTC061932	नरेश स्टील्स एण्ड अलॉय प्राईवेट लिमिटेड
3714	U51909DL1994PTC061933	प्रेक्षा ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3715	U99999DL1994PTC061944	ग्रीन कार्गो कॅरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
3716	U99999DL1994PTC061959	स्ट्रैट्स इंडिया एक्स्प्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
3717	U99999DL1994PTC061996	प्रदीप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
3718	U92199DL1994PTC062031	मधुर संगीत प्राईवेट लिमिटेड
3719	U99999DL1994PTC062053	आनंद क्लेम्स सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
3720	U25209DL1994PTC062058	सुगम मोल्ड्स एण्ड दीस प्राईवेट लिमिटेड
3721	U99999DL1994PTC062064	कमल कम्प्यूटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3722	U72200DL1994PTC062110	सागर ग्राफ़िक्स प्राईवेट लिमिटेड
3723	U92111DL1994PTC062174	माग्नूम नेक्सस प्राईवेट लिमिटेड
3724	U24290DL1994PTC062192	कनिष्क डेटागैट्स प्राईवेट लिमिटेड
3725	U31300DL1994PTC062204	डी.आर. बैंक वायर एण्ड केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
3726	U70101DL1994PTC062239	शान-इ-ख़ुदा प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
3727	U51399DL1994PTC062273	गोरंगी एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेडर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3728	U99999DL1994PTC062284	कोमारे पॉलीमर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3729	U99999DL1994PTC062294	ट्रस्म एक्स्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड

3730	U51398DL1994PTC062304	सियाल्कोटी ज्युवेल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3731	U45201DL1994PTC062319	गुरुमुख कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3732	U27106DL1994PTC062358	अप्सरा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3733	U01111DL1994PTC062363	कोयर्डन फुड एण्ड दायरीस प्राईवेट लिमिटेड
3734	U99999DL1994PTC062478	हिमानी टूल्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3735	U99999DL1994PTC062524	शकुन सन्स एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3736	U28121DL1994PTC062548	वन ओम्मेराम टैंक टर्मिनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3737	U99999DL1994PTC062566	अल्फा दातामॉटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3738	U99999DL1994PTC062568	ऑग्रिटेक एक्सिम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3739	U18101DL1994PTC062569	फेअरमार्क अपरेल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3740	U99999DL1994PTC062602	अजय डिस्टिलर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3741	U33112DL1994PTC062608	टून्ज मेडिकोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
3742	U99999DL1994PTC062643	डिमो फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3743	U17117DL1994PTC062647	बत्रा वूलेन प्राईवेट लिमिटेड
3744	U99999DL1994PTC062710	दीक्षित पेकारिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
3745	U99999DL1994PTC062715	कुबेर अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
3746	U99999DL1994PTC062717	रिचू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3747	U20101DL1994PTC062724	एस.डी.वाय. अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
3748	U34300DL1994PTC062739	साका औटोटेल् सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3749	U99999DL1994PTC062746	वैशाली हाऊस कौपींग प्राईवेट लिमिटेड
3750	U99999DL1994PTC062747	श्रीगण स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
3751	U19201DL1994PTC062778	इस्म इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3752	U99999DL1994PTC062789	लियाबले कार्गो मोबर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3753	U70101DL1994PTC062813	चार्नेश कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
3754	U85199DL1994PTC062838	वेट वाचर्ज ओरिएन्टल प्राईवेट लिमिटेड
3755	U72200DL1994PTC062847	पिन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
3756	U51229DL1994PTC062865	आदी बिसनेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3757	U51909DL1994PTC062876	सुपरस्टार ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3758	U51909DL1994PTC062922	कोर्डिआबले मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3759	U99999DL1994PTC062975	वी.जी. वस्तु निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
3760	U30007DL1994PTC062992	स्टर्तुम कम्प्युटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
3761	U99999DL1994PTC063027	के-लोन होसिएरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
3762	U30007DL1994PTC063069	आधुनिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3763	U19116DL1994PTC063074	व्यास इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड.
3764	U74300DL1994PTC063082	इंडियन बजार प्राईवेट लिमिटेड.
3765	U29192DL1994PTC063087	पास्कोन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड.
3766	U74190DL1994PTC063148	ओन्नेक देटेक्टिव्स प्राईवेट लिमिटेड.
3767	U99999DL1994PTC063159	नितसाई एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3768	U25207DL1994PTC063167	सेड फ्रेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
3769	U74300DL1994PTC063198	रास्ते मल्टीमीडिया अंडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
3770	U99999DL1994PTC063219	एक्सीलेंट मशीन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
3771	U99999DL1994PTC063241	इम्प्रेशन इन्डस्ट्रियल रेसोर्सिज प्राईवेट लिमिटेड
3772	U74210DL1994PTC063312	कमे प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
3773	U30007DL1994PTC063343	थारा कम्पानेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

3774	U51909DL1994PTC063400	डी.के. अँग्रो ब्रीडर्स एंड इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
3775	U99999DL1994PTC063410	साई होसिएरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3776	U99999DL1994PTC063458	प्रोफाईल कम्पटर्स (इंडिया) पी.लिमिटेड.
3777	U99999DL1994PTC063473	क्रेस्ट अँक्वा फार्म्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3778	U99999DL1994PTC063477	सिटीलीन्क कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3779	U99999DL1994PTC063501	अपणा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
3780	U99999DL1994PTC063507	सेनसुर अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3781	U55101DL1994PTC063536	सरोवा होटल्स (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
3782	U99999DL1994PTC063640	आरिस्टोक्रैट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
3783	U99999DL1994PTC063718	अनामिका एस्टेटिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3784	U99999DL1994PTC063739	रतिका ट्रेड -लीन्क्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3785	U74140DL1994PTC063780	सर्वेल डेक्कन सिस्टम्स एण्ड सर्वोसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3786	U51399DL1994PTC063834	सतगुरु फ़ेशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3787	U51399DL1994PTC063834	सतगुरु फ़ेशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3788	U99999DL1994PTC063861	टुडे कार्गो एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3789	U27101DL1994PTC063877	एस्स पी धातु उद्योग प्राइवेट. लिमिटेड.
3790	U26941DL1994PTC063893	रीलायन्स सेमेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3791	U99999DL1994PTC063928	अहराम ऑर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3792	U74140DL1994PTC063937	साया कैमिकल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3793	U99999DL1995PTC063970	मिछ्टी मिंड्स इंटरनेशनल प्राइवेट. लिमिटेड.
3794	U99999DL1995PTC063972	श्रीयंग सिंग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3795	U99999DL1995PTC063982	ब्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3796	U99999DL1995PTC063993	नोर्थन इंडिया टेलीकोम सर्वोसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3797	U99999DL1995PTC064000	ईस्ट वेस्ट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3798	U51211DL1995PTC064042	रिक्की एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3799	U60221DL1995PTC064049	युवराज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3800	U45201DL1995PTC064081	नवग्रो बिल्डिज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3801	U25202DL1995PTC064119	हिमालय पेंकेजिंग एण्ड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3802	U99999DL1995PTC064123	पी के इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3803	U99999DL1995PTC064129	ज्य ट्रेडिज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3804	U51103DL1995PTC064191	आधर शीला एन्टरप्राइसीस प्राइवेट. लिमिटेड.
3805	U51506DL1995PTC064266	मार्क सिस्टम्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3806	U99999DL1995PTC064274	देवप्रयाग फ़ेशन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3807	U99999DL1995PTC064277	स्पेन स्त्रुक्चरल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3808	U99999DL1995PTC064284	क्रॉसलैंड ट्रेडिज़ क्रॉसलैंड ट्रेडिज़ प्राइवेट लिमिटेड
3809	U65921DL1995PTC064308	आई सिघ्ट कम्प्यूटिज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3810	U99999DL1995PTC064309	विनय ब्रेवारीस प्राइवेट लिमिटेड
3811	U99999DL1995PTC064354	इंस्टेट-अगे प्राइवेट. लिमिटेड.
3812	U24239DL1995PTC064404	मॉडर्न फ़ोर्मूलेशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3813	U99999DL1995PTC064406	ब्लारे कंसेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
3814	U99999DL1995PTC064413	दकोटा ट्रेडिंग कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
3815	U21019DL1995PTC064423	आरौ पॉली प्रिंटिज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
3816	U51909DL1995PTC064429	करली इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3817	U24231DL1995PTC064502	मार्क मेडिसिन्स प्राइवेट. लिमिटेड.

3818	U99999DL1995PTC064577	ग्राम्स इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3819	U63040DL1995PTC064610	फुटूर टूवेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3820	U99999DL1995PTC064642	प्रेमीऊम ट्रेडिंग एण्ड होलडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3821	U99999DL1995PTC064651	कलल एक्सप्रेस प्राईवेट. लिमिटेड.
3822	U45201DL1995PTC064707	कोच्चर एण्ड कोछर इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3823	U99999DL1995PTC064709	राजपूत ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3824	U99999DL1995PTC064718	धारीवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3825	U99999DL1995PTC064726	ट्रिक्विल केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
3826	U70101DL1995PTC064747	कुबेर रियल इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3827	U70101DL1995PTC064748	जयमा रियल इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3828	U99999DL1995PTC064759	पज लाल्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3829	U24231DL1995PTC064788	फार्मा रेमेदीस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3830	U99999DL1995PTC064796	यास्मू एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3831	U99999DL1995PTC064818	श्रुयांग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3832	U85191DL1995PTC064820	मेदी ऐड फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3833	U99999DL1995PTC064854	जी.बी. ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
3834	U99999DL1995PTC064903	प्राइम डेकोर ग्लास प्राईवेट. लिमिटेड.
3835	U51507DL1995PTC064904	विराजिता पॉलीक्लिनिक प्राईवेट. लिमिटेड.
3836	U99999DL1995PTC064950	बेलमार्क टेलीकोम प्राईवेट. लिमिटेड.
3837	U15313DL1995PTC064983	शंकर लाल अग्रवाल दल मील प्राईवेट. लिमिटेड.
3838	U32204DL1995PTC064993	तेलेवॉइस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3839	U99999DL1995PTC065010	सत्यम ग्राफिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3840	U99999DL1995PTC065054	इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3841	U51299DL1995PTC065123	टाईम ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3842	U99999DL1995PTC065124	लुध्रा देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3843	U99999DL1995PTC065175	गाबोर होलोग्राफिक लेन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3844	U80221DL1995PTC065185	ईक स्कुल ऑफ आर्ट एण्ड फ्रेंशन प्राईवेट. लिमिटेड.
3845	U30007DL1995PTC065193	इंटरलीन्क सॉफ्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
3846	U99999DL1995PTC065196	अशोका होम कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3847	U01401DL1995PTC065210	खान तुबेवेल इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3848	U31102DL1995PTC065211	ए.पी.एस. इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3849	U99999DL1995PTC065220	कांपूरी लिक्विड एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3850	U72100DL1995PTC065224	फ्रौकीस फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3851	U99999DL1995PTC065243	अम्बे मोटर एण्ड अलाईड सर्वीसीज़ लिमिटेड
3852	U99999DL1995PTC065292	आयेशा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3853	U99999DL1995PTC065322	फ्रिजकिंग इंजीनियर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3854	U99999DL1995PTC065379	चीकथं इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3855	U99999DL1995PTC065453	पारस कम्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3856	U99999DL1995PTC065476	योगवीर पिंटर्न प्राईवेट. लिमिटेड.
3857	U70101DL1995PTC065529	हेमिल्टन इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3858	U99999DL1995PTC065538	डायना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3859	U99999DL1995PTC065554	वत रेसोर्सिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3860	U99999DL1995PTC065602	अनेक फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3861	U99999DL1995PTC065610	इण्ड फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.

3862	U36920DL1995PTC065627	होहनेर इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3863	U99999DL1995PTC065643	वर्जिन ऑटो प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3864	U99999DL1995PTC065647	ग्लोबल क्लीअरिंग कोर्पोरेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
3865	U99999DL1995PTC065655	मल्टी-टेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3866	U80301DL1995PTC065659	साईटेक एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड.
3867	U99999DL1995PTC065661	कुंदन सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3868	U99999DL1995PTC065674	ऊनीस्टार एअरकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
3869	U99999DL1995PTC065698	अंबर फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3870	U72200DL1995PTC065754	टोटल मैनेजमेन्ट सोलुशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3871	U99999DL1995PTC065766	निशांत टूरीस्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3872	U99999DL1995PTC065777	पक्स सॉफ्टवारेस प्राईवेट. लिमिटेड.
3873	U99999DL1995PTC065835	डी-टोन होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3874	U99999DL1995PTC065843	एटी सॉफ्टवॉर प्राईवेट. लिमिटेड.
3875	U17121DL1995PTC065845	शीचंद्र कॉटन प्राईवेट लिमिटेड
3876	U74300DL1995PTC065894	हॉलमार्क अंडवर्टायजिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
3877	U99999DL1995PTC065900	सफ़लता इम्पेक्स एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3878	U63013DL1995PTC065906	जी.के. एअर फ़्रेटज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3879	U99999DL1995PTC065933	ए एण्ड झेड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3880	U99999DL1995PTC065989	शाहनशाह एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3881	U99999DL1995PTC066001	स्टूटेगी कन्सल्टिंग ग्रुप प्राईवेट. लिमिटेड.
3882	U99999DL1995PTC066012	गेनीऊस अकॅडेमी ऑफ़ एदुकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
3883	U99999DL1995PTC066018	मेगैर्थ इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3884	U99999DL1995PTC066026	आर.के.बी. इन्क एण्ड प्रिंट प्राईवेट. लिमिटेड.
3885	U45201DL1995PTC066039	कालरा कॉन्ट्रैक्टर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3886	U99999DL1995PTC066044	हिंदुस्तान ग्लोबल प्राईवेट. लिमिटेड.
3887	U99999DL1995PTC066172	अक्बालसन लीडई प्राईवेट. लिमिटेड.
3888	U99999DL1995PTC066193	प्रो टेल इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड
3889	U99999DL1995PTC066226	कॅपिटल स्काफोल्डींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3890	U51223DL1995PTC066279	पभू जी एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3891	U99999DL1995PTC066294	कोइस्टॉन इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3892	U99999DL1995PTC066296	जीवन सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3893	U45202DL1995PTC066304	पाय टी.वी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
3894	U99999DL1995PTC066329	ईंदिटेल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3895	U74140DL1995PTC066347	डी बी आर इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3896	U67120DL1995PTC066418	फ़ैकॉम सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3897	U99999DL1995PTC066432	एन.वी. ट्रेवल्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3898	U99999DL1995PTC066447	इंगल कौरिएज़ एण्ड कार्गो प्राईवेट. लिमिटेड.
3899	U64201DL1995PTC066460	सी जी टेलीनेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3900	U99999DL1995PTC066463	ए.एस. मेडिक्लिनक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3901	U67110DL1995PTC066466	बी जी फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3902	U99999DL1995PTC066476	सिंह फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3903	U74300DL1995PTC066550	अमाज़े अंडवर्टायजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
3904	U19201DL1995PTC066581	एस्टीम फ़ूटवीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3905	U99999DL1995PTC066669	जेद एन्जीन्यरींग प्राईवेट. लिमिटेड.

3906	U99999DL1995PTC066694	आब्रो मशीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3907	U99999DL1995PTC066695	आब्रो स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3908	U34103DL1995PTC066714	स्वदेशी मोटर कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
3909	U99999DL1995PTC066715	वारसी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3910	U99999DL1995PTC066724	सुपर फोटोटाईप प्राईवेट. लिमिटेड.
3911	U99999DL1995PTC066739	दिल्ली एक्स्ट्रैक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3912	U18101DL1995PTC066757	तेनमाय इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3913	U63040DL1995PTC066779	साक्षी टूर्स एण्ड ट्रेवल प्राईवेट. लिमिटेड.
3914	U63090DL1995PTC066786	ए-ओने कार रेन्टल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3915	U99999DL1995PTC066813	आकांक्षा एन्जीनीअरींग. एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3916	U99999DL1995PTC066828	जे.डी. पॉलीफैब प्राईवेट. लिमिटेड.
3917	U99999DL1995PTC066906	अजूनी ऑटोमोटिव्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3918	U36999DL1995PTC066930	गुरुसन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3919	U99999DL1995PTC066958	स्काईलाईन एअरवेज प्राईवेट. लिमिटेड.
3920	U99999DL1995PTC066978	यमुना ट्रान्स्ट एण्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
3921	U99999DL1995PTC066982	दर्पण कलर लैब प्राईवेट. लिमिटेड.
3922	U99999DL1995PTC066984	सहीर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3923	U99999DL1995PTC066992	वीसा हेल्थ केअर एण्ड फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3924	U99999DL1995PTC067052	एम.आर.जी. एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3925	U99999DL1995PTC067099	अमित इंटरगोल्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
3926	U99999DL1995PTC067107	पेतल स्मीले क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3927	U99999DL1995PTC067110	सी.आर.एम. लीडर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
3928	U99999DL1995PTC067123	साफ़ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3929	U30007DL1995PTC067133	एन्मास्से कम्प्युटर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
3930	U01111DL1995PTC067142	पहाड़ी अंप्रोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
3931	U99999DL1995PTC067143	प्स टेलीकोम प्राईवेट. लिमिटेड.
3932	U99999DL1995PTC067155	संतोष कॅरिअर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3933	U99999DL1995PTC067162	आर.वी. ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3934	U99999DL1995PTC067164	फुटूर कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3935	U99999DL1995PTC067174	जेन स्टील एण्ड फ़ोईल इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
3936	U99999DL1995PTC067181	काउंट कम्प्युटर सर्विसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3937	U22121DL1995PTC067209	आर.डी. प्रिंटरज प्राईवेट. लिमिटेड.
3938	U24219DL1995PTC067214	दारा अंग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3939	U24219DL1995PTC067219	दारा अंग्रोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
3940	U51311DL1995PTC067232	मलबेरी अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3941	U99999DL1995PTC067256	तिरुपति प्रीसिशन स्क्वूज प्राईवेट लिमिटेड.
3942	U74140DL1995PTC067270	डाईनास्टी अड्विंसर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
3943	U99999DL1995PTC067274	रूद्राक्ष मार्क-अड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3944	U99999DL1995PTC067305	शाताक मोडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3945	U67200DL1995PTC067346	सुपर शिपिंग (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3946	U99999DL1995PTC067350	ग्रीन हेट मार्केटिंग सर्विसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3947	U99999DL1995PTC067371	पमान्स कोलेक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3948	U99999DL1995PTC067386	रूपा इन्वेषन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3949	U99999DL1995PTC067398	अरविंद अंग्रो फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.

3950	U99999DL1995PTC067414	श्री जी सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
3951	U74999DL1995PTC067457	जियोटेक इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3952	U99999DL1995PTC067475	स्पेक्त्रम अग्रोटेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3953	U15319DL1995PTC067477	कूरमंचल पोटतो चिप्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3954	U99999DL1995PTC067502	पी एन ओवरसीयर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3955	U32109DL1995PTC067526	जे.के. तेले कम्युनिकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
3956	U51909DL1995PTC067620	अर्जुन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3957	U67120DL1995PTC067623	वाल्टर फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3958	U99999DL1995PTC067684	आस्था यार्न्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3959	U45309DL1995PTC067701	हेरिटेज रीलम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3960	U51311DL1995PTC067704	जी.टी.सी. इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3961	U75110DL1995PTC067710	कूरमंचल सिक्युरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3962	U99999DL1995PTC067736	हरियाणा ठैमोप्लास्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
3963	U99999DL1995PTC067754	टेक्नोटैक्स इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3964	U99999DL1995PTC067761	मीना टेक्स्नात प्राईवेट. लिमिटेड.
3965	U99999DL1995PTC067782	सुपर होसिएरी प्राईवेट. लिमिटेड.
3966	U63031DL1995PTC067805	शीव रोड कॅरिअर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3967	U51909DL1995PTC067842	मुंगिपा ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3968	U99999DL1995PTC067853	एस एण्ड बी इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3969	U18101DL1995PTC067912	ड्रेस एण्ड स्टाइल एक्सपोर्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3970	U99999DL1995PTC067922	लता स्टील एजेंसी प्राईवेट. लिमिटेड.
3971	U99999DL1995PTC067943	स्टुडियो ग्राफिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3972	U99999DL1995PTC068012	आर.के. कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3973	U28129DL1995PTC068013	ड्रीम एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
3974	U99999DL1995PTC068059	राइट अधिसिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3975	U99999DL1995PTC068060	के.एल. नागपाल ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
3976	U99999DL1995PTC068075	सहिवू इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3977	U99999DL1995PTC068106	सुपर इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
3978	U99999DL1995PTC068111	ओशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3979	U64201DL1995PTC068134	युरो टेल इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3980	U29214DL1995PTC068161	गुरमीत ऑटो प्राईवेट. लिमिटेड.
3981	U32204DL1995PTC068180	केसर सिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3982	U45201DL1995PTC068195	पार्कवे बील्डर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3983	U99999DL1995PTC068216	विब्रोस सेल्स एण्ड फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3984	U99999DL1995PTC068236	यमुनानगर पावर कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
3985	U99999DL1995PTC068240	बी.के. प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3986	U19201DL1995PTC068250	ऑल फ़ोर धी शुस प्राईवेट. लिमिटेड.
3987	U99999DL1995PTC068316	इक सर्वीसीज़ इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
3988	U99999DL1995PTC068324	इक्स ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3989	U99999DL1995PTC068339	सनरा एक्सपोर्ट प्रमोशन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
3990	U19201DL1995PTC068354	आकलास प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3991	U51909DL1995PTC068378	एलमून ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3992	U30007DL1995PTC068396	अपॉरिस इन्स्टिट्यूट फ़ॉर कम्प्यूटर मॅनुफ़ैक्चरिंग एण्ड ट्रेनिंग पी.लिमिटेड.
3993	U30007DL1995PTC068410	ब्लूम कम्प्यूटर्ज़ एण्ड सॉफ़्टवेयर्स प्राईवेट. लिमिटेड.

3994	U51909DL1995PTC068415	आत्म ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
3995	U99999DL1995PTC068426	तुषार सिक्यूरिटिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
3996	U72202DL1995PTC068440	प्रेफ़रेन्स सॉफ़्टवेअर प्राईवेट. लिमिटेड.
3997	U99999DL1995PTC068457	लास्ट मिनिट दूस प्राईवेट. लिमिटेड.
3998	U99999DL1995PTC068481	दीप फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
3999	U29305DL1995PTC068504	स्वीटी इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4000	U51909DL1995PTC068509	न्स्क (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4001	U99999DL1995PTC068510	बी.के. प्लेसेमेन्ट एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4002	U99999DL1995PTC068540	स्टर्लिंग तेलमैटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4003	U67120DL1995PTC068548	अचो पोर्टफ़ोलियो प्राईवेट. लिमिटेड.
4004	U99999DL1995PTC068549	अवियोनिक सेफ़्टी एण्ड सुर्वीवाल सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4005	U99999DL1995PTC068552	ट्रान्सवर्ल्ड कार्गो प्राईवेट. लिमिटेड.
4006	U99999DL1995PTC068621	नाम फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4007	U99999DL1995PTC068630	ट्वेंटी फ़र्स्ट सेन्चरी एअर कॉन प्राईवेट लिमिटेड
4008	U99999DL1995PTC068662	एस इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4009	U99999DL1995PTC068693	सिग्मा मेटालिक प्राईवेट. लिमिटेड.
4010	U70101DL1995PTC068703	बारीसुरा इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4011	U70102DL1995PTC068731	क्रॉसलैंड वाटर गेम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4012	U99999DL1995PTC068758	डबल्यू.आर. पोर्टफ़ोलियो प्राईवेट. लिमिटेड.
4013	U32204DL1995PTC068833	इस सेल्युलर प्राईवेट. लिमिटेड.
4014	U17119DL1995PTC068840	श्री भारत टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
4015	U32201DL1995PTC068856	इस अटेक्नोलॉगीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4016	U65192DL1995PTC068890	मणि फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4017	U99999DL1995PTC068896	गणेश कॉटन मोल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4018	U22110DL1995PTC068932	मीडिया स्पेक्ट्रम (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4019	U99999DL1995PTC068941	बी.ए.के. एण्ड को प्राईवेट. लिमिटेड.
4020	U99999DL1995PTC068947	दुन्दी कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4021	U34300DL1995PTC068982	वी.सी. ऑटो पाट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4022	U99999DL1995PTC068987	एच एण्ड एच एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4023	U99999DL1995PTC068992	आनलॉगिक कम्प्युटर (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4024	U19201DL1995PTC068997	अलवर फ़ूट वीर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4025	U64202DL1995PTC069009	एशिया ऑन्लीन प्राईवेट. लिमिटेड.
4026	U26919DL1995PTC069010	कैपिटल सिरिमिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4027	U51420DL1995PTC069012	स्वामी आइरन इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4028	U29191DL1995PTC069021	हर्ड एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4029	U45201DL1995PTC069056	ट्रेहान इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4030	U70101DL1995PTC069074	पोलर-आगिओ देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4031	U99999DL1995PTC069096	मूखोटा नाट्य मंच प्राईवेट. लिमिटेड.
4032	U99999DL1995PTC069109	फ़ैशन नेटवर्क (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4033	U99999DL1995PTC069113	मानिक्राज (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4034	U99999DL1995PTC069145	विमी एन्जीन्यरिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4035	U30007DL1995PTC069150	उस अलिआन्सोज़ प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4036	U99999DL1995PTC069156	माब्रोस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4037	U99999DL1995PTC069158	लस फ़ुड प्राईवेट. लिमिटेड.

4038	U99999DL1995PTC069183	ग्लोबल एकेस प्राईवेट. लिमिटेड.
4039	U99999DL1995PTC069184	किमोनो सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4040	U67120DL1995PTC069236	आरराय कॉर्पोरेट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4041	U99999DL1995PTC069254	सूम्मीत पुष्पक अवियाशन प्राईवेट लिमिटेड
4042	U99999DL1995PTC069255	ठाकुर अपार्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4043	U99999DL1995PTC069265	हिमगिरी हेबल्स प्राईवेट लिमिटेड
4044	U28932DL1995PTC069269	आर्चना मॉल्ड कास्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
4045	U51909DL1995PTC069322	सेवक ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4046	U99999DL1995PTC069336	डिम्पल ऑर्गानिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4047	U51909DL1995PTC069344	स्वस अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4048	U65929DL1995PTC069372	ड्स होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4049	U99999DL1995PTC069373	जेनेसिस इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4050	U29219DL1995PTC069379	मनतेग लांडस्केप एण्ड इररीगेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
4051	U30007DL1995PTC069389	क्वस इन्फो-टेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4052	U99999DL1995PTC069419	सोनेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4053	U99999DL1995PTC069434	मुनिम फ़ास्टनर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4054	U70101DL1995PTC069447	विक्टर प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4055	U99999DL1995PTC069478	मन्शास फ़ुड (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4056	U51101DL1995PTC069484	त्रिनिटी ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4057	U99999DL1995PTC069519	अमन प्लास्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4058	U99999DL1995PTC069524	सुन्डोन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4059	U99999DL1995PTC069527	ए टो झेड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4060	U99999DL1995PTC069554	रीगल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4061	U99999DL1995PTC069568	ब्लेज़ कन्ट्रोल प्राईवेट. लिमिटेड.
4062	U99999DL1995PTC069573	वेदिकऋषि फार्मा प्राईवेट. लिमिटेड.
4063	U99999DL1995PTC069620	शिवम एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड.
4064	U72109DL1995PTC069637	बृज इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4065	U99999DL1995PTC069669	अंग्रो इंडिया इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4066	U99999DL1995PTC069673	निर्मल रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4067	U99999DL1995PTC069701	शाहपूरिआ एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4068	U67120DL1995PTC069707	व्मा फायनान्श्यल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4069	U50300DL1995PTC069726	सोल-टेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4070	U99999DL1995PTC069791	निधि डेरी फ़ार्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4071	U99999DL1995PTC069829	पिरामिड मैनोर प्राईवेट. लिमिटेड.
4072	U51392DL1995PTC069845	पेटइक्वीप इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4073	U99999DL1995PTC069847	गस ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4074	U55101DL1995PTC069848	मालिबू रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4075	U35921DL1995PTC069863	के.आर. साईकल पाट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4076	U99999DL1995PTC069935	दाता मैक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4077	U21014DL1995PTC069938	ऑनिक्स पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4078	U99999DL1995PTC069942	कोनी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4079	U99999DL1995PTC069964	बलसारी इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
4080	U99999DL1995PTC069997	रौनक क्रिएशन प्राईवेट. लिमिटेड.
4081	U99999DL1995PTC069998	जी.डी. कार्गो केअर प्राईवेट. लिमिटेड.

4082	U99999DL1995PTC070000	बाहुबली कम्प्यूटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4083	U50403DL1995PTC070006	क्लासिक कार प्राईवेट. लिमिटेड.
4084	U99999DL1995PTC070029	लोचाब एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4085	U99999DL1995PTC070039	अवोन वूलेन मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4086	U99999DL1995PTC070097	ब्लॉक सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4087	U99999DL1995PTC070115	वितागे होलिदय रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4088	U99999DL1995PTC070116	इंटर प्लानेट एअर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
4089	U99999DL1995PTC070172	आर.वी. फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4090	U99999DL1995PTC070180	साईसन्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4091	U99999DL1995PTC070188	ए.के. स्पीडर प्राईवेट. लिमिटेड.
4092	U99999DL1995PTC070193	ब्लूमिंग होलिडेस प्राईवेट. लिमिटेड.
4093	U99999DL1995PTC070195	एम्बे फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4094	U99999DL1995PTC070226	एन-ताव टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
4095	U99999DL1995PTC070255	दुओ सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4096	U72200DL1995PTC070261	इटेक कम्प्यूटर सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4097	U99999DL1995PTC070282	मैक्स्यो पॉलीकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
4098	U25199DL1995PTC070307	बेस्ट रबबर कम्पोजिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4099	U99999DL1995PTC070326	जोत निरंजन गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4100	U45203DL1995PTC070339	दोवे बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
4101	U99999DL1995PTC070359	कोलपाक कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4102	U99999DL1995PTC070452	ओफ़ठलमोलोगिक्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4103	U64120DL1995PTC070489	डॉल्फीन एक्सप्रेस सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4104	U01122DL1995PTC070496	सेमेक्स कर्योगेनिकस प्राईवेट. लिमिटेड.
4105	U99999DL1995PTC070521	पिरामिड कन्सोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4106	U67110DL1995PTC070529	सा मनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4107	U51102DL1995PTC070559	बाबु लाल इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4108	U99999DL1995PTC070628	नेक्सस मल्टी मोडे कॅरिअर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4109	U99999DL1995PTC070632	न डायकेम प्राईवेट. लिमिटेड.
4110	U99999DL1995PTC070639	गौतम बुद्ध ट्रेड लीन्क प्राईवेट. लिमिटेड.
4111	U99999DL1995PTC070664	सन्नक इन्स्ट्रुअल एन्टरप्राईसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4112	U74210DL1995PTC070684	ओस्म मॅरिटाइम सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4113	U99999DL1995PTC070700	स्पैन सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4114	U51909DL1995PTC070715	डक्स ओवरसीज़ ट्रेड प्राईवेट. लिमिटेड.
4115	U64202DL1995PTC070745	प्राईम ईर्थ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4116	U51909DL1995PTC070751	ऑम्बेसडर इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4117	U99999DL1995PTC070757	रेड्कपत इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4118	U99999DL1995PTC070771	मूलटिलेवेल मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4119	U99999DL1995PTC070798	आइफेक्ट्स अंड्वटॉयजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4120	U99999DL1995PTC070810	सितिफ़ोने इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4121	U99999DL1995PTC070814	रिचोका कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4122	U63040DL1995PTC070816	पी.सी.एस. ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4123	U99999DL1995PTC070817	यूथ मणीया एंटरटेन्मेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
4124	U51909DL1995PTC070839	सनशार्प एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4125	U99999DL1995PTC070841	राजेश शॉर शॉप प्राईवेट. लिमिटेड.

4126	U99999DL1995PTC070844	क्लस्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4127	U99999DL1995PTC070862	अंकुर अलॉय्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4128	U30007DL1995PTC070888	इट्कोम टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
4129	U99999DL1995PTC070902	गोल्ड स्टार बील्डकंप प्राईवेट लिमिटेड.
4130	U60221DL1995PTC070906	सनबीम कार्गो एण्ड ट्रेवल प्राईवेट. लिमिटेड.
4131	U99999DL1995PTC070940	आसर अंड्वटॉयजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4132	U45201DL1995PTC071010	अंट्रिक्स इंजीनियर्स एण्ड बील्डर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4133	U99999DL1995PTC071024	आर्को ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड
4134	U99999DL1995PTC071027	श्री कृष्ण ऑफसेट प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4135	U31200DL1995PTC071069	सुमीकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4136	U99999DL1995PTC071073	दुराईराज कन्सल्टन्सी सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4137	U99999DL1995PTC071116	कमर्शियल इंटरटेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4138	U51311DL1995PTC071165	ब्लेसिंग्स फ़ेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4139	U99999DL1995PTC071184	ट्रान्सलैंड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4140	U99999DL1995PTC071208	वन्कूठ प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड.
4141	U99999DL1995PTC071213	गोल्डन गार्डन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड.
4142	U92413DL1995PTC071232	वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4143	U51102DL1995PTC071239	जे.एम.बी.एम. पेट्रो प्राईवेट. लिमिटेड.
4144	U72300DL1995PTC071256	फ़ोकस इन्फ़ोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4145	U99999DL1995PTC071258	ऊषा ज्योति प्राईवेट. लिमिटेड.
4146	U99999DL1995PTC071264	के.आर. अग्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4147	U99999DL1995PTC071266	स्वबूरमटिक्स एन्जीनियरिंग लैब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4148	U99999DL1995PTC071270	दूरअबले रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
4149	U99999DL1995PTC071309	आर पी जेद एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4150	U63040DL1995PTC071336	कानोन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4151	U33111DL1995PTC071343	करेक्स मेडिकोस प्राईवेट. लिमिटेड.
4152	U99999DL1995PTC071376	एस.जी. स्ट्रिप्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4153	U17299DL1995PTC071378	सौगुलल फ़ेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4154	U99999DL1995PTC071380	एस्सेंट आडवर्टिसोर एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4155	U67120DL1995PTC071404	कोन्वेनीन्ट फायनान्सियल सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4156	U99999DL1995PTC071409	भास्करेस टूरस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4157	U99999DL1995PTC071418	पोर्ट ब्लाइंड मनीष-ए-ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
4158	U99999DL1995PTC071450	आदमर फ़्रील्ड सर्वोक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4159	U99999DL1995PTC071456	गूडलक कॉर्पोरेट सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4160	U99999DL1995PTC071480	रीगल मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4161	U99999DL1995PTC071483	दया फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4162	U99999DL1995PTC071528	अनिल परताप सिंह एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4163	U99999DL1995PTC071533	कलकर्स इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
4164	U99999DL1995PTC071565	नवयुग इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4165	U27109DL1995PTC071635	विद्या अलॉय्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4166	U70101DL1995PTC071651	पासिफ़िक कोलोनीसर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4167	U30007DL1995PTC071653	ए.एन. लोटस कम्युटर्स एण्ड ऑटोमेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
4168	U51909DL1995PTC071656	गुरू एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4169	U33112DL1995PTC071702	सायमद ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.

4170	U51909DL1995PTC071735	प्रिंसीपल एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
4171	U13209DL1995PTC071747	वसुधा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4172	U99999DL1995PTC071758	जोना रब्वर एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4173	U99999DL1995PTC071802	सुकृति स्टडियोस प्राईवेट लिमिटेड.
4174	U99999DL1995PTC071814	श्री अगर्सन आइवर्टिस प्राईवेट. लिमिटेड.
4175	U51909DL1995PTC071830	रौचेमेत प्राईवेट. लिमिटेड.
4176	U99999DL1995PTC071837	कैरोलिन इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4177	U99999DL1995PTC071899	कम्पुवेब इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4178	U99999DL1995PTC071914	पेफ़ेक्ट गिफ़्ट एण्ड गिफ़्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
4179	U31103DL1995PTC071937	टेक ट्रेक कुइप्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4180	U99999DL1995PTC071966	आरेम अलोय्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4181	U99999DL1995PTC071969	जाविता (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4182	U99999DL1995PTC071993	वोयेजर ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4183	U99999DL1995PTC071998	विनिको मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4184	U99999DL1995PTC072003	रील ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड.
4185	U99999DL1995PTC072030	अंकुर ग्रीन फ़ील्ड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4186	U17115DL1995PTC072037	प्रिमीयर फ़ैब्रिकेस प्राईवेट. लिमिटेड.
4187	U99999DL1995PTC072040	लीनकर पॉलीब्रेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4188	U99999DL1995PTC072092	सलील मार्केटिंग (पी) लिमिटेड.
4189	U99999DL1995PTC072105	स्मीलिंग स्टोन्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4190	U99999DL1995PTC072107	मोमेन्टो कार्गो एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4191	U45201DL1995PTC072114	साई बील्डटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4192	U99999DL1995PTC072116	क्यू.सी.एस. ट्रेवल्स को. प्राईवेट. लिमिटेड.
4193	U99999DL1995PTC072130	विट्मन्स लुब-स्पेशीयलिटीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4194	U73100DL1995PTC072169	स्वर्ग रिसर्च प्राईवेट. लिमिटेड.
4195	U99999DL1995PTC072182	हब मिन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4196	U99999DL1995PTC072188	स्कोपेस इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4197	U99999DL1995PTC072195	बसीनेक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4198	U36999DL1995PTC072208	सुब्रोस-असेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4199	U99999DL1995PTC072209	दफोडिल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4200	U99999DL1995PTC072217	फ़ैब कन्सेप्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4201	U74300DL1995PTC072223	वाल्टूर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4202	U99999DL1995PTC072266	ज्मड अंग्रेटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4203	U27109DL1995PTC072293	एम.एम. स्टील बाल्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4204	U99999DL1995PTC072333	ट्रमा कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4205	U99999DL1995PTC072369	माव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4206	U63040DL1995PTC072418	नगिना टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4207	U99999DL1995PTC072461	निबोजुरो आर्टिफ़िशियल ओर्गन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4208	U99999DL1995PTC072486	खेरा ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4209	U30007DL1995PTC072494	आडोनीस इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4210	U99999DL1995PTC072504	सिखा बील्डज़ प्राईवेट लिमिटेड
4211	U99999DL1995PTC072532	डी एम ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4212	U99999DL1995PTC072542	क्राफ़्ट वुड पैकेजिंग (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4213	U99999DL1995PTC072560	एन.आर.एस. गार्मेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.

4214	U99999DL1995PTC072581	पारूल वैन्गुआर्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
4215	U27201DL1995PTC072600	टागोत मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4216	U99999DL1995PTC072656	प्रिस्मा एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
4217	U99999DL1995PTC072687	पदिमनी मरीन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड.
4218	U99999DL1995PTC072688	पदिमनी हाऊसींग एण्ड डेवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4219	U99999DL1995PTC072694	पदिमनी एक्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड.
4220	U99999DL1995PTC072696	पदिमनी फर्मसटिकल्स (पी) लिमिटेड.
4221	U99999DL1995PTC072697	पदिमनी बिबरेजीस (पी) लिमिटेड.
4222	U85191DL1995PTC072704	आरिहंत हरबल ट्रीटमेन्ट सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
4223	U99999DL1995PTC072713	पदिमनी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड.
4224	U99999DL1995PTC072716	टचवुड अंडवर्टायजिंग एण्ड म्कटिंग प्राईवेटलिमिटेड
4225	U51398DL1995PTC072731	प्रकाश जेव्वरी प्राईवेट लिमिटेड
4226	U99999DL1995PTC072732	हॉली होक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4227	U99999DL1995PTC072780	सुरिंद्र मलिक अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4228	U70101DL1995PTC072786	प्रेफेरेड प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4229	U99999DL1995PTC072788	बी.आर. दिविन फ्रेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4230	U99999DL1995PTC072792	मेट्रो अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4231	U99999DL1995PTC072795	अपअला फूड इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
4232	U24923DL1995PTC072816	कल्यानी आरामटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4233	U99999DL1995PTC072830	कैपैन पोस्टर्ज (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4234	U99999DL1995PTC072837	करन देव फायनान्सियल सर्वीसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
4235	U99999DL1995PTC072840	चरण इंटरनेशनल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
4236	U99999DL1995PTC072841	प्रताप ह्योनिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
4237	U99999DL1995PTC072846	मस्तलंका इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
4238	U99999DL1995PTC072850	प्लस इंडीरियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4239	U99999DL1995PTC072859	कराज मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4240	U99999DL1995PTC072926	रेस अपार्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4241	U99999DL1995PTC072948	ब्लूमिंग हेल्थ प्राईवेट. लिमिटेड.
4242	U99999DL1995PTC072952	वल्स आइरन एण्ड स्टील को. प्राईवेट. लिमिटेड.
4243	U99999DL1995PTC072958	नापसन फर्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4244	U99999DL1995PTC072961	लेगेंड एन्जीन्यरींग प्राईवेट. लिमिटेड.
4245	U99999DL1995PTC072982	ग्ल लुब्रिकॉट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4246	U99999DL1995PTC072993	एलेवन सीज़ इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4247	U99999DL1995PTC073028	कैट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4248	U99999DL1995PTC073044	वाही एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4249	U72300DL1995PTC073046	मिडास टच इन्फोसिस प्राईवेट. लिमिटेड.
4250	U99999DL1995PTC073086	जय जगदंबे पेट्रो कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4251	U32204DL1995PTC073110	ब्लुबेरी एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4252	U99999DL1995PTC073111	स्न्यू टूर्स एण्ड ट्रेवल्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4253	U30007DL1995PTC073114	प्रोफेक्शनल बिसनेस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4254	U99999DL1995PTC073136	सिटो गार्मेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4255	U99999DL1995PTC073165	सुपरबट-मैक्स पॉवर स्ट्रुक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4256	U55101DL1995PTC073178	ए.ए.ए. होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4257	U99999DL1995PTC073212	सीतापुर एन्टरप्राइस प्राईवेट. लिमिटेड.

4258	U99999DL1995PTC073215	रियल टेक बील्डर्ज एण्ड प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4259	U32109DL1995PTC073227	महाजन टेलीफोनिकस प्राईवेट. लिमिटेड.
4260	U85199DL1995PTC073234	मोहन मेडिकल सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
4261	U51396DL1995PTC073236	त्रिस्टार फ़ोर्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4262	U74140DL1995PTC073246	एगोन जेहन्डर इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
4263	U99999DL1995PTC073283	श्रीव गंगा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4264	U99999DL1995PTC073313	ओबराय ग्लोबल कम्प्युटिज प्राईवेट. लिमिटेड.
4265	U51306DL1995PTC073356	अलीन डॉट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4266	U99999DL1995PTC073364	रुन्वेल सर्वोसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4267	U63040DL1995PTC073371	सिकेस एण्ड रे एक्जुडिटीस (दिल्ली) प्राईवेट. लिमिटेड.
4268	U99999DL1995PTC073376	कल्पतरू बील्ड-कंप प्राईवेट लिमिटेड.
4269	U99999DL1995PTC073377	गोल्डन गट्स होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4270	U99999DL1995PTC073391	ऊनितेक ह्वक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4271	U99999DL1995PTC073423	महादेव पेपर मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4272	U99999DL1995PTC073429	जेनेटिक फार्मा प्राईवेट. लिमिटेड.
4273	U99999DL1995PTC073451	क्रॉस कंट्री सिक्युरिटीज प्राईवेट. लिमिटेड.
4274	U16009DL1995PTC073474	डागा टोबेको प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड.
4275	U55101DL1995PTC073476	हर्क दिल्ली प्राईवेट. लिमिटेड.
4276	U99999DL1995PTC073480	जखिन फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4277	U33119DL1995PTC073483	सी.के. दिआग्नोस्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4278	U99999DL1995PTC073486	बॉडीकेअर (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4279	U99999DL1995PTC073519	श्री नरोत्तम इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड.
4280	U18101DL1995PTC073525	रजनी एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
4281	U24219DL1995PTC073564	म्योडेलिफा कैमिकल्स कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4282	U24231DL1995PTC073566	क्सेबेक फ़ोर्मुलेशन्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4283	U51505DL1995PTC073568	सिंगला ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4284	U06420DL1995PTC073592	परिवर्तन कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4285	U99999DL1995PTC073599	राम्स सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4286	U99999DL1995PTC073625	ज़ूम लाइन मल्टीमीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4287	U99999DL1995PTC073655	विस्फूनीका इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4288	U99999DL1995PTC073686	अमर पुष्प अंक्वा प्राईवेट. लिमिटेड
4289	U99999DL1995PTC073694	माऊंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4290	U99999DL1995PTC073723	पर्निर्मा अंग्रो प्राईवेट. लिमिटेड.
4291	U70101DL1995PTC073738	मिथा कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड.
4292	U99999DL1995PTC073780	डोलफ़िन आईस कुबेस प्राईवेट. लिमिटेड.
4293	U99999DL1995PTC073790	त्रि-एस्स फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4294	U99999DL1995PTC073800	जेनेसिस होलिडस प्राईवेट. लिमिटेड.
4295	U99999DL1995PTC073805	प्लस सोफ़्टेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4296	U99999DL1995PTC073824	मनसूरी इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4297	U99999DL1995PTC073864	सी.पी. मार्केटिक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4298	U99999DL1995PTC073886	ड्रीम्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4299	U24245DL1995PTC073892	मेस्य कसा कोस्मेटिका प्राईवेट. लिमिटेड.
4300	U32109DL1995PTC073895	मूनिगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4301	U64203DL1995PTC073912	ग्रेस टेलीकोम प्राईवेट लिमिटेड

4302	U99999DL1995PTC073914	गणपति अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4303	U99999DL1995PTC073916	अनुज सॅनिटरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4304	U99999DL1995PTC073919	स्तेफ़नी कम्प्युटर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4305	U99999DL1995PTC073934	अटिटुडे एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4306	U99999DL1995PTC073946	फ़ेक्ट कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4307	U99999DL1995PTC073948	ईसा कम्प्युटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4308	U99999DL1995PTC073974	ज्पी ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4309	U99999DL1995PTC074007	ऊनिक्र ग्लास प्राईवेट. लिमिटेड.
4310	U99999DL1995PTC074020	रेसौक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4311	U99999DL1995PTC074061	इंटरटेक मेडिक्रिप प्राईवेट लिमिटेड.
4312	U99999DL1995PTC074062	मेंडोचेम इंडिया (पी) लिमिटेड.
4313	U01131DL1995PTC074117	दिप्टन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4314	U99999DL1995PTC074126	मास्टर-पोस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
4315	U99999DL1995PTC074127	राजरथ एक्सिम एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4316	U51109DL1995PTC074149	कुइक दिआगोनोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4317	U99999DL1995PTC074161	गार्डन एड्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4318	U99999DL1995PTC074162	गरूड मर्चेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4319	U13209DL1995PTC074180	सॅटन मिनिना एण्ड मिनरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4320	U22110DL1995PTC074193	कॉकर्ड पुब्लिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4321	U32202DL1995PTC074200	एकुइनोक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4322	U17309DL1995PTC074203	पीर कोन्नेक्शन्स ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4323	U70101DL1995PTC074206	रेस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
4324	U99999DL1995PTC074212	देसवाल करिअर बीलडर प्राईवेट लिमिटेड
4325	U99999DL1995PTC074225	गार्डवेल लोकर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4326	U33112DL1995PTC074276	इंद्र इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
4327	U99999DL1995PTC074277	निन्नोचेम ट्म कस्तम प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4328	U99999DL1995PTC074282	आल्बत्रोस ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4329	U99999DL1995PTC074332	पद्मिनी म्युज़िक प्राईवेट. लिमिटेड.
4330	U99999DL1995PTC074333	एश-आई-नूर मल्टी फ़ार्म्स एण्ड एको रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4331	U51909DL1995PTC074407	ग्रेट इंडियन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4332	U17299DL1995PTC074413	प्रीत फ़ैब्रिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4333	U99999DL1995PTC074477	जूश्या टूल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4334	U99999DL1995PTC074480	बरुआ ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4335	U51505DL1995PTC074491	श्री तिरुपति सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4336	U99999DL1995PTC074518	सर्वोदया इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4337	U99999DL1995PTC074525	देवोटेद एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4338	U99999DL1995PTC074542	डॉली इंटरपोर्टर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4339	U99999DL1995PTC074554	एन्वो नतेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4340	U99999DL1995PTC074562	धवन फ़रनिचर्स प्राईवेट लिमिटेड
4341	U60210DL1995PTC074570	वृन्दा रोडलाइन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4342	U99999DL1995PTC074586	क्वड्र कास्टिंग कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4343	U99999DL1995PTC074590	जी.डी. कागों टूल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4344	U99999DL1995PTC074629	केमेलिआ टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4345	U99999DL1995PTC074633	नोवेल बेरिंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.

4346	U99999DL1995PTC074647	सुमीत एअरकॉन इन्डस्ट्रिस प्राईवेट. लिमिटेड.
4347	U99999DL1995PTC074653	रॉय फायनान्सियल एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
4348	U99999DL1995PTC074656	राजपाल सिंह राठी एण्ड सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4349	U67120DL1995PTC074658	स्कानाग्रोम (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4350	U63090DL1995PTC074663	फ्रेकंट फ्रेट सर्वोसीझ प्राईवेट. लिमिटेड.
4351	U99999DL1995PTC074676	पोआअ इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4352	U63040DL1995PTC074696	रॉयल ट्रान्सएअर प्राईवेट. लिमिटेड.
4353	U22121DL1995PTC074710	अद्वैता मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4354	U99999DL1995PTC074732	मास्टरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4355	U99999DL1995PTC074753	शीव त्यागी एण्ड शर्मा प्रोपर्टीस एण्ड बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
4356	U15209DL1995PTC074771	टोरुस फूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4357	U99999DL1995PTC074778	ब्लु होस इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4358	U99999DL1995PTC074788	ब्ट कम्प्यू-ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4359	U51909DL1995PTC074799	प्रकाश सोडा एण्ड लेमन मर्कज प्राईवेट लिमिटेड.
4360	U99999DL1995PTC074805	जे.ए.जी. स्टील इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4361	U99999DL1995PTC074810	ब्रायनेसर्वे सर्वोसीझ कन्सल्टिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4362	U51909DL1995PTC074820	ट्रिडेंट ग्लोबल प्राईवेट. लिमिटेड.
4363	U99999DL1995PTC074821	बी.जी.एन. होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4364	U36101DL1995PTC074838	बॉबी फूरनीशर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
4365	U99999DL1995PTC074862	अमूलेट मार्केटिंग एण्ड सर्वोसीझ प्राईवेट. लिमिटेड.
4366	U99999DL1995PTC074868	प्रहरी सिक्यूरिटी प्राईवेट .लिमिटेड.
4367	U99999DL1995PTC074873	आज़ाद सन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4368	U31909DL1995PTC074889	विग्नेश सोलिद स्टेट देविस प्राईवेट. लिमिटेड.
4369	U99999DL1995PTC074902	तसल अंग्रो प्राईवेट. लिमिटेड.
4370	U99999DL1995PTC074924	गेन्त्रोन पॉवर पैक प्राईवेट लिमिटेड.
4371	U99999DL1995PTC074955	ला-पेल्लेन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4372	U99999DL1995PTC074998	कुडोस (इलेक्ट्रिकल्स) प्राईवेट. लिमिटेड.
4373	U99999DL1996PTC075117	एंजल एअरकंडिशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड.
4374	U99999DL1996PTC075149	देरोज़ चाईनावर एण्ड पोतेरिस प्राईवेट लिमिटेड.
4375	U99999DL1996PTC075152	बोनस एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
4376	U99999DL1996PTC075171	मट्सू मार्केटिंग प्राईवेट .लिमिटेड.
4377	U99999DL1996PTC075213	बालाजी एडित प्राईवेट. लिमिटेड.
4378	U99999DL1996PTC075214	राजपुरोहित पेंकेजींग प्राईवेट. लिमिटेड.
4379	U99999DL1996PTC075218	सोनाली शिपिंग एजेन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
4380	U99999DL1996PTC075219	श्री बूलक हांदलिंग प्राईवेट लिमिटेड.
4381	U99999DL1996PTC075270	कास्मिक इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4382	U99999DL1996PTC075271	दन्मेग कन्ट्रोल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4383	U99999DL1996PTC075279	सुयं कौरिएज प्राईवेट. लिमिटेड.
4384	U99999DL1996PTC075308	अमोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4385	U99999DL1996PTC075323	आंचल एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4386	U99999DL1996PTC075391	लालसन्स क्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड
4387	U99999DL1996PTC075418	प्लास्टिक वाक्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4388	U99999DL1996PTC075443	रिथोका ग्राफिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.

4389	U99999DL1996PTC075464	मात्रा ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
4390	U99999DL1996PTC075497	यमनक कम्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4391	U99999DL1996PTC075504	क्रोमेक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड.
4392	U99999DL1996PTC075516	इकट ऑटोमेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
4393	U99999DL1996PTC075525	गूडीथ गार्डन प्राईवेट. लिमिटेड.
4394	U99999DL1996PTC075550	त्रीकोणे फ़िल्म्स (पी) लिमिटेड.
4395	U99999DL1996PTC075556	कैपाणीले ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4396	U99999DL1996PTC075570	एरिका इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4397	U99999DL1996PTC075595	लोक भारती पात्रिका प्राईवेट. लिमिटेड.
4398	U99999DL1996PTC075622	क्रॉस-कंट्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4399	U99999DL1996PTC075645	हिमांशु रोशनि प्राईवेट .लिमिटेड.
4400	U99999DL1996PTC075680	लैक्ससन एलेक्ट्रोमेटिक प्राईवेट लिमिटेड
4401	U99999DL1996PTC075691	तूरा कम्युनिकेशन्स एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4402	U99999DL1996PTC075701	नेत कोम टेक्नोलोजीस (पी) लिमिटेड.
4403	U99999DL1996PTC075709	नितिन मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4404	U99999DL1996PTC075723	अमाज़े मोवीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4405	U99999DL1996PTC075739	हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
4406	U99999DL1996PTC075754	सेरिस मोलडज़ इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4407	U99999DL1996PTC075764	गप्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4408	U99999DL1996PTC075780	चीली पेंपर रेस्टोरेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
4409	U99999DL1996PTC075792	एलेनाबाद फायनान्शियल सर्विस प्राईवेट. लिमिटेड.
4410	U99999DL1996PTC075805	क्वक ओवरसीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4411	U99999DL1996PTC075814	बेनीराम बाबूराम कार्गो मोवज़ प्राईवेट .लिमिटेड.
4412	U99999DL1996PTC075826	एको-फ़िडली क्रिएशन्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4413	U99999DL1996PTC075827	वेस्तेक इंडिया मशीन्स एण्ड डायमन्ड टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4414	U99999DL1996PTC075893	रियल टच एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4415	U99999DL1996PTC075895	भूमिका मेकॉतिल प्राईवेट लिमिटेड
4416	U99999DL1996PTC075903	गौतम रबज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4417	U99999DL1996PTC075911	कलिटार्स पैट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4418	U99999DL1996PTC075948	एस.एम.जी. इन्वेंटिवे टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4419	U99999DL1996PTC075949	क्रॉस कंट्री ज़म होटेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4420	U99999DL1996PTC075962	चेतक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4421	U99999DL1996PTC075971	जैन मारुनौची गैलरी प्राईवेट लिमिटेड.
4422	U99999DL1996PTC075982	आदित्य क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
4423	U99999DL1996PTC076014	पनिर्त जेम एण्ड जेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4424	U99999DL1996PTC076019	इप्ल कौरिज़ प्राईवेट लिमिटेड.
4425	U99999DL1996PTC076041	स्ड्स कन्सल्टंट प्राईवेट. लिमिटेड.
4426	U99999DL1996PTC076085	नोवेल इन्फो सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4427	U99999DL1996PTC076114	सौहित मेंटल प्राईवेट. लिमिटेड.
4428	U99999DL1996PTC076124	गी आय ट्रेवल्स एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
4429	U99999DL1996PTC076146	महेरा एन्जीन्यरिंग एण्ड पॅकेजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4430	U99999DL1996PTC076191	फ़ोर्ब्स फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4431	U99999DL1996PTC076220	अल्फ़ा प्रोसेस वेस्सल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4432	U99999DL1996PTC076300	धनुका ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.

4433	U99999DL1996PTC076337	कैप्सऑल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4434	U99999DL1996PTC076343	अन्शुमन मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4435	U99999DL1996PTC076358	वन्दर फूरनीशींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4436	U99999DL1996PTC076360	सिल्वर आरौ एंटरटेन्मेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
4437	U99999DL1996PTC076366	मालविका मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4438	U99999DL1996PTC076374	सीनो एनर्जी (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4439	U99999DL1996PTC076376	ब्रज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
4440	U99999DL1996PTC076408	प्य ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
4441	U99999DL1996PTC076438	क्रॉस रोड बुक्स प्राईवेट लिमिटेड
4442	U99999DL1996PTC076444	ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चरी टैक्सटाइल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4443	U99999DL1996PTC076466	आरिआ प्रोडक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4444	U99999DL1996PTC076499	दूरअबले प्रीटपेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4445	U99999DL1996PTC076508	अंशुला फायनान्सियल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4446	U99999DL1996PTC076613	होटेल प्रोपर्टीस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4447	U99999DL1996PTC076619	वांशमअला ऑफसेट प्रिंटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड.
4448	U99999DL1996PTC076622	सनबीम होल्दींग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4449	U99999DL1996PTC076629	आनंद लगेज प्राईवेट. लिमिटेड.
4450	U99999DL1996PTC076660	के.एस.एन. सेमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4451	U99999DL1996PTC076679	दफू ऑटो प्राईवेट. लिमिटेड.
4452	U99999DL1996PTC076690	भावना इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4453	U99999DL1996PTC076693	बिग बाईट नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
4454	U99999DL1996PTC076745	जय जगदंबा ऑटो गीयर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4455	U99999DL1996PTC076817	स्काईलार्क रेस्टोरेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4456	U99999DL1996PTC076863	सिघ्स ऑडिओ आर्केड प्राईवेट लिमिटेड.
4457	U99999DL1996PTC076880	अराबेस्क (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4458	U99999DL1996PTC076896	मोडक सिस्टम्स प्राईवेट .लिमिटेड.
4459	U99999DL1996PTC076914	अनुभव एन्टरप्राइसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4460	U99999DL1996PTC076930	डिक चीक फ़ार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4461	U99999DL1996PTC076968	पदम पुब्लिकेशन एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4462	U99999DL1996PTC076979	जिगसो इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4463	U99999DL1996PTC077036	फार्माकोलोगिकल एण्ड क्लिनिकल रिसर्च (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
4464	U99999DL1996PTC077062	निर्मल मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4465	U99999DL1996PTC077116	आग्रागामी सिक्युरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4466	U99999DL1996PTC077158	सरनजाना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4467	U99999DL1996PTC077183	संजीव मेटल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4468	U99999DL1996PTC077187	ए.एस. ग्लास प्राईवेट. लिमिटेड.
4469	U99999DL1996PTC077191	सूद एण्ड सलूजा इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4470	U99999DL1996PTC077192	ओर्चाड ट्रेवल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4471	U99999DL1996PTC077256	अजुरे कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4472	U99999DL1996PTC077300	एपेक्स टैक्स मनाजर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4473	U99999DL1996PTC077332	दोरल होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4474	U99999DL1996PTC077334	रोसम्युटिका इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4475	U99999DL1996PTC077367	विक्टर ट्रेडिंग एण्ड एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4476	U99999DL1996PTC077383	पन्डोई कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट. लिमिटेड.

4477	U99999DL1996PTC077381	प्रिंसीपल रील्टर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4478	U99999DL1996PTC077454	गोप गोपी मैनेज बुराएउ प्राइवेट. लिमिटेड.
4479	U99999DL1996PTC077558	हय्तेक ग्राफिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4480	U99999DL1996PTC077567	फिफ्ट जेनरेशन इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
4481	U99999DL1996PTC077622	निम्बस इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4482	U99999DL1996PTC077632	लीड प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड.
4483	U99999DL1996PTC077643	गुप्ताजी टूरीस्ट प्राइवेट. लिमिटेड.
4484	U99999DL1996PTC077673	यू-मेन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4485	U99999DL1996PTC077691	पैरागॉन इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
4486	U99999DL1996PTC077699	शंकर मेन्स वेअर प्राइवेट लिमिटेड
4487	U99999DL1996PTC077715	सनपरी कर्मशिल सर्वोसीझ प्राइवेट. लिमिटेड.
4488	U99999DL1996PTC077722	कोन्बेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
4489	U99999DL1996PTC077763	युनिवरसल एशिआटिक एक्सिम प्राइवेट. लिमिटेड.
4490	U99999DL1996PTC077785	अक्षिस डिगीताल प्राइवेट लिमिटेड
4491	U99999DL1996PTC077801	एस.आर. मिश्रा एण्ड सन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4492	U99999DL1996PTC077810	डॉट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
4493	U99999DL1996PTC077834	हनी स्ट्रिप्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4494	U99999DL1996PTC077836	लकी कार्गो मोवर्ज प्राइवेट. लिमिटेड.
4495	U99999DL1996PTC077858	पत पावर एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4496	U99999DL1996PTC077882	वीनस प्रोडक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4497	U99999DL1996PTC077936	स्की एस्पिरिट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4498	U99999DL1996PTC078002	अल-अहद एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4499	U99999DL1996PTC078006	इन्लैंड एकेस (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4500	U99999DL1996PTC078031	फोकल पोइंट तेलीवीज़न प्राइवेट. लिमिटेड.
4501	U99999DL1996PTC078078	क्षीतिज कॉर्पोरेट सर्वोसीझ प्राइवेट. लिमिटेड.
4502	U99999DL1996PTC078103	झील इन्फिन प्राइवेट. लिमिटेड.
4503	U99999DL1996PTC078105	ट्रिडेंट होलिदय रिसोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4504	U99999DL1996PTC078114	सिकंदर सन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4505	U99999DL1996PTC078139	पेरदाईस एक्सिम प्राइवेट. लिमिटेड.
4506	U99999DL1996PTC078149	फ़्लोरिदा होटल्स, रिसोर्ट्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4507	U99999DL1996PTC078155	श्री पारसनाथ मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4508	U99999DL1996PTC078162	कन्स मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4509	U99999DL1996PTC078165	ए.के.एस. प्रेस्टिज गार्मेट्स प्राइवेट लिमिटेड
4510	U99999DL1996PTC078179	फ़ार्माटेक ओवरसीज़ कन्सलतन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4511	U99999DL1996PTC078183	सत करतार फायनान्श्यल सर्वोसीझ प्राइवेट. लिमिटेड.
4512	U99999DL1996PTC078235	प्रोम्ट फ़ार्म्स एण्ड हाऊज़िंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4513	U99999DL1996PTC078238	प्लस अटिटुडे मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4514	U99999DL1996PTC078251	अनुभूति बील्डर्स प्राइवेट .लिमिटेड.
4515	U99999DL1996PTC078257	इन्वोगुए कन्सल्ट्स मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4516	U99999DL1996PTC078277	आदमर (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4517	U99999DL1996PTC078281	इन्डोटेक इंजीनियर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4518	U99999DL1996PTC078295	नमस्कार ट्रेडिंग को. प्राइवेट. लिमिटेड.
4519	U99999DL1996PTC078301	जूट फ़ैब (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4520	U99999DL1996PTC078331	हर्बलार्डन हेल्थ फ़ूड्स प्राइवेट. लिमिटेड.

4521	U99999DL1996PTC078342	ग्रेशायस ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड.
4522	U99999DL1996PTC078345	अप्स ऑटो प्राइवेट. लिमिटेड.
4523	U99999DL1996PTC078396	गोमती पेपर्स एण्ड पुब्लिशर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4524	U99999DL1996PTC078408	मैटोल्यूटस इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
4525	U99999DL1996PTC078422	बी.आर शर्मा अस्सोसिएट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4526	U99999DL1996PTC078467	सोलितरे फ़ार्म्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4527	U99999DL1996PTC078469	बाक्री एन्टरप्राइसीस प्राइवेट. लिमिटेड.
4528	U99999DL1996PTC078497	क्रिस्टल मार्कोन प्राइवेट. लिमिटेड.
4529	U99999DL1996PTC078522	खनिज कम्बाइन (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4530	U99999DL1996PTC078564	शैलेश अंग्रोकैम प्राइवेट. लिमिटेड.
4531	U99999DL1996PTC078574	स्याल कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड.
4532	U99999DL1996PTC078586	ऑकार एअर ट्रैवल सर्वीसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
4533	U99999DL1996PTC078587	इंडियन प्रेफ़ाब प्राइवेट. लिमिटेड.
4534	U99999DL1996PTC078590	पार्लमेंटरी नियोजकवर्ग माटे इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
4535	U99999DL1996PTC078593	दुर्गा वायर्स एण्ड फ़िलामेंट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4536	U99999DL1996PTC078608	सुरेश जिंदल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4537	U99999DL1996PTC078638	लॉर्ड टिप्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4538	U99999DL1996PTC078657	इनेट इंडिया सोलुशन्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4539	U99999DL1996PTC078660	प्रुडेन्टिआल ओवरसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
4540	U99999DL1996PTC078664	मुद्रा मॅनेजमेन्ट एण्ड मर्चेंडिसे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4541	U99999DL1996PTC078749	ब्लूएप्रलेमे मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4542	U99999DL1996PTC078750	शगुन एअर प्राइवेट. लिमिटेड.
4543	U99999DL1996PTC078761	ग्रोलीन्क इस्टेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4544	U99999DL1996PTC078786	वास (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4545	U99999DL1996PTC078816	वक्सोन अंग्रो कैमिकल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4546	U99999DL1996PTC078834	जास्मे होल्दींग्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4547	U99999DL1996PTC078924	बिसनॅस मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4548	U99999DL1996PTC078950	एलाईट इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4549	U99999DL1996PTC078968	फ़लाईकिंग एअर सर्वीसीज़ (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4550	U99999DL1996PTC078989	क्विज्किड्स इन्फोटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
4551	U99999DL1996PTC079011	नरूला गुल्फ़र ट्रेडिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4552	U99999DL1996PTC079022	लावाण्या ओवरसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
4553	U99999DL1996PTC079024	एस.पी.डी. रील्टर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4554	U99999DL1996PTC079045	रेपेलो प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4555	U99999DL1996PTC079052	एम.ए. हन्ना प्लास्टिक्स इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
4556	U99999DL1996PTC079063	डी डी गगन (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
4557	U99999DL1996PTC079088	पी एस आर सिक्युरिटीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
4558	U99999DL1996PTC079092	ओपुलेंट ओरे एण्ड मिनरल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4559	U99999DL1996PTC079110	माच्छेस सुरक्षा प्राइवेट. लिमिटेड.
4560	U99999DL1996PTC079140	हेरो ट्रेडिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4561	U99999DL1996PTC079144	एक्स्सेल थर्मामेड प्राइवेट. लिमिटेड.
4562	U99999DL1996PTC079145	फ़र्ट कुरिअर सर्वीसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
4563	U99999DL1996PTC079146	ग्रैंड अपरेल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4564	U99999DL1996PTC079179	व्क कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट. लिमिटेड.

4565	U99999DL1996PTC079191	भूमिका इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4566	U99999DL1996PTC079201	जे. खारी टूंस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4567	U99999DL1996PTC079220	किहीस टोय्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4568	U99999DL1996PTC079228	जेनेसिस मेदीकली प्राईवेट. लिमिटेड.
4569	U99999DL1996PTC079233	कुशल विडिओटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
4570	U99999DL1996PTC079301	ए.के.एस. इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4571	U99999DL1996PTC079347	पी.मैनी कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4572	U99999DL1996PTC079368	ए.पी.एस. ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4573	U99999DL1996PTC079376	तान्या तीन कोन्तायनर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4574	U99999DL1996PTC079404	टैपिंग फ़ूड्स एण्ड फ़्लेवर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4575	U99999DL1996PTC079412	संजीव बील्डकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
4576	U99999DL1996PTC079433	एडरोपीन टूंस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4577	U99999DL1996PTC079436	सेंटन कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4578	U99999DL1996PTC079438	पथ पर्दर्शक ऑटो सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4579	U99999DL1996PTC079451	रिम्पि ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4580	U99999DL1996PTC079464	आकृति पेंकेजींग प्राईवेट. लिमिटेड.
4581	U99999DL1996PTC079481	नीलसॉफ़्ट कन्सल्टिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4582	U99999DL1996PTC079500	देल्कोन डिन्क्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4583	U99999DL1996PTC079528	पोपुलर दीसेल्स इन्डस्ट्रिज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4584	U99999DL1996PTC079555	अख्दर इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4585	U99999DL1996PTC079576	आशदीप इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4586	U99999DL1996PTC079577	कंदवाल सॉफ़्टवेयर कन्सल्टन्सी प्राईवेट. लिमिटेड.
4587	U99999DL1996PTC079589	जेनेसिस आइवन्टूंस प्राईवेट. लिमिटेड.
4588	U99999DL1996PTC079591	स्वरूप अपार्टमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4589	U99999DL1996PTC079611	फ़्रीडॉसे होम अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4590	U99999DL1996PTC079621	प्लानेट टूंस एण्ड ट्रेवल्स कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4591	U99999DL1996PTC079622	मीळिकवै अंड्वार्टायजिंग एण्ड कम्प्युनिकेशन्स कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4592	U99999DL1996PTC079628	विरेन्द्र महेंद्र कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4593	U99999DL1996PTC079634	प्रिमीयर मौल्टीग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4594	U99999DL1996PTC079663	एमेरी इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
4595	U99999DL1996PTC079666	दूर टो दूर मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4596	U99999DL1996PTC079725	युरो इंडिया पॉवर मूडककायम प्राईवेट. लिमिटेड.
4597	U99999DL1996PTC079727	युरो इंडिया पॉवर पेरिठल्मन्ना प्राईवेट. लिमिटेड.
4598	U99999DL1996PTC079734	डेल्टा हैड्रोलिक्स कम्पोनेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4599	U99999DL1996PTC079802	स्मीलींग मार्बल एण्ड ग्राणीट प्राईवेट. लिमिटेड.
4600	U99999DL1996PTC079805	डिअर सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4601	U99999DL1996PTC079827	भीम हांडीक्राफ़्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4602	U99999DL1996PTC079846	वाटर एड्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4603	U99999DL1996PTC079858	स्टड सिक्यूरिटी एण्ड प्लेसेमेन्ट सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4604	U99999DL1996PTC079865	स्पार्टन सिक्यूरिटी सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4605	U99999DL1996PTC079882	नोठर्न कुइपेंट्स एण्ड वेस्सल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4606	U99999DL1996PTC079924	अयू-सच रेमेदीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4607	U99999DL1996PTC079943	उज्जमा कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4608	U99999DL1996PTC079947	स्प्लेंडिड कोर्टेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.

4609	U99999DL1996PTC079948	पोर्ट्रिज इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4610	U99999DL1996PTC079978	टेट्रा ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4611	U99999DL1996PTC079983	अपेल कोयल्लख इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4612	U99999DL1996PTC079995	हुज्जा इम्पेक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4613	U99999DL1996PTC080026	रोमन होलिडेस टूर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4614	U99999DL1996PTC080049	डेजो स्टील एण्ड अलोय्स प्राईवेट .लिमिटेड.
4615	U99999DL1996PTC080065	सैगर स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4616	U99999DL1996PTC080088	आकर्शक कंस्ट्रक्शन को. प्राईवेट लिमिटेड
4617	U99999DL1996PTC080118	मैजिक बीजन प्राईवेट. लिमिटेड.
4618	U99999DL1996PTC080165	सागर ओकरा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4619	U99999DL1996PTC080170	मास लेबॉरेटरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
4620	U99999DL1996PTC080180	बोलनी स्टील एण्ड अलोय्स प्राईवेट लिमिटेड
4621	U99999DL1996PTC080229	एंड्रुलेस वकेशन प्राईवेट लिमिटेड
4622	U99999DL1996PTC080230	अप्रडिम प्रिंटिंग एण्ड अंडवर्टायजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4623	U99999DL1996PTC080340	अमजोन टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट. लिमिटेड.
4624	U99999DL1996PTC080356	अहुजा डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4625	U99999DL1996PTC080360	ख्या ईस्टेट पार्क प्राईवेट. लिमिटेड.
4626	U99999DL1996PTC080361	मईफलावर पुब्लिशर्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4627	U99999DL1996PTC080405	मन्स कंटेनर एजेन्सी न्यू दिल्ली प्राईवेट लिमिटेड
4628	U99999DL1996PTC080456	गोर्जियोउस अपरेल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4629	U99999DL1996PTC080461	बी आर फार्मेक्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4630	U99999DL1996PTC080493	ब्रस्म टूल्स एण्ड दीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4631	U99999DL1996PTC080504	माणूम एअरलीन्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4632	U99999DL1996PTC080508	नीरू आर्ट प्रिंटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4633	U99999DL1996PTC080518	लिबरा कोरोमंडल एक्सिम (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4634	U99999DL1996PTC080523	एंडवान्सड कम्प्युटर्स एण्ड सोफ्टवेयर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4635	U99999DL1996PTC080539	शमूनी फार्मा प्राईवेट. लिमिटेड.
4636	U99999DL1996PTC080545	सोके प्रोपर्टीस एण्ड पोटफॉलियो प्राईवेट लिमिटेड
4637	U99999DL1996PTC080580	सेवन एण्ड सेवन स्टोर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4638	U99999DL1996PTC080598	अलीषा कम्प्युटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4639	U99999DL1996PTC080599	गोल्डचिप फायनान्सियल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4640	U99999DL1996PTC080603	पल रोटो प्राईवेट. लिमिटेड.
4641	U99999DL1996PTC080626	पन्नालाल मुश्रूमस प्राईवेट लिमिटेड
4642	U99999DL1996PTC080639	सुशील कुमार एण्ड को. (कॉन्ट्रैक्टर्स) प्राईवेट लिमिटेड
4643	U99999DL1996PTC080641	पूरेवेल फार्मा प्राईवेट. लिमिटेड.
4644	U99999DL1996PTC080671	स्टाइल-वे होटेल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4645	U99999DL1996PTC080685	बेस्ट प्रीसिशन मशीन प्राईवेट लिमिटेड
4646	U99999DL1996PTC080702	अनिश तेलकम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4647	U99999DL1996PTC080716	हिमालयन एक्सप्लोरर्स एण्ड क्लीम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड
4648	U99999DL1996PTC080730	अवोन एरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4649	U99999DL1996PTC080747	पुंज एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
4650	U99999DL1996PTC080826	सूर्य नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
4651	U99999DL1996PTC080842	कन्सलरा दातावेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4652	U99999DL1996PTC080850	फ्लानेट बोल्लूड एंटरटेनमेंट प्राईवेट.लिमिटेड.

4653	U99999DL1996PTC080860	अड्स हाऊस कीपींग प्राईवेट. लिमिटेड.
4654	U99999DL1996PTC080873	एस्सेंट अपेरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4655	U99999DL1996PTC080943	ज़िग्मा फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4656	U99999DL1996PTC080968	लेगेंद पोर्टफोलियो प्राईवेट. लिमिटेड.
4657	U99999DL1996PTC080975	पुनघाल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4658	U99999DL1996PTC080997	औटमोन अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
4659	U99999DL1996PTC081001	वितागो मेटल एण्ड अलोय्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4660	U99999DL1996PTC081019	गुल्लाह इस्टेट्स एण्ड बील्डर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4661	U99999DL1996PTC081026	नटराज सिने बीजन प्राईवेट लिमिटेड
4662	U99999DL1996PTC081032	साध्वी प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
4663	U99999DL1996PTC081042	सरिता मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4664	U99999DL1996PTC081048	केप्टायन्स ट्रेवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4665	U99999DL1996PTC081053	सेतिया फूटवेअर प्राईवेट लिमिटेड
4666	U99999DL1996PTC081072	फ़ैक्टर पेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4667	U99999DL1996PTC081087	एन्सोल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4668	U99999DL1996PTC081091	जाप्प ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4669	U99999DL1996PTC081123	रोज़ पेट्रो-कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4670	U99999DL1996PTC081156	वसुधा अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
4671	U99999DL1996PTC081182	प्रोम्ट देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4672	U99999DL1996PTC081193	रूपीस तीनप्लेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4673	U99999DL1996PTC081200	मोहिंदरा एक्सपोर्ट्स प्राईवेटलिमिटेड
4674	U99999DL1996PTC081220	चामुंडा बील्डर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
4675	U99999DL1996PTC081246	वर्धमान इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4676	U99999DL1996PTC081249	कॉस्मिक ग्राम प्राईवेट. लिमिटेड.
4677	U99999DL1996PTC081257	विल्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4678	U99999DL1996PTC081293	जन्नत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4679	U99999DL1996PTC081311	श्रीराज ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
4680	U99999DL1996PTC081335	दफोडिल ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4681	U99999DL1996PTC081357	इंस्टीट्यूट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4682	U99999DL1996PTC081363	अम्प्रेस शीत मेटल प्राईवेट लिमिटेड
4683	U99999DL1996PTC081385	विवटेक अपरेल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4684	U99999DL1996PTC081392	हमैल मॉडर्न दानसिंग एण्ड विडिओ कंसेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4685	U99999DL1996PTC081393	सार्थक प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4686	U99999DL1996PTC081402	एस.के. ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
4687	U99999DL1996PTC081403	नामधारी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4688	U99999DL1996PTC081434	शुभम मोवर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
4689	U99999DL1996PTC081436	मेटल वर्ल्ड (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4690	U99999DL1996PTC081449	तजस्वी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4691	U99999DL1996PTC081459	रेसे अंग्रो प्राईवेट. लिमिटेड.
4692	U99999DL1996PTC081500	स्वदेशी फ़ूट्स एण्ड फ़ुड प्राईवेट. लिमिटेड.
4693	U99999DL1996PTC081502	स्वयम्भू इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
4694	U99999DL1996PTC081513	साया ट्रेडर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
4695	U99999DL1996PTC081518	हरदेव फिल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4696	U99999DL1996PTC081525	एशिआटिक इंटरनेशनल ग्रुप प्राईवेट. लिमिटेड.

4697	U99999DL1996PTC081538	वैमारकज ट्रैवल्स एण्ड टूरस प्राईवेट लिमिटेड
4698	U99999DL1996PTC081541	न्डज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4699	U99999DL1996PTC081554	निको बील्डींग सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4700	U99999DL1996PTC081569	बेवरे सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
4701	U99999DL1996PTC081580	गुआर्दिआना सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
4702	U99999DL1996PTC081628	रिप्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4703	U99999DL1996PTC081654	नोर्थलैंड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4704	U99999DL1996PTC081677	स्काईहाई होलिडेस प्राईवेट लिमिटेड
4705	U99999DL1996PTC081679	मयुर अर्थसिब प्राईवेट. लिमिटेड.
4706	U99999DL1996PTC081702	फाईव स्टार सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4707	U99999DL1996PTC081715	ब्लु डायमन्ड (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4708	U99999DL1996PTC081753	टोननागे गासेस प्राईवेट लिमिटेड
4709	U99999DL1996PTC081763	केन्निठ पारकज फ्रैशन प्राईवेट लिमिटेड
4710	U99999DL1996PTC081769	ही-टेक पॉवर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
4711	U99999DL1996PTC081776	हार्डचोरे इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4712	U99999DL1996PTC081780	अक्ग एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4713	U99999DL1996PTC081799	बृज रेन्नीट्स एण्ड सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4714	U99999DL1996PTC081821	कैंट पॉवर प्राईवेट. लिमिटेड.
4715	U99999DL1996PTC081834	सनब्रो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
4716	U99999DL1996PTC081897	आर्तेल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4717	U99999DL1996PTC081912	क्रिमसन अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4718	U99999DL1996PTC081940	दिव्या हेबल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4719	U99999DL1996PTC081967	मेनेका कार्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
4720	U99999DL1996PTC082007	गणपति अलुमिनिअम प्राईवेट लिमिटेड
4721	U99999DL1996PTC082013	डिआलोगुए पब्लिक रिलेशन्स एण्ड कॉर्पोरेट कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4722	U99999DL1996PTC082014	क्रि मॅनेजमेन्ट सर्वोसीझ प्राईवेट. लिमिटेड.
4723	U99999DL1996PTC082072	चीग्स वेअर प्राईवेट लिमिटेड
4724	U99999DL1996PTC082097	रूपक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4725	U99999DL1996PTC082119	प्राईसलेंस रील्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4726	U99999DL1996PTC082120	चॉईस रील्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4727	U99999DL1996PTC082123	इशरत एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
4728	U99999DL1996PTC082133	सेनी आर्किटेक्ट्स कन्सोर्टीअम प्राईवेट. लिमिटेड.
4729	U99999DL1996PTC082134	मौलदींग्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4730	U99999DL1996PTC082181	देवलपमेन्ट अक्शन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4731	U99999DL1996PTC082202	औडिका ओवरसीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4732	U99999DL1996PTC082206	नोडे बील्डज प्राईवेट. लिमिटेड.
4733	U99999DL1996PTC082217	रूबी सेवन सीज ट्रैवल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4734	U99999DL1996PTC082240	सिल्वोएट बीज्ज प्राईवेट लिमिटेड
4735	U99999DL1996PTC082241	ब्लु बील ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
4736	U99999DL1996PTC082260	हिमन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4737	U99999DL1996PTC082327	उई हिमालय हैलथ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4738	U99999DL1996PTC082332	वीख्याट मॅनुफ्रेक्चरिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
4739	U99999DL1996PTC082347	राजेश कम्पट्स प्राईवेट लिमिटेड
4740	U99999DL1996PTC082362	अभिषेक फ़ेरीस एण्ड लोहा प्राईवेट. लिमिटेड.

4741	U99999DL1996PTC082394	बी.एस. एअरकॉन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4742	U99999DL1996PTC082399	कोत्रेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4743	U99999DL1996PTC082406	टाईम स्लोट अंडवर्टायजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4744	U99999DL1996PTC082435	पूज कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4745	U99999DL1996PTC082437	त्रिनेत्र प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
4746	U99999DL1996PTC082453	डोमटेक मर्चेंडिसिंह सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4747	U99999DL1996PTC082466	रेशू एन्टरप्राईसीस प्राईवेट लिमिटेड
4748	U99999DL1996PTC082471	विनीवीजन अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4749	U99999DL1996PTC082489	इंजिनीटी एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड.
4750	U99999DL1996PTC082499	पनखूरी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4751	U99999DL1996PTC082527	बन बोलडर्ज एण्ड ईस्टेट देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4752	U99999DL1996PTC082528	ए.पी.एस. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4753	U99999DL1996PTC082545	ब्लोडवेन ग्राफिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4754	U99999DL1996PTC082588	उमापति कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
4755	U99999DL1996PTC082589	सौभाग्य कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड.
4756	U99999DL1996PTC082604	ऊनिक् क्रेबल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4757	U99999DL1996PTC082680	त्यस्ट ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
4758	U99999DL1996PTC082696	आज़ाली कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4759	U99999DL1996PTC082711	त्रिनिटी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
4760	U99999DL1996PTC082719	चोईसेस्ट पस्तूर्स प्राईवेट लिमिटेड
4761	U99999DL1996PTC082731	एकुइकोर्प रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
4762	U99999DL1996PTC082740	गे सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4763	U99999DL1996PTC082759	गोड लाईन एडुकेशन फ्रान्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
4764	U99999DL1996PTC082770	राधे इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड.
4765	U99999DL1996PTC082773	अट्रिक्स एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4766	U99999DL1996PTC082804	ग्लित्तेरिंग अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4767	U99999DL1996PTC082809	टंडन मॅनेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टिंग सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4768	U99999DL1996PTC082815	एस.ओ.एस. स्टील बाल्स प्राईवेट लिमिटेड
4769	U99999DL1996PTC082822	त्रिनिटी मेडिकेमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4770	U99999DL1996PTC082832	डुती इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4771	U99999DL1996PTC082849	बुडहार्ड ट्रेडिंग (आई) प्राईवेट लिमिटेड.
4772	U99999DL1996PTC082850	डी.एन. पॉलीमर्ज प्राईवेट लिमिटेड
4773	U99999DL1996PTC082863	इन्वोवेटिवे ट्रेडर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
4774	U99999DL1996PTC082870	ओपुस ओवरसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4775	U99999DL1996PTC082881	ब्लैक स्टार एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4776	U99999DL1996PTC082904	एस.एस. मनीषा एक्सपोर्टर्स एण्ड इम्पोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
4777	U99999DL1996PTC082925	करन प्रकाश लेबॉरेटरिस प्राईवेट लिमिटेड.
4778	U99999DL1996PTC082931	ऊमराव ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
4779	U99999DL1996PTC082992	फ्रोतुणे ट्रेडिंग सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4780	U99999DL1996PTC082996	वीवर्ज प्रेमीऊम कलेक्शन (आई) प्राईवेट लिमिटेड
4781	U99999DL1996PTC082999	मास्टर डिटेक्टिव एण्ड अलाईड सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड.
4782	U99999DL1996PTC083016	मेदीकाई हेल्थकेअर सिस्टम्स (पी) लिमिटेड.
4783	U99999DL1996PTC083078	पूज इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
4784	U99999DL1996PTC083079	अप्लहा बकर ट्रेवल सर्वोसीझ प्राईवेट लिमिटेड

4785	U99999DL1996PTC083082	जय अम्बे फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
4786	U99999DL1996PTC083114	श्री माता वैष्णो गिफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
4787	U99999DL1996PTC083120	कोहली टूवल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
4788	U99999DL1996PTC083124	सोम अंडवर्टायजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4789	U99999DL1996PTC083152	रेलिक फ्रैक्चरिक्स प्राईवेट लिमिटेड.
4790	U99999DL1996PTC083153	श्रुस्ती स्टील प्राईवेट लिमिटेड.
4791	U99999DL1996PTC083170	ओरिस्सा टेलीकोम प्राईवेट लिमिटेड.
4792	U99999DL1996PTC083203	आशी कूलिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
4793	U99999DL1996PTC083280	टु-टेक एन्जीन्यरिंग प्राईवेट लिमिटेड
4794	U99999DL1996PTC083285	पल्लवी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड.
4795	U99999DL1996PTC083288	प्राइम फ्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड.
4796	U99999DL1996PTC083313	श्री-टेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4797	U99999DL1996PTC083324	तास इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड.
4798	U99999DL1996PTC083336	ट्रिडेंट देटेक्टिव्स प्राईवेट लिमिटेड
4799	U99999DL1996PTC083340	जेन शुस प्राईवेट लिमिटेड.
4800	U99999DL1996PTC083342	एदुतायन्मेन्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
4801	U99999DL1996PTC083346	रणको पैटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4802	U99999DL1996PTC083350	शार्प तेल शॉप प्राईवेट लिमिटेड
4803	U99999DL1996PTC083355	आल्केमी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
4804	U99999DL1996PTC083358	सिल्की इम्पेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4805	U99999DL1996PTC083365	स्मैग लेबोरेटरिस प्राईवेट लिमिटेड.
4806	U99999DL1996PTC083374	अटलांटिस ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड.
4807	U99999DL1996PTC083385	न्यू दिल्ली कन्सल्टिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड.
4808	U99999DL1996PTC083386	श्री गंगा हाऊसींग प्राईवेट लिमिटेड
4809	U99999DL1996PTC083422	कम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4810	U99999DL1996PTC083432	इंटरकलेट इंटरकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
4811	U99999DL1996PTC083436	एन्टरप्रेल प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड.
4812	U99999DL1996PTC083454	सेवन सीज फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4813	U99999DL1996PTC083459	श्रेष्ठ होलिडेस प्राईवेट लिमिटेड.
4814	U99999DL1996PTC083470	क्रो एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड.
4815	U99999DL1996PTC083490	इज एलेवटर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4816	U99999DL1996PTC083494	हरराव देवेलोपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4817	U99999DL1996PTC083519	अपोलो टावर्स प्राईवेट लिमिटेड.
4818	U99999DL1996PTC083521	ब्लैक मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड.
4819	U99999DL1996PTC083643	कान्हेला इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
4820	U99999DL1996PTC083649	मयूर सर्वोसीज प्राईवेट लिमिटेड.
4821	U99999DL1996PTC083661	विध्या एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड.
4822	U99999DL1996PTC083680	सिव्याना ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड.
4823	U99999DL1996PTC083702	सर्गेक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4824	U99999DL1996PTC083743	ए.जी. ट्रेड लिन्क्स प्राईवेट लिमिटेड.
4825	U99999DL1996PTC083769	एफेक्स फ्रूट प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड.
4826	U99999DL1996PTC083791	रज्जोम हेल्थ केअर पोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4827	U99999DL1996PTC083794	जगहर सिक्यूरिटी सर्वोसीज प्राईवेट लिमिटेड
4828	U99999DL1996PTC083813	विशुआल सॉफ्टवेयर विजुआलिस प्राईवेट लिमिटेड

4829	U99999DL1996PTC083829	हताई हितेक अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
4830	U99999DL1996PTC083934	दुसन्स ऑटोमोटिव्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4831	U99999DL1996PTC083948	विर गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
4832	U99999DL1996PTC083949	एक्स्पर्ट आई डिटेक्शन एण्ड सिक्यूरिटी सर्वोसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
4833	U99999DL1996PTC083963	चिमे कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4834	U99999DL1996PTC083970	बिटनत कन्सेप्ट्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4835	U99999DL1996PTC083986	अपार ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4836	U99999DL1996PTC083988	महालक्ष्मी अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
4837	U99999DL1996PTC084023	अवानी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4838	U99999DL1996PTC084024	जेनेसिस कम्युटर एण्ड नेटवर्किंग अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4839	U99999DL1996PTC084059	जय दुर्गा कुरिअर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
4840	U99999DL1996PTC084060	ईस्ट-वैस्ट रील्टर्स एण्ड एक्स्पोज़ प्राईवेट लिमिटेड
4841	U99999DL1996PTC084108	आरिरंग रिसोर्ट्स प्राईवेटलिमिटेड
4842	U99999DL1996PTC084109	मौतायनीरिंग एक्स्पोज़िशन प्राईवेट लिमिटेड
4843	U99999DL1996PTC084111	चौबे फ्रेटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
4844	U99999DL1996PTC084135	संमसन एअर कोंडिशनर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4845	U99999DL1997PTC084171	ऊनीसेफ़ केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
4846	U99999DL1997PTC084200	दशरथ राम फ़ैब्रिक्स हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
4847	U99999DL1997PTC084228	शिल्पा पेंट एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4848	U99999DL1997PTC084323	ग्लट इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
4849	U99999DL1997PTC084332	जूस्ट निष्ट वेअर एक्सक्लुजिव प्राईवेट लिमिटेड
4850	U99999DL1997PTC084336	एल.के. टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड
4851	U99999DL1997PTC084346	इंटरनेशनल प्रोफ़ेक्शनल ट्रेनिंग को.प्राईवेट. लिमिटेड
4852	U99999DL1997PTC084356	अब्राहम अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
4853	U99999DL1997PTC084397	टच स्टोन ऑटो कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4854	U99999DL1997PTC084403	नवकृती प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4855	U99999DL1997PTC084416	न्यूटेक प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
4856	U99999DL1997PTC084446	वीन्टेक्क्स दिआग्नोस्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4857	U99999DL1997PTC084447	ब्लुबेल (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4858	U99999DL1997PTC084508	म्क्स ट्रेडर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
4859	U99999DL1997PTC084520	सेलेक्ट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4860	U99999DL1997PTC084557	कॉस्मो अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
4861	U99999DL1997PTC084575	सर्वेल टेक्नोलोजी सिस्टम प्राईवेट. लिमिटेड.
4862	U99999DL1997PTC084594	प्लस्मा स्टील सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
4863	U99999DL1997PTC084604	मनु टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
4864	U99999DL1997PTC084612	ट्रान्सनेशनल कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
4865	U99999DL1997PTC084623	रिची इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4866	U99999DL1997PTC084634	सी इंडिया ट्रेवल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4867	U99999DL1997PTC084668	स्पार्क ऑडिओ विसुअल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4868	U99999DL1997PTC084674	प्लस एलेक्ट्रोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
4869	U99999DL1997PTC084690	गुरू कृपा ओवरसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
4870	U99999DL1997PTC084697	देलिसियोउस केटरर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4871	U99999DL1997PTC084707	एम के एस बीलडर्ज़ एण्ड प्रोमोटर्ज़ (पी) लिमिटेड.

4872	U99999DL1997PTC084763	एकता शुस प्राइवेट लिमिटेड
4873	U99999DL1997PTC084783	यश निधि इस्टेट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4874	U99999DL1997PTC084790	चिराग प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
4875	U99999DL1997PTC084825	आरसन ओवरसीज प्राइवेट. लिमिटेड.
4876	U99999DL1997PTC084832	कूमाउ डेरी प्राइवेट. लिमिटेड.
4877	U99999DL1997PTC084841	एन.जी. डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4878	U99999DL1997PTC084842	सानुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4879	U99999DL1997PTC084878	अगेस क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4880	U99999DL1997PTC084881	पोर्टरियात कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4881	U99999DL1997PTC084894	गोडस्पीड कुरिअर सर्विस (पी) लिमिटेड.
4882	U99999DL1997PTC084895	बी.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4883	U99999DL1997PTC084918	सुरेश जिनदल अंग्रे प्राइवेट.लिमिटेड.
4884	U99999DL1997PTC084934	एस.जे.एम. पब्लिकेशन प्राइवेट.लिमिटेड.
4885	U99999DL1997PTC084952	जोस्त ट्रेवल सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
4886	U99999DL1997PTC085001	मएस्को इंडिया प्राइवेट.लिमिटेड.
4887	U99999DL1997PTC085016	एम.एम. सिनेआरेना (पी) लिमिटेड
4888	U99999DL1997PTC085056	रेनबो प्रिन्टोग्राफिक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4889	U99999DL1997PTC085082	पथ वनूर्स प्राइवेट.लिमिटेड.
4890	U99999DL1997PTC085117	नटराज इन्सेक्टिसिदेस प्राइवेट.लिमिटेड.
4891	U99999DL1997PTC085137	कमेना ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट.लिमिटेड.
4892	U99999DL1997PTC085140	आल्बेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4893	U99999DL1997PTC085144	ब्रिस्क ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
4894	U99999DL1997PTC085147	ए एण्ड एस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट.लिमिटेड.
4895	U99999DL1997PTC085175	जी.एन.डी. मार्केटिंग प्राइवेट.लिमिटेड.
4896	U99999DL1997PTC085186	मैस्कोट एन्टरप्राइसीस प्राइवेट.लिमिटेड.
4897	U99999DL1997PTC085191	टेलब्स कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4898	U99999DL1997PTC085200	उतकल आडवर्तिसैना प्राइवेट.लिमिटेड.
4899	U99999DL1997PTC085202	अशं एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
4900	U99999DL1997PTC085205	अवोन इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
4901	U99999DL1997PTC085206	हरि सिंह माबर्न्स प्राइवेट.लिमिटेड.
4902	U99999DL1997PTC085233	बोल्डविन देवेलोपर्स प्राइवेट .लिमिटेड.
4903	U99999DL1997PTC085256	हेल्थी फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट..लिमिटेड.
4904	U99999DL1997PTC085291	दिल्ली फ़ेरोमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
4905	U99999DL1997PTC085292	रेनबो इन्फ़ोर्मेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4906	U99999DL1997PTC085297	श्रद्धा फ़िल्म्स अण्ड्टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट.लिमिटेड.
4907	U99999DL1997PTC085307	लिबर्टी मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
4908	U99999DL1997PTC085319	गुआर्दिन प्लेसेमेन्ट एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
4909	U99999DL1997PTC085323	रमेश चांद प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड.
4910	U99999DL1997PTC085347	पन्चतत्वा पेंकेजींग एण्ड पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
4911	U99999DL1997PTC085364	चीरमै ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
4912	U99999DL1997PTC085366	लौरेन्टिडे इन्डस्ट्रिज प्राइवेट. लिमिटेड.
4913	U99999DL1997PTC085380	तरून फायनान्सियल ग्रोर्ज़ व्ट लिमिटेड
4914	U99999DL1997PTC085384	सागर रील्टेस प्राइवेट. लिमिटेड.
4915	U99999DL1997PTC085397	प्रवीण सेठी प्रोपर्टीस एण्ड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

4916	U99999DL1997PTC085400	टोशी तेलकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4917	U99999DL1997PTC085410	फ़ोर्तुणे मेर्कातिल (प्राईवेट.) लिमिटेड.
4918	U99999DL1997PTC085424	सेवन सीज़ कम्प्युनिकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
4919	U99999DL1997PTC085438	अशकी हेल्थ केअर प्राईवेट लिमिटेड
4920	U99999DL1997PTC085464	सेलुब्रिऔस सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4921	U99999DL1997PTC085469	कृष्ण सोप्रतेक सर्वोसीज़ प्राईवेट.लिमिटेड.
4922	U99999DL1997PTC085476	डेकोन दिआग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4923	U99999DL1997PTC085502	गीतांजली मार्केटिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
4924	U99999DL1997PTC085505	एशा ईस्टेट कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
4925	U99999DL1997PTC085513	विल्ड टेंपेशन प्राईवेट लिमिटेड
4926	U99999DL1997PTC085530	पारस इन्फ़्रस्ट्रक्चर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4927	U99999DL1997PTC085531	गूड प्रोफ़ाईल इन्फ़्रस्ट्रक्चर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4928	U99999DL1997PTC085565	एस.एस. एलेक्ट्रोड्स (आई) प्राईवेट.लिमिटेड.
4929	U99999DL1997PTC085568	सेन सोम हेर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
4930	U99999DL1997PTC085585	सत्य टेक्नोबील्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
4931	U99999DL1997PTC085598	नियो तुलिप सोलुशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4932	U99999DL1997PTC085601	रेगेन्सी फ़ेक्टोरिंग सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
4933	U99999DL1997PTC085603	आईडीयल इन्फ़ोटेक प्राईवेट लिमिटेड
4934	U99999DL1997PTC085604	प्रकाश ब्रधर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
4935	U99999DL1997PTC085608	नोईदा एजन्सीस प्राईवेट. लिमिटेड.
4936	U99999DL1997PTC085611	आर.एस. हार्ड मेटल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4937	U99999DL1997PTC085646	अरावली मिनस एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
4938	U99999DL1997PTC085675	चरन्या (आई) प्राईवेट. लिमिटेड.
4939	U99999DL1997PTC085675	चरन्या (आई) प्राईवेट. लिमिटेड.
4940	U99999DL1997PTC085686	योआहफ़ बिसनेस सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
4941	U99999DL1997PTC085701	आलोक राईस मोल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4942	U99999DL1997PTC085709	कंट्रीवाइड सिक्यूरिटी प्राईवेट. लिमिटेड.
4943	U99999DL1997PTC085723	गोल्डन शोरे टेलीकोम एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
4944	U99999DL1997PTC085750	एजिस प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
4945	U99999DL1997PTC085821	मॅपल रियलस्टेट्स प्राईवेटलिमिटेड
4946	U99999DL1997PTC085826	इवाणिआ स्टर्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
4947	U99999DL1997PTC085836	विसुआल वर्कशॉप प्राईवेट लिमिटेड
4948	U99999DL1997PTC085842	वेस्टा रोज़ ट्रैवल्स एण्ड सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
4949	U99999DL1997PTC085846	बींगो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4950	U99999DL1997PTC085865	वोक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
4951	U99999DL1997PTC085912	आकांक्षा पूल्ट्रस (पी) लिमिटेड.
4952	U99999DL1997PTC085924	एवरलाईट क्लिप्मेंट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4953	U99999DL1997PTC085937	जेनेसिस इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4954	U99999DL1997PTC085990	संदीप कागों मोवर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
4955	U99999DL1997PTC086034	ए ओने शुस प्राईवेट.लिमिटेड.
4956	U99999DL1997PTC086039	आकृति दरोबुइल्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
4957	U99999DL1997PTC086046	दिलीप अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
4958	U99999DL1997PTC086056	पी.आर. लीनकर्ज (पी) लिमिटेड.
4959	U99999DL1997PTC086087	वीज्जर्स एक्सोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

4960	U99999DL1997PTC086102	कमल फूरनीशींग्स प्राईवेट लिमिटेड
4961	U99999DL1997PTC086121	डायनामिक कैरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
4962	U99999DL1997PTC086125	मैजिक मेटल्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4963	U99999DL1997PTC086131	आकाश एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
4964	U99999DL1997PTC086161	कर्वी ट्रेडबुइल्ट प्राईवेटलिमिटेड
4965	U99999DL1997PTC086182	एन्ट कन्सल्टन्सी सर्वीसीझ प्राईवेट.लिमिटेड.
4966	U99999DL1997PTC086183	अक्रो अँग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4967	U99999DL1997PTC086196	ग्रोमोरे टेक्नोलोजी सिस्टम एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
4968	U99999DL1997PTC086206	माप्सोफ्ट इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4969	U99999DL1997PTC086218	सेलडोम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4970	U99999DL1997PTC086226	प्रभात कॉनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
4971	U99999DL1997PTC086244	गूड फ्रैट ट्रेडकॉन एण्ड कन्सल्टन्ट्स प्राईवेटलिमिटेड
4972	U99999DL1997PTC086250	दातामेटिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4973	U99999DL1997PTC086281	गोल्डनहील ऑटोमोबाइल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4974	U99999DL1997PTC086295	हाई-चॉइस एलेक्ट्रोस बील्डकॅप प्राईवेट. लिमिटेड.
4975	U99999DL1997PTC086298	यानकी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4976	U99999DL1997PTC086304	श्री अद्वैत स्वरूप होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट.लिमिटेड.
4977	U99999DL1997PTC086317	ब्रिलिआंत कोचिंग सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
4978	U99999DL1997PTC086328	मोनतागे इंडिया स्यबर मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
4979	U99999DL1997PTC086343	नेरा ग्लोबेकोम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4980	U99999DL1997PTC086368	लोटस एक्सप्रेस सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4981	U99999DL1997PTC086369	ब्रक फ़ोरेस्त्री प्राईवेट.लिमिटेड.
4982	U99999DL1997PTC086375	एस.एम. ट्रेविसम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4983	U99999DL1997PTC086384	आर पीस सिक्यूरिटी एण्ड सर्वीसीझ प्राईवेट लिमिटेड
4984	U99999DL1997PTC086388	टेक्निकल सपोर्ट सर्वीसीझ प्राईवेट.लिमिटेड.
4985	U99999DL1997PTC086416	पी जय स्पीणिना एण्ड वीवींग प्राईवेट लिमिटेड
4986	U99999DL1997PTC086430	जड्क फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
4987	U99999DL1997PTC086446	ओमनी टूल्स एण्ड फ़ोर्गिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
4988	U99999DL1997PTC086452	नोलगिरी नेस्ट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
4989	U99999DL1997PTC086460	ब्लुस्टार एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
4990	U99999DL1997PTC086508	अज़ोव्मश (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4991	U99999DL1997PTC086522	कानन कार्गो प्राईवेटलिमिटेड
4992	U99999DL1997PTC086527	अपूर्वा एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
4993	U99999DL1997PTC086528	आल्पिने प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
4994	U99999DL1997PTC086560	आई-जन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4995	U99999DL1997PTC086573	तपोभुमी टुटर्स प्राईवेट.लिमिटेड.
4996	U99999DL1997PTC086581	एसएस एल देवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट. लिमिटेड.
4997	U99999DL1997PTC086634	मोनकॉन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
4998	U99999DL1997PTC086680	रेनेससन्स शार्पलाइन एंड कोम प्राईवेट. लिमिटेड.
4999	U99999DL1997PTC086749	इमेज ट्रेड देवलपमेन्ट सेन्टर प्राईवेट. लिमिटेड.
5000	U99999DL1997PTC086796	एस्ट कंस्ट्रक्शन्स एण्ड प्रोमोटर्ज़ (पी) लिमिटेड.
5001	U99999DL1997PTC086798	करका फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5002	U99999DL1997PTC086809	देविका इलेक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड
5003	U99999DL1997PTC086850	साई दुर्गा अँक्वा भिन्नरल प्राईवेट लिमिटेड

5004	U99999DL1997PTC086862	जोलाडेल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
5005	U99999DL1997PTC086874	शीव शक्ती मेडिकल एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
5006	U99999DL1997PTC086879	कर्नवटी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5007	U99999DL1997PTC086906	रुब्बेमैद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5008	U99999DL1997PTC086924	तेलेवीजन नेटवर्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
5009	U99999DL1997PTC086934	अॅकडेमी फोर इंटेग्रेटेड मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
5010	U99999DL1997PTC086939	फोटो फ्रीलान्स प्राइवेट लिमिटेड
5011	U99999DL1997PTC086944	मैल्लेसोम सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
5012	U99999DL1997PTC086990	निर्वाण अकृती ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड.
5013	U99999DL1997PTC087016	त्रि वीकर्मा कम्प्युटर्ज़ एण्ड कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5014	U99999DL1997PTC087021	तुडोर ग्रेन्ज होलिडेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5015	U99999DL1997PTC087025	सेन्चरी पब्लिक स्कूल प्राइवेट उल्ट्रा
5016	U99999DL1997PTC087060	क्यूटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5017	U99999DL1997PTC087071	सोलो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
5018	U99999DL1997PTC087128	वैबिचे कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
5019	U99999DL1997PTC087129	वीज़नसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
5020	U99999DL1997PTC087137	टर्चिल्लिष्ट पुब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड.
5021	U99999DL1997PTC087222	एलेक्ट्रा एअरकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5022	U99999DL1997PTC087301	श्रीगुरू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
5023	U99999DL1997PTC087320	फ्रेम्स वर्ल्डलीन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
5024	U99999DL1997PTC087321	लुमिनियोउस प्रोपर्टीस (पी) लिमिटेड.
5025	U99999DL1997PTC087333	सुमित सिक्यूरिटी एण्ड डेटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड.
5026	U99999DL1997PTC087387	ग्रोवर एन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड
5027	U99999DL1997PTC087413	रवी कांत अॅक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
5028	U99999DL1997PTC087414	क्रोस्विरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5029	U99999DL1997PTC087432	आर.के. एण्ड टी.आर. सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
5030	U99999DL1997PTC087456	ज्वाला टैक्सफ़ैब प्राइवेट लिमिटेड.
5031	U99999DL1997PTC087481	आदम सिक्यूरिटीज़ (फ़ोर्स तेन) प्राइवेट लिमिटेड
5032	U99999DL1997PTC087500	नकोडा ज्यूएलर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
5033	U99999DL1997PTC087526	पड्डिस ट्रेक्स एण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5034	U99999DL1997PTC087561	स्टर्डेंट्स ग्लोबल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5035	U99999DL1997PTC087630	मालसन्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड.
5036	U99999DL1997PTC087688	शुभ ही-टेक प्राइवेट लिमिटेड.
5037	U99999DL1997PTC087704	डॉट कौरिज़ प्राइवेट लिमिटेड
5038	U99999DL1997PTC087709	प्रेमीऊम रेडियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5039	U99999DL1997PTC087719	आम्ची सफ़ारी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5040	U99999DL1997PTC087746	फ़ोर्बर्ड कुरिअर एण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5041	U99999DL1997PTC087759	आरजू क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड.
5042	U99999DL1997PTC087779	नारंग अस्सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
5043	U99999DL1997PTC087781	हेड्स्टार्ट कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड.
5044	U99999DL1997PTC087819	सनशाइन विन्टवीस प्राइवेट लिमिटेड
5045	U99999DL1997PTC087824	रोशन आइवर्टिसर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
5046	U99999DL1997PTC087835	फ़ामाय मार्केटिंग सर्वीसीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
5047	U99999DL1997PTC087855	ए.वी. इन्फ़ोकॉम प्राइवेट लिमिटेड

5048	U99999DL1997PTC087897	आसरा प्रोपर्टीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5049	U99999DL1997PTC087929	नियो मार्कबील्ड प्राईवेट. लिमिटेड.
5050	U99999DL1997PTC087937	स्मार्ट ट्रेडलीन्क्स प्राईवेट लिमिटेड
5051	U99999DL1997PTC087992	एक्सेल गुआर्दींग सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5052	U99999DL1997PTC088002	इल्ब कुरिअर प्राईवेट लिमिटेड
5053	U99999DL1997PTC088038	ईडिगो मशीन्स ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.
5054	U99999DL1997PTC088056	श्री रंगनाथ रोडलाईन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5055	U99999DL1997PTC088086	नोर्टेल नेतवर्क्स इंडिया टेक्नोलोजी प्राईवेट.लिमिटेड.
5056	U99999DL1997PTC088097	कॉनआर्क सिमेंट (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5057	U99999DL1997PTC088119	रिमेक्स मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5058	U99999DL1997PTC088152	सम टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेटलिमिटेड
5059	U99999DL1997PTC088163	फास्ट सर्व (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5060	U99999DL1997PTC088179	किसले मार्केटिंग को प्राईवेट लिमिटेड
5061	U99999DL1997PTC088266	खेल दास कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5062	U99999DL1997PTC088284	प्रमा कॉर्पोरेट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5063	U99999DL1997PTC088297	शेरीथुन अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5064	U99999DL1997PTC088301	मैना कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5065	U99999DL1997PTC088305	जय दी मेकॉतिल प्राईवेटलिमिटेड
5066	U99999DL1997PTC088326	एक्स्प्लोरोक जियोटेक सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड.
5067	U99999DL1997PTC088364	मेनफ्रेम टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5068	U99999DL1997PTC088368	रघुवंश इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट टूल्ड
5069	U99999DL1997PTC088374	दीपिका बील्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
5070	U99999DL1997PTC088383	लागो अंग्रेटेक प्राईवेट लिमिटेड
5071	U99999DL1997PTC088437	ब्लु काले अपरेल्स प्राईवेटलिमिटेड
5072	U99999DL1997PTC088443	सोलरनेट इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5073	U99999DL1997PTC088479	अल्फा अपोथेक (पी) लिमिटेड.
5074	U99999DL1997PTC088515	लहरी कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5075	U99999DL1997PTC088527	राधिका ज़िपर्स (पी) लिमिटेड.
5076	U99999DL1997PTC088533	एकोफ़्रेन्दी एअरकॉन प्राईवेट लिमिटेड
5077	U99999DL1997PTC088582	पंगोरिया टैक्सटाईल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5078	U99999DL1997PTC088583	कालि मा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5079	U99999DL1997PTC088627	मक मेटल्स (पी) लिमिटेड.
5080	U99999DL1997PTC088664	गुरुकृपा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स (पी) लिमिटेड.
5081	U99999DL1997PTC088665	बत्रा मोटेल प्राईवेट.लिमिटेड.
5082	U99999DL1997PTC088669	स्क कम्पुलेक प्राईवेट लिमिटेड
5083	U99999DL1997PTC088682	एम.एस. ओईल्स एण्ड कैमिकल्स (पी) लिमिटेड.
5084	U99999DL1997PTC088684	एवरशाईन फ़र्निचर सिस्टम (पी) लिमिटेड.
5085	U99999DL1997PTC088691	कामरेडेरि अंडवर्टायजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5086	U99999DL1997PTC088699	क्विक एक्सप्रा प्राईवेट लिमिटेड
5087	U99999DL1997PTC088742	विश्वकर्मा रील्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5088	U99999DL1997PTC088816	डुआरा दाश एण्ड बोर्कटोकी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5089	U99999DL1997PTC088822	पल ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5090	U99999DL1997PTC088839	वन्दर वेल् एंकिशबिजिनेस एण्ड एक्सपोजिशन प्राईवेट लिमिटेड
5091	U99999DL1997PTC088890	आर मेडिकल इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.

5092	U99999DL1997PTC088918	आईडीयल सोकेट्स इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
5093	U99999DL1997PTC088929	गोल्डमाइन ग्रीनगोल्ड प्राइवेट. लिमिटेड.
5094	U99999DL1997PTC088960	मुखल बीच हेल्थ क्लब प्राइवेट. लिमिटेड.
5095	U99999DL1997PTC088967	प्रिमेरोस पेफुमेरि प्राइवेट. लिमिटेड.
5096	U99999DL1997PTC088972	देविका मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5097	U99999DL1997PTC088979	दुर्गा दुक्ष दिआग्नोस्टिक्स (पी) लिमिटेड.
5098	U99999DL1997PTC089010	अविन सायन्टिफिक कुइप्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
5099	U99999DL1997PTC089014	स्वर्णजीत ऑटो इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड
5100	U99999DL1997PTC089054	जसमीत एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड.
5101	U99999DL1997PTC089069	एच.एम. ट्युब्स एण्ड कोन्तायनर्स प्राइवेट लिमिटेड
5102	U99999DL1997PTC089148	रेनबो ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड.
5103	U99999DL1997PTC089178	कॉस्मॉस एअर सर्वीसीज़ प्राइवेट.लिमिटेड.
5104	U99999DL1997PTC089192	कॉर्पोरेट ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5105	U99999DL1997PTC089248	मन्सब डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5106	U99999DL1997PTC089262	अचीवे ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
5107	U99999DL1997PTC089287	देवी राम एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
5108	U99999DL1997PTC089303	अशोका कार्बोन्स प्राइवेट लिमिटेड
5109	U99999DL1997PTC089337	पोटफ़ॉलियो मूलटिप्लिएज़ (इंडिया) प्राइवेट.लिमिटेड.
5110	U99999DL1997PTC089345	श्री अग्रवाल डायकेम प्राइवेट. लिमिटेड.
5111	U99999DL1997PTC089368	ओपल हेल्थकेअर प्राइवेट. लिमिटेड.
5112	U99999DL1997PTC089391	क्वग ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
5113	U99999DL1997PTC089437	शार्इनस्टार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5114	U99999DL1997PTC089478	बालाजी इन्सेक्टिसिदेस प्राइवेट.लिमिटेड.
5115	U99999DL1997PTC089485	रॉक गार्ड रुब्वेम प्राइवेट. लिमिटेड.
5116	U99999DL1997PTC089502	कुह्लेक्स प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5117	U99999DL1997PTC089505	स्स मैनूफ़ेक्चररज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
5118	U99999DL1997PTC089513	कविता एन्टरप्राइसीस (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
5119	U99999DL1997PTC089523	इंटरलीन्क सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5120	U99999DL1997PTC089547	टी पी जी इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
5121	U99999DL1997PTC089550	सारिका मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
5122	U99999DL1997PTC089585	शार्प कोमनत (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
5123	U99999DL1997PTC089600	बॉक्सन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5124	U99999DL1997PTC089609	बाहेती कर्मशिअल प्राइवेट लिमिटेड
5125	U99999DL1997PTC089702	ज्वा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
5126	U99999DL1997PTC089704	मेडिस्टर्म फर्मसटिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
5127	U99999DL1997PTC089708	डी.आर. ट्रैवल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5128	U99999DL1997PTC089724	नोईदा सायन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रोमोशन प्राइवेट लिमिटेड
5129	U99999DL1997PTC089732	इन्वितेशन टूर्स एण्ड ट्रैवल्स व्ट लिमिटेड
5130	U99999DL1997PTC089736	नवयुग फ़ूटवीर्स प्राइवेट.लिमिटेड.
5131	U99999DL1997PTC089737	चौहानसन्स ज्यूएलर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड
5132	U99999DL1997PTC089750	रोकलै इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5133	U99999DL1997PTC089784	भेरोर अंग्रो (पी) लिमिटेड.
5134	U99999DL1997PTC089795	कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट. लिमिटेड.
5135	U99999DL1997PTC089809	अपूर्व मनपॉवर सर्वीसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.

5136	U99999DL1997PTC089822	सार एक्सप्रेस कुरिअर एण्ड कार्गो (पी) लिमिटेड.
5137	U99999DL1997PTC089855	नाम कोटेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5138	U99999DL1997PTC089866	सुहागनगर बौलडकॉन प्राइवेट लिमिटेड
5139	U99999DL1997PTC089869	बेहोर फार्म्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5140	U99999DL1997PTC089897	हीरान्यादा (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
5141	U99999DL1997PTC089914	सिल्वरलाईन्स कौरिअर एण्ड अलाइड सर्वोसीज़ (पी) लिमिटेड.
5142	U99999DL1997PTC089919	व्येथ फार्मा प्राइवेट.लिमिटेड.
5143	U99999DL1997PTC089920	पॉवर टेक्नोलोजीस साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
5144	U99999DL1997PTC089931	मोहन भाई ज्यूएलज़ प्राइवेट लिमिटेड
5145	U99999DL1997PTC090039	सार आरामटिक्स (पी) लिमिटेड.
5146	U99999DL1997PTC090065	मार्नेटिक्स अस्सोसिएट्स (पी) लिमिटेड.
5147	U99999DL1997PTC090076	एल्सी इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5148	U99999DL1997PTC090077	एस.वी.आर. बोर्ड्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5149	U99999DL1997PTC090088	अलिआन्स सिक्युरिटी सर्वोसीज़ प्राइवेट. लिमिटेड.
5150	U99999DL1997PTC090095	नानक ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
5151	U99999DL1997PTC090161	दात मटेरिअल हांद्लींग प्राइवेट लिमिटेड
5152	U99999DL1997PTC090207	ग्ड ग्लास फ़ैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5153	U99999DL1997PTC090218	आरौ एक्सप्रेस कुरिअर (पी) लिमिटेड.
5154	U99999DL1997PTC090270	एसक्वायर अप्लिआन्सीज़ प्राइवेट लिमिटेड
5155	U99999DL1997PTC090286	वोम्पेक्स इन्डस्ट्रीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5156	U99999DL1997PTC090287	त्यागी टूल्स एण्ड टूल्स (पी) लिमिटेड.
5157	U99999DL1997PTC090308	अभय राम होटेल्स (पी) लिमिटेड.
5158	U99999DL1997PTC090317	गटक मार्केटिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
5159	U99999DL1997PTC090323	दी के कोलोनीसर्ज प्राइवेट. लिमिटेड.
5160	U99999DL1997PTC090341	साईकल स्टार इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
5161	U99999DL1997PTC090358	एस.आर. क्वारी प्राइवेट लिमिटेड
5162	U99999DL1997PTC090369	चंदर कांता स्टील प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5163	U99999DL1997PTC090373	अन्न सेकरिकार प्राइवेट लिमिटेड
5164	U99999DL1997PTC090378	रविन चौधरी प्रोपर्टीस (पी) लिमिटेड.
5165	U99999DL1997PTC090396	वरूण इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5166	U99999DL1997PTC090397	ब्लूएस कम्प्यूटर्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5167	U99999DL1997PTC090422	शेरून इंटीरियर्स एण्ड डीज़ाईन्स (पी) लिमिटेड.
5168	U99999DL1997PTC090447	ओपेल टूल्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5169	U99999DL1997PTC090452	ह्यूट अंग्रो फूड्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5170	U99999DL1997PTC090462	एक्सीक्यूटीव रेन्ट-ए-कार (पी) लिमिटेड.
5171	U99999DL1997PTC090481	अदिती मार्ट प्राइवेट. लिमिटेड.
5172	U99999DL1997PTC090485	सोम स्टील ट्यूब्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5173	U99999DL1997PTC090491	चुरूवाला एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5174	U99999DL1997PTC090506	सुख्ये टूल्स एण्ड टूल्स (पी) लिमिटेड.
5175	U99999DL1997PTC090511	सर्वेश प्रोपर्टीस प्राइवेट. लिमिटेड
5176	U99999DL1997PTC090530	म्युझिकएंड्स मार्नेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5177	U99999DL1997PTC090547	क्रिस्टल-लाईन हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5178	U99999DL1997PTC090550	स्पार्क मिनिंग प्राइवेट. लिमिटेड.
5179	U99999DL1997PTC090585	उना इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.

5180	U99999DL1997PTC090617	रिसिह स्टार टूर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5181	U99999DL1997PTC090671	पना दायरीस एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5182	U99999DL1997PTC090672	एडी रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
5183	U99999DL1997PTC090685	आभा ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5184	U99999DL1997PTC090725	वेगीकना इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5185	U99999DL1997PTC090728	पिन वेली रिसोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5186	U99999DL1997PTC090739	वेगा कम्युनिकेशन (पी) लिमिटेड.
5187	U99999DL1997PTC090751	प्रोबे मार्केट रिसर्च एण्ड कन्सल्टन्सी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5188	U99999DL1997PTC090796	अपी कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5189	U99999DL1997PTC090816	अज डिज़ाइन स्कुल प्राईवेट. लिमिटेड.
5190	U99999DL1997PTC090818	मार्स कोन्टेल प्राईवेट. लिमिटेड.
5191	U99999DL1997PTC090838	गोल्ड ग्रो फायनान्सियल कन्सलतन्ट्स (पी) लिमिटेड.
5192	U99999DL1997PTC090841	जी.एस.ए. एरोमेटिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5193	U99999DL1997PTC090853	मोयबीऊस पेरिफेरल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5194	U99999DL1997PTC090856	अश्वमेघ मैनेजमेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
5195	U99999DL1997PTC090859	एंपेक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5196	U99999DL1997PTC090860	रजत केमफुड प्राईवेट लिमिटेड
5197	U99999DL1997PTC090932	श्याम ट्रेक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5198	U99999DL1997PTC090940	होलपेन वेट्कार प्राईवेट लिमिटेड
5199	U99999DL1997PTC090953	निदुषा एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
5200	U99999DL1997PTC090955	स्न इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5201	U99999DL1997PTC090961	मीलेब्रीऊम वर्ल्डवाइड लीन्क प्राईवेट.लिमिटेड.
5202	U99999DL1997PTC090972	एलिगंट पॉवर सिस्टम प्राईवेट. लिमिटेड.
5203	U99999DL1997PTC091042	इसी इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5204	U99999DL1997PTC091068	टिम्स प्रोमोटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
5205	U99999DL1997PTC091104	जय गी हेंडलूम एंपोरिअम (पी) लिमिटेड.
5206	U99999DL1997PTC091165	साहनी अंग्रो प्राईवेट लिमिटेड
5207	U99999DL1997PTC091200	वेबमर्चेंट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
5208	U99999DL1997PTC091205	आग्रानी टूर्स एण्ड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5209	U99999DL1997PTC091211	आक्स हेंचरीस प्राईवेट लिमिटेड
5210	U99999DL1997PTC091235	डिगिकोम इन्फ्रूस् प्राईवेट. लिमिटेड.
5211	U99999DL1997PTC091255	एक्स्पलीन्क्स (पी) लिमिटेड
5212	U99999DL1997PTC091286	गहलोट कोलोनीसर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5213	U99999DL1997PTC091301	फोर सीसन्स वोगेस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5214	U99999DL1997PTC091334	अंकमेटेक इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड.
5215	U99999DL1997PTC091362	पनूरगी सर्वोसीज़ (पी) लिमिटेड.
5216	U99999DL1997PTC091396	महालक्ष्मी इन्डस्ट्रिज (पी) लिमिटेड.
5217	U99999DL1997PTC091403	बीटेक आक्कुआ-फ़िट प्राईवेट.लिमिटेड.
5218	U99999DL1997PTC091404	बीटेक बटेरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5219	U99999DL1997PTC091413	प्रोमीत इररीगेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
5220	U99999DL1998PTC091460	स्काईबर्ड अस्सोसिएटेड रोड कैरिअर प्राईवेट लिमिटेड
5221	U99999DL1998PTC091487	ब्लू जय लेबोरेटरिस (पी) लिमिटेड.
5222	U99999DL1998PTC091493	अद्वैतागे इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5223	U99999DL1998PTC091507	विज़ाड्स एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड.

5224	U99999DL1998PTC091514	अन्क्रॉ पॅकेजिंग इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
5225	U99999DL1998PTC091518	लाईफसायन्स मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5226	U99999DL1998PTC091532	प्रीतम कम्प्युटर्ज (पी) लिमिटेड.
5227	U99999DL1998PTC091539	कॉस्मिक एंटरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
5228	U99999DL1998PTC091567	बंसल वुड प्रोडक्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
5229	U99999DL1998PTC091580	टॉपकोट कोटिंग्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5230	U99999DL1998PTC091645	ग्रीनवेज मेदीकेअर इन्डस्ट्रिज प्राईवेट. लिमिटेड.
5231	U99999DL1998PTC091649	सपन होटेल्स एण्ड प्रोपर्टीज (पी) लिमिटेड.
5232	U99999DL1998PTC091651	सी क्रॉस ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
5233	U99999DL1998PTC091655	डी.सी. मेमोरिल अंग्रे एण्ड ट्रेडिंग को. प्राईवेट लिमिटेड.
5234	U99999DL1998PTC091657	राही प्रोपर्टीज (पी) लिमिटेड.
5235	U99999DL1998PTC091673	ऊनिब्रो फ़ार्मस प्राईवेट. लिमिटेड.
5236	U99999DL1998PTC091683	जय दुर्गा मा ऑडिओ-विडिओ एण्ड फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5237	U99999DL1998PTC091687	इम्पेटस टेक्नोलोजी प्राईवेट. लिमिटेड.
5238	U99999DL1998PTC091696	राकुरा एन्टरप्राइसीज प्राईवेट. लिमिटेड.
5239	U99999DL1998PTC091735	लेगेंडारी मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
5240	U99999DL1998PTC091744	टाइगर टूथ एण्ड टूथपेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
5241	U99999DL1998PTC091748	अफ़नी फ़ूड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड.
5242	U99999DL1998PTC091766	जैन कथा इंडस्ट्री प्राईवेट. लिमिटेड.
5243	U99999DL1998PTC091767	श्रे रीक्रिएशनल स्पार्ट्स (पी) लिमिटेड.
5244	U99999DL1998PTC091777	भीवाडी फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5245	U99999DL1998PTC091782	सुपर कार्बोनेटिक कुरिअर प्राईवेट. लिमिटेड.
5246	U99999DL1998PTC091810	मान एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5247	U99999DL1998PTC091815	पोटेंट मेटल्स एण्ड मार्केटिंग (पी) लिमिटेड.
5248	U99999DL1998PTC091832	इन टच कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5249	U99999DL1998PTC091844	साहनी कलर लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
5250	U99999DL1998PTC091860	इदा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5251	U99999DL1998PTC091868	गोल्डक्रेस्ट एक्सिम (पी) लिमिटेड.
5252	U99999DL1998PTC091876	सपना कौरिएज (पी) लिमिटेड.
5253	U99999DL1998PTC091886	आईम्स प्लाईवूड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5254	U99999DL1998PTC091898	टूड फ़्लौर एण्ड फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5255	U99999DL1998PTC091910	ग्रीन हाऊस कॅमिकल्स एण्ड फ़र्टिलाइजर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5256	U99999DL1998PTC091911	मेवाड़ प्रोसिशन मेटर्ज एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेटलिमिटेड
5257	U99999DL1998PTC091913	दिल्ली शॉल्टर कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5258	U99999DL1998PTC091920	प्रिया फ़्रेग्रन्स प्राईवेट लिमिटेड
5259	U99999DL1998PTC091921	असमा टैक्सटाइल्स प्राईवेट.टी लिमिटेड.
5260	U99999DL1998PTC091930	पी एन एक्सिम (पी) लिमिटेड.
5261	U99999DL1998PTC091932	पन फ़ूड्स प्राईवेट लिमिटेड
5262	U99999DL1998PTC091952	आश्रीता होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5263	U99999DL1998PTC091957	नेबुला प्लस प्राईवेट लिमिटेड
5264	U99999DL1998PTC091958	एस. ओरिआन अंग्रेटेक प्राईवेट लिमिटेड
5265	U99999DL1998PTC091976	कन्हा रील्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
5266	U99999DL1998PTC091978	अक्वा शीलड्स वाटर प्रूफ़िंग को. (पी) लिमिटेड.
5267	U99999DL1998PTC091994	अल्फ़ास्टोन ट्रेडिंग को. प्राईवेट. लिमिटेड.

5268	U99999DL1998PTC092011	अन्ना ईस्टेट (पी) लिमिटेड.
5269	U99999DL1998PTC092023	शिवम मोटेल्स (पी) लिमिटेड.
5270	U99999DL1998PTC092026	प्रोमेडिआ सिस्टम्स (पी) लिमिटेड.
5271	U99999DL1998PTC092032	एस.एस. लेंसर इम्प्रेस्सन्स प्राईवेट लिमिटेड
5272	U99999DL1998PTC092035	बब सिस्टम्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5273	U99999DL1998PTC092047	मैक-विन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5274	U99999DL1998PTC092105	साई बाबा इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5275	U99999DL1998PTC092126	वेसई क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5276	U99999DL1998PTC092140	ऊनीसैंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5277	U99999DL1998PTC092242	अंकर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5278	U99999DL1998PTC092271	त्रिलोक अपरेल्स (पी) लिमिटेड.
5279	U99999DL1998PTC092275	वीला प्लास्ट (पी) लिमिटेड.
5280	U99999DL1998PTC092281	यश औटोवेहिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5281	U99999DL1998PTC092308	एनवॉयनमेंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5282	U99999DL1998PTC092328	कठ्यानी फूड्स एण्ड बिबरेजीस प्राईवेट लिमिटेड
5283	U99999DL1998PTC092334	ए.बी. इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5284	U99999DL1998PTC092341	अलिब अटेलिएज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5285	U99999DL1998PTC092351	इन्फोर्मेशन गेटवेज़ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
5286	U99999DL1998PTC092357	न्यू होप रेमेदीस प्राईवेट लिमिटेड
5287	U99999DL1998PTC092383	गाइसमन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5288	U99999DL1998PTC092390	आर्कैड टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5289	U99999DL1998PTC092396	अन्नपूर्णा आहार (पी) लिमिटेड.
5290	U99999DL1998PTC092397	बेद-ओन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5291	U99999DL1998PTC092403	नुलाईफ़ इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
5292	U99999DL1998PTC092406	गूडविल ऑटोमोटिव प्राईवेट. लिमिटेड.
5293	U99999DL1998PTC092427	स्वाति इन्स्युमेंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5294	U99999DL1998PTC092460	हेलो इंडिया ट्रैवल सर्विस प्राईवेट. लिमिटेड.
5295	U99999DL1998PTC092464	ब्लु सवना मार्केटिंग सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5296	U99999DL1998PTC092487	बसंत टावर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5297	U99999DL1998PTC092493	ग्राम केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
5298	U99999DL1998PTC092496	लायन्डिया सर्विसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5299	U99999DL1998PTC092526	स्लैडौर स्पेस मैनेजमेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
5300	U99999DL1998PTC092527	क्रिस्टिक पॉलीएस्टर्ज़ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5301	U99999DL1998PTC092529	स्टार ग्रन-ओ-डेकोर (पी) लिमिटेड.
5302	U99999DL1998PTC092539	ए.बी. एडुकेशन कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5303	U99999DL1998PTC092548	सीनरगी ट्रैवल सर्विसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5304	U99999DL1998PTC092551	स्विसोफ़्ट इंटरनेट सोलुशन्स (पी) लिमिटेड.
5305	U99999DL1998PTC092581	ब्रथर इम्पोर्ट्स (पी) लिमिटेड.
5306	U99999DL1998PTC092582	लान्सर्ज इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5307	U99999DL1998PTC092600	क्रिस्सेंट अप्लिआन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5308	U99999DL1998PTC092618	बंगलोर लौ वॉल्टेज इक्विपमेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
5309	U99999DL1998PTC092625	पल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5310	U99999DL1998PTC092651	चिसीन्ट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5311	U99999DL1998PTC092672	एस.एम. मनोज सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.

5312	U99999DL1998PTC092673	फ्रेडर्स एअरकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
5313	U99999DL1998PTC092693	हांडी टैक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5314	U99999DL1998PTC092695	कठ्यानी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5315	U99999DL1998PTC092728	काणीन केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
5316	U99999DL1998PTC092734	क्लासिक पेट्रोलेउम (पी) लिमिटेड.
5317	U99999DL1998PTC092749	महेंद्र सिक्यूरिटी (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5318	U99999DL1998PTC092750	होनेस्ट ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5319	U99999DL1998PTC092762	लकी स्टार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5320	U99999DL1998PTC092789	दी पी रेस्टोरेंट (पी) लिमिटेड.
5321	U99999DL1998PTC092790	बहारी गी कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5322	U99999DL1998PTC092795	नोर्थ एंड इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5323	U99999DL1998PTC092796	ताशका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट. लिमिटेड.
5324	U99999DL1998PTC092812	एम.एन. फ्रूट (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5325	U99999DL1998PTC092817	अनुकृति क्रिएशन्स (पी) लिमिटेड.
5326	U99999DL1998PTC092825	बीर प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5327	U99999DL1998PTC092844	ए.ओ.एल. (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5328	U99999DL1998PTC092845	फ़ोनेमद (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड.
5329	U99999DL1998PTC092853	साईकॉन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5330	U99999DL1998PTC092857	एन.सी.सी.एस. कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5331	U99999DL1998PTC092863	अवंतागे इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5332	U99999DL1998PTC092872	श्री राम वाणिज्य पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5333	U99999DL1998PTC092873	देस राज अमित कुमार एण्ड को. प्राईवेट लिमिटेड
5334	U99999DL1998PTC092909	न्यू रॉयल (इंडिया) कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड.
5335	U99999DL1998PTC092918	म्बनविन इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
5336	U99999DL1998PTC092920	जिम्मी टूर एण्ड ट्रैवल प्राईवेट लिमिटेड
5337	U99999DL1998PTC092950	अमीअबले एन्जीन्यरिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5338	U99999DL1998PTC092953	इक्रा मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
5339	U99999DL1998PTC092965	सीबीएस फर्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5340	U99999DL1998PTC092974	नानो सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
5341	U99999DL1998PTC092985	म्ट एक्सपो-इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5342	U99999DL1998PTC092998	अमरसन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5343	U99999DL1998PTC093008	रसोई की शान प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5344	U99999DL1998PTC093016	ब्लोड्वेन मार्केटिंग एण्ड अंड्वार्टायजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5345	U99999DL1998PTC093017	विन्फ़रा रेपिडट्रक प्राईवेट लिमिटेड
5346	U99999DL1998PTC093046	ऊनिक् ब्रीड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5347	U99999DL1998PTC093049	परिधि इम्पेक्स लाईन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5348	U99999DL1998PTC093082	एम.एस. रेमेदीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5349	U99999DL1998PTC093091	अवील मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5350	U99999DL1998PTC093136	जन्नत स्पाइसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5351	U99999DL1998PTC093148	बी एह रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
5352	U99999DL1998PTC093187	आस्था इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (पी) लिमिटेड.
5353	U99999DL1998PTC093209	के पी एस्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5354	U99999DL1998PTC093214	विशुद्ध मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
5355	U99999DL1998PTC093224	नंदनी एंजेल्लम (पी) लिमिटेड.

5356	U99999DL1998PTC093258	वीजनमॉट्रिक्स सोलुशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5357	U99999DL1998PTC093288	प्रा पीपल एण्ड कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5358	U99999DL1998PTC093293	इन्दोवेत प्राईवेट लिमिटेड
5359	U99999DL1998PTC093323	मेडिकल प्रोफेशनल सर्वीसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5360	U99999DL1998PTC093335	गोल्डन एरा प्रमोटर्ज़ एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5361	U99999DL1998PTC093338	सवे बायो टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5362	U99999DL1998PTC093345	एअर प्लस अविशान सर्वीसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5363	U99999DL1998PTC093370	कोन्ग्लोमेरेटे कन्सलतन्ट्स (पी) लिमिटेड.
5364	U99999DL1998PTC093377	उपेंद्र पेंकेजींग प्राईवेट लिमिटेड
5365	U99999DL1998PTC093383	ड्रोस टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5366	U99999DL1998PTC093392	ओरिएन्टल ईतिंग जोईंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5367	U99999DL1998PTC093399	सुपरनल पैट्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5368	U99999DL1998PTC093421	सिमतक मेडिकल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5369	U99999DL1998PTC093435	एसक्वायर इन्फोसिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5370	U99999DL1998PTC093462	निम्बळे क्रेन्स इंटरनेट अंडवर्तयजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड.
5371	U99999DL1998PTC093475	आकांक्षा पॉलीमर्ज (पी) लिमिटेड.
5372	U99999DL1998PTC093486	पी. पीटन नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5373	U99999DL1998PTC093500	लीघ्टन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5374	U99999DL1998PTC093507	मैकग्रो डिस्ट्रिब्यूशन प्राईवेट. लिमिटेड.
5375	U99999DL1998PTC093518	स्वस्तिक ईक्विपमेन्ट सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड.
5376	U99999DL1998PTC093525	अलुमिनिअम टूर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5377	U99999DL1998PTC093529	सतिसफेक्शन इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5378	U99999DL1998PTC093531	सिगनेट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5379	U99999DL1998PTC093578	लुकास नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5380	U99999DL1998PTC093586	कम्प्यूकेशन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5381	U99999DL1998PTC093593	किंगस्टन टेक्नोलोजी इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5382	U99999DL1998PTC093612	दंड एल डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5383	U99999DL1998PTC093660	साई बाबा ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5384	U99999DL1998PTC093662	फूल सिंह यादव एण्ड को. प्राईवेट. लिमिटेड.
5385	U99999DL1998PTC093666	एक्सीलेंट कार्रियिंग एण्ड फ़ोर्वादींग एजन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
5386	U99999DL1998PTC093686	जे.आर.एस. (एक्सपोर्टर्स) ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5387	U99999DL1998PTC093700	लेनो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5388	U99999DL1998PTC093710	लेड्बेटर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5389	U99999DL1998PTC093725	डेविस डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5390	U99999DL1998PTC093735	और वे डिस्ट्रिब्यूशन (पी) लिमिटेड.
5391	U99999DL1998PTC093739	अॅक्युमेन मीडिया कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5392	U99999DL1998PTC093745	तनरोविच मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
5393	U99999DL1998PTC093748	पेगलिआ मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
5394	U99999DL1998PTC093775	झोडियाक अंडवर्तयजिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
5395	U99999DL1998PTC093788	जे.एस.जी. अॅग्रो प्राईवेट.लिमिटेड.
5396	U99999DL1998PTC093804	हेमंग रबबर प्राईवेट.लिमिटेड.
5397	U99999DL1998PTC093819	पूजा होम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5398	U99999DL1998PTC093832	कोपपाड़ जीन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5399	U99999DL1998PTC093870	टी. पारसमणि मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.

5400	U99999DL1998PTC093877	पॅरामाउन्ट अस्सोसिएट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5401	U99999DL1998PTC093880	कुलीना प्रोमोटर्स एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
5402	U99999DL1998PTC093886	लुन्दिगन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5403	U99999DL1998PTC093887	टिमोथी बर्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5404	U99999DL1998PTC093898	अरुसा (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5405	U99999DL1998PTC093904	सीमा कोन्फेक्शनेरी चक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5406	U99999DL1998PTC093908	शंकरा शीत मॅटल एण्ड मशीन्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5407	U99999DL1998PTC093910	नाजीमल मिनिना एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.
5408	U99999DL1998PTC093911	एस एण्ड एस पैटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5409	U99999DL1998PTC093929	साई सिस्टम्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5410	U99999DL1998PTC093931	सॅमसन एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड.
5411	U99999DL1998PTC093964	डाईनास्टी टूल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5412	U99999DL1998PTC093969	एस
5413	U99999DL1998PTC093974	अंबिका रुपी-एस्टा प्राईवेट. लिमिटेड.
5414	U99999DL1998PTC094009	अस्सूरेंड अप्लिआन्सीज़ (पी) लिमिटेड.
5415	U99999DL1998PTC094010	एस एक्सिम इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5416	U99999DL1998PTC094013	शिवम क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5417	U99999DL1998PTC094016	गम प्रोजेक्ट कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5418	U99999DL1998PTC094047	इन्फो-एमोशन प्राईवेट. लिमिटेड.
5419	U99999DL1998PTC094061	आदोबे कम्युटर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5420	U99999DL1998PTC094088	मंगा रेमेडीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5421	U99999DL1998PTC094116	परा फ़ैब्रिकेटर्स (पी) लिमिटेड.
5422	U99999DL1998PTC094125	केअरवेल हेल्थकेअर प्राईवेट लिमिटेड
5423	U99999DL1998PTC094133	पासिफ़िक नेतवर्क्स (पी) लिमिटेड.
5424	U99999DL1998PTC094146	सफ़ेक्स सिक्यूरिटी सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5425	U99999DL1998PTC094179	चंद्र एण्ड बूरग मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5426	U99999DL1998PTC094180	हममेल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5427	U99999DL1998PTC094181	शिवालिक जेम एण्ड जेव्वरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5428	U99999DL1998PTC094206	हैट्रॉथ पावर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5429	U99999DL1998PTC094217	मीलर एण्ड को. इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5430	U99999DL1998PTC094225	शांट्लेम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5431	U99999DL1998PTC094228	सिटी फ़ामे देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5432	U99999DL1998PTC094269	कोस्टल वॉर हाऊज़िंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5433	U99999DL1998PTC094271	भगत अपरेट्स एण्ड अक्ससेसरीस इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
5434	U99999DL1998PTC094274	ऑर्ज़िडिया ट्रेडिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड.
5435	U99999DL1998PTC094278	म्वक्लौड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5436	U99999DL1998PTC094285	मालदार कतामरन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड.
5437	U99999DL1998PTC094310	हिमानी बुक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5438	U99999DL1998PTC094425	हरि ओम सिक्यूरिटी सर्वोसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5439	U99999DL1998PTC094471	बील्डटेक मार्केटिंग कन्सेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5440	U99999DL1998PTC094518	डिव्जा कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
5441	U99999DL1998PTC094525	इंटरनेट कंफ़े प्राईवेट. लिमिटेड.
5442	U99999DL1998PTC094527	डेविड बेलेमी एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड

5443	U99999DL1998PTC094534	अनू प्लाईवूड प्राईवेट. लिमिटेड.
5444	U99999DL1998PTC094553	पम्स इन्फोटेक एण्ड एज्युकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
5445	U99999DL1998PTC094561	गोल्ड्क्रेस्ट होलिडेस (पी) लिमिटेड.
5446	U99999DL1998PTC094563	इंटेग्रिस सॉफ्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
5447	U99999DL1998PTC094570	एस.के.एस.बी. मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
5448	U99999DL1998PTC094571	दलीप पब्लिक गूड्स कंरिअर्स प्राईवेट लिमिटेड
5449	U99999DL1998PTC094591	दास एक्सिम (पी) लिमिटेड.
5450	U99999DL1998PTC094597	कस्यपी मीडियानेत प्राईवेट लिमिटेड
5451	U99999DL1998PTC094603	टार्गेत टूवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5452	U99999DL1998PTC094614	तविसारिऊ मार्केटिंग प्राईवेट.लिमिटेड.
5453	U99999DL1998PTC094615	देलिइनो इन्फो सोलुशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5454	U99999DL1998PTC094625	प्राग्मटिक सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5455	U99999DL1998PTC094634	कोन्टूर एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
5456	U99999DL1998PTC094641	फ़ोक्स देवेलोपर्स एण्ड सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट.लिमिटेड.
5457	U99999DL1998PTC094656	श्री आर कार्गो मोवर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5458	U99999DL1998PTC094657	कैराली कार्गो मोवर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5459	U99999DL1998PTC094664	अद्वान्तागे प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड.
5460	U99999DL1998PTC094704	पारस ओईल मील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5461	U99999DL1998PTC094718	आर्ट ऑफ़ क्रीटे फ़रनिचर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5462	U99999DL1998PTC094719	देन्कसिंग ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5463	U99999DL1998PTC094724	टाईम क्लोथींग प्राईवेट लिमिटेड
5464	U99999DL1998PTC094738	स्पाईस टेक मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
5465	U99999DL1998PTC094747	पेन्ता-इन्फोवे प्राईवेट.लिमिटेड.
5466	U99999DL1998PTC094762	डाणी मार्क फ़र्मसटिकल्स (पी) लिमिटेड.
5467	U99999DL1998PTC094766	शिव आरामटिक्स (पी) लिमिटेड.
5468	U99999DL1998PTC094770	ब्लू बेल कौरिएज प्राईवेट. लिमिटेड.
5469	U99999DL1998PTC094775	आरोग्या वर्धिनी न्यूट्रिट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5470	U99999DL1998PTC094786	वीला सवोय प्राईवेट. लिमिटेड.
5471	U99999DL1998PTC094787	कमा प्रोपर्टीस एण्ड कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड.
5472	U99999DL1998PTC094793	पेम्कोन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5473	U99999DL1998PTC094828	ड्रीम स्केपेस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5474	U99999DL1998PTC094829	एवंट एण्ड एंटरटेन्मेंट इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5475	U99999DL1998PTC094841	अश्रीका इमेक्स (पी) लिमिटेड.
5476	U99999DL1998PTC094849	स्तिलवूड मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5477	U99999DL1998PTC094870	इंटरमेट्रिक्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5478	U99999DL1998PTC094910	आर.एल. कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5479	U99999DL1998PTC094913	हस्तांद डिस्ट्रिब्यूटर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5480	U99999DL1998PTC094921	लोवेय कृषी एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड
5481	U99999DL1998PTC094942	हॉल मार्क इंटीरियर्स एण्ड ग्लॉज़िंग्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5482	U99999DL1998PTC094952	नेटवर्क इन्फोर्मेशन सिस्टम्स (पी) लिमिटेड.
5483	U99999DL1998PTC094985	स्टुवेंट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5484	U99999DL1998PTC094987	रेनासॉनिक एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
5485	U99999DL1998PTC095005	मन ट्रेड्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5486	U99999DL1998PTC095069	कस्न ओवरसीज प्राईवेट. लिमिटेड.

5487	U99999DL1998PTC095079	मॉडर्न-कारिज कन्सलतन्ट्स (पी) लिमिटेड.
5488	U99999DL1998PTC095081	राजन इमेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5489	U99999DL1998PTC095108	लिबरा पेट्रोलेउम प्राईवेट. लिमिटेड.
5490	U99999DL1998PTC095122	ट्रिबे मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5491	U99999DL1998PTC095127	सन्सूम बील्डिङ एण्ड देवेलोपर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5492	U99999DL1998PTC095142	सन्प्रलाग इंजीनियर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5493	U99999DL1998PTC095146	एउरोपीन एकोनोमिक कौरिएर्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5494	U99999DL1998PTC095158	फ्रेस्को इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5495	U99999DL1998PTC095174	कृती जेम्स एण्ड जेवलरी प्राईवेट लिमिटेड
5496	U99999DL1998PTC095188	सेसिल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5497	U99999DL1998PTC095191	फ्रान्त पागे एक्स्क्लुसिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5498	U99999DL1998PTC095198	रेस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5499	U99999DL1998PTC095252	अक्विवा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5500	U99999DL1998PTC095254	उटेल इंडिया प्राईवेट.लिमिटेड.
5501	U99999DL1998PTC095272	डिचवा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5502	U99999DL1998PTC095280	दामिनी कागों एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
5503	U99999DL1998PTC095283	कन्सेप्ट नेतवर्क्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5504	U99999DL1998PTC095284	तीर्थ इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5505	U99999DL1998PTC095289	ऊनिक्र हॉक आई प्लेसेमेन्ट एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5506	U99999DL1998PTC095360	पटलून अपरेल्स (पी) लिमिटेड.
5507	U99999DL1998PTC095369	मास्स स्प्लेंडिड इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5508	U99999DL1998PTC095370	ग्लोरिआ मार्केटिंग एण्ड सर्वीसीज़ (पी) लिमिटेड.
5509	U99999DL1998PTC095380	माईक्रो (इंडिया) पेस्ट कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
5510	U99999DL1998PTC095384	निशांत ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
5511	U99999DL1998PTC095396	योगीराज फार्मा प्राईवेट. लिमिटेड.
5512	U99999DL1998PTC095406	रंढ सॉफ्टवेयर इंटरनेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5513	U99999DL1998PTC095415	गैस वीज़न इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5514	U99999DL1998PTC095418	वराइटी मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5515	U99999DL1998PTC095426	वी एस्स ग्राफीक्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5516	U99999DL1998PTC095439	पार्लमेंटरी नियोजकवर्ग लैंड (इंडिया) प्राईवेट.एल टू.
5517	U99999DL1998PTC095469	सागओतेच कन्सुलट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5518	U99999DL1998PTC095476	कैपिटल ऑफसेट प्रेस (पी) लिमिटेड.
5519	U99999DL1998PTC095492	नगर स्युगर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5520	U99999DL1998PTC095534	इरोस फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5521	U99999DL1998PTC095540	ज्म कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5522	U99999DL1998PTC095545	गुप्ता क्लॉथ हाऊस प्राईवेट लिमिटेड.
5523	U99999DL1998PTC095552	लोडर्स रेस्टोरेंट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
5524	U99999DL1998PTC095570	जैनसन् ग्युडिफ़िक कंसेप्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5525	U99999DL1998PTC095582	पन्थान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5526	U99999DL1998PTC095635	शक बॉक्वा प्यूर प्राईवेट लिमिटेड
5527	U99999DL1998PTC095653	आशुतोष जेवेलरी प्राईवेट. लिमिटेड.
5528	U99999DL1998PTC095654	अनुपम जेवेलरी प्राईवेट. लिमिटेड.
5529	U99999DL1998PTC095659	पारल भारती फ़िल्म्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5530	U99999DL1998PTC095663	कुमार (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

5531	U99999DL1998PTC095673	कॉम्पोजिट कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5532	U99999DL1998PTC095674	इमेज हॉटशॉप कम्युनिकेशन प्राईवेट. लड.
5533	U99999DL1998PTC095686	हिल्टन इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5534	U99999DL1998PTC095696	बी.एस. कलपना रील्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5535	U99999DL1998PTC095707	आर.बी. सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
5536	U99999DL1998PTC095739	बूंदी स्टील रोलिंग मीलस (पी) लिमिटेड.
5537	U99999DL1998PTC095740	शिवे इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5538	U99999DL1998PTC095762	सी.ए.एफ.टी. कन्सल्टेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
5539	U99999DL1998PTC095773	खाखी एक्सपोर्टर्स (पी) लिमिटेड.
5540	U99999DL1998PTC095810	ट्रेड पार्टनर्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
5541	U99999DL1998PTC095824	एम.जी.एस. फ्रेंच प्राईवेट. लिमिटेड.
5542	U99999DL1998PTC095825	इन्स्टंट मायन्टेनान्स सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5543	U99999DL1998PTC095834	इन्च हाई मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5544	U99999DL1998PTC095841	कन्सोर्टीअम प्रिंटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5545	U99999DL1998PTC095842	पनवारिआ रियल ईस्टेट मार्केटिंग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5546	U99999DL1998PTC095862	एन्टरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5547	U99999DL1998PTC095866	अमोल्ल टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5548	U99999DL1998PTC095908	इंटरस्पेस इस्टेट्स (पी) लिमिटेड.
5549	U99999DL1998PTC095952	अनुराग अंग्रे (पी) लिमिटेड.
5550	U99999DL1998PTC096032	चौ नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5551	U99999DL1998PTC096036	अफ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5552	U99999DL1998PTC096071	रैपेल नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5553	U99999DL1998PTC096073	सुथेलांद नेतबीजन प्राईवेट. लिमिटेड.
5554	U99999DL1998PTC096075	ब्रोक्स्टन नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5555	U99999DL1998PTC096092	बेनेत नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5556	U99999DL1998PTC096101	सी.सी.टी. कम्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5557	U99999DL1998PTC096104	ओम नूमे इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5558	U99999DL1998PTC096111	क्सेबेक नेटवर्क सिस्टम्स (पी) लिमिटेड
5559	U99999DL1998PTC096146	क्लावर एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5560	U99999DL1998PTC096155	जाहन्वी मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5561	U99999DL1998PTC096158	पी.एस. क्लीन केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
5562	U99999DL1998PTC096178	गैलक्सी एंटरतायन्मेंट्स (पी) लिमिटेड.
5563	U99999DL1998PTC096198	हेथ नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5564	U99999DL1998PTC096216	ओरिएन्ट सिक्यूरिटी एण्ड अलाइड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5565	U99999DL1998PTC096248	ग्रीन डॉट टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5566	U99999DL1998PTC096252	नोदिका इंटीरियर्स (पी) लिमिटेड.
5567	U99999DL1998PTC096269	एलबे कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5568	U99999DL1998PTC096271	रोशनी प्लास्टो केम प्राईवेट लिमिटेड
5569	U99999DL1998PTC096278	डू टेक्निकल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5570	U99999DL1998PTC096285	केशव डेरी प्राईवेट. लिमिटेड.
5571	U99999DL1998PTC096296	अस्सनसन्स पॉलीमेच (पी) लिमिटेड.
5572	U99999DL1998PTC096302	स्डप बिसनेस सोलुशन्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5573	U99999DL1998PTC096310	क्रिस्टल पॉलिश (पी) लिमिटेड.

5574	U99999DL1998PTC096312	अन्ना सॉफ्टवेयर प्राइवेट. लिमिटेड.
5575	U99999DL1998PTC096329	श्रज सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड.
5576	U99999DL1998PTC096341	अमर दीप सिक्यूरिटी सर्विसीज़ (पी) लिमिटेड.
5577	U99999DL1998PTC096351	इब्रसा फ़ूड एण्ड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड
5578	U99999DL1998PTC096377	आनॉलड नेटवर्क देवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
5579	U99999DL1998PTC096387	होमगैस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5580	U99999DL1998PTC096390	स्पोट्स एण्ड लीसूरे (इंटरनेशनल) प्राइवेट. लिमिटेड.
5581	U99999DL1998PTC096403	वीनस अस्सोसिएट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5582	U99999DL1998PTC096446	नम्रता डिस्ट्रिबुटर प्राइवेट लिमिटेड
5583	U99999DL1998PTC096448	श्री स्केन प्राइवेट लिमिटेड
5584	U99999DL1998PTC096455	चींग्मुइ अपरेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5585	U99999DL1998PTC096458	राठी सन्स (पी) लिमिटेड.
5586	U99999DL1998PTC096472	पज टेक्नोलोजीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5587	U99999DL1998PTC096475	कीप बेल रेमेडीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5588	U99999DL1998PTC096494	सेफ़ालीन पुब्लिकेशन्स (पी) लिमिटेड.
5589	U99999DL1998PTC096523	विनय क्वस प्राइवेट लिमिटेड
5590	U99999DL1998PTC096555	कम्मंदोर मरीन एण्ड टेक्निकल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5591	U99999DL1998PTC096556	बायोवेद हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
5592	U99999DL1998PTC096557	एस.आर. दाता सर्विसीज़ (पी) लिमिटेड.
5593	U99999DL1998PTC096566	राज इन्फोटेक कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
5594	U99999DL1998PTC096593	फागूनी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
5595	U99999DL1998PTC096619	मीडियाकॉर्प (इंडिया) प्राइवेट. लिमिटेड.
5596	U99999DL1998PTC096635	गिरीजा डाय केम प्राइवेट. लिमिटेड.
5597	U99999DL1998PTC096675	पेफ़ेक्ट टेकनिक प्राइवेट. लिमिटेड
5598	U99999DL1998PTC096706	सुपरलेक्स केबल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5599	U99999DL1998PTC096707	ओक्टो ग्रेट एंटरटेनमेंट पैरिफ़ेरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
5600	U99999DL1998PTC096727	संसो दीना प्राइवेट लिमिटेड
5601	U99999DL1998PTC096739	वाय.एल. एन्जीनीअरींग. वर्क्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5602	U99999DL1998PTC096767	ट्रॉपिकल कुइसीन प्राइवेट लिमिटेड
5603	U99999DL1998PTC096772	रीचेल हेल्थ केअर इंडिया प्राइवेट. लिमिटेड.
5604	U99999DL1998PTC096773	व्स्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5605	U99999DL1998PTC096777	आर.के. फ़ोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
5606	U99999DL1998PTC096781	नीलमणि कम्प्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड.
5607	U99999DL1998PTC096783	आम्बळे एंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड.
5608	U99999DL1998PTC096790	शीव शक्ती देटेक्टिव्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5609	U99999DL1998PTC096791	स्नो विनतवेअर प्राइवेट लिमिटेड
5610	U99999DL1998PTC096795	ट्रूट एन्टरप्राइसीस प्राइवेट. लिमिटेड.
5611	U99999DL1998PTC096796	नस टेक्नो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
5612	U99999DL1998PTC096800	उत्तरांचल टूरर्स एण्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड
5613	U99999DL1998PTC096827	स्प्रीडमार्क कागों मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
5614	U99999DL1998PTC096829	एंगल प्रिंटेक प्राइवेट. लिमिटेड.
5615	U99999DL1998PTC096870	राजुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5616	U99999DL1998PTC096883	वीमको इम्पेक्स प्राइवेट. लिमिटेड.
5617	U99999DL1998PTC096902	ईडिगो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

5618	U99999DL1998PTC096904	स्का ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5619	U99999DL1998PTC096908	आकृति इंटरनेशनल क्लोथिंग को. (पी) लिमिटेड.
5620	U99999DL1998PTC096909	स्टार गज़र अंडवर्टायजिंग एजेन्सी (पी) लिमिटेड.
5621	U99999DL1998PTC096919	विक्टर सिक्यूरिटी पोईत प्राईवेट. लिमिटेड.
5622	U99999DL1998PTC096929	प्लेसेमेन्ट अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5623	U99999DL1998PTC096956	मदानस एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5624	U99999DL1998PTC096982	स्मार्ट एज्युकेशन एण्ड ओवरसीज़ प्लेसेमेंट्स इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5625	U99999DL1998PTC097003	वल्स अंग्रोटैक प्राईवेट. लिमिटेड.
5626	U99999DL1998PTC097018	पेटचरट नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
5627	U99999DL1998PTC097029	कसा सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ स्प्रिवाटे लिमिटेड
5628	U99999DL1998PTC097032	लाफ़येट इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5629	U99999DL1998PTC097040	त्रावनकोर टी इस्टेट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5630	U99999DL1998PTC097049	सटेलाईट ओवरसीज़ (पी) लिमिटेड.
5631	U99999DL1998PTC097064	शीतल फ़र्टिलीज़र्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5632	U99999DL1998PTC097065	पिंकी जिप्स प्राईवेट लिमिटेड
5633	U99999DL1998PTC097075	टच इम्पेक्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5634	U99999DL1998PTC097085	सुमित फ़ोर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
5635	U99999DL1998PTC097103	नोवेल इन्फ़ोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5636	U99999DL1998PTC097113	आर एस्स एजन्सीस (पी) लिमिटेड.
5637	U99999DL1998PTC097126	बाफ़िफ़न बे इन्फ़ोसिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5638	U99999DL1998PTC097128	टोपपाइ सिक्यूरिटी प्राईवेट. लिमिटेड.
5639	U99999DL1998PTC097140	श्री साई सिने प्रोडक्शन (पी) लिमिटेड.
5640	U99999DL1998PTC097145	कवल प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
5641	U99999DL1998PTC097146	इरीस इम्पेक्स (पी) लिमिटेड.
5642	U99999DL1998PTC097152	कैपिटल एअरकॉन (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5643	U99999DL1998PTC097164	फ़ास्ट चैन कौरिएज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5644	U99999DL1998PTC097172	आरौन्ड फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5645	U99999DL1998PTC097176	कन्नेक्शन तेलेमार्केटिंग इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5646	U99999DL1998PTC097204	जेनियोउस सॉफ़्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
5647	U99999DL1998PTC097232	एम एण्ड जे ग्लास्वारेस प्राईवेट. लिमिटेड.
5648	U99999DL1998PTC097245	जे एम डी अँक्वा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
5649	U99999DL1998PTC097256	ल्ब एअर फ़्रेट (पी) लिमिटेड.
5650	U99999DL1998PTC097262	अन्ना स्मेल्टिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
5651	U99999DL1998PTC097283	स्यालकोट पॅकेजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5652	U99999DL1998PTC097294	ए एल एम फ़ूरनीशर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5653	U99999DL1998PTC097303	गोहर फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5654	U99999DL1998PTC097317	जसको पॉलीमर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5655	U99999DL1998PTC097332	आमाडेउस ट्रैवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5656	U99999DL1998PTC097336	होली फ़्रेंड्स इम्पेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5657	U99999DL1998PTC097366	ब्रवो प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5658	U99999DL1998PTC097375	मूलल्होलंद एण्ड अस्सोसिएट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5659	U99999DL1998PTC097376	ल्युइस एण्ड अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5660	U99999DL1998PTC097399	मैनहंटन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ इन्फ़ोटेक (पी) लिमिटेड.
5661	U99999DL1998PTC097482	हेल्थ मेदीट्रानिक्स (पी) लिमिटेड.

5662	U99999DL1998PTC097495	रेलेक्स स्पोर्ट्स एण्ड स्विमिंग (पी) लिमिटेड.
5663	U99999DL1998PTC097503	ओय्स्टर्ज ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5664	U99999DL1998PTC097514	क्रॉसपॉट अलिआन्सीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5665	U99999DL1998PTC097527	ए.एस. देटेक्टिव्स एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5666	U99999DL1998PTC097533	गूरगांव इंटरनेट प्राईवेट. लिमिटेड.
5667	U99999DL1998PTC097534	वी.के. एडुकेशन इन्स्टिट्यूट्स प्राईवेट लिमिटेड
5668	U99999DL1998PTC097542	फलकॉन इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5669	U99999DL1998PTC097568	लुश मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5670	U99999DL1998PTC097582	हिमलेंद प्रमोटर्ज एण्ड बील्डर्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
5671	U99999DL1998PTC097599	गुरुदत्त कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5672	U99999DL1998PTC097602	मोमेंट्स प्रीटिंग्स एण्ड गिफ्ट्स कम्पनी (पी) लिमिटेड.
5673	U99999DL1998PTC097603	वृन्दा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5674	U99999DL1998PTC097622	दर्शना न्युज़ एण्ड नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
5675	U99999DL1998PTC097623	इप्स लामिनाट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5676	U99999DL1998PTC097624	ऊनिब्रो फिल्म्स (पी) लिमिटेड.
5677	U99999DL1998PTC097633	हरकृष्ण वायर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5678	U99999DL1998PTC097642	सुपर ऑलमेंटल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5679	U99999DL1998PTC097672	रोज़ अपरेल्स (पी) लिमिटेड.
5680	U99999DL1998PTC097681	मण्को इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5681	U99999DL1998PTC097688	सलसर ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5682	U99999DL1998PTC097706	डायनामिक बोकसेस को. प्राईवेट. लिमिटेड.
5683	U99999DL1998PTC097717	तारा मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5684	U99999DL1999PTC097748	एस.एस. लिप्रो इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5685	U99999DL1999PTC097751	क्रिएशन्स फ्रेग्रन्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5686	U99999DL1999PTC097783	फ़ैठ कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5687	U99999DL1999PTC097804	नोवा वन्दूर्स प्राईवेट लिमिटेड
5688	U99999DL1999PTC097847	कॉनकेम प्लास्टिसिज़र्ज प्राईवेट. लिमिटेड.
5689	U99999DL1999PTC097857	प्राकृती ड्रग्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5690	U99999DL1999PTC097858	इंडियन शेफेड्स..कैप्स एण्ड आइवन्चर प्राईवेट. लिमिटेड.
5691	U99999DL1999PTC097863	स्ज इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5692	U99999DL1999PTC097866	अनुबिस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5693	U99999DL1999PTC097867	बोग इम्पेक्स सिस्टम्स (पी) लिमिटेड.
5694	U99999DL1999PTC097887	टीम - ए सिक्यूरिटी प्राईवेट. लिमिटेड.
5695	U99999DL1999PTC097924	मिल्क सिटी इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5696	U99999DL1999PTC097931	श्रृष्टि टेलीकोम एण्ड नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
5697	U99999DL1999PTC097958	पालकी ट्रेवल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5698	U99999DL1999PTC097965	सम्यक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5699	U99999DL1999PTC097987	ओन्स एअरपोर्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5700	U99999DL1999PTC098020	अभिनव जेक्टर्री प्राईवेट. लिमिटेड.
5701	U99999DL1999PTC098045	पवन इंडिया टुरीज़म प्राईवेट. लिमिटेड.
5702	U99999DL1999PTC098070	पन्नो क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5703	U99999DL1999PTC098073	गुप्ता एअरलाइन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5704	U99999DL1999PTC098086	मिमम एरिअर प्राईवेट लिमिटेड
5705	U99999DL1999PTC098093	ग्लौ क्रिएशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.

5706	U99999DL1999PTC098116	हाई पुरिती गासेस प्राईवेट लिमिटेड
5707	U99999DL1999PTC098120	जागृति फ़ाग्रान्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड.
5708	U99999DL1999PTC098144	जेमगोल्ड बील्डर्ज़ कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5709	U99999DL1999PTC098166	सेडं इन्क्वुमेंट्स एण्ड कन्सलतन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5710	U99999DL1999PTC098173	नित्या एक्सिम एण्ड ट्रेडर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5711	U99999DL1999PTC098178	आशीष हेंचरीस प्राईवेट लिमिटेड
5712	U99999DL1999PTC098186	मनागोवीसे सॉफ़्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
5713	U99999DL1999PTC098187	आस्त्रोनोमी टेलीस्कोप इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5714	U99999DL1999PTC098195	क्लश फ़ूड्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5715	U99999DL1999PTC098197	आर.आर. मीडिया सीनरगी प्राईवेट. लिमिटेड.
5716	U99999DL1999PTC098220	एंड्लेस होलिडेस प्राईवेट. लिमिटेड.
5717	U99999DL1999PTC098256	अन्स रेस्टोरेंट प्राईवेट. लिमिटेड.
5718	U99999DL1999PTC098270	गूडलक डेकोरेटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5719	U99999DL1999PTC098292	मधर इंडिया टूर्स एण्ड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5720	U99999DL1999PTC098314	इन्फ़ा प्रोज़ेक्ट कन्सलटंट प्राईवेट. लिमिटेड.
5721	U99999DL1999PTC098319	विकटोरिआ होस्पिटैलिटी कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5722	U99999DL1999PTC098329	जनक लिफ़्टर्ज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5723	U99999DL1999PTC098357	वी-टेक शोक्स प्राईवेट लिमिटेड
5724	U99999DL1999PTC098364	न्यू वन्टर्स इंडिया एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
5725	U99999DL1999PTC098375	मोदी इन्फ़ोसिसेम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5726	U99999DL1999PTC098378	हाउझींग कन्सलतन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5727	U99999DL1999PTC098385	एल्लिसआन इन्फ़ोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5728	U99999DL1999PTC098388	स्काय्कोम इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5729	U99999DL1999PTC098431	आई टी जी सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5730	U99999DL1999PTC098447	वी टी सिस्टम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5731	U99999DL1999PTC098464	ट्रोईका टूर्स एण्ड ट्रेवल्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5732	U99999DL1999PTC098465	त्यस्ट पुब्लिशिंग एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5733	U99999DL1999PTC098486	आकाश दीप सिक्यूरिटी सर्वोसीज़ एण्ड इन्वेस्टिगटर प्राईवेट लिमिटेड.
5734	U99999DL1999PTC098495	देस्टिनो सॉफ़्टवेयर (पी) लिमिटेड.
5735	U99999DL1999PTC098498	न्यू ब्राईट इंडिया एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
5736	U99999DL1999PTC098505	एन.आर. एन्टरप्राइसीस प्राईवेट लिमिटेड
5737	U99999DL1999PTC098509	निकिताशा ट्रेडिंग एण्ड कन्सल्टन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5738	U99999DL1999PTC098514	एक्सोस्कुड सिक्यूरिटी नेटवर्क प्राईवेट. लिमिटेड.
5739	U99999DL1999PTC098515	गुलबंश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड.
5740	U99999DL1999PTC098543	वामा सर्वोसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5741	U99999DL1999PTC098550	पीनेकल एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
5742	U99999DL1999PTC098569	एमेर्गिंग इन्फ़ोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5743	U99999DL1999PTC098571	चावला ओर्नामेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5744	U99999DL1999PTC098594	सुधीर अस्सोसिएट्स (पी) लिमिटेड.
5745	U99999DL1999PTC098601	कॉबीनेट इलेक्ट्रो देविसीज़ (प्राईवेट) लिमिटेड.
5746	U99999DL1999PTC098607	गी ब्रोस डिस्ट्रिब्युटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
5747	U99999DL1999PTC098608	खन्ना रेसिडन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5748	U99999DL1999PTC098621	वव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5749	U99999DL1999PTC098626	मिस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट. लिमिटेड.

5750	U99999DL1999PTC098635	अभिषेक इन्फोसिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5751	U99999DL1999PTC098636	मनु महारानी मैनेजमेन्ट एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5752	U99999DL1999PTC098707	आस्त्रो सिस्टम सोल्यूशन (प्राईवेट) लिमिटेड.
5753	U99999DL1999PTC098761	आर्टलैंड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5754	U99999DL1999PTC098792	ज्वा फ्रीड मील प्राईवेट. लिमिटेड.
5755	U99999DL1999PTC098818	आकृति (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5756	U99999DL1999PTC098828	हब होम कन्सेप्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5757	U99999DL1999PTC098835	आई.बी.सोलुशन्स एण्ड प्लेसेमेन्ट प्राईवेट.लिमिटेड.
5758	U99999DL1999PTC098837	ऊनीसिस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5759	U99999DL1999PTC098849	स्पीड्वगोन ट्रेडर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5760	U99999DL1999PTC098864	डी.एस. क्राफ्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5761	U99999DL1999PTC098880	टडप्ल ईलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5762	U99999DL1999PTC098881	इंदंत मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5763	U99999DL1999PTC098903	ओथेन्टिक ओप्टिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5764	U99999DL1999PTC098913	मेल्विन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5765	U99999DL1999PTC098972	वाचफूल सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5766	U99999DL1999PTC099006	बी एण्ड बी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5767	U99999DL1999PTC099026	अलका हौसेकीपींग प्राईवेट लिमिटेड
5768	U99999DL1999PTC099031	ओर्चीड्स फ़ेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5769	U99999DL1999PTC099045	स्टान्डर्ड रेक्रिएशन एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5770	U99999DL1999PTC099059	अंजली क्लोथ्सालर्ज़ एण्ड एजंट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5771	U99999DL1999PTC099112	अंबा इन्डस्ट्रिज़ (पी) लिमिटेड.
5772	U99999DL1999PTC099134	टेक्नोस्पार्क कम्प्युटर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5773	U99999DL1999PTC099138	स्टार्कोल अर्थसिन्स एण्ड कैमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
5774	U99999DL1999PTC099151	चट्टिशगड़ फ़ुड एण्ड मार्केटिंग (पी) लिमिटेड.
5775	U99999DL1999PTC099170	वर्षा ओवरसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड
5776	U99999DL1999PTC099173	रेविन एअरवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
5777	U99999DL1999PTC099216	सीरीन फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5778	U99999DL1999PTC099234	एजी टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5779	U99999DL1999PTC099258	गोल्ड इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5780	U99999DL1999PTC099273	एम.के. जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
5781	U99999DL1999PTC099283	फेअरडील कोरु प्रीट प्राईवेट. लिमिटेड.
5782	U99999DL1999PTC099289	इन्फोबाईट टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5783	U99999DL1999PTC099308	होरिज़ोन इम्प्रेशनन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5784	U99999DL1999PTC099337	मीरकल कम्प्युटर्स दिल्ली प्राईवेट लिमिटेड
5785	U99999DL1999PTC099388	कोठारी पेंकेजींग प्राईवेट. लिमिटेड.
5786	U99999DL1999PTC099394	चौधरी क्लब प्राईवेट. लिमिटेड.
5787	U99999DL1999PTC099398	एस.पी. इन्फोसिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5788	U99999DL1999PTC099399	सती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड.
5789	U99999DL1999PTC099417	हं सॉफ़्ट-कॉन प्राईवेट लिमिटेड
5790	U99999DL1999PTC099457	ए.जी. पोर्टफ़ोलियो प्राईवेट लिमिटेड
5791	U99999DL1999PTC099472	औटेर बौन्ड एक्स्पेंडिचन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5792	U99999DL1999PTC099510	के.सी. टयुबवेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5793	U99999DL1999PTC099522	अल्ट्रा हेल्थ टेक्नोलोजीस प्राईवेट. लिमिटेड.

5794	U99999DL1999PTC099527	ऋषि टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
5795	U99999DL1999PTC099551	एम.एस. एन्कोन प्राईवेट. लिमिटेड
5796	U99999DL1999PTC099557	वर्धमान अलुमिनिअम एण्ड कूकवैर को. (प्राईवेट) लिमिटेड.
5797	U99999DL1999PTC099563	कल्युसो प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5798	U99999DL1999PTC099577	प्यसन प्रीटवेज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5799	U99999DL1999PTC099605	लीन्कटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5800	U99999DL1999PTC099614	अलारा होटेल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5801	U99999DL1999PTC099619	ओरनो वेब (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5802	U99999DL1999PTC099633	दून डिटेक्शन एण्ड सिक्यूरिटी सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5803	U99999DL1999PTC099650	सनर इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5804	U99999DL1999PTC099651	एक्स्क्लुसिवेली एक्सिम प्राईवेट. लिमिटेड.
5805	U99999DL1999PTC099662	गिफ्ट मास्टर्ज़ इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5806	U99999DL1999PTC099670	हरि ओम आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट. लिमिटेड.
5807	U99999DL1999PTC099678	मोवर्ज़ एण्ड सफ़र्ज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5808	U99999DL1999PTC099679	सप्रा फ़ोरेक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5809	U99999DL1999PTC099685	लॉइड कोल्दैरे प्राईवेट लिमिटेड
5810	U99999DL1999PTC099690	स्पन ही-टेक सोलुशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5811	U99999DL1999PTC099738	वेब इन्स्टिट्यूट ऑफ़ कम्प्यूटर टेक्नोलोजी प्राईवेट. लिमिटेड.
5812	U99999DL1999PTC099749	एस के एन एनवीरो सिस्टम्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5813	U99999DL1999PTC099751	सिंघल ईस्टेट एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5814	U99999DL1999PTC099760	स्केट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5815	U99999DL1999PTC099773	कोरोल्स सॉफ़्टवेयर प्राईवेट. लिमिटेड.
5816	U99999DL1999PTC099811	मीज़ाह इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5817	U99999DL1999PTC099817	आरेमीस्सोफ़्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
5818	U99999DL1999PTC099840	त्रिकट हेब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5819	U99999DL1999PTC099999	ए-टेक कम्प्यूटर (प्राईवेट) लिमिटेड.
5820	U51505DL1999PTC100041	डी.डी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5821	U25209DL1999PTC100058	क्वम प्लास्टिक पैकेजिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5822	U37200DL1999PTC100167	कमानी नतूरे एण्ड वास्ते मैनेजमेन्ट प्राईवेट. लिमिटेड.
5823	U74999DL1999PTC100279	ज़ेब सिक्यूरिटी एण्ड देटेक्टिव्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5824	U24246DL1999PTC100347	कल्लेक लेबोरेटोरिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5825	U80221DL1999PTC100371	अम्बीन्स एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5826	U01121DL1999PTC100400	मूलटिफ़्रेश अग्रेक्स्पो प्राईवेट. लिमिटेड.
5827	U55101DL1999PTC100401	अंगन एन्टरप्राईसीस प्राईवेट. लिमिटेड.
5828	U72900DL1999PTC100417	ट्रिप्स उल्टिमाटे सोलुशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
5829	U63040DL1999PTC100419	क्रुगर ट्रैवल सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5830	U24231DL1999PTC100432	मोस्पा फ़र्मसटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5831	U99999DL1999PTC100462	अग्रसेन प्रोमोटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
5832	U33301DL1999PTC100540	पोलर वाच केसेस प्राईवेट. लिमिटेड.
5833	U72900DL1999PTC100565	डेल्टा विसुअल कम्प्यूटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5834	U74999DL1999PTC100574	नूरजहाँ ब्यूटी पाल्तर प्राईवेट. लिमिटेड.
5835	U28997DL1999PTC100638	भारती होम अप्लिआन्सीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5836	U92114DL1999PTC100645	इन्द्राधनुश कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5837	U52334DL1999PTC100647	मिक्रोमिड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.

5838	U74999DL1999PTC100650	चेतना पुब्लिकेशन प्राईवेट. लिमिटेड.
5839	U92132DL1999PTC100670	सिबगो क्रिएशन्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5840	U29120DL1999PTC100671	लोडर पंप्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5841	U63013DL1999PTC100672	रमैर ट्रैवल्ल्स एण्ड कार्गो सर्वीसीज़ (प्राईवेट) लिमिटेड.
5842	U74300DL1999PTC100703	आर्दिब्लफ कम्युनिकेशन्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5843	U31909DL1999PTC100721	एस. सेरिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5844	U70101DL1999PTC100728	धनपति बील्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
5845	U51505DL1999PTC100732	शातक्षि ट्रेडिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5846	U72200DL1999PTC100742	युक्ती इन्फोटेक प्राईवेट. लिमिटेड.
5847	U74140DL1999PTC100839	आक्टिव सोलुशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
5848	U29224DL1999PTC100849	मार्गनोटेक (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5849	U72200DL1999PTC100920	रेस्पॉन्स इन्फोटेक प्राईवेट.लिमिटेड.
5850	U52392DL1999PTC100929	जोस इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
5851	U99999DL1999PTC100938	ब्लू मैक्स ट्रैवल्ल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5852	U99999DL1999PTC100939	डीमटेक प्रेस (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5853	U74210DL1999PTC100952	विज्ञाग ओपेरेशन्स एण्ड मायन्टेनान्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5854	U72501DL1999PTC100964	सीनको इन्फोसिस प्राईवेट. लिमिटेड.
5855	U13206DL1999PTC100981	एम एण्ड क्यू मिनरल्स ईस्ट इंडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5856	U72900DL1999PTC101019	इन्फोसोल्यूशन सर्वीसीज़ (इंडिया) प्राईवेट. लिमिटेड.
5857	U51909DL1999PTC101031	टोपपिल मार्केटिंग प्राईवेट. लिमिटेड.
5858	U24232DL1999PTC101034	नोवा गालेनिकल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5859	U63022DL1999PTC101043	सहारा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
5860	U72900DL1999PTC101050	इन्फोटेक कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5861	U74140DL1999PTC101056	अश्विन लाईफ कन्सोर्ट्स वेन्चर कन्सल्टन्सी (प्राईवेट) लिमिटेड.
5862	U24239DL1999PTC101071	सिरेन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5863	U18101DL1999PTC101073	फ़्रंट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5864	U36911DL1999PTC101080	प्रेमसन्स ज्यूएलज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5865	U79300DL1999PTC101081	आशीर्वाद अंडवर्टायजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड.
5866	U35301DL1999PTC101160	स्पार्कलार मीडिया प्राईवेट. लिमिटेड.
5867	U18101DL1999PTC101168	डिआशोनिन अपरेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5868	U74999DL1999PTC101180	इतालिका माब्ल्स (प्राईवेट) लिमिटेड.
5869	U99999DL1999PTC101222	लीन्क कन्ड्युमर केअर प्राईवेट. लिमिटेड.
5870	U74950DL1999PTC101224	श्रीव शक्ती फ़्लेक्स पैंक प्राईवेट लिमिटेड
5871	U29199DL1999PTC101238	आरसन एन्जीन्यरींग प्राईवेट लिमिटेड
5872	U45201DL1999PTC101274	अक्सा होस्पिटल कन्सल्टन्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5873	U72900DL1999PTC101288	शो बिज़नेस आर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5874	U74920DL1999PTC101332	पोलस्टार डिटेक्टिव एण्ड सिक्यूरिटी प्राईवेट.लिमिटेड.
5875	U28998DL1999PTC101340	नेगी मेटल प्रोसेसर्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5876	U15139DL1999PTC101384	ओम श्री आईस फ़्रैक्टरी प्राईवेट. लिमिटेड.
5877	U51909DL1999PTC101394	ऑल ब्रदर्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5878	U45201DL1999PTC101413	व्योम एन्जीन्यरींग इंडिया (पी) लिमिटेड.
5879	U01122DL1999PTC101417	एम.बी. फ़्लौरा हुत्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5880	U74140DL1999PTC101424	अबकस डिज़ाईन लैब्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5881	U27109DL1999PTC101449	अप्पोलो फ़ास्टनेर (प्राईवेट) लिमिटेड.

5882	U74140DL1999PTC101452	प्रोबिती कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5883	U74140DL1999PTC101493	मेरिदिन वत रेक्लाईम(इनिदिआ)प्राईवेट.लिमिटेड.
5884	U24239DL1999PTC101494	हाई रेटूरन्स इंटरनेशनल प्राईवेट. लिमिटेड.
5885	U10102DL1999PTC101505	भगत कोल सेल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5886	U24222DL1999PTC101513	दुर्गा पैटर्स एण्ड कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5887	U45201DL1999PTC101528	एन.पी.ईस्टेट एण्ड बील्डींग कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
5888	U80903DL1999PTC101541	दास टुटोरिल्स प्राईवेट.लिमिटेड.
5889	U67120DL1999PTC101613	इम्पीरियल गाड्स प्राईवेट लिमिटेड
5890	U25209DL1999PTC101620	पार्थ पॉली-केम प्राईवेट. लिमिटेड.
5891	U18101DL1999PTC101629	मार्कुस डीझाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
5892	U18100DL1999PTC101646	स्टैंटस एक्सिम एण्ड सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5893	U99999DL1999PTC101652	प्लस मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5894	U01111DL1999PTC101656	झवार ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5895	U01111DL1999PTC101657	जे.टी. कमोडिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
5896	U72200DL1999PTC101678	ब्लूक स्क्वेटॉनिकस प्राईवेट लिमिटेड
5897	U63040DL1999PTC101688	कांतन टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
5898	U74300DL1999PTC101694	प्रयास कम्युनिकेशन (पी) लिमिटेड.
5899	U51109DL1999PTC101716	एस्सेन्टिआल्स मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड.
5900	U36939DL1999PTC101720	चहट गोम्स प्राईवेट लिमिटेड
5901	U63013DL1999PTC101762	अक्षिस लोग्नेत प्राईवेट लिमिटेड
5902	U72200DL1999PTC101763	फुटूरिस्टिक एज्युकेशन पी.लिमिटेड.
5903	U45201DL1999PTC101792	अनाब कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5904	U09211DL1999PTC101810	कर्ते रोयले एंटरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
5905	U32109DL1999PTC101833	शाह साहिब इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5906	U63013DL1999PTC101835	पनवर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
5907	U99999DL1999PTC101868	सीन्डिकेट ट्रान्सपोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड.
5908	U99999DL1999PTC101870	टेकोम कॅमिकल्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5909	U09211DL1999PTC101876	रौ म्युज़िक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5910	U72900DL1999PTC101907	मेट्रो बज़ार ओन्लीन प्राईवेट लिमिटेड
5911	U72100DL1999PTC102005	सिलिकोन नेतवर्क्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5912	U67120DL1999PTC102038	शक्ती सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5913	U01111DL1999PTC102057	विनसन ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5914	U99999DL1999PTC102165	क्रेस्ट मैनेजमेन्ट सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5915	U27109DL1999PTC102241	हीमेन्स स्टील्स प्राईवेट. लिमिटेड.
5916	U74140DL1999PTC102260	इस्य मेहरा इन्वेस्ट्मेन्ट एण्ड फायनान्श्यल कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5917	U24119DL1999PTC102268	जे.के. अधेसिव को. प्राईवेट लिमिटेड
5918	U72100DL1999PTC102283	अन्स इन्फोसिस प्राईवेट.लिमिटेड.
5919	U72200DL1999PTC102309	ओमेतरा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राईवेट.लिमिटेड.
5920	U18101DL1999PTC102345	अजंता क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5921	U64120DL1999PTC102455	क्स सट्कोम सर्वीसीज़ प्राईवेट. लिमिटेड.
5922	U51109DL1999PTC102468	कास्वेल एण्ड सूरिता टूर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5923	U74140DL1999PTC102564	नोबल टेक्नोलोजीस सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5924	U51491DL1999PTC102565	अम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

5925	U74999DL1999PTC102598	वशिष्ठ एअर-कॉन प्राईवेट लिमिटेड
5926	U29309DL1999PTC102625	फोटोजेनिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5927	U45202DL1999PTC102635	जेनेन्द्रा बील्डकॉन प्राईवेट. लिमिटेड.
5928	U18109DL1999PTC102651	मोड वस्त्र विनत्स प्राईवेट लिमिटेड
5929	U92490DL1999PTC102690	एंटर एन फुन सर्विस कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
5930	U52190DL1999PTC102738	अल-राबेय इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5931	U74999DL1999PTC102866	लाईफ़ स्टाइल ड्रीम कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
5932	U25209DL2000PTC103244	कृष्ण ग्लोबल इन्डस्ट्रिस प्राईवेट लिमिटेड
5933	U85110DL2000PTC103408	रेहाना नरसिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
5934	U72100DL2000PTC103417	बीनारी सिसटेक प्राईवेट लिमिटेड
5935	U72900DL2000PTC103730	सीबेर टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
5936	U99999DL2000PTC103842	रेनबो रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
5937	U72200DL2000PTC104037	टेलनत सॉफ़्टवेयर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5938	U99999DL2000PTC104084	न्यू दिल्ली वीमेन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5939	U18101DL2000PTC104132	हौक्षीड क्लोथिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5940	U72900DL2000PTC104208	एपेक्स एडुकेशन कन्सल्टन्सी सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5941	U74999DL2000PTC104370	एवर इंडिया अस्सोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
5942	U80903DL2000PTC104422	एव कन्सलतन्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5943	U74999DL2000PTC104530	ओहन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5944	U72900DL2000PTC104640	इव कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5945	U51109DL2000PTC104875	डी.के. एक्सिम एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
5946	U72900DL2000PTC104969	सनटॉप कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
5947	U72900DL2000PTC105031	राज इ-कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
5948	U18100DL2000PTC105059	रज़ा कूदूर प्राईवेट लिमिटेड
5949	U72900DL2000PTC105068	वीकास सोप्रतेक प्राईवेट लिमिटेड
5950	U32109DL2000PTC105173	सर्वजीत ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5951	U32109DL2000PTC105273	गायत्री कम्युनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5952	U32109DL2000PTC105278	सेन्सोत्रोनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5953	U70101DL2000PTC105280	ग्रीन ग्राम बील्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
5954	U72900DL2000PTC105479	कश्मीर उप्डाते डॉट कोम प्राईवेट लिमिटेड
5955	U72900DL2000PTC105482	श्रीन्क कन्सलतन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5956	U67120DL2000PTC105546	भावना टेक-सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5957	U99999DL2000PTC105641	मिड्ट्रेक.कोम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5958	U72900DL2000PTC105643	इ स्टेप्स टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
5959	U80903DL2000PTC105653	आस्ट्रा नेट्कोम प्राईवेट लिमिटेड
5960	U99999DL2000PTC105772	अम्बुश अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
5961	U72100DL2000PTC105802	पोर्टल क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5962	U72200DL2000PTC106046	रेमेम्बेरिंग यू सॉफ़्टवेयर सर्वीसीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5963	U72900DL2000PTC106522	से-क्लुडे कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5964	U51109DL2000PTC106588	ड्रीम्ज़ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5965	U74210DL2000PTC106676	बुद्ध सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5966	U99999DL2000PTC106857	गूरागांव कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5967	U99999DL2000PTC106873	आस्ट्रल लियाइसन्स इन्फॉर्मेटिक्स स्यूबैसिगन एण्ड इ-कॉमर्स लिमिटेड

5968	U80101DL2000PTC106878	ऊषा एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5969	U51109DL2000PTC106884	अजुरे वेलकिन फ़ोर्मूलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5970	U72900DL2000PTC106944	क्रालीरिटे इ सर्वीसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5971	U93020DL2000PTC106954	वी एस्स स्लीमिंग एण्ड ब्यूटी केअर प्राईवेट लिमिटेड
5972	U72900DL2000PTC106968	स्टेप्टोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5973	U34300DL2000PTC107107	ओन्स ऑटोमोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
5974	U51109DL2000PTC107134	सुरभि मूलटिपले होरिज़ोन्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5975	U63013DL2000PTC107143	ग्राफिक्स कुरिअर एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
5976	U72200DL2000PTC107395	मॅरथोन लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
5977	U32109DL2000PTC107412	क्रान्तिका एन्टरप्राइसीस कन्सेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5978	U72200DL2000PTC107421	वेब्लोम टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
5979	U33119DL2000PTC107440	ब्रधर्ज़ कम्बाइन प्राईवेट लिमिटेड
5980	U51311DL2000PTC107687	ओसिरिस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5981	U24239DL2000PTC107688	शाहनिया रेमेदीस प्राईवेट लिमिटेड
5982	U72200DL2000PTC107701	इशी सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5983	U72900DL2000PTC107704	अकॉर्ड इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5984	U99999DL2000PTC107723	गोल्डर अस्सोसिएट्स इंडिया लिमिटेड
5985	U26913DL2000PTC107729	इन्नोवेटिवे एंडीवौस प्राईवेट लिमिटेड
5986	U70101DL2000PTC107907	सर्पांट इत प्राईवेट लिमिटेड
5987	U54201DL2000PTC107950	चतुर भुज बोल्लडर्ज़ एण्ड कन्सलतन्ट्स प्रिवाटे लिमिटेड
5988	U72900DL2000PTC107951	सेन्नुम ट्रेवल्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
5989	U15549DL2000PTC107993	डायमन्ड ड्रिन्क प्राईवेट लिमिटेड
5990	U74140DL2000PTC108005	ब्रेकोर्प कन्सल्टिंग एण्ड स्ट्रैटजिस प्राईवेट लिमिटेड
5991	U51398DL2000PTC108075	हम्मर्ज़ एण्ड नैल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5992	U29199DL2000PTC108183	रेल टेक्नोलॉजीस एण्ड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5993	U72200DL2000PTC108236	एन्फो सॉफ़्टसिस प्राईवेट लिमिटेड
5994	U55101DL2000PTC108258	बीउटे एण्ड फ़रीन क्लब (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5995	U74210DL2000PTC108271	टेकमेकर.कोम प्राईवेट लिमिटेड
5996	U18101DL2000PTC108280	सैनी गार्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5997	U70101DL2000PTC108289	लाभ रील्टर्स एण्ड देवेलोपर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
5998	U92199DL2000PTC108455	औरा मुवी प्रोमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5999	U45201DL2000PTC108602	सुपर टेक्नोक्रेट्स एण्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6000	U00000DL2000PTC108650	जनरल गूड्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
6001	U32109DL2000PTC108669	प्रोगुआर्ड एलेक्ट्रॉनिक देविसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
6002	U00000DL2000PTC108826	सासास एन्जीन्यरींग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
6003	U72200DL2000PTC108882	नियोनाटे सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

टी. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144003, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. एसईएस-2005/560/27-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किया गया तो इन कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 25840	मैसर्स टी जी जी ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड
2. 10269	मैसर्स कैलाश पेपर मिल्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
3. 24793	मैसर्स नवौकेम हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
4. 14255	मैसर्स दादा ऑटो लिमिटेड
5. 17090	मैसर्स अलट्रा जैन्टल लैब प्राईवेट लिमिटेड
6. 27994	मैसर्स शर्मा वैब साईट्स प्राईवेट लिमिटेड
7. 28719	मैसर्स निज्ज़र ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

के. सी. मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल एण्ड चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. आर ओ सी/पैट/560(3)-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1. 4392	मैसर्स कपुत सेविंग्स एण्ड फाईनांस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2. 9958	मैसर्स एम्ब्रोसिया हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड

के. प्रसाद
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एण्ड झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोटा पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00259/61701/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोटा पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेन्गामाम्बा पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00300/61878/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेन्गामाम्बा पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वुन्नम पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00292/61756/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वुन्नम पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुमाडी पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00284/61750/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

36--36 GI/2008

सं. 00850/125078/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इलोक्वेन्ट सिसकॉन

सं. 00499/103385/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जे. आर. रियल्टी एण्ड

सं. 00642/134511/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

37---36 GI/2008

सं. 00195/125030/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00337/136311/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मं.ई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00308/101950/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनिल टूरर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बॉम्बे मिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00315/102295/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बॉम्बे मिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मंडई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00287/102605/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समर्पण होल्डिंग्स

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नस्वामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नाचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नाचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नाचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नाचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्नाचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

चिन्ताचामी एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

42—36 GI/2008

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

राजेन्द्र सिंह मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोकण इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00444/105921/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोकण इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजेन्द्र सिंह मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेसी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00091/061382/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेसी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजेन्द्र सिंह मीना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिग्नेचर ज्वैल वॉच प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 00339/101137/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिग्नेचर ज्वैल वॉच प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेर्गनर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 39/152344/560/11646--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेर्गनर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी की राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सर्वोयेर मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 300/16144/560/11647--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्वोयेर मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी की राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई है।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पुणे-4, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. आरओसीपी/560(3)/218-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

अ.क्र.	CIN No.	कंपनी का नाम
1	U51909PN2001PTC016426	गनैत एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U70101PN2001PTC016420	मोबासा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U72200PN2001PTC016466	स्क्राइबएक्सप्रेस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U30007PN2001PTC016460	गारगी आइसटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U45202PN2001PTC016360	संस्कृति कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U15136PN2001PTC016498	सम्राट नमकिन प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U51909PN2001PTC016488	स्वातंत्र्य नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U51909PN2001PTC016475	पी एस बी मार्केटिंग बिज़िनेस प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U72200PN2001PTC016489	विद्या इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U01119PN2001PTC016500	क्लासिक प्लास्टर अण्ड एग्री प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U24134PN2001PTC016443	ब्राइटस्टार पॉलिमर्स (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U51399PN2001PTC016481	होम नेट सेल्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U55101PN2001PTC016484	होटेल लक्ष्मण प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U51399PN2001PTC016478	स्टरलिंग नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U15331PN2001PTC016473	गोपेश एग्रीवेट प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U52110PN2001PTC016467	वर्ल्ड्स इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U72900PN2001PTC016463	कॉम्प्लोजिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U72200PN2001PTC016461	तन्वी इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U51909PN2001PTC016459	साइ मल्टी-लिक मार्केटिंग बिज़िनेस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U45202PN2001PTC016454	शिल्प-विकास कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U92111PN2001PTC016446	समिर प्रोडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U45202PN2001PTC016445	पृथ्वी शेल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U72200PN2001PTC016440	सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिज़िनेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U51909PN2001PTC016437	आफरिन ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U85199PN2001PTC016436	के सी लेजर अण्ड कॉस्मेटिक क्लिनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U72200PN2001PTC016431	मेडिकडोन.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U72200PN2001PTC016428	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U52110PN2001PTC016424	कागल मार्केटिंग अण्ड ट्रेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U72200PN2001PTC016415	इन्फोटेक कॉल सेंटर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U30007PN2001PTC016414	बिएमजे कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U70101PN2001PTC016407	महलसाकान्त रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U74210PN2001PTC016411	परसिअस इंजिनिअर्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U31506PN2001PTC016403	मैक्सटेक्नो (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U27109PN2001PTC016406	विश्वशक्ति स्टिल्स अण्ड अलाइज प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U22212PN2001PTC016409	केएसबी प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U24222PN2001PTC016405	कलर शाइन सॉल्वन्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U29299PN2001PTC016404	टिमवर्क मल्टिमैडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U72200PN2001PTC016394	सायबरएम सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U72200PN2001PTC016393	वरद इन्फॉर्मेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U72200PN2001PTC016254	व्युस्ता डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U51395PN2001PTC016540	पुणे कस्टमर्स नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U51909PN2001PTC016536	इविनेट ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U45202PN2001PTC016606	सईबाई कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U51909PN2001PTC016533	माउंटमेरु मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U51909PN2001PTC016532	अभिनव एंटीटेक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U72200PN2001PTC016526	हाई-क्यू इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U01119PN2001PTC016527	विकासरत्न एग्री. प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U51494PN2001PTC016542	श्री स्वामी समर्थ सेल्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U72200PN2001PTC016522	नक्शत्र इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U51909PN2001PTC016518	होपकिन्स इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U29299PN2001PTC016198	डायना एअर वेंटिलेशन सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U51909PN2001PTC016239	सिल्वरनेट मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U30067PN2001PTC016237	आर एन पिल्लै इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U25202PN2001PTC016231	के डी मैनुफैक्चरिंग अण्ड रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U51909PN2001PTC016243	या-हो-का ओटो ट्रैक मार्केटिंग अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

56	U15494PN2001PTC016227	श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग अण्ड एगो एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U72200PN2001PTC016214	लक्ष सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U51909PN2001PTC016209	संभाजी नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U51393PN2001PTC016208	स्टारलाइन फनिचर्स नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U24132PN2001PTC016195	कैम फ्लक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U15134PN2001PTC016196	संहार बाफना फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U51399PN2001PTC016190	डायनैमिक मल्टी-लिक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U30009PN2001PTC016189	फॉन्टेसी कूलटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U29299PN2001PTC016183	विडवेल इजिनिअरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U74950PN2001PTC016185	पारसनाथ पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U21015PN2001PTC016186	समर्थ पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U72300PN2001PTC016180	एस डी टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U72200PN2001PTC016172	अलिमिटस टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U72200PN2001PTC016163	विसीटेक सॉफ्टवेअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U85110PN2001PTC016338	मासूम चिल्ड्रेन हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U31909MH1991PTC063776	प्राजक्ता इलेक्ट्रिकल्स अण्ड इलेक्ट्रनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U51909PN2002PTC017042	नव चैतन्य विकास इन्स्टिट्यूट प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U51505PN2002PTC017043	मयूरेश कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U30007PN2002PTC017041	प्रतिभा ऑनलाइन कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U72200PN2002PTC017034	इन्फोसच कॉम्प्यूटर टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U51909PN2002PTC017032	ताहरिक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U15203PN2002PTC017028	रेविस डेअरी फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U01122PN2002PTC017030	काकडे पाटिल एगो. फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U51505PN2002PTC017026	झेड नेट एक्सपानशन ट्रेड सिस्टिम प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U85110PN2002PTC017022	पैन हॉस्पिटल अण्ड हेल्थ सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U74999PN2002PTC017018	मेफेअर सी अण्ड एफ सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U34300PN2002PTC017017	भावाथ ओटो पार्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U72200PN2002PTC017014	डी पी कॉम्प्यूटर एजुकेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U23201PN2002PTC017011	श्री चक्रधर पेट्रोकेमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U21012PN2002PTC016773	शिना पेपर प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U01212PN2002PTC016772	राठोड एगोटेक टेक्नोलॉजि अण्ड रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U51909PN2002PTC016763	वैनतेया सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
88	U74920PN2002PTC016759	त्रिदल सेफ सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U51909PN2002PTC016761	पिअर इपोर्ट एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U70101PN2002PTC016754	अभ्यंकर फडतरे डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U45202PN2002PTC016749	मूनस्केप कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U51909PN2002PTC016747	मूनस्केप एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U72200PN2002PTC016742	कलस्टार टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U45202PN2002PTC016729	योगेश बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
95	U51909PN2002PTC016727	अलिमाता मर्केन्डिज प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U51909PN2002PTC016725	सातव एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U70102PN2002PTC016720	संचेती डेव्हलपर्स अण्ड प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U29308PN2002PTC016722	झायर्गोसिस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U92132PN2002PTC016715	श्री विठ्ठल केबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U72200PN2002PTC016714	झिअस सॉफ्टवेअर अण्ड क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U51909PN2002PTC016717	दाले नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U51909PN2002PTC016713	स्वयं मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U92142PN2002PTC016703	अदाफ एन्टरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U72200PN2002PTC016708	शिवसाई इन्फोसिस प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U34300PN2002PTC016699	इयूरो ऑटो एक्सेसरिज प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U74950PN2002PTC016690	अहिल्या पैकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U45202PN2002PTC016691	शिवशान्ती कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U72200PN2002PTC016688	डिजिट्रिक्स इन्फोमेटिया प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U01213PN2002PTC016683	कैप्रिन एगो-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U31300PN2001PTC016166	संभाव केबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U64201PN2002PTC016769	क्यूसेरा टेलिनेट प्रायव्हेट लिमिटेड

112	U29309MH1995PTC094858	अक्षय प्रेसिकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
113	U36997MH1995PTC094875	रेबिट ब्रश मैनुफैक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U74300MH1995PTC094927	स्टालवर्ट एडव्हरटायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U55101MH1995PTC094939	होटेल रोशन प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U40101MH1996PTC096873	रुद्रम इमेज प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U55101MH1996PTC096508	डी जे आर होटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U85110MH1996PTC096443	बॉडी माइण्ड अण्ड सोल इंटरनैशनल हेल्थ रिसोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U28939MH1996PTC096448	अमदाले टूल इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
120	U51397MH1996PTC096385	आरशिया मेडि-मार्क कंसोर्टिअम प्रायव्हेट लिमिटेड
121	U51909MH1996PTC095982	वेल ट्रैक सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
122	U72200MH1995PTC095397	जॉइंट रिसर्च सिस्टिम्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
123	U15412MH1995PTC095542	मॉडर्न कंफक्शनरी प्रायव्हेट लिमिटेड
124	U27109MH1995PTC095357	पूना पंचगंगा स्टिल रिरोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
125	U45201MH1995PTC095254	ए व्ही मोहिते कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
126	U29309MH1995PTC095250	राजदिप ब्लोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
127	U36103MH1996PTC096398	प्लायमैक लैमिनेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
128	U29299MH1995PTC095712	नम्रता प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
129	U25202MH1996PTC096162	सैफलॉन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
130	U29294MH1995PTC095678	रोटरी प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
131	U01115MH1996PTC096603	श्रीलक्ष्मी सुगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
132	U51909MH1995PTC088787	यूरोनिका मार्केटिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
133	U72900MH1996PTC096845	ब्रुनेल बिज़िनेस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
134	U25209MH1996PTC095907	व्ही ए प्लास्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
135	U92132MH1995PTC095380	ए बी टेलिविज़न्स प्रायव्हेट लिमिटेड
136	U72200MH1995PTC094932	फेअरसिस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
137	U24246MH1996PTC095821	डिओ केमिकल्स अण्ड कॉस्मेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
138	U52909MH1996PTC095849	अगरवाल लॉटरी प्रायव्हेट लिमिटेड
139	U29299MH1995PTC095135	कालेली-रामतिर्थ कंसोर्टिअम प्रायव्हेट लिमिटेड
140	U31909MH1995PTC094701	क्रान्तिकॉन इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
141	U24239MH1995PTC094683	जोतिबा केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
142	U15499MH1991PTC061065	देवकुले फूड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
143	U15142MH1995PTC094883	श्री मालकरसिद ओइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
144	U17111MH1995PTC095055	त्रिभुति कॉटन प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
145	U02005MH1995PTC094695	टिम्बर अण्ड पैकेजिंग कन्सलटन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
146	U25209MH1989PTC054540	एलोक्वेन्ट पॉलिपॉन इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
147	U24299MH1992PTC065406	चिंतामनी फाइन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
148	U74999MH1989PTC054571	सुजान टनेकी कन्सलटन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
149	U29299MH1989PTC054811	वस्टन फोजे अण्ड इंजिनिअरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
150	U15136MH1990PTC055058	अहमदनगर स्पाइसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
151	U24232MH1990PTC054823	वाईसन फार्मासिटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
152	U31300MH1989PTC053059	नोवा वायर्स अण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
153	U15499MH1991PTC064670	गुरुदत्त फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
154	U45201MH1992PTC064685	ग्रेस डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
155	U19201MH1991PTC064660	डेल्टा फूट विअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
156	U65993MH1990PTC055622	पर्सपोलिस कैपिटल अण्ड असेट्स मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
157	U85110MH1990PTC055649	साई नर्सिंग होम प्रायव्हेट लिमिटेड
158	U45201MH1991PTC064611	थोरात हौसिंग डेव्हलपमेंट अण्ड को ऑप प्रायव्हेट लिमिटेड
159	U24229MH1991PTC064524	पैपिरस लिग्नोकेम प्रायव्हेट लिमिटेड
160	U01222MH1990PTC055876	सोनकर पोल्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड
161	U15491MH1991PTC064501	टेक्स ब्लोदिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
162	U51501MH1991PTC064046	काले मल्टिकेमिकल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
163	U74210PN2002PTC017544	आकृती आफिटेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
164	U29212MH1992PTC064994	डिजेंट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
165	U51909MH1992PTC064974	पायोमा मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
166	U15134MH1991PTC064255	किसमीस फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
167	U01122MH1989PTC053868	जरडेश्वर एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड

168	U01154MH1991PTC064513	शिवश्रृष्टी फलोद्यान प्रायव्हेट लिमिटेड
169	U51909MH1992PTC065068	पानब मार्केटिंग अण्ड एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
170	U74999MH1989PTC054163	ट्रिडेंट स्टोरेज एक्विपमेंट्स अण्ड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
171	U14103MH1989PTC054278	मेटा स्टोन प्रायव्हेट लिमिटेड
172	U74140MH1992PTC065257	एपटेक कन्सल्टन्ट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
173	U72909PN2000PTC015322	मेडिकोतंत्रा.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
174	U70101PN2000PTC015309	संतोरिनी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
175	U26959PN2000PTC015305	रायनो रूफिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
176	U72900PN2000PTC015284	एनशुअर कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
177	U63022MH1989PTC053282	शाम ठाडानी सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
178	U72200PN2001PTC016560	व्हीजी कॉम्प्युसाफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
179	U72200PN1999PTC014131	इंटरग्रेटीक्स सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
180	U55101PN2001PTC016561	खेडेकर वॉटर पार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
181	U16571PN2001PTC016571	आदेश पॉवर अल्कोहोल प्रायव्हेट लिमिटेड
182	U01222MH1988PTC048440	धवल पोल्ट्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
183	U72200PN1998PTC012999	गोल्डन आय सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
184	U72200PN2000PTC015328	रेडिअन्स सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
185	U72300PN1998PTC012995	विरसॉल (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
186	U26933MH1989PTC053928	मेकानो टाइल्स अण्ड अलाइड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
187	U20221PN1998PTC012992	व्यंकटेश भाउसाहेब मगदुम चव्हाण महाराज वूडन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
188	U85110MH1989PTC053779	चव्हाण हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
189	U01111PN1998PTC012978	वीर सास्वड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
190	U92199PN1998PTC012980	गुरु देव्हज पार्क-न-प्ले प्रायव्हेट लिमिटेड
191	U74999PN1998PTC012979	युनायटेड इंडस्ट्रीअल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
192	U72200PN2000PTC015298	मेडिस्क्राइब इन्फोरमैटीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
193	U29305MH1989PTC054502	सुमा-निशा होम अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
194	U51909PN2001PTC016573	शुभ डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
195	U21093MH1991PTC062927	ओटारी बोर्ड मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
196	U85110MH1989PTC054516	माया हॉस्पिटल अण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
197	U24111PN2001PTC016583	एलेक्स गैसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
198	U01222MH1989PTC054527	इस्ट वेस्ट फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
199	U28910MH1989PTC054652	मार्क फोर्ज प्रायव्हेट लिमिटेड
200	U24119MH1989PTC054739	अहमदनगर ल्यूक्स अण्ड केमिकल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
201	U51102PN2001PTC016585	निखील मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
202	U51909PN2001PTC016584	सिर्फ तुम ओमसाइ मार्केटिंग अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
203	U45202MH1990PTC054899	अक्षर प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
204	U45202PN2001PTC016590	जी एस लैण्डमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
205	U27310MH1990PTC055236	एंशुअर इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
206	U74999PN2001PTC016607	यशश्री मंगल कार्यालय प्रायव्हेट लिमिटेड
207	U51219PN2001PTC016613	मानसी मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
208	U01122MH1990PTC055111	आदशे फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
209	U31300MH1990PTC055100	टेलिकॉर्ड (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
210	U45202MH1990PTC054913	व्यापी प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
211	U51909PN2001PTC016616	विश्वपद्म मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
212	U45202MH1990PTC054912	सूची प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
213	U72200PN2001PTC016615	ऋषिकेश इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
214	U15520PN2001PTC016619	प्युरा ब्रेवरीज विनरीज अण्ड डिस्ट्रीलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
215	U45202MH1990PTC054910	नक्षत्र प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
216	U29307MH1991PTC061632	सोलार इलुमिनेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
217	U23209MH1991PTC061607	रियाझ इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
218	U29219MH1991PTC061556	सुजित इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
219	U29297MH1991PTC061637	एपिटोम हॉस्पिटल एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
220	U45201MH1991PTC061760	जिगर बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
221	U45201MH1991PTC061729	विश्वछाया कन्सल्टन्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
222	U01409MH1991PTC061703	राहरी एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड

223	U24222MH1990PTC057958	भूता केमिकल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
224	U29195MH1991PTC061980	गायत्री पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
225	U74140MH1991PTC061928	प्रोलीक कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
226	U31909MH1991PTC061870	कृष्णा मेकट्रॉनिक्स इन्वोल्वेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
227	U15209MH1995PTC094696	जगताप डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
228	U22190MH1989PTC050672	रिबेल पब्लिशिंग हाउस प्रायव्हेट लिमिटेड
229	U72200MH1988PTC048689	डब्ल्यू बी हायटेक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
230	U02221MH1988PTC047862	मुद्रा प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
231	U33126MH1989PTC050993	मैकवेल एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
232	U15142MH1991PTC061806	अमोल रिफायनरी प्रायव्हेट लिमिटेड
233	U21012MH1990PTC056407	सुभद्रा पेपर अण्ड बोर्ड मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
234	U17111MH1990PTC059229	विदीशा टेक्सटाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
235	U24114MH1990PTC056623	श्री माउनी केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
236	U72200PN2000PTC014633	शार्प ब्रेन वेबटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
237	U72200PN2000PTC014628	मैप्रो.कॉम कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
238	U72200PN2000PTC014626	अल्फा सॉफ्टवेयर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
239	U45201MH1988PTC049462	आर डी डीके बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
240	U63040MH1988PTC049147	ए के ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
241	U72200MH1988PTC049530	यूनीटेक मायक्रो कंपोनेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
242	U17111MH1991PTC061048	श्रीराम डाइज इंटरमैडिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
243	U29219MH1988PTC049016	पूना फार्म एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
244	U45200DL2006PTC156249	यशराज बिल्डकोंन प्रायव्हेट लिमिटेड
245	U72200PN2000PTC014622	सिक्स्टीडिगीज.कॉम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
246	U72200PN2000PTC014612	अस्त्र इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
247	U74140PN2000PTC014539	करके ब्रदर्स पैकेजिंग अण्ड फटिलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
248	U01134PN2000PTC014561	श्री महालक्ष्मी फूड्स अण्ड एगो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
249	U14556PN2000PTC014556	रिलायबल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
250	U45202PN2000PTC014571	कंचन अर्थमूवर्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
251	U15136PN2000PTC014575	निती गृह उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
252	U45202PN2000PTC014573	सौरभ पाटील बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
253	U51909PN2000PTC014576	सेल्फ (मार्केटिंग) प्रायव्हेट लिमिटेड
254	U40101PN2000PTC014584	महाराष्ट्र पॉवर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
255	U28111PN2000PTC014607	जनश्री एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
256	U60210PN2000PTC014610	अभिजीत टान्सपोर्ट (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
257	U01122MH1989PTC054351	व्यापी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
258	U29299MH1989PTC054289	ट्रिमीक्स इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
259	U72200PN1999PTC013900	सी क्वेस्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
260	U24231PN1999PTC013680	अश्विनीकुमार फार्मा वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
261	U27107PN2002PTC016904	गुजल स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड
262	U26960MH1991PTC060216	रेनूका ग्रेनाइट्स(इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
263	U28939MH1990PTC059443	अजिंक्या टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
264	U74999PN1999PTC013638	एम जे ओथो (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
265	U73100PN2000PTC014516	स्मार्ट एव्हिऑनिक्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
266	U74140PN2000PTC014520	इफसीम कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
267	U72200PN2000PTC014530	स्वर-सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
268	U01122MH1989PTC054353	वसन्त फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
269	U11102MH1991PTC060504	अल्ट्रावर ल्यूब्स मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
270	U29299MH1989PTC054051	देशपांडे मशिन फैब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
271	U17119MH1989PTC054190	शितल गारमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
272	U40108PN2000PTC014577	चालुक्यनाथ विड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड
273	U24119MH1989PTC054180	अनिलीनो केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
274	U55101MH1989PTC054245	अजिंक्यतारा हायवे मोटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
275	U51909MH1989PTC054261	कामदार रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
276	U29305MH1991PTC060020	कॉन्ट्रानिक इंटरनेशनल प्रायव्हेट लिमिटेड
277	U14102MH1991PTC060033	ओपल ग्रेनाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
278	U72900PN1999PTC014295	डिजीटल स्पाइस स्टुडिओज प्रायव्हेट लिमिटेड

279	U15203PN1999PTC013470	श्री हनुमान मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
280	U25202PN1999PTC013459	श्री महालक्ष्मी कोरुगेटेड प्रायव्हेट लिमिटेड
281	U85199PN2000PTC014833	व्हिजनकेअर अण्ड कॉसमेटिक लजर सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
282	U72200PN1999PTC014260	आइजवाइज इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड
283	U29199PN2000PTC014861	केमीक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
284	U74140PN2000PTC014855	बी असोसिएट्स कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
285	U14854PN2000PTC014854	सीआरएम ट्रेडिंग अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
286	U29263PN2000PTC014853	डिजीटेक ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
287	U72200PN2000PTC014848	प्रथम इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
288	U24232PN2000PTC014847	सिंथाइ केमिकल्स अण्ड हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
289	U17111PN2000PTC014849	पूना टेक्सटाइल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
290	U64100PN2000PTC014814	किशोर कानडे स्कायवेज प्रायव्हेट लिमिटेड
291	U72200PN2000PTC014638	मेडियानेट आयटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
292	U72200PN2000PTC014644	स्पायडरटेक सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
293	U15311PN2000PTC014659	चाकन फ्लोअर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
294	U72200PN2000PTC014651	न्यूरोन सॉफ्टवेअर सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड
295	U72200PN2000PTC014654	शिवा टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
296	U52393PN1999PTC013650	वेस्टर्न गोल्डस्मिथ (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
297	U15543PN1999PTC013665	श्री वैकटेश बॉटलिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
298	U74140PN1999PTC013676	जोगलेकर कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
299	U51495PN2000PTC014470	धनश्री मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
300	U22211PN1999PTC013658	नयनमनोहर ऑफसेट प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
301	U74999PN2000PTC014478	इफ्लोरसेंस व्होग्यु इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
302	U63022PN1999PTC013668	जितराज एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
303	U72200PN2001PTC016390	सम्यक मेडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
304	U72200PN2000PTC014491	मार्कशीट ऑनलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड
305	U01122MH1989PTC052983	पलाना एगोफोरेस्ट्री डेव्हलपमेंट अण्ड अलाइड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
306	U45202MH1989PTC052960	लैको कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
307	U72200PN2001PTC016373	व्हाइससॉफ्ट ट्रांसक्राइबर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
308	U74994PN2001PTC016345	तेज डैकॉर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
309	U72200PN2001PTC016382	इन्फोर्माजीक टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
310	U45201MH1989PTC052441	भिमानंद कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
311	U61909PN2001PTC016374	डिमवे मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
312	U01122PN2001PTC016370	श्री संत यादवबाबा एगो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
313	U29307PN2001PTC016369	सनराइज एनर्जी एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
314	U24299MH1989PTC052869	कोलवन जेल लेबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
315	U51909MH1989PTC052948	ओमकार एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
316	U29299MH1989PTC052924	स्पेम इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
317	U22110PN2001PTC016351	सप्तगिरी पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
318	U72200PN2001PTC016363	ओपल सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
319	U51909MH1989PTC052976	पेसक इंडस्ट्रीअल प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
320	U45209MH1989PTC052958	सोनी ऑडिटोरिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
321	U51909MH1989PTC053006	पूना फार्म्स इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
322	U01229MH1989PTC053031	पूना वूल अण्ड पेल्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
323	U52190MH1989PTC052447	जिवन मित्रे वास्तु भंडार प्रायव्हेट लिमिटेड
324	U24304MH1989PLC053634	ऑरटन सिन्थेटिक्स अण्ड रिअल्टीज लिमिटेड
325	U15499MH1989PTC052522	मेफेअर फूड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
326	U45202MH1989PTC053612	हर्षल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
327	U24239MH1989PTC052486	ऋषिकेश एनकेम प्रायव्हेट लिमिटेड
328	U45201MH1988PTC048047	फडके कन्सल्टन्ट्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
329	U31901PN2002PTC016949	बाबा इक्वालाइट इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
330	U13100PN2002PTC016946	पंडितराव माइन्स अण्ड मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
331	U34300PN2002PTC016953	अमित ऑटोलाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
332	U31909PN2002PTC016948	युनीक इलेक्ट्रोटैक प्रायव्हेट लिमिटेड
333	U01122PN2002PTC016947	प्रेसिजन ऑर्गेनिक एगो प्रायव्हेट लिमिटेड
334	U51909PN2002PTC016943	जय लोकशक्ती डिस्ट्रिब्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड

335	U34300PN2002PTC016941	रे-वन ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
336	U51909PN2002PTC016931	जस जॉय नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
337	U15204PN2002PTC016928	नंदन डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
338	U51399PN2002PTC016939	कल्पना गैस अप्लायन्सेस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
339	U51909PN2002PTC016934	सुंदर नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
340	U36991PN2002PTC016935	श्री साई कॉम्प्यू-फॉर्मस प्रायव्हेट लिमिटेड
341	U72200PN2002PTC016929	एम-ग्रोथ एफ एक्स नेट प्रायव्हेट लिमिटेड
342	U26923PN2002PTC016926	शिवकृपा स्टीन वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
343	U51909PN2002PTC016915	योगेश सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
344	U70102PN2002PTC016907	क्रिस्टल हैबिटाट प्रायव्हेट लिमिटेड
345	U51505PN2002PTC016908	सिंगबल मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
346	U64201PN2002PTC017407	टेलिपैथी कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
347	U29299PN2002PTC017454	आकियो इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
348	U45202MH1990PTC054914	वसंत प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
349	U31200PN2001PTC015982	लोटस कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
350	U45201PN2001PTC015976	निवास बिल्डिंग्स अण्ड लैण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
351	U74920PN2001PTC015963	कमांडो सेक्युरिटी फोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
352	U72200PN2001PTC015960	अकाशिया कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
353	U72900PN2001PTC015952	नॉमीक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
354	U51909PN2001PTC015955	रानवीनो मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
355	U45201PN2001PTC015954	ग्रेण्डयुअर कन्सल्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
356	U31404PN2001PTC015953	आरीअन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
357	U72900PN2001PTC015950	मैट्रीक्स वेबटेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
358	U55204PN2001PTC015951	गुरूकृपा कैटरर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
359	U72200PN2000PTC015654	वसेंटाइल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
360	U25209MH1989PTC053033	पूना प्लास्टो पंक प्रायव्हेट लिमिटेड
361	U15209MH1989PTC052334	गोकुल मिल्क्स प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
362	U40168PN2001PTC016187	सुफलाम विंड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
363	U72200PN2001PTC016557	कंसल्ट इन्वोल्वेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
364	U51399PN2001PTC016552	यशराज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
365	U51909PN2001PTC016550	संदेश नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
366	U45202PN2001PTC016545	केजीपी कन्सल्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
367	U22122MH1996PTC097302	सुर्यान कॉम्प्यूटर प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
368	U29120MH1983PTC031581	इकोलाइन डेव्हलपमेंट इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
369	U65999MH1996PTC096562	रोहीत फिस्कल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
370	U74999MH1996PTC096992	हीट एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
371	U18209MH1983PTC031357	पार्वती लेदर अण्ड अलाइड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
372	U25199MH1983PTC031454	युनिवर्सल इरेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
373	U15421MH1984PTC032877	चोकशी शुगर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
374	U70109MH1996PTC096559	जिलानी प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
375	U45201PN2000PTC014921	मेघा लैण्ड इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
376	U70102PN1999PTC014278	थोरात डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
377	U74999PN2000PTC014603	रजनी इमपोर्ट एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
378	U24116PN2002PTC017296	इंडस कृषि ऑर्गेनिक्स अण्ड पेट्रोलिअम लिमिटेड
379	U72200PN2002PTC017182	एन्टीक्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
380	U51103PN2002PTC016844	एंटकॉन एग्री-टेक इमपोर्ट एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
381	U74999PN1999PTC013710	अल्फा सॉल्यूशन्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
382	U64201PN2000PTC015419	अलायन्स टेलिसॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
383	U51497PN2000PTC015150	सिध्दी फटिलाइजर मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
384	U28999MH1989PTC050636	विश्वजीत इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
385	U29299MH1989PTC053913	डाटा-रिप्रोग्राफिक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
386	U31909MH1990PTC057178	प्रसन्ना ऐअर कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
387	U51909PN2002PTC017061	युनिटी रीफरल मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
388	U34300MH1990PTC056849	समसा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
389	U24129MH1990PTC057556	मंगलमूर्ती फ्ल्यूइड अण्ड फटिलाइजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
390	U24119MH1990PTC056936	स्कैंड ऑर्गेनोकेम प्रायव्हेट लिमिटेड

391	U30007PN2002PTC017090	मल्टीडायमेशनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्यूटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
392	U31909MH1990PTC057065	सरकीट इमेज क्रिएटर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
393	U15549PN2002PTC017091	पी अण्ड जी बॉटलिंग अण्ड बेव्हेरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
394	U31909MH1989PTC053950	लेबइंडिया इंजिनिअर प्रायव्हेट लिमिटेड
395	U72200PN1999PTC013853	क्लैरीऑन सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
396	U24119MH1990PTC058080	प्ररुगो केमी प्रायव्हेट लिमिटेड
397	U24299MH1995PTC094436	क्लोरोल कैमिकल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
398	U51909MH1995PTC094375	अक्मे ट्रेड अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
399	U11220MH1995PTC094364	वनराई ऑरचर्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
400	U17119MH1995PTC094300	सावी कॉन्फेक्स् प्रायव्हेट लिमिटेड
401	U21029MH1990PTC057189	आकांक्षा पैकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
402	U99999MH1989PTC051460	प्रसून फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
403	U27105MH1990PTC057216	कमा इंजिनिअरिंग अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
404	U24232MH1990PTC056917	मॉर्ज एक्सपोर्ट्स अण्ड फार्मासिटीकल्स मैनुफ्याक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
405	U72200PN2000PTC015543	कागो डोमेन प्रायव्हेट लिमिटेड
406	U72900PN2000PTC015526	जेनीटेक्स कॉम्प्यूटर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
407	U33112PN2002PTC016676	मैक्सवर्थ सजिम्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
408	U72200PN2002PTC016666	सकोन वायरलेस इंटीग्रेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
409	U74999PN2002PTC016646	मैट्रीक्स इन्टेलेजिन्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
410	U55101PN2000PTC015565	सानप होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
411	U29191PN2000PTC015596	एस डी मल्टिपल कोल्ड स्टोरेज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
412	U72200PN2000PTC015604	मॉन्टेज सॉफ्टवेअर क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
413	U72200PN2000PTC015608	टोटै इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
414	U72900PN2000PTC015609	व्हाय नॉट व्हर्चुअल.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
415	U72200PN2000PTC015611	क्यूब टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
416	U18109PN1999PTC013699	सोलफैब एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
417	U24247PN1999PTC013711	विखे इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
418	U27310MH1998PTC112822	सारथी टेक्नोक्रेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
419	U31909MH1998PTC112825	सर्वायर फेअर टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
420	U74999PN1998PTC012703	सोवीट्रो ट्रेडिंग अण्ड सर्विसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
421	U29197PN1999PTC013808	सेफ वॉटर टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
422	U29297MH1989PTC054685	केमोटेक एक्विपमेंट्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
423	U15311PN1999PTC013795	कवर अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
424	U15134PN2001PTC016348	मदर्स टच फार्मासिटीकल्स अण्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
425	U51909PN1999PTC013780	एस मोल्ड्स अण्ड डाइज प्रायव्हेट लिमिटेड
426	U55101MH1995PTC094254	डैड्रेल होटल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
427	U15201PN1999PTC013779	न्यूट्री फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
428	U32104MH1989PTC052531	पेन्टा सरफिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
429	U28999MH1988PTC050089	ऑलिम्पिया इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
430	U55101MH1988PTC050170	सूरसागर होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
431	U29302MH1989PTC054520	ब्ल्यू फ्लेम एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
432	U24249MH1989PTC052680	शिल्ड इन्सुलेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
433	U67120MH1992PTC065361	ग्लोरीअस शेअर्स अण्ड स्टॉक प्रायव्हेट लिमिटेड
434	U01409PN1998PTC012938	चिनाय फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
435	U29299PN2000PTC015580	सरटेक एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
436	U52110PN2000PTC015566	सहस्रजून मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
437	U45202MH1990PTC055127	एडेन प्रॉपरटिज अण्ड इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
438	U72200PN2000PTC014836	मिरकल सॉफ्टवेअर डिजाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
439	U28999PN2000PTC014838	एस डी एस इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
440	U51500MH1991PTC061923	ग्रेसवेल इरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
441	U72200PN2000PTC015585	ज्ञान इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
442	U92141PN2000PLC015331	हारमनी क्रिएशन्स लिमिटेड
443	U51909MH1991PTC061743	क्लेक्स रेडिएटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
444	U15203PN1998PTC012942	भिमा मिल्क इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
445	U51909MH1988PTC048713	बारर मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
446	U74300MH1990PTC057229	परसोडर्स एडव्हर्टायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

447	U33130MH1988PTC049732	आरेस कटोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
448	U24246MH1988PTC049039	श्री मोधेश्वरी निऑल्स अण्ड अलाइड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
449	U72900PN2000PTC015341	बैंकतारन.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
450	U74300PN2002PTC017092	ओमकार मेडिया सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
451	U52110PN2002PTC017159	समृद्धी व्होलसेलर प्रायव्हेट लिमिटेड
452	U55103PN2000PTC015391	हेलिओज रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
453	U33112PN2000PTC015370	धनवंतरी सजिकल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
454	U29305PN2000PTC015377	सी एन आय कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
455	U92112PN2000PTC015364	श्रीरंग डिस्ट्रीब्यूटर्स अण्ड एक्विपमीटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
456	U72200PN2000PTC015365	प्राइम इन्फोसॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
457	U28920PN2002PTC017285	मेप्रोटेक कोटिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
458	U24239PN2002PTC017257	मुन्मयी हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड
459	U45203PN2002PTC017235	एमकोइ इन्फ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
460	U24241PN2002PTC017213	श्रीनिवास डिटरजेन्ट्स अण्ड अलाइड केमिकल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
461	U51397PN2002PTC017193	वेतरन बायो-सेक्युरिटी टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
462	U40200MH1995PTC095209	शुभ-लक्ष्मी गैसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
463	U01122MH1995PTC095079	यश प्लोरिटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
464	U74999MH1996PTC096161	एम-कॉन इंजिनिअरिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
465	U25209MH1996PTC096810	पिमीअर एक्सट्रूजन प्रायव्हेट लिमिटेड
466	U55101MH1996PTC096743	बिरामानेस नटराज होटल प्रायव्हेट लिमिटेड
467	U72900MH1996PTC096619	राधा मोटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
468	U70101MH1996PTC097023	ओमकार इरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
469	U21012MH1996PTC097398	वाईकर पेपर्स अण्ड अलाइड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
470	U51909MH1996PTC097208	विश्वदीप ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
471	U51909PN1999PTC014075	स्पाके ऑटोमोटीव्ह सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
472	U70101MH1990PTC058503	बाबजी डेव्हलपर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
473	U29305MH1990PTC058421	टेको होम अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
474	U45309MH1990PTC058391	चर्चीक डील्लन्स इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
475	U24232MH1990PTC058796	एलीसा केमलैव प्रायव्हेट लिमिटेड
476	U72200PN2002PTC017164	प्रोलेशन टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
477	U14102MH1988PTC048190	मूदेश ग्रेनाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
478	U17119MH1988PTC048547	फूडीपल्ले टेक्सटाइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
479	U19202MH1988PTC049317	श्रेयश फूटविअर प्रायव्हेट लिमिटेड
480	U31200MH1988PTC049068	सेंटर्न इलेक्ट्रीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
481	U55101MH1991PTC061949	पैपीलॉन होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
482	U45201MH1991PTC061557	सिटी डेवेलिपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
483	U19116MH1990PTC057749	डिलीजेंट टैन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
484	U24231MH1988PTC048420	ईकॉन फ्ल्यूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
485	U14102MH1988PTC048189	कथरे ग्रेनाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
486	U74130MH1990PTC058592	छाडा मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
487	U74140MH1990PTC058362	अन्ना मैनेजमेंट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
488	U51909MH1990PTC058591	सिल्केन फैशन प्रायव्हेट लिमिटेड
489	U74999PN2001PTC016287	लॉड्स नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
490	U24139PN2001PTC016299	जेडीपी लाइफ सायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
491	U51219PN2001PTC016297	ग्राहक मीत्रा सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
492	U72200PN2001PTC016316	ट्यूटीक्स इन्फोरमैटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
493	U15499MH1990PTC058234	प्रवरा एग्री इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
494	U28920MH1990PTC059330	भूजबल इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
495	U74920MH1990PTC059332	यूलीक्स एडव्हरटायजिंग अण्ड अलाइड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
496	U29299MH1990PTC058795	बीएम एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
497	U45202MH1990PTC059127	फाइन-वेज कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
498	U29119MH1990PTC059168	श्रद्धा ऑरगेनिकस प्रायव्हेट लिमिटेड
499	U01222MH1990PTC059134	रूपभवानी पोल्ट्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
500	U25209MH1990PTC059250	वीयाल पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
501	U15142MH1990PTC059286	बारामती सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रैक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

502	U63090MH1990PTC058973	नवरत्न रोडलाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
503	U26104MH1990PTC058999	सोलन्की बोटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
504	U28113MH1990PTC059045	परफेक्ट बिल्डींग प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
505	U55101MH1990PTC059115	होटेल प्रभाकर प्रायव्हेट लिमिटेड
506	U24119MH1990PTC059135	न्यूमेन्स केमी प्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
507	U25202MH1990PTC059118	गुलाब पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
508	U28994MH1990PTC058646	दिपाली मेटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
509	U22219MH1990PTC058722	पैसिफीक लेबलिंग अण्ड प्रिंटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
510	U51219MH1990PTC058778	पार फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
511	U25199MH1990PTC058275	मोतीजुग रबर प्रायव्हेट लिमिटेड
512	U27104MH1990PTC058314	योगेश इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड
513	U51219PN2001PTC016298	मयक्का होम प्रोडक्ट्स (इं) प्रायव्हेट लिमिटेड
514	U24249PN2001PTC016255	केवरा हबल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
515	U55101PN2001PTC016327	मौय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट्स लखनवी चाट प्रायव्हेट लिमिटेड
516	U74999PN2001PTC016329	एस अण्ड एस पाटील कमर्शियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
517	U01122PN2001PTC016268	हिरेमठ एग्री इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
518	U55101MH1990PTC058166	अश्वमेध होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
519	U72200PN2001PTC016280	वेबोपैक अप्लीकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
520	U72200PN2001PTC016325	ग्लेन्डा टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
521	U15499MH1984PTC032458	महाराष्ट्र फूड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
522	U31909MH1983PTC031563	वारना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
523	U24129MH1982PTC026719	रत्नदीप फर्टिलाइजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
524	U29211MH1982PTC027126	बी आय पी एग्री इम्प्लिमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
525	U92120MH1984PTC034453	सर्वो कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
526	U32109MH1984PTC033946	कोल्हापुर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
527	U55101MH1982PTC027309	पंचगनी रिसोर्ट होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
528	U27207MH1982PTC028663	अवधूत प्लास्टिक्स अण्ड इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
529	U21093MH1982PTC028516	माधुरी पेपर अण्ड बोर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
530	U17121MH1982PTC026693	करवीर सज्जिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
531	U55101MH1983PTC030863	देवीज होटेल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
532	U45201MH1984PTC034945	सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्ट्स अण्ड प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
533	U24231MH1984PTC034290	एमिनेट फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
534	U55101MH1991PTC062731	परदर मोटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
535	U15142MH1991PTC062777	झिंगाडे ऑइल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
536	U26102MH1991PTC062272	अमेया मेटाकोट प्रायव्हेट लिमिटेड
537	U29195MH1991PTC062353	सोमन पैकेजिंग अण्ड ट्यूब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
538	U45201MH1991PTC062351	पूजा अंकर असोसिएट्स प्रमोटर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
539	U74140MH1991PTC062377	देशकूल कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
540	U15133MH1991PTC062402	सिना एग्री प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
541	U29213MH1991PTC062415	गणपती फोज प्रायव्हेट लिमिटेड
542	U45201MH1991PTC062408	शिबीन बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
543	U72200PN2001PTC016273	आय टी ब्रेन बैंक प्रायव्हेट लिमिटेड
544	U74999PN2001PTC016272	पाइण्ड गैस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
545	U01114PN2001PTC016276	अर्थ एरोमैटिक प्रायव्हेट लिमिटेड
546	U51397PN2001PTC016281	लाइफ केअर सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
547	U55101PN2001PTC016285	पुष्पा होटल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
548	U67200PN2001PTC016283	रोबुस्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
549	U63040PN2001PTC016633	गौरी पर्यटन प्रायव्हेट लिमिटेड
550	U17299MH1998PTC114579	रामचंद निटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
551	U29299MH1998PTC114560	ब्राइट फिनिशींग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
552	U51109MH1998PTC114441	पंचवटी मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
553	U25209MH1998PTC114429	लकी स्टार पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
554	U34102MH1998PTC114383	नटराज वैहिकल्स अण्ड ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
555	U01214MH1998PTC114391	यशवंत स्टड अण्ड एग्रीकल्चरल फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
556	U92141MH1998PTC114349	निपा ट्रेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
557	U63040MH1998PTC114252	स्टारलीक टूर्स अण्ड ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

558	U15412MH1998PTC114221	क्लासीक न्यूट्रिएन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
559	U01222MH1998PTC114208	हैप्पी होम बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
560	U63040MH1998PTC114128	वेदान्त टूल्स अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
561	U55101MH1998PTC114112	साईद्वार रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
562	U15543MH1998PTC114050	संजिवन मिनरल वाटर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
563	U51101PN2000PTC014930	ग्लोमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
564	U72200PN2000PTC014908	ए एम सी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
565	U51102PN2000PTC014903	असोसिएटेड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
566	U72200PN2000PTC014893	सपनाबाजार.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
567	U63040PN2000PTC014883	इंडोलीक टूल्स अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
568	U72200PN2000PTC014862	निमिती सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
569	U24231PN1999PTC014123	सन-एन-गोल्ड फार्मासिटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
570	U74999PN2001PTC016328	सिटी सर्विस नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
571	U15544MH1991PTC062444	निरंजन आइस इंडस्ट्रिज अण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड
572	U29219MH1991PTC062378	संजय टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
573	U34201MH1991PTC062735	इंद्रदीप कोच बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
574	U74140MH1991PTC062611	नंदकैट मैनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
575	U17219MH1991PTC062547	क्रांती टेक्सटाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
576	U65993PN1999PTC014192	एपेक्स फिनमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
577	U70101PN1999PTC014198	स्टार रिएल्टेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
578	U15143PN1999PTC014201	ज्ञानेश्वर ऑइल मिल प्रायव्हेट लिमिटेड
579	U72200PN1999PTC014207	कवच कूडल मार्केटिंग अण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
580	U22121PN1999PTC014196	मलयाल सव्दम प्रायव्हेट लिमिटेड
581	U85199PN1999PTC014158	ऑस्टीन हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड
582	U74140PN1999PTC014156	रघुवंश इंडस्ट्रीअल अण्ड टेक्निकल कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
583	U74999PN1999PTC014276	बिटिफीक कमर्शियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
584	U74140PN2001PTC015872	निओ एलिविज़र सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
585	U72900PN2001PTC015827	विजिओटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
586	U51909PN2001PTC015819	कोहीनूर मरकेन्टाइल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
587	U72900PN2001PTC015844	नरेन्द्र मेडी स्क्राइब प्रायव्हेट लिमिटेड
588	U74994PN2001PTC015843	समिहन इन्टेरिअर्स अण्ड आर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
589	U51909PN2001PTC015856	हॉरिज़ॉन मार्केटिंग कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
590	U72200PN2001PTC015830	कैड इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
591	U25199MH1991PTC062432	मल्हार रबर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
592	U74999MH1985PTC035342	संजिवन सेल्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
593	U52322MH1982PTC027159	रजनीश गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
594	U31102MH1982PTC028393	स्टैनरो इंजिनिअरिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
595	U70101MH1982PTC027265	साकार बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
596	U15421MH1984PTC033736	बी यू भंडारा शुगर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
597	U51909MH1984PTC032810	जामखेड ट्रेडिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
598	U15135PN2001PTC015841	वरद फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
599	U51431PN2001PTC015840	महाराष्ट्र टिंबर ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
600	U27106PN2001PTC015846	मल्हार मेटल फिनीशेस प्रायव्हेट लिमिटेड
601	U51395PN2001PTC015842	बेगावाला ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
602	U51909PN2001PTC015834	श्री वेंकटेश मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
603	U72200PN2001PTC015860	त्रिवेचर टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
604	U72200PN2001PTC015927	क्लोसीस टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
605	U74999PN2001PTC015907	स्पेक्ट्रम एक्सपोज़िशनस अण्ड इवेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
606	U15424PN1999PTC014211	श्रीमौली शुगरS अण्ड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
607	U01122MH1998PTC114634	काले एगो हायटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
608	U51909MH1998PTC114153	विनवे शॉपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
609	U29299MH1998PTC114084	अगाते स्पेशालिटी प्रॉडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
610	U72200PN2000PTC015138	केपीआरडी कन्सल्टन्सी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
611	U72200PN2000PTC015234	नेट डिजिटल कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
612	U34300PN2000PTC015249	टेकनोराम टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
613	U40109PN2000PTC015242	रुद्रा एनर्जी सेवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

614	U51909PN2000PTC015225	आडीश्री मार्केटिंग अण्ड रिटेल सेल्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
615	U72200PN2000PTC015230	विशा इन्फोवे प्रायव्हेट लिमिटेड
616	U72200PN2000PTC015264	सॉफ्टवेयर सिगल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
617	U45202PN2000PTC015168	नेहा कॉन्टैक्ट्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
618	U72200PN2000PTC015191	सन-2000 ऑन लाइन प्रायव्हेट लिमिटेड
619	U70101PN2000PTC015197	सेप्स रिअल्टी अण्ड ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
620	U17214PN2000PTC015217	पफटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
621	U74999PN2000PTC015226	साइन ओ टाइम्स फैशन प्रायव्हेट लिमिटेड
622	U24231PN2000PTC015224	धनवंतरी फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
623	U92141PN2000PTC015120	इंडम्यूज़िक.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
624	U72200PN2000PTC015085	मेडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
625	U72999PN2000PTC014999	साई राम इन्फोसीस नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
626	U72900PN2000PTC014996	आयकेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
627	U63022PN2000PTC014989	चिंतामणी इन्फ्रास्ट्रक्चर अण्ड एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
628	U22122PN2000PTC014982	आदीत्य पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
629	U15203PN1998PTC012897	श्री गुरुदत्त मिल्क अण्ड एगो प्रायव्हेट लिमिटेड
630	U28999MH1985PTC036102	एन्टेलोप वेल्ड-एंड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
631	U29307MH1985PTC035532	सन-दीप एनर्जी एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
632	U31101MH1982PTC026807	टेनसन डीजेल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
633	U74210MH1985PTC035946	दस्प इलेक्ट्रोप्लेटर्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
634	U29306MH1995PTC085974	लक्षित आइसकॉन टेक्निक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
635	U55101PN2000PTC015076	द लेशअर होटेल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
636	U74999PN2001PTC015907	स्पेक्ट्रम एक्सपोज़िशन अण्ड इवेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
637	U45202MH1985PTC035031	योजना कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
638	U24134MH1978PTC020564	पूष्पांजली पॉलिमर इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
639	U63090MH1990PTC058973	नवरत्न रोडलाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
640	U70200MH1996PTC096812	लमइसन रिएल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड
641	U70109MH1985PTC036415	सातारा स्ट्रक्चरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
642	U28910MH1983PTC029095	कोटीभास्कर फार्जिंग्स अण्ड प्रेसींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
643	U73100MH1985PTC035331	सरस्वती रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
644	U73100MH1985PTC035330	गंगा रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
645	U55101MH1983PTC030961	कल्पक होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
646	U70701PN1998PTC012798	ओम शांती डेव्हलपर्स अण्ड रीअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
647	U25201PN1998PTC012792	नूमेरो पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
648	U15201PN1998PTC012766	ज्ञानदा डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
649	U51909PN1999PTC013434	सन-टेक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
650	U29299MH1983PTC029863	कैम्स इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
651	U29299MH1984PTC034454	शिमा-टेक्स्ट एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
652	U40109MH1983PTC030889	शिरपुर ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
653	U45201MH1985PTC036522	प्रसाद मेटल फॉर्मर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
654	U74210MH1985PTC036361	योजना इंजिनिअर्स अण्ड फैब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
655	U31909MH1985PTC036922	राजदीप मैग्नेटीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
656	U63022PN1999PTC013381	महाराष्ट्र आइस इंडस्ट्रिज अण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड
657	U74999MH1982PTC028325	कल्पक इंटेरीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
658	U27320MH1982PTC028563	दिवीजय अलॉयज अण्ड एक्सट्रूजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
659	U27203MH1982PTC028099	सोना एल्युमिनीअम फिनीशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
660	U45201MH1985PTC036412	रविंद्र जोशी कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
661	U31909MH1985PTC037085	श्रीनीक्स इनस्ट्रूमेंट इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
662	U29305MH1996PTC096173	ऐसल टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
663	U01111MH1983PTC030606	व्यास एगीकल्चरल अण्ड डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
664	U29299MH1983PTC031688	तियारा इंडस्ट्रीअल प्रेसइंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
665	U34101MH1984PTC031761	प्रवरा मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
666	U19201MH1985PTC036542	साठे दामले लेदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
667	U31909MH1984PTC032285	आनंदेल इलेक्ट्रो केम प्रायव्हेट लिमिटेड
668	U45202PN2000PTC015184	कपिल ट्रेड्स अण्ड कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
669	U74210MH1985PTC036349	रेकार इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

670	U51909PN1999PTC014019	वर्थ इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
671	U91990MH1995PTC086035	पूना टेनरीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
672	U24232MH1984PTC033164	अखनील फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
673	U92411MH1990PTC059034	रिट्रीट रिहैबिलिटेशन अण्ड फिटनेस सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
674	U26912MH1985PTC036840	पूना फेरीक्रेट प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
675	U74300MH1985PTC035885	एम्स एडव्हाइजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
676	U28939MH1985PTC036883	डू ग्रीट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
677	U74999MH1983PTC029742	जसवीन कन्सल्टन्ट्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
678	U70102PN2000PTC014396	विशारद डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
679	U45202PN2000PTC014403	साईकृपा कन्सल्टेशन अण्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रत्नागिरी) प्रायव्हेट लिमिटेड
680	U55101PN2000PTC014408	सेलिब्रीटी होल्स रिसोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
681	U60210PN1999PTC013303	जे के कॅरीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
682	U74999PN2000PTC014439	ए टी आर पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
683	U72200PN1999PTC013302	हॉरीझॉन सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
684	U45209PN2000PTC014418	इशान एग्री कन्सल्टेशन (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
685	U01211PN1999PTC013307	कपिला कैटल फीड प्रायव्हेट लिमिटेड
686	U92113MH1985PTC035757	कंसोलिडेटेड विडीओज प्रायव्हेट लिमिटेड
687	U22190MH1998PTC114640	दैनिक प्रीतिसंगम प्रिंटर्स अण्ड पब्लिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
688	U51909PN1999PTC013327	व्ही आर एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
689	U92111PN1999PTC013358	श्रीनाथ सीने प्रायव्हेट लिमिटेड
690	U25191PN1999PTC013455	डी एम पी पाइप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
691	U45202PN1999PTC013368	आरचीज बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
692	U72200PN1999PTC013379	युनीक सायबर प्रायव्हेट लिमिटेड
693	U72200PN1999PTC013382	अरुण टेक्नोकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
694	U15203PN1999PTC013391	सरस्वती डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
695	U24219PN1999PTC013373	गीन ग्रोथ केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
696	U74140PN1999PTC013393	दातार टेक्निकल कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
697	U91990PN1999PTC013427	ली क्लब लैण्डमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
698	U29299PN1999PTC013438	एमिशन कंट्रोल सिस्टिम्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
699	U31909PN1999PTC013437	क्यूटेक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
700	U51909PN1998PTC012802	आइफर मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
701	U15061PN2000PTC015061	वस्टने महाराष्ट्र ब्रेवरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
702	U28992MH1985PTC034969	नूतन पॅक सेफ सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
703	U73100MH1985PTC035333	ओम रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
704	U63023MH1983PTC029158	ओव्हल वअरहौसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
705	U70200MH1982PTC026721	प्रेमचंद रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
706	U26959MH1985PTC036163	मूढोल सिमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
707	U24222MH1983PTC029116	बीना पेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
708	U24119MH1983PTC030950	केमल्स केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
709	U25209MH1985PTC035783	एम जी प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
710	U26921MH1983PTC031324	सुरेश ब्रिक्स अण्ड क्ले प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
711	U74140MH1985PTC035648	आर्य इंडस्ट्रीअल अण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
712	U74140MH1982PTC027266	पंचवटी मिनरल डेव्हलपमेंट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
713	U45204MH1984PTC033893	कचन इरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
714	U35310MH1985PTC035310	मेटेक्स पॉलीपैक इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
715	U22222MH1982PTC028897	मैग्ना प्रीट प्रायव्हेट लिमिटेड
716	U73100MH1985PTC035329	योगेश्वर रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
717	U50401PN2000PTC015006	युनीक हॉन्डा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
718	U36912PN2000PTC015091	राठी मोतीवाले प्रायव्हेट लिमिटेड
719	U74300PN1998PTC012803	केवीश असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
720	U85320PN1998PTC012800	मेरिगोल्ड रिक्रीएशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
721	U70102PN1998PTC012824	पगारीया कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
722	U72200PN1998PTC012843	रिशोअस कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
723	U63040PN1998PTC012860	रेल रोड ट्रान्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
724	U15201PN1998PTC012861	योगीराज डायरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
725	U70109PN1998PTC012862	महाराष्ट्र रिसोर्ट्स अण्ड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड

726	U01222PN1998PTC012898	मनोविजय पॉल्ट्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
727	U20213PN1998PTC013187	तशफीन फनिशींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
728	U72200PN2000PTC014394	सीम-के असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
729	U51909PN2002PTC016956	यूनीट सेलमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
730	U51909PN2002PTC016955	इश्वर नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
731	U51909PN2002PTC016957	साईनेट ऑनलाइन बिज़ीनेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
732	U28999PN2002PTC016958	हाईसेल्स इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
733	U51909PN2002PTC016959	त्रिक्या मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
734	U51909PN2002PTC016961	बेज गोल्ड रश मार्केटिंग अण्ड रिटेल ट्रेड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
735	U74140PN2002PTC016967	अर्थयोग कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
736	U74300PN2002PTC016963	प्रनाम मीडिया सॉल्यूशन्स अण्ड न्यूजमेकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
737	U51109PN2002PTC016968	शिवमनी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
738	U51909PN2002PTC016969	इनरमेट मार्केटिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
739	U55101PN2002PTC016970	श्री सिद्धेश्वर होटेल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
740	U70101PN2002PTC016976	लक्स पिपल प्रायव्हेट लिमिटेड
741	U51909PN2002PTC016978	पवार मार्केटिंग अण्ड कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
742	U74210PN2002PTC016983	नाइरा इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
743	U74140PN2002PTC016987	सिनर्जी मैनेजमेंट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
744	U36101MH1982PTC027703	पेट-ऑल इंटीरिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
745	U01122MH1989PTC054354	गंगा फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
746	U23201PN2002PTC017005	जझिरा एन्टरप्राइजेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
747	U01122PN2002PTC017002	केदार एग्रो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
748	U01122PN2002PTC017000	सतीसार ब्लॉसम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
749	U22219MH1984PTC034283	मरकेन्टाइल सेक्युरिटी प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
750	U33126MH1989PTC050319	वेदर टेक्नोलॉजिज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
751	U01111PN1998PTC013200	दिनेश बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
752	U17115PN1998PTC013188	अलफीया टेक्सटाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
753	U51909PN1999PTC014146	रेनबो एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
754	U51399PN1999PTC014213	प्रथमेश मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
755	U52190PN1999PTC014161	पुणे गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
756	U72900PN2001PTC015862	आय न्यूवे प्रायव्हेट लिमिटेड
757	U15139PN2000PTC015139	पावर सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
758	U72200PN2000PTC015125	कुमार किशन.कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
759	U24134PN2000PTC015257	साईफ्लॉन पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
760	U29299MH1983PTC029443	अजिंक्य इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
761	U45203PN2001PTC015851	कोल्हापुर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
762	U17111PN1998PTC013190	आसरा फनिशींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
763	U24139PN1998PTC013182	पैटीअम पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
764	U45202PN1998PTC013154	यशश्री कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
765	U72200PN2000PTC014388	एमचीप टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
766	U15532PN2000PTC014389	अजिंक्य डिस्ट्रीलरी प्रायव्हेट लिमिटेड
767	U50402PN2000PTC014351	बाइक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
768	U74999PN2000PTC014337	कोलोनेल्स अकादमी फॉर एडवेंचर अण्ड टूरीज्म प्रायव्हेट लिमिटेड
769	U29305PN2000PTC014342	अडवानी किचन अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
770	U29308PN2000PTC014344	रागा होम अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
771	U63040PN2000PTC014343	विके टूथ अण्ड टूथब्रश प्रायव्हेट लिमिटेड
772	U29299PN2000PTC014330	व्हिजन टूल्स अण्ड जीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
773	U70200PN1998PTC013034	देवाभूती रिअलटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
774	U70200PN1998PTC013036	विजयन्ता रिअलटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
775	U72200PN1998PTC013038	अमोघसिद्धी रिअलटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
776	U45201PN1998PTC013040	गुवीन इन्फ्रा कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
777	U72501PN1998PTC013041	सेवी नेट प्रायव्हेट लिमिटेड
778	U32109PN1998PTC013044	सौरभ इन्स्ट्रुमेंट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
779	L15424PN1998PLC013211	बबनराव ढकने साखर कारखाना लिमिटेड
780	U51909PN1998PTC013199	मोपव एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
781	U55101MH1988PTC048930	मोटेल पीकासो प्रायव्हेट लिमिटेड

782	U15427MH1989PTC050272	क्वालिटी कैंडीज अण्ड स्टीटस प्रायव्हेट लिमिटेड
783	U55101MH1988PTC050156	होटेल लेवीना प्रायव्हेट लिमिटेड
784	U45201MH1989PTC050245	भालचंद्र कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
785	U01403MH1988PTC049197	चिक्कू पिक्कू फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
786	U15311MH1988PTC050023	जय भवानी रोलर फ्लोअर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
787	U74300MH1990PTC055518	संध्या एडव्हरटायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
788	U70101MH1988PTC050130	समामह डेव्हलपर्स अण्ड हेल्थ रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
789	U31501MH1990PTC055541	रवि राकेश लैप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
790	U70101MH1988PTC049238	प्राइम डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
791	U51909MH1988PTC049431	विंसी ट्रेडिंग कंपनी(पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
792	U29299MH1990PTC055517	इनवेंटा कंट्रोल्स अण्ड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
793	U70102MH1988PTC049448	जठार डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
794	U25209MH1989PTC054376	गोल्डन पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
795	U15499MH1990PTC055504	जयेश फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
796	U01122MH1989PTC054365	सुची फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
797	U01122MH1989PTC054358	अक्षर फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
798	U01122MH1989PTC054355	शोभा फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
799	U22212MH1990PTC055525	श्रद्धा इंडस्ट्रीअल प्रिंटर्स अण्ड पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
800	U17309MH1988PTC049467	कोनीटेक टेक्सोकोम प्रायव्हेट लिमिटेड
801	U51909PN2000PTC015662	अजिंक्य नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
802	U15321PN2002PTC017371	जय बालाजी एग्री इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
803	U72200PN2000PTC015672	ग्रेस नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
804	U34300PN2000PTC015675	अनूप ऑटो इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
805	U24231MH1982PTC027646	आशोजय केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
806	U51219PN2002PTC017443	कोकण फूड्स ट्रेडिंग अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
807	U51909PN2001PTC016506	संकल्पसिद्ध नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
808	U51909PN2001PTC016505	विकासगंगा मार्केटिंग अण्ड रिटेल ट्रेडिंग कं (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
809	U18101PN2001PTC016508	सुरेश कलेक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
810	U29259PN2001PTC015717	असोसिएटेड वेंडिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
811	U80211PN2001PTC015699	ग्रेट बेगिनींग चिल्ड्रन्स इंटरएक्शन सेंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
812	U72200PN2001PTC016090	इन्फोवेअर इ-सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
813	U29299PN2001PTC016096	हुसाइज़ गांजेस अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
814	U72200PN2001PTC016085	मैक इन्फोवेज प्रायव्हेट लिमिटेड
815	U72200PN2002PTC017307	आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
816	U01122PN2001PTC016059	ऐक्याकॉन एग्री-टेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
817	U45202PN2001PTC016097	स्कायलाइन डेव्हलपर्स अण्ड बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
818	U74300PN2001PTC016105	शापे स्क्रीन पेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
819	U51909PN2001PTC016114	विजयज्योत नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
820	U72200PN2001PTC016121	युनिटी सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
821	U24231PN2001PTC016131	सिल्वर-लिली फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
822	U73100PN2001PTC016140	पॉलीअस टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
823	U85110PN2001PTC016150	हैवल मेडीकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
824	U15433PN2001PTC016169	मिठास डेलिशिअस स्वीट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
825	U55101PN2002PTC017317	केवेस्ट होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
826	U24239PN2002PTC017330	एस. व्ही. कुलकर्णी अण्ड कंपनी (केम) प्रायव्हेट लिमिटेड
827	U01122PN2002PTC017354	यशराज एग्री प्रायव्हेट लिमिटेड
828	U45202PN2002PTC017359	शारदा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
829	U72200PN2002PTC017363	ट्रेड नेटवर्क सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
830	U27310PN2002PTC017372	ए एम कास्टींग्स अण्ड पैरीफेरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
831	U72200PN2002PTC017382	M5K सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
832	U92312PN2002PTC017366	लक्सस एन्टरटेमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
833	U27105PN2002PTC017362	फोनिक्स स्टील ट्यूब्स अण्ड STRIPS मिल प्रायव्हेट लिमिटेड
834	U74140PN2002PTC017390	मातृमंदीर कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
835	U74300PN2002PTC017381	ट्रायमेक्स एडव्हरटायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
836	U21012PN2001PTC016001	जी टी पेपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
837	U72900PN2001PTC015980	लॉगऑनलाइन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

838	U72300PN2002PTC017392	भौगस सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
839	U15549PN2002PTC017350	डी एम आर डी बेक्केरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
840	U51909PN2002PTC017346	एम्ब्रोशीआ ट्रेडिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
841	U01122PN2002PTC017333	सुफलाम बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
842	U36109PN2002PTC017314	हायक्राफ्ट इंटेरिअर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
843	U31102PN2002PTC017315	सचेती ट्रांसफार्मिसे अण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
844	U72200PN2001PTC016160	मेरिडीअन इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
845	U72200PN2001PTC016014	सेप्टा सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
846	U72200PN2001PTC016050	डायमेशन इन्फोरमेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
847	U34300PN2001PTC016045	श्री वेंकटेश्वरा ऑटो कॉम्प प्रायव्हेट लिमिटेड
848	U29293PN2001PTC015992	ओमसाई पेपर प्रायव्हेट लिमिटेड
849	U51909PN2001PTC016004	वसेटाइल मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
850	U63040PN2001PTC015983	पद्मावती टूसे अण्ड टूवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
851	U74999PN2001PTC016054	वाइल्ड क्रेस्ट क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
852	U85110PN2001PTC016076	भैरव हॉस्पिटल्स अण्ड रिसर्च INSTITUTE प्रायव्हेट लिमिटेड
853	U51505PN2001PTC016065	सिटीज़न मार्केटिंग अण्ड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
854	U85199PN2001PTC016055	काबिर स्वास्थ्य योगा निकेतन प्रायव्हेट लिमिटेड
855	U45202PN2001PTC016089	गदरे कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
856	U51909PN2001PTC016087	सुवर्णकमल मल्टीग्रो सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
857	U30007PN2001PTC016094	क्लेन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
858	U72200PN2001PTC016080	सी डी प्लेनेट एजुकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
859	U92199PN2001PTC016158	मघ म्युजिक प्रायव्हेट लिमिटेड
860	U51909PN2001PTC016143	श्री साई-समर्थ मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
861	U72200PN2001PTC016113	फोसेवन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
862	U50101PN2001PTC016138	गोपीराज मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
863	U29299PN2001PTC016147	सुपरटेक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
864	U75101MH1982PTC026658	हडपसर ट्रेडिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
865	U72200PN2001PTC016039	ओमकार इन्फोलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड
866	U74999PN2002PTC017339	सोलापुर बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
867	U70102PN2001PTC016013	एम आर रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
868	U45201MH1985PTC035853	लाइफ टाइम बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
869	U51909PN2002PTC016984	रचना मार्केटिंग अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
870	U51909PN2001PTC016502	ऑटोलाइन मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
871	U70101PN2001PTC016512	कोरे रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
872	U15424PN1999PTC013386	ई पी एग्रीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
873	U01122PN1999PTC013298	जयकाशन बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
874	U51909PN2002PTC016990	स्व-शक्ती मार्केटिंग अण्ड कंसल्टिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
875	U15204PN1999PTC013430	पटेल मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेड
876	U27106MH1983PTC030590	गोकुल अलॉय-स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड
877	U29248MH1982PTC028620	आशापुरी टिब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
878	U45202MH1991PTC063908	निलायम फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
879	U26941MH1991PTC063412	श्री महेश सिमेंट इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
880	U51909MH1991PTC063285	प्रिया कॉटन ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
881	U51101MH1991PTC063263	पापुलर एग्री ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
882	U15543MH1991PTC063165	ललिता गौरी मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
883	U74140MH1991PTC063108	स्पेअरलेस मार्केटिंग कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
884	U45102MH1991PTC063034	लास वेगास डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
885	U27101MH1991PTC063033	हेम हीरा मेटाटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
886	U31909MH1991PTC062996	सनबीम ऑडिओ सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
887	U21099MH1983PTC031032	एक्झॉक्टो कॉपिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
888	U12200MH1985PTC036434	शिव सागर पोल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
889	U74210MH1984PTC034178	अद्वैत इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
890	U36912MH1983PTC031070	प्रीत चट्टोन्स इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
891	U22219MH1983PTC031254	डायमंड प्रिंटर्स अण्ड पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
892	U92112MH1982PTC028845	एस पी चौत्रा प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड
893	U55101MH1983PTC029633	इंद्रप्रस्थ होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

894	U24119MH1985PTC035037	सेतिते स्टार केम प्रायव्हेट लिमिटेड	
895	U31200MH1984PTC034734	कल्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
896	U60231MH1984PTC034916	वने वनातुक संघ प्रायव्हेट लिमिटेड	
897	U28112MH1983PTC029669	एस जी कुलकर्णी स्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
898	U29299MH1983PTC030861	देवी एस मशीनरीमैन्युफैक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
899	U36102MH1985PTC036145	जेसो जिग्स अण्ड फिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
900	U29120MH1984PTC032740	अनसूया कटौल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
901	U28910MH1983PTC029162	एबल इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड	
902	U01222MH1985PTC036436	त्रिभुती पोल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड	
903	U74140MH1982PTC028372	विश्वकर्म सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
904	U29248MH1982PTC028495	जिनस लेबॉरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड	
905	U72900MH1984PTC032761	फाइवस्टार मायक्रोसिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
906	U29299MH1998PTC114560	ब्राइट फिनिशिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
907	U15203MH1984PTC032417	सच्छीदानंद एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड	
908	U33125MH1984PTC032004	वामन पुरोहित एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
909	U24231MH1984PTC031926	एस्ट्रॉन फाइन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
910	U45202MH1983PTC031720	मीना कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड	
911	U24232MH1983PTC030911	देवीज फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
912	U24117MH1983PTC031119	दयाल केमट्रीट प्रायव्हेट लिमिटेड	
913	U33112MH1983PTC030919	स्कैन क्यूअर एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
914	U01222MH1983PTC030701	प्रशांत फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
915	U12230MH1984PTC033412	कोल्हापुर हनी अण्ड फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
916	U34201MH1984PTC033381	मोनालीसा ऑटो बॉडी बिल्डर्स अण्ड फैब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
917	U15499MH1983PTC030862	देवीज फूड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड	
918	U01222MH1985PTC036446	पद्मजा पोल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड	
919	U26921MH1983PLC029604	बिक्ट्रीफुल ब्रिक्स क (इंडिया) लिमिटेड	
920	U01222MH1985PTC036445	कृषिकचन पोल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड	
921	U50300MH1991PTC060269	रोलीग्स ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड	
922	U45201MH1989PTC051092	गैफीकॉन कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
923	U70102MH1989PTC051113	वारडेकर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
924	U25209MH1991PTC060404	मृगद्धा प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
925	U25191MH1990PTC059521	अल्फा रबर प्रायव्हेट लिमिटेड	
926	U45401MH1990PTC059529	सांगली बिल्डर्स टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड	
927	U19129MH1991PTC059847	प्राजक्ता लेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
928	U25209MH1991PTC059939	मोरेश्वर ऑटो अन्सीलरी प्रायव्हेट लिमिटेड	
929	U34300MH1990PTC056742	हाइक्यू इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड	
930	U63090MH1989PTC053695	अंबरनाथ गोल्डन ट्रान्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड	560 ACTION DROPPED
931	U29219MH1990PTC055847	पीयू पंप्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
932	U31200MH1989PTC050489	क्षतिज इलेक्ट्रोसिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
933	U51496MH1991PTC060031	एलक्सीज केमिकल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड	
934	U74999MH1991PTC060034	गङ्गनीया ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
935	U70200MH1991PTC060085	माधव केतकर कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
936	U70101MH1991PTC060110	देवकी कृष्ण रावलनाथ डेव्हलपर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
937	U25209MH1991PTC060117	वैजनाथ प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
938	U51505MH1991PTC060418	एडवेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
939	U25199MH1991PTC060568	वाही रबर रिक्लेमेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
940	U74999PN1999PTC014069	एस जी कंज्यूमर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड	
941	U70101MH1991PTC060618	सेवा निकेतन रिएल्टेस प्रायव्हेट लिमिटेड	
942	U51101MH1991PTC060888	नवयुवक कृषिउद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड	
943	U64202PN1999PTC014108	आय सी कॉम्प टेलेकम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड	
944	U51909PN1999PTC014008	विजयलक्ष्मी इलेक्ट्रोमेक इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड	
945	U29299PN1999PTC014117	विहाल इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड	
946	U29299PN1999PTC014118	एअर्स टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड	
947	U72200PN1999PTC014120	टी-एडुज सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड	
948	U29299PN1999PTC014119	कैपेला टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड	
949	U45202PN2002PTC017520	चंदशील कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड	

950	U74300PN2002PTC017524	सुप्री एडव्हर्टाईजिंग अण्ड एन्टरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
951	U30007PN2002PTC017533	हेलीओज इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
952	U01134MH1991PTC064512	भगवती फलोद्यान प्रायव्हेट लिमिटेड
953	U51505PN2002PTC017537	वल्लभ सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
954	U24232MH1991PTC064399	पार्लीफार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ***560 ACTION DROPPED***
955	U28910MH1991PTC064353	पोखरकर फारजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
956	U63023MH1982PTC028377	पामेश सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
957	U51909MH1983PTC030949	केमन्स इम्पोर्टर्स अण्ड एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
958	U45201MH1991PTC062188	अविरत्न कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
959	U28111MH1991PTC062993	मारुती स्टील टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
960	U74140MH1991PTC063195	पारथे कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
961	U29231MH1991PTC063888	बैट्रे कर्टिलीक कन्वर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
962	U55204MH1983PTC029455	शिगोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रायव्हेट लिमिटेड
963	U70200MH1991PTC062805	सिमलेस यूनायटेड इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
964	U45202MH1984PTC032759	गोल्ड-स्टोन पिल्लर्स कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
965	U51109MH1984PTC033197	स्पेशल फ्यूजनवेल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
966	U24111MH1983PTC030383	पूना इंडस्ट्रीअल गैसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
967	U26921MH1983PTC029275	मुकुंद ब्रिक्स अण्ड टाइल्स मैनुफ्याक्चरिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
968	U24246MH1983PTC030481	श्री टेक्नोक्रेट्स कॉसमेटिकS प्रायव्हेट लिमिटेड
969	U24232MH1983PTC029461	एँको फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
970	U25204PN2002PTC017464	मूलिका बैग मैनुफैक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
971	U51395MH1992PTC065664	इनसॉलीड इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
972	U28112MH1992PTC065559	जय जलाराम फेब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
973	U19202MH1992PTC064717	हारमनी लेदर क्राफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
974	U19129MH1992PTC064899	जम्बो बैग मेकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
975	U31909MH1992PTC064914	विज्ञाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
976	U63022MH1992PTC064887	फिनीक्स कूलिंग टॉवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
977	U15332MH1991PTC064129	विटसन पॉल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
978	U25209MH1991PTC064272	निले प्लास्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
979	U51505PN2002PTC017467	दीपमाला-राज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
980	U15141PN2002PTC017475	श्री अष्टविनायक हर्बऑइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
981	U72900PN2002PTC017492	स्वयंभू मल्टीमेडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
982	U63022PN2002PTC017498	श्री शिवशक्ती कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड
983	U29299MH1989PTC052884	टवीनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
984	U45209MH1989PTC052783	चिनप्पा कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
985	U51909MH1989PTC052711	शाहनूर इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
986	U72200MH1989PTC051904	धना-धारा कॉम्प्यूटर्स अण्ड प्रोग्रामर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
987	U45201MH1991PTC064490	सर्वानंद प्रमोटर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
988	U17119MH1989PTC052208	पेटागोन फेब्रिकेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
989	U50300MH1991PTC060271	दामोदर ऑटोलिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
990	U29302MH1983PTC031372	कांता स्टोव्स प्रायव्हेट लिमिटेड
991	U17239MH1983PTC030682	पॉली रोप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
992	U70101MH1991PTC060126	विस्ता इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
993	U32107MH1988PTC049938	रेली कॉम्प प्रायव्हेट लिमिटेड
994	U45201MH1988PTC049805	उगम कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
995	U31103MH1989PTC053532	मारुती इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
996	U29299MH1989PTC052942	रामको इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
997	U92199MH1988PTC048914	फैटसी अम्युजमेन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
998	U28939MH1988PTC048812	ओ मायक्रोन गोजेस अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
999	U51909PN2001PTC016632	गनराज एक्विडम ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1000	U51497PN2001PTC016631	सीद्वाराम कृषि प्रायव्हेट लिमिटेड
1001	U45204PN2001PTC016622	टेली नेट कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
1002	U45202MH1990PTC054911	सतकीर्ती प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1003	U74999MH1992PTC064945	पूणे फारजिंग्स कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1004	U29248MH1992PTC065209	डायना शूगरटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1005	U26933MH1990PTC055253	जेटको सिरैमिक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड

1006	U45202MH1990PTC054898	युगडी प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1007	U27101PN1998PTC012935	ओम मेटलफॉर्म टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1008	U70102PN1998PTC012930	शयका डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1009	U55101PN1998PTC012963	एन आर ए क्लब्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1010	U72900PN2000PTC014936	मेटल्सजक्शन कॉम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1011	U50300PN2000PTC014939	पूना पुक प्लाझा प्रायव्हेट लिमिटेड
1012	U72900PN2000PTC014937	डाइव्हर्सजक्शन.कॉम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1013	U55101PN1999PTC014304	भाटघर रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1014	U15499PN1999PTC014305	हॉलीस्टीक फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1015	U31300PN1999PTC014306	मंगलम केबल प्रायव्हेट लिमिटेड
1016	U14316PN1999PTC014316	ओरिजीन इन्फो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1017	U51909PN2000PTC014812	पेटागॉन एक्सपोर्टर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1018	U28999PN2000PTC014818	अविनाश काकडे इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
1019	U45101PN2000PTC014813	केशर घायल लैण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1020	U45101PN2000PTC014816	एंट इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1021	U45101PN2000PTC014817	टी जी कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1022	U55101PN2000PTC014815	सुनिता घायल रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1023	U72200PN2000PTC014823	फॉरटन सॉफ्ट-टेल प्रायव्हेट लिमिटेड
1024	U72900PN1999PTC014218	इनफोडे सोल्यूशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1025	U70102PN1999PTC014235	अमोल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1026	U01111PN1999PTC014271	पद्मावती एगोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1027	U51432PN1999PTC014283	श्री अथर्व ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1028	U51432PN1999PTC014283	श्री अथर्व ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1029	U72200PN1999PTC014289	श्री कॉम्प्यूसॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1030	U24114PN1999PTC014302	महेश बेंझा ट्राय केम प्रायव्हेट लिमिटेड
1031	U72200PN2000PTC014836	मिरेकल सॉफ्टवेयर डिजाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1032	U74999PN2002PTC016840	आदित्य सेफ्टी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1033	U34300PN1999PTC013566	चिनाय ऑटोकोम्प प्रायव्हेट लिमिटेड
1034	U24119PN1999PTC013619	शिव दत्त केमिकल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1035	U01134PN1999PTC013641	फ्लोडेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1036	U65929PN1999PTC013643	एंडवेट बिज़िनेस क्रेडीट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1037	U92199PN1999PTC013644	साउंड ऑफ म्यूज़िक (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
1038	U01122PN2002PTC017513	पद्म नदिनी एग्रीकल्चरल अण्ड डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1039	U30007PN2002PTC016781	राज कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1040	U55101PN2002PTC016785	गोल्डन रॉक रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1041	U51505PN2002PTC016795	चैत्राली सेल्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1042	U74130PN2002PTC016793	रेपीड मल्टीमार्केट रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
1043	U25209PN2002PTC016797	पद्मालय प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1044	U63040PN2002PTC016801	हर्षल टूवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1045	U74140PN2002PTC016815	आकियो कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1046	U74140PN2002PTC016820	फ्रेश फोर्स बिज़िनेस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1047	U24233PN2002PTC016828	एव्हरीडे आयुर्वेद प्रायव्हेट लिमिटेड
1048	U51909PN2002PTC016831	सी नेट नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1049	U63022PN2002PTC016839	स्वास्तिक कोल्ड स्टोरेज अण्ड वेअरहाउस प्रायव्हेट लिमिटेड
1050	U14102MH1990PTC059433	जसा मिलटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1051	U29299PN1999PTC013936	तानिया टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1052	U72200PN2000PTC014543	रिसर्च टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1053	U60100PN2002PTC016853	साई कृपा लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1054	U45202PN1999PTC013977	शंगी-ला शेल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1055	U27104PN2000PTC014521	आकार एक्सट्रुजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1056	U67120PN2000PTC014511	फिनीक्स शेअर्स अण्ड स्टॉकS प्रायव्हेट लिमिटेड
1057	U15143PN2000PTC014510	चाकन औइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1058	U72200PN2000PTC014498	वेलस्प्रींग नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1059	U22110MH1990PTC059453	प्रिमीअम पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1060	U15134MH1990PTC059467	ग्रीन प्रयुटोला फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1061	U85110PN1999PTC013883	गामाव्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड

1062	U29299PN1999PTC013928	निहाल टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1063	U34300PN1999PTC013932	पी एम एस प्रेसिजन मोटर कंपोनेन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1064	U85110PN1999PTC013934	शापे हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
1065	U29299PN1999PTC013935	शेरॉन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1066	U15203PN1999PTC013949	गीन (इंडिया) मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1067	U85110PN1999PTC013959	डॉ. आर बी चटर्जे होस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1068	U29299PN1999PTC013926	मीरा टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1069	U29150MH1990PTC055725	पवार स्ट्रक्चर्स अण्ड कंट्रोल एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
1070	U01111PN1998PTC012637	जीना-प्रज्ञा एग्रीप्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1071	U72200PN1998PTC012616	नेटीव्ह मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1072	U28932PN2000PTC015456	पुजारी टूलिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1073	U14753PN2000PTC014753	बापजी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1074	U72200PN2000PTC014758	आयटीकॉमसीस प्रायव्हेट लिमिटेड
1075	U51909PN2000PTC015426	इनॉस इन्वेन्ट्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1076	U24231PN2001PTC016135	फार्मा रिटेलर्स लिमिटेड
1077	U74999PN1998PTC012688	रेनूका केबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1078	U45202MH1998PTC114233	हॅप्पी होम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
1079	U65999PN2000PTC015459	पूना स्टॉक अण्ड सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1080	U72200PN2000PTC015458	सॉफ्टोरीया इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1081	U31103PN2000PTC015466	पॉवरमैच प्रायव्हेट लिमिटेड
1082	U31909PN2000PTC015464	ग्रुप इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1083	U67120PN2000PTC014736	एमएसएम सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1084	U92141PN2000PTC014722	टीम वर्क प्रॉडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1085	U22130PN2000PTC015437	वल्डवेज बिज़ीनेस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1086	U55101PN2000PTC014731	तपोला-महाबलेश्वर रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1087	U51909PN1999PTC013632	एस आर एस थर्मिस्ट (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1088	U15209PN1998PTC012949	झुतीडा फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1089	U25191PN1999PTC013450	शिवाजी पाइप इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1090	U72200PN1999PTC013451	बेरॉन सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
1091	U25209MH1990PTC059612	निपी केबल्स अण्ड अलाइड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1092	U01122MH1989PTC054352	अनुशका फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1093	U70102PN2002PTC016838	अंबर रीएन्टी प्रायव्हेट लिमिटेड
1094	U28939PN2000PTC015434	केशवाचार्य स्वामी अभियात्री प्रायव्हेट लिमिटेड
1095	U51909PN2000PTC014761	अश्वमेघ मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1096	U29299PN2000PTC015424	श्री नाथ इंजिनिअरिंग अण्ड वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1097	U25209MH1988PTC049210	शिलप्रूप प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1098	U72200PN2000PTC014949	कदम ब्रदर्स इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1099	U67120PN2001PTC016263	होम ट्रेड वन लिमिटेड
1100	U51221PN1999PTC013843	रा-शी कृषि प्रायव्हेट लिमिटेड
1101	U70101PN1999PTC013623	झंक रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1102	U72200PN2000PTC014828	मक्युरी मायक्रो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1103	U72200PN2000PTC014941	नेटपल्स टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1104	U70102PN1999PTC014278	थोरात डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1105	U55101PN2002PTC016913	अचन्ती रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1106	U72200PN2000PLC014729	संत इन्फोटेक लिमिटेड
1107	U51221PN2001PTC016191	नवकॉन फूड अण्ड फ्र्यूट इंडिया लिमिटेड
1108	U72200PN2002PTC016889	ऋग्वेद टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1109	L72200PN2001PLC016120	टेक्नोसॉफ्ट एन जी लिमिटेड
1110	U55101MH1989PTC050826	साई हाय-वे मोटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
1111	U15242PN1999PTC013281	श्री दत्त शेतकरी साखर कारखाना लिमिटेड
1112	U52335PN1998PTC012852	पी आर व्ही इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1113	U72100PN1998PTC012833	सिमर कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1114	U29292MH1989PTC052731	गॉन्डील फाउंड्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1115	U24233PN2000PTC015601	हर्बो-मिनरल फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
1116	U74999PN2000PTC015518	परमज्योत प्रमोशन मार्केटिंग अण्ड एडव्हर्टायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1117	U31200PN2000PTC015538	डी एम एस कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1118	U72200PN2000PLC015549	डिस्कवर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
1119	L17111PN2000PLC015575	सतोश गिनींग अण्ड प्रेसइंग मिल्स लिमिटेड
1120	U72200PN1999PLC014132	सूप्रा इन्फोसीस लिमिटेड
1121	U72200PN1999PTC013522	कैलामस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1122	U28112MH1989PTC053890	गेस फैब्रिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1123	U74210MH1989PTC054076	अल्ट्रामैटीक्स टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1124	U29299PN1999PTC014137	गुणे इरिगेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1125	U72200PN2000PTC014769	वेब थॉट टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1126	U72200PN2000PTC014747	सैम सॉफ्टवेयर वेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1127	U55101PN2000PTC015487	अन्नपूर्ण आशुतोश होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1128	U45203PN2000PTC015494	सगुनामाता कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1129	U36999PN1999PTC013995	बालाजी एंडेसिक्ल टेप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1130	U23209PN1999PTC013998	एम एस पेट्रोकेमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1131	U62100PN2000PTC014770	एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेड
1132	U01211PN2000PTC015484	साई डेअरी फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
1133	U92199PN2000PTC015469	मिशन इव्हेन्ट मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
1134	U24246PN2000PTC015479	पद्मश्री हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
1135	U74950PN2000PTC014950	कमल फ्लेक्स पैक प्रायव्हेट लिमिटेड
1136	U74140PN2000PTC014778	एस के टी कमर्शियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1137	U01111PN2000PTC014765	नौरा व्हली एग्री इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1138	U51909PN2000PTC014755	तिरुमलम इम्पोर्टर अण्ड एक्सपोर्टर प्रायव्हेट लिमिटेड
1139	U72200PN2000PTC014793	सिलीकॉन सॉफ्टेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1140	U01111PN2000PTC014796	सन्मित्रा कृषि उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
1141	U15421PN2000PLC014788	हनुमान साखर कारखाना लिमिटेड
1142	U60100PN2000PTC014529	मेट्रो ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1143	U70102PN2000PTC015429	फेग शुई डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1144	U63022PN2000PTC015444	काजोल डेव्हलपर्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1145	U15203PN1999PTC013988	नंदन मिल्क अण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1146	U72200PN1999PLC014136	कैडोनिक्स इन्फोसिस्टिम्स लिमिटेड
1147	L25129PN1999PLC013516	श्री साईकृपा बायोफर्टीलायझर्स लिमिटेड
1148	U31909PN1999PTC013517	कौशिक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1149	U70101PN1999PTC013508	महाटापस इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1150	U25209PN2000PTC014432	डेविस-स्टैंडर्ड प्लास्टीक्स एक्सट्रूजन प्रायव्हेट लिमिटेड
1151	U17309PN2000PTC014481	ताज नीट प्रायव्हेट लिमिटेड
1152	U60210PN2000PTC014754	नवनी टूल्स अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1153	U92132PN2002PTC016854	पुणे टीम व्हिजन कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
1154	U51103PN2002PTC016844	एटकोंन एग्री-टेक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1155	U72900PN2000PTC015490	ओरीअन वेब सर्वेज प्रायव्हेट लिमिटेड
1156	U15424PN2000PLC014514	चतुर्वेदश्वर साखर कारखाना लिमिटेड
1157	U92419PN2000PTC014407	सेलिब्रिटी हील्स गोल्फ क्लब प्रायव्हेट लिमिटेड
1158	U01112PN1998PTC012830	हंसराज एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1159	U51909PN1999PTC013439	यशोमाला इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1160	U29299PN2001PTC016088	सेच लेवेन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1161	U22110PN2001PTC016058	फिनीक्स पब्लिकेशन्स लिमिटेड
1162	U51909PN1999PTC013670	वल्हनटेक्स एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1163	U15424PN1999SGC013399	एस आर शिंदे ब्रदर्स शुगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड
1164	U92412PN1999PLC013396	सातारा स्पोर्ट्स अण्ड क्लब्स लिमिटेड
1165	U15424PN1999PLC013678	देवदरी साखर कारखाना लिमिटेड
1166	U72200PN1999PTC013425	कॉनकडे सॉफ्टवेयर सिस्टीम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1167	U15424PN1999PTC013215	त्रिवेनी संगम शहर मिल्स लिमिटेड
1168	U25209PN1999PTC013226	सेनसैक ऑथो प्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1169	U01111PN1999PTC013241	कमल एग्री-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1170	U17111PN1999PLC013248	सोबर स्पीनींग अण्ड विव्हींग मिल्स लिमिटेड
1171	U74140PN2000PTC014605	चैज REइंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1172	U18101PN1999PTC013721	निहान एंगरल प्रायव्हेट लिमिटेड
1173	U24119PN1999PTC013884	वेदकेम कपोझिश्न्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1174	U24233PN1999PLC013269	वागभट आयर्वेद निकेतन लिमिटेड
1175	U55101PN1999PTC013355	होटेल साळूखे प्रायव्हेट लिमिटेड
1176	U63040PN1998PTC012923	एलीसन ब्रदर्स टूसे अण्ड टूवलस प्रायव्हेट लिमिटेड
1177	U74140PN2002PTC017373	वरद कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1178	U74140PN2002PLC017368	नेचरनीड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड
1179	U55204PN1999PLC014140	सोनु कंटेरींग लिमिटेड
1180	U45202PN2002PTC017167	डी एस वाय बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1181	U55101PN2002PTC017439	आनंद मोटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1182	L74140PN2001PLC016349	वेस्टमोर्ट कैपिटल एंडवायजर्स लिमिटेड
1183	U72200PN2002PTC017060	ओरीएन्टल इन्फोकैअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1184	U72900PN2000PTC015493	शरदिया सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1185	U01222MH1988PTC048100	पोल्ट्री फिल्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1186	U15143PN2002PTC017070	हनुमत एगो अण्ड ऑइल एक्सट्रैक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
1187	U24233PN2000PTC015134	हबिको फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
1188	U55101PN2000PTC014953	तोर्ना हिलस्टेशन होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1189	U72240PN2000PTC014357	राज सॉफ्ट-टेक टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1190	U15203PN2002PTC016884	मयुरेश्वर डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
1191	U30007PN2000PTC015407	सन सॉफ्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1192	U21091PN1999PTC013597	कुसुम कोन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1193	U30007PN2000PTC015418	साईटेक बिज़ीनेसलिक प्रायव्हेट लिमिटेड
1194	U55101PN2000PTC014967	सनराइज व्हीली रिमोर्ट अण्ड डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड
1195	U29299PN1999PTC013985	तोलीमन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1196	U64202PN1999PTC013984	सेल-वेव्ह कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1197	U85320PN2001GAP016266	लाइफ अण्ड होप इंटरनैशनल फाउंडेशन
1198	U15421PN2001PTC016429	आनंदकृषिजी साखर कारखाना लिमिटेड
1199	U64202PN2002PTC016992	अपना टेलिकम्युनिकेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1200	U15421PN2001PLC015800	सिंधुदुर्ग जिल्हा शूगर अण्ड एगो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
1201	L01115PN1999PLC013549	पुंडलिक शूगरकेन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
1202	U45202PN2001PTC016095	तुळजा कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1203	L15424PN1999PLC013550	ओमसाईनाथ साखर कारखाना लिमिटेड
1204	L15421PN1998PLC013057	बाबुराव पाटील शूगर मैन्युफ्याक्चरिंग लिमिटेड
1205	U29299PN1999PTC013288	श्रम इंजिनिअरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1206	U15424PN1999PLC013283	देवमोगरा साखर कारखाना लिमिटेड
1207	U51311PN1998PTC012801	श्रीकृष्णा विव्हींग मिल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1208	U29299PN1999PTC013445	ए पी व्ही टेक्नो सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1209	U74140PN1998PTC012763	दास प्रोजेक्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1210	U01211PN2000PTC015402	एगो रिचॉलूशन प्रायव्हेट लिमिटेड
1211	U32309PN2000PTC015452	रॉप म्यूझिक प्रायव्हेट लिमिटेड
1212	U55101PN2000PTC015442	पूर्वा होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1213	U51432MH1989PTC054518	अगरवाल संगेमरमर उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
1214	U15203PN1999PTC013991	व्हाइट मिडोज फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1215	U70102PN1998PTC012851	हाय-पेन रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड
1216	U72200PN1998PLC012889	त्रिवेनी इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स लिमिटेड
1217	U45201PN2000PTC015622	गोयल गंगा बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
1218	U72200PN2001PTC015727	एनार्क ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1219	U50102PN2001PTC015696	सुयश कन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1220	U15511PN2000PTC014664	एंटलस लिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1221	U24231PN1998PTC013012	लक्ष्मन रेमिडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1222	U29119MH1988PTC048919	स्पाके हायड्रो न्यूमेटिक प्रायव्हेट लिमिटेड
1223	U15424PN2000PTC014955	श्रीज्योतिर्लिंग गुल अण्ड खांडसारी प्रायव्हेट लिमिटेड
1224	L15424PN1999PLC013563	श्री शंभु महादेव शूगर मिल्स लिमिटेड
1225	L15424PN1999PLC013371	भगिरथी शूगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड
1226	U63011PN2001PTC016594	ओम साई कर्गो सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1227	U45202PN2001PTC016337	ए व्ही आपटे कन्सल्टेशन कं. प्रायव्हेट लिमिटेड
1228	U45201MH1989PTC051715	मोहोळ बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1229	U45201MH1989PTC051414	कटारीया बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1230	U18101MH1990PTC055425	सरतोगा रेडी टू विअर प्रायव्हेट लिमिटेड
1231	U72200PN2001PTC016155	डेरिवेटिव्हज टेक्नॉलॉजिज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
1232	U51909PN2002PTC017460	अंकीता सेल्स अँड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1233	U34102MH1990PTC055030	सद्वादी मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1234	U93090MH1990PTC055641	शेरलेकर शूटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1235	U52999PN2000PTC015480	स्वप्नपूर्ती मार्केटिंग नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
1236	U15139PN2000PTC014785	खेड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1237	U52334MH1988PTC049665	रीना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1238	U51501MH1994PTC079376	कोरगावकर-पाटील एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1239	U02001MH1994PTC079503	टी-गोल्ड एग्रो डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1240	U15209MH1994PTC079167	यीस्ट कल्ट एग्रो प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1241	U55101MH1994PTC079009	सोमजी होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1242	U24331MH1994PTC078909	क्वालिफाइड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1243	U51909MH1994PTC078699	श्वेता बिअरींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1244	U60100MH1994PTC078659	जयश्री ओव्हरसिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1245	U45201MH1994PTC078532	सिमोन बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1246	U01409MH1994PTC078365	ओम शिव-शक्ती केश्यु प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1247	U45201MH1994PTC078346	इंफेरिअल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1248	U40200MH1994PTC078344	साउथ इंडिया गैस रिफीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1249	U55101MH1994PLC078321	रत्नप्रभा होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1250	U15544MH1994PTC078082	सोनिया आइस अँड कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड
1251	U51505MH1994PTC078001	उत्तुंग इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1252	U51909MH1994PTC079040	सांगली ग्रेप्स अँड एग्रो एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1253	U51909MH1994PTC079943	साप्रे मूळे ऑटोप्लॉटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1254	U51215MH1994PTC076715	सपदा टिश्यु प्लान्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1255	U17299MH1994PLC081867	फिटसन्स स्पिनर्स लिमिटेड
1256	U15142MH1993PTC072406	रिशोनस लेबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1257	U33130MH1988PTC048889	दिघे इलेक्ट्रो सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
1258	U29120MH1988PTC048565	मायनर इरिगेशन एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1259	U45201MH1988PTC048296	प्रारभ बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1260	U28999MH1989PTC051597	मैसकोट इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1261	L24129PN1999PLC013309	जगन्नाथ एग्रोटैक लिमिटेड
1262	U15316PN1998PTC012599	निर्मल स्टैपल फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1263	U29119MH1993PTC070725	अजय एक्वाटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1264	U15499MH1993PTC070830	ठकसी फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1265	U45500MH1993PTC070847	मोदी कनिस्ट्रो मटेरिअल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1266	U64120MH1993PTC070897	गोल्ड मेडिया कुरिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1267	U24222MH1993PTC070926	विजया पेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1268	U29306MH1994PTC078192	शिकार थर्मोप्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1269	U15147MH1994PTC078696	हिरन्यकेशी पंचगंगा दूध उत्पादक प्रायव्हेट लिमिटेड
1270	U01222MH1993PTC070951	क्वालिटी ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1271	U24222MH1993PTC070939	कंचनगंगा एग्रो-इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1272	U63022MH1993PTC070964	सनराइज फ्रोजन इटेबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1273	U75201MH1993PTC070970	अचम इलेक्ट्रो एक्विपम प्रायव्हेट लिमिटेड
1274	U25209MH1993PTC070992	यशस्वी पॉलीमर मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1275	U27310MH1993PTC071048	शान्ती आयन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1276	U74300MH1993PTC071070	ट्रैक एडव्हर्टायजिंग अँड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1277	U29309MH1993PTC071154	मेटल शेपर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1278	U74140MH1993PTC071156	सूर्या टेक्निकल कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1279	U24134MH1993PTC071212	स्वदेशी पॉलिमर अँड एड्रेसिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1280	U22110MH1993PTC071415	मिर्तसुलेजर पब्लिशर्स अँड प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1281	U25209MH1993PTC071404	गलोर प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1282	U72200PN2000PTC014862	निर्मिती सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1283	U45201MH1996PTC098336	एस एस वी प्रॉपरटिज कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1284	U28133MH1994PTC080401	फोर्टीन कंटेनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1285	U35999MH1994PTC080261	दिपक अँड कंपनी ऑटो प्रेस मैन्युफैक्चरर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1286	U45201MH1994PTC079988	इंद्रप्रस्थ प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1287	U45202PN2002PTC017441	अभिजीत शेल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1288	U51909PN2002PTC017435	लाइफ टाइम कंजुमर गूड्स मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1289	U51505PN2002PTC017438	चिपलुण इलेक्ट्रिक अण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1290	U29299PN2002PTC017432	कदम इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1291	U25202PN2002PTC017430	वैद्यनाथ प्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1292	U52110PN2002PTC017415	विष्णुवैभव ग्रीसरी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1293	U24115MH1990PTC057177	इडो एन एम रेडिन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1294	U70102PN2002PTC017083	किनारा प्रॉपरटिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1295	U45202MH1990PTC057123	सूरज इरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1296	U15142PN2002PTC017087	शिवानी ऑइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1297	U45202PN1999PTC014277	चंद्र इरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1298	U24299MH1990PTC057473	दुर्गा केमिकल कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1299	U27105MH1995PTC094294	श्री तुळजाभवानी स्टील ट्यूब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1300	U45209MH1990PTC057571	पेडनेकर बिल्डर्स अण्ड कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
1301	U33205MH1995PTC094373	चिप्स टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1302	U01122MH1990PTC057086	नवदिप कृषि पूरक उद्योग समूह प्रायव्हेट लिमिटेड
1303	U65192MH1995PTC094341	विजय सखाला सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1304	U45202MH1990PTC057382	हेरभ बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1305	U72200PN1999PTC013873	व्ही के सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1306	U74300PN1999PTC013856	एस एडवर्टाइजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1307	U74140PN1999PTC013854	सोनाटा कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1308	U29251PN1999PTC013835	आयडियल प्रोसेस इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1309	U31909MH1989PTC053974	फक्शन मॉड्युल्स पूर्ण प्रायव्हेट लिमिटेड
1310	U51434PN1999PTC013857	स्ट्रुको पेट सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1311	U51434PN1999PTC013855	उत्कर्ष ग्राफीक सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1312	U51103PN1999PTC013858	परमटेक हीट सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1313	U51393PN1999PTC013829	सेवागिरी ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1314	U15204PN1999PTC013833	उत्तरेश्वर डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
1315	U51228MH1991PTC061341	फरनाडीस अण्ड सन्स (लिकर) प्रायव्हेट लिमिटेड
1316	U29199MH1991PTC061157	नोवामैटीक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1317	U02001MH1991PTC061117	ग्रीन मेकर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1318	U74920PN1998PTC013056	त्रिशक्ती सेक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
1319	U72200PN2002PTC017057	श्रीजी नेटवर्क सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1320	U72200MH1995PTC094632	स्वयम कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1321	U31909MH1990PTC056971	के.बी.तिवारी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1322	U24239MH1990PTC057628	श्रीराज फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1323	U29299MH1990PTC057993	विजसन इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1324	U01117MH1995PTC094614	ग्रीन फिल्ड्स रिसोर्ट्स मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1325	U51909MH1995PTC094428	नायक सन्स (एजन्सी) प्रायव्हेट लिमिटेड
1326	U45202MH1990PTC058092	सातारा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1327	U21099MH1993PTC070839	स्वास्तिक पेपर कनवर्टर्स अण्ड प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1328	U15326MH1994PTC078194	कालिकामाती ऑइल मिल प्रायव्हेट लिमिटेड
1329	U51909MH1994PTC078155	गोवेल बायोटेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1330	U74999MH1994PTC078188	युनिको टेक्नोक्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1331	U55101MH1993PTC071453	होटेल डचीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1332	U25209MH1993PTC071409	सूर्य एड्रेसिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1333	U15204MH1993PTC070998	रामा मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेड
1334	U01111MH1993PTC070949	भांडे पाटील अण्ड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1335	U29199MH1994PTC078233	तारहाग इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1336	U72200MH1992PTC068318	धिरें डिजिटल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1337	U63023MH1993PTC071988	तलेरा वअरहौसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1338	U28991MH1993PTC070777	दशमेश फास्नर्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1339	U29296MH1993PTC075438	इयुमेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1340	U51505MH1994PTC079889	सेन एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1341	U63040MH1994PTC079820	सिटी कैंब ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1342	U29307MH1991PTC061632	सोलार इलुमिनेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1343	U21093MH1994PTC081480	स्टरलिंग टेकनो क्राफ्ट वेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1344	U15423MH1994PTC081398	अलकार नैसर्गिक साखर अण्ड गूल प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1345	U15544MH1994PTC081312	सांगली आइस फैक्टरी प्रायव्हेट लिमिटेड
1346	U15544MH1994PTC081310	श्री गणेश आइस फैक्टरी प्रायव्हेट लिमिटेड
1347	U15424MH1994PTC081318	कृष्णा शहरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1348	U25111MH1994PTC080796	स्लीक रबर प्रायव्हेट लिमिटेड
1349	U45201MH1994PTC080493	रिंगलींग होटल्स अण्ड रेस्टोरन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1350	U29309MH1994PTC080464	नियन्ता इंजिनिअरिंग अण्ड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1351	U15431MH1993PTC075346	ओशो स्वीट कीस कफेक्शन कॉसमेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1352	U29199MH1993PTC075261	किरण कोटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1353	U14102MH1993PTC075224	शैलजा मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1354	U27109MH1993PTC075154	साकार प्रेसिजन टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1355	U92413MH1993PTC075055	गोल्ड हेल्थ क्लब्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1356	U15422MH1993PTC074831	केडगाँव शहर वक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1357	U72999MH1994PTC082256	अल्ट्रा साइटिफीक अण्ड सजिकल एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1358	U74999MH1994PLC082099	ईल टेक्निकल सर्विसेस अण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
1359	U01403MH1994PTC082119	कोरडे एग्गिकल्चरल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1360	U24219MH1994PTC081673	पेलबाउंड कोट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1361	U15419MH1994PTC081559	भाग्य लक्ष्मी टिनी शहर कम जग्गरी प्लान्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1362	U33111MH1994PTC081476	स्ट्रीमलाइन पल्स अण्ड फिटनेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1363	U51507MH1994PTC079917	बायोव्हिजन ड्रग्स अण्ड डायग्नोस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1364	U29196MH1994PTC080346	करहा आयर्न वक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1365	U51397MH1993PTC075444	अलर्ट मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1366	U32109MH1993PTC075389	एक्सचेंजर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1367	U50103MH1993PTC075711	महादेव ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1368	U29305MH1994PTC075978	कुमाजी इलेक्ट्रोहीट सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1369	U45202MH1994PTC076045	भगवती सप्लाय वसल रिपेअर्स अण्ड लॉजिस्टिक्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1370	U19201MH1994PTC076366	क्रिएटीव्ह फूटविअर प्रायव्हेट लिमिटेड
1371	U72501MH1994PTC076665	कोको इन्फोर्मैटीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1372	U27104MH1994PTC076851	फलोरा ओव्हरसिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1373	U26959MH1994PTC076919	ओमकार टाइल्स अण्ड सिमेंट प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1374	U01220MH1994PTC076936	उत्तरा फार्मेडिंग अण्ड ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1375	U15421MH1994PTC077159	श्री मल्लीकाजुन शहरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1376	U15421MH1994PTC077178	शिवपावती शहरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1377	U45203MH1994PTC077229	आरकोन्स आफिटेक्चरल कंस्ट्रक्टर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1378	U15142MH1994PTC077352	दिलीप ओइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1379	U52110MH1994PTC077390	निलचीन ओव्हरसिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1380	U72200MH1994PTC077536	एडाप्ट कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1381	U31309MH1994PTC077766	दसनूरकर आफिटेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1382	U31300MH1994PTC076574	प्रसाद वायर्स अण्ड केबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1383	U54421MH1994PTC077952	गंगासागर शहरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1384	U33201MH1994PTC078063	क्रैस्ट फायबर ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड
1385	U15421MH1994PTC076058	श्री विट्ठल शहर केन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1386	U22110PN1999PTC013662	सन इंटरएक्टिव्ह अण्ड पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1387	U01403MH1993PTC070542	लक्ष्मी वेस्टलैण्ड अण्ड फार्म्स डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1388	U45201MH1993PTC070377	न्यू-टेक कन्सल्टेशन अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1389	U26101MH1993PTC070365	डिझाइन ग्लास इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1390	U24134MH1993PTC070317	अभिनव पॉलीमर रेजिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1391	U51909MH1992PTC070126	केअर लीक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1392	U28999MH1992PTC070037	वाघोले इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1393	U24222MH1992PTC069953	माशेल पेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1394	U74991MH1992PTC069786	शंकर रामचंद्र ऑक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1395	U15142MH1992PTC069663	लोकिक एग्री ओइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1396	U74300MH1992PTC069574	मेरिडीअन एंड-क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1397	U24224MH1992PTC068697	नवनीतलाल पेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड
1398	U15419MH1994PTC079550	ज्योतीबा शृंगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1399	U01311MH1994PTC079684	रत्नगिरी कृषि विकास आणि प्रक्रिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1400	U51909MH1993PTC070548	वेसकॉन इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1401	U29254MH1994PTC079674	अक्षय इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1402	U51505MH1994PTC079723	क्वालिटी मार्केटिंग अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1403	U15423MH1994PTC079842	श्री शृंगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1404	U25209MH1993PTC075473	मिस्टीकल प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1405	U45203MH1993PTC075543	मेघा कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1406	U74210MH1993PTC075620	सम्यक इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1407	U25202MH1993PTC070883	जवस पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1408	U17116MH1994PLC082016	शिवराज कॉटस्पिन लिमिटेड
1409	U74140MH1994PTC084048	स्टारबेसप्लस कन्सल्टन्सी अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1410	U15127MH1994PTC083251	एम्ब्रोशीया एगो इंडस्ट्रिज लिमिटेड
1411	U18104MH1995PTC084736	एरियानो एलिगांजा प्रायव्हेट लिमिटेड
1412	U72200MH1992PTC065906	मायक्रोमैक सर्विसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1413	U51433MH1994PTC084051	सिरेमीक मार्केटिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1414	U74999MH1995PTC087741	जी टी एम इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1415	U01134MH1995PTC084443	त्रिलोचन नैचुरल फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1416	U15143MH1995PTC084473	अभय फूड प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1417	U29120MH1995PTC084497	ए आर एम कटोल्स अण्ड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1418	L15549MH1995PLC084625	जी के सराफ ब्रेवरीज लिमिटेड
1419	U32209MH1995PTC084602	इन्फोबन कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1420	U28910MH1995PTC084715	खुर्जेकर इंजिनिअरिंग अण्ड फैब्रिकेशन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1421	U15549MH1994PTC082496	अल्पोपहार फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1422	U15419MH1994PTC082398	बिबाडी फास्टफूड प्रायव्हेट लिमिटेड
1423	U51909MH1994PTC082764	सातभाई इमपोर्ट अण्ड एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1424	U34102MH1994PTC082987	गैसोलाइन एन्सीलरी डेव्हलपमेंट इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड
1425	U29120MH1992PTC067543	कृपा इंडस्ट्रिज (इंडिया) लिमिटेड
1426	U36942MH1992PTC067552	लेजेंड टॉइज प्रायव्हेट लिमिटेड
1427	U31200MH1992PTC067655	बीबीटीटी इंडस्ट्रीअल कटोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1428	U55101MH1992PTC066846	प्रनव होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1429	U28999MH1992PTC067061	परफेक्ट वायर इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1430	U45201MH1992PTC067081	मल्टिपल मेकर्स अण्ड प्रॉपरटिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1431	U70101MH1996PTC096928	परांजपे होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1432	U25209MH1995PTC092568	सकल्प पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1433	U24293MH1995PTC091358	आकाक्षा केमिकल्स अण्ड ऑइलS प्रायव्हेट लिमिटेड
1434	U67120MH1995PTC088851	पंचकल्याण स्टाक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1435	U27320MH1995PTC089071	इंडक्शन मेल्टिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1436	U31909MH1995PTC089060	उगम सिस्टिम्स अण्ड कटोल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1437	U25206MH1995PTC089208	सुमी पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
1438	U99999MH1995PTC091454	अर्गोटेक स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेड
1439	U36101MH1995PTC090156	समेद प्लायवूड प्रायव्हेट लिमिटेड
1440	U01122MH1995PTC092362	फ्रैकीज एगो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1441	U24229MH1995PTC088378	जगन्नाथ के.फार्मा फ्ल्यूइड प्रायव्हेट लिमिटेड
1442	U74999MH1995PTC089315	एपेक्स इंटरमोडिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1443	U11190MH1995PTC090316	सोनकेत स्टड अण्ड एगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1444	U45102MH1995PTC090186	व्ही ए दाता कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1445	U29297MH1995PTC090253	इन्नोकोन फार्मासिटीकल प्रायव्हेट लिमिटेड
1446	U62100MH1995PTC090025	चौधरी एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेड
1447	U72900MH1995PTC090018	फ्रटरकर्स मल्टीमेडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1448	U63040MH1995PTC089791	अलपाइन टुरिज्म प्रायव्हेट लिमिटेड
1449	U29307MH1995PTC089771	न्यू एसेम टेक्नालॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1450	U25200MH1995PTC090152	सुमो प्लास्टीक प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1451	U65991MH1995PTC085534	एबी शेअर्स अण्ड स्टॉक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1452	U63040MH1995PTC091265	श्रीमान टूसे अण्ड टूवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1453	U29219MH1995PTC089984	इवाटे एगोटैक प्रायव्हेट लिमिटेड
1454	U72900MH1995PTC088813	ऑनलाइन क्लब कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1455	U24219MH1995PTC088682	हर्ष फर्टिलाइजर्स अँड एगो केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1456	U51102MH1995PTC088022	सिद्धी गैस एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1457	U51909MH1995PTC088787	युरोनीका मार्केटिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1458	U74999MH1995PTC088489	रवीना इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1459	U29100MH1995PTC088163	दाले ऑटोमेशन (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1460	U17220MH1995PTC088196	सुनीद्रा सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1461	U27104MH1995PTC088913	विभुजा स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1462	U63040MH1995PTC089536	मामाजी करीम टूथपेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1463	U65929MH1995PLC087225	राजपाल क्रेडिट अँड कैपिटल लिमिटेड
1464	U15201MH1995PTC087412	श्री अन्नपूर्णा मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1465	U55101MH1995PTC087188	कुरुप होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1466	U21012MH1995PTC088882	पेट्रॉन हैण्डमेड पेपर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1467	U24232MH1995PTC087230	ट्रान्स स्ट्राइल पैरेंटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1468	U29254MH1995PTC087813	एक्सचेंजर्स मैनुफ्याक्चरिंग कंपनी P लिमिटेड
1469	U26914MH1995PTC087847	सिरिमीक अरोमा प्रायव्हेट लिमिटेड
1470	U22212MH1995PTC091251	एंडवैट पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1471	U74900MH1995PTC088078	प्रोनीका कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1472	U01122MH1995PTC092991	मालनाड एगो फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
1473	U01211MH1995PTC089735	गणेश एगो अँड मिल्क प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1474	U28910MH1995PTC094014	कैलीबर प्रेसींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1475	U01122MH1995PTC088802	एवहरग्रीन मिडोव्स हॉर्टीकल्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
1476	U01222MH1995PTC089227	एस्केडर एगोफार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1477	U74999MH1995PTC088456	युनायटेड बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1478	U15499MH1995PTC090518	एवहर फ्रेश इन्सटेंट फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1479	U51909MH1995PTC090265	अनीश मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1480	U74950MH1995PTC089556	इंडस्ट्रीअल पार्सेल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1481	U51909MH1995PTC090755	समर्थ वायरलेस सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1482	U14109MH1995PTC087861	मल्टी मिनरल्स अँड मायनींग प्रायव्हेट लिमिटेड
1483	U63090PN2002PTC017051	लोकमंगल ट्रान्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1484	U31909MH1990PTC058045	मायक्रो-कॉम्प्यूटर सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1485	U51909PN2002PTC017058	श्री दत्तकृपा मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1486	U74140MH1991PTC061309	सूर्योदय फिनमाके कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1487	U45201MH1990PTC055465	सामन्त सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1488	U24224MH1989PTC051603	करवीर डाइज इंटरमिडिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1489	U51229MH1990PTC057471	केतस एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1490	U24232MH1990PTC057117	पुष्पाजली केमो फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
1491	U51909PN2002PTC017081	सी अँड एल एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1492	U72900PN2002PTC017398	प्रोसेसर अल्गोरीदम्स रिसर्च अँड टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1493	U31909MH1994PTC079981	वीनू एक्विपमेंट्स अँड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1494	U51395MH1992PTC068419	अर्कोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1495	U15531MH1993PTC075447	क्वालिटी ब्रेवरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1496	U28939MH1992PTC068646	नवकॉम टूल्स अँड डाइज प्रायव्हेट लिमिटेड
1497	U31200MH1992PTC068698	एल्वीना टेस्ट कंट्रोल एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1498	U45209MH1988PTC047919	कूल रो हाउसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1499	U72200MH1988PTC048090	ब्रेनवेयर सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
1500	U33130MH1992PTC068898	वेस्टन कंट्रोल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1501	U55101MH1992PTC068906	पंतसचीव होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1502	U55101MH1992PTC068907	विजींग चायनीज रेस्टोरन्ट अँड बार प्रायव्हेट लिमिटेड
1503	U70101MH1992PTC069297	वेस्टन कोस्ट लैंड अँड प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1504	U45201MH1993PTC070359	लिक्वॉड गोल्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1505	U27106MH1993PTC070381	श्री सिद्धीविनायक मेटल वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1506	U77935MH1994PTC077935	ग्लूक्लीच एगो फूड्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1507	U72200MH1994PTC082261	ट्रीएंड डिजिटल इन्वोल्वेमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1508	U15544MH1994PTC081311	वसंत आइस फैक्टरी प्रायव्हेट लिमिटेड

1509	U45201MH1994PTC075920	सनत लैण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1510	U45202MH1993PTC075344	प्रतिनीधी चाकन हाउसींग डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
1511	U51909MH1994PTC081765	बाराही इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1512	U51109MH1994PTC080511	मेडीनी एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1513	U01229MH1997PTC109137	कीशन कल्पतरु लाइव्ह स्टॉक इस्टेट अण्ड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1514	U15421MH1993PTC073799	श्री महादेव शूगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1515	U29197MH1993PTC073709	वाटेक प्युरिफिकेशन (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1516	U27320MH1993PTC073549	साज फाउंडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1517	U01122MH1997PTC107834	नीश फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1518	U70101MH1997PTC107383	लीलाश्री रीअलइस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1519	U70101MH1997PTC107302	महोधर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1520	U70101MH1997PTC107303	अनामय डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1521	U29197MH1993PTC073231	जीवन रक्षा केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1522	U01122MH1993PTC072761	गङ्गाला फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1523	U29197MH1997PTC109649	अपीता ऐक्वा प्युरीफायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1524	U72200MH1997PTC109683	ग्लोकॉम सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1525	U70101MH1997PTC108284	बगीचा प्रॉपरटिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1526	U45202MH1997PTC110186	रुची लैण्ड प्रमोटर्स लिमिटेड
1527	U70101MH1997PTC110602	संस्कृत रिएल्टेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1528	U17299MH1997PTC109768	शेवानी फेरवीनी टेक्स्टाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1529	U29299MH1997PTC108757	उर्जा एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1530	U15203MH1997PTC106531	अमोल मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1531	U01122MH1993PTC073963	वचवत एगो-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1532	U22219MH1994PTC080549	नवयुग ग्राफीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1533	U25202MH1997PLC110827	सारडा फ्लेक्स पैक लिमिटेड
1534	U29307MH1997PTC112220	ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस लिमिटेड
1535	U01119MH1993PTC075122	नवदीप प्लान्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1536	U72300MH1993PTC075369	समर्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1537	U54000MH1997PTC112057	श्री स्वामी समर्थ मल्टी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1538	U01122MH1993PTC073056	जेझरील एगो-प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1539	U29199MH1994PTC081917	डिसेल केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1540	U45202MH1997PTC109713	मैमार कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1541	U01134MH1994PTC080882	सावा एगोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1542	U15419MH1994PTC079938	कीशन मिनी शूगर प्लान्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1543	U51909MH1994PTC081986	क्लासीक टच ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
1544	U72900MH1994PTC080786	सॉफ्ट 'एम' एस इन्फोसिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1545	U33130MH1994PTC081057	अर्जुन टेककोज कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1546	U45202MH1998PTC112959	बी अमित कन्सट्रक्शन्स (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
1547	U28920MH1994PTC081306	टेकनो-प्रॉक्सीमा इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1548	U33111MH1994PTC079935	सोनीयाजी फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1549	U26933MH1995PTC089538	सालिनी ग्रेनाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1550	U74140MH1992PTC069530	केजळे असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
1551	U72200MH1998PTC112775	स्नैप इन्फो प्रायव्हेट लिमिटेड
1552	U01111PN1998PLC012690	अनुमान एगो फार्म्स लिमिटेड
1553	U51103MH1993PTC073862	साइटेफीक मशीन प्लान्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1554	U45202MH1998PTC112874	उर्मी हाउसींग प्रायव्हेट लिमिटेड
1555	U31200PN1998PTC012696	कडवगांव इलेक्ट्रो-ऑल प्रायव्हेट लिमिटेड
1556	U63040MH1992PLC069363	गंगा टरीज्म डेव्हलपमेंट लिमिटेड.
1557	U52311MH1993PTC071827	सुमैनिटी कौटन प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1558	U29113MH1993PTC071770	धायरेश्वर इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1559	U25206MH1993PTC071483	वर्टेक्स प्लास्टीक्स प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1560	U65993MH1996PTC104048	नगने फार्म एंसेट अण्ड क्रेडीट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1561	U72200MH1996PTC103819	एम अण्ड एस सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1562	U01300MH1996PTC101775	वेस्टर्न फ्लोरीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
1563	U25202MH1996PTC101838	रत्नत्रय प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1564	U29299MH1996PTC102030	कादम्बरी इंजिनिअरिंग (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड

1565	U24302MH1996PTC102244	डॉलफीन फील्डमैटस प्रायव्हेट लिमिटेड
1566	U72200MH1996PTC102297	मेडियावे सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
1567	U26931MH1996PTC103844	श्रीरंग ब्रिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1568	U28999MH1996PTC103767	निमिती इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1569	U15204MH1996PLC103655	शिव सागर मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
1570	U29299MH1996PTC102578	रामलींग इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1571	U74140MH1996PTC102423	सुमा बिडीनेस कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1572	U29299MH1996PTC101842	पी डी प्रेसिजन कास्टिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1573	U26951MH1996PTC101817	महालक्ष्मी प्लास्टर मैनुफ्याक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1574	U24232MH1996PTC104592	बायो लाइफ फार्मासिटीकल्स (इंडिया) लिमिटेड
1575	U72200MH1996PTC104544	डायमेशन्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1576	U74300MH1996PTC101629	मेटल एक्विपम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1577	U85120MH1996PTC104265	साई वसंत डेटल सर्विसेस कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1578	U02001MH1996PTC104151	प्रगती फॉरेस्टर्स (इंडिया) लिमिटेड
1579	U31907MH1977PTC019536	हडपसर वैजिटेबल्स अण्ड प्रयुट्स एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1580	U31103MH1977PTC019627	डायना इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1581	L50401MH1975PLC018541	विक्टर मोपेड्स लिमिटेड
1582	U52190MH1993PTC071648	अमृतनगर ग्राहक भंडार प्रायव्हेट लिमिटेड
1583	U45202PN1999PTC014010	दिसा गृह प्रायव्हेट लिमिटेड
1584	U74140MH1993PTC072456	थर टेलिकम्यूनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1585	U32301MH1993PTC072318	विश्वश्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1586	U74999MH1992PTC068150	रुपा इंडस्ट्रीअल पेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1587	U28991MH1992PTC069080	श्री साई ऑटो प्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1588	U23209MH1998PTC113930	सावत पेट्रोकेमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1589	U29299MH1998PTC114084	अगाते स्पेशालिटी प्रॉडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1590	U63040MH1998PTC114128	वेदान्त टू से अण्ड टू वल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1591	U55101PN1998PTC012662	रेबीन होटल्स अण्ड रेस्टोरन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1592	L17118PN1998PLC012671	विश्व चैतन्य खादी ग्राम उद्योग संघ लिमिटेड
1593	U21012MH1992PTC067691	बारामती पेपर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1594	U29150MH1992PTC065968	मुवी टेक इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1595	U27109MH1992PTC066596	पंचरत्न इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड
1596	U27106MH1992PTC065932	सचय अलॉइज अण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड
1597	U24331MH1992PTC067527	मंदार फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1598	U15201MH1993PTC073171	मिलींद डेअरी अण्ड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1599	U01403MH1993PTC073259	ध्रुव हबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1600	U15201MH1993PTC072768	जवाहर मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1601	U72210MH1993PTC072914	लेलो कॉम्प्यूटर कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1602	U70101MH1993PTC073307	धीरज बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1603	U15421MH1993PTC073422	ज्योतिर्लींग शगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1604	U26956MH1993PTC073463	कालिका स्वामी समर्थ एग्री पाइप मैनुफ्याक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1605	U24239MH1992PTC067600	उमा हबेल प्रायव्हेट लिमिटेड
1606	U16009MH1992PTC067611	सहद्री टोर्बो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1607	U30008MH1993PTC074483	सीसमाके ऑफ आइस एक्विपमेंट प्रॉडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1608	U27310MH1993PTC074361	डियाडेम फोर्ज प्रायव्हेट लिमिटेड
1609	U51909MH1992PTC066642	कॉम्प्यूटर-कॉन्ट्रोल एक्सपोर्ट (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1610	U28999MH1992PTC067318	अम्प्रील इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1611	U29299MH1992PTC066394	शिमारा इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1612	U51909MH1992PTC066882	हैरिटेज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1613	U70101MH1992PTC067196	हेमल रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1614	U28939MH1992PTC067192	शिव-तिलक एक्सप्लूजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1615	U51399MH1992PTC065800	लीप मार्केटिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1616	U51496MH1992PTC065725	स्वर्ण केमिकल्स ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1617	U24233PN1998PTC012947	श्री धनवंतरी आयुर्वेद संशोधन संस्था प्रायव्हेट लिमिटेड
1618	U51909MH1998PTC112810	वेबीलॉन इमपोर्टर्स अण्ड एक्सपोर्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1619	U27310MH1997PTC108597	इंद्रायणीरि-रोलींग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1620	U51909MH1992PTC068047	सिफिसीस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

1621	U74210MH1992PTC068036	वास्तु निमिती कन्सल्टन्ट्स (पूणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
1622	U74210MH1997PTC111854	फिरमिनीक कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1623	U29150MH1997PTC109188	प्राइम हैंडलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1624	U45202PN1998PTC012653	आयवरी टॉवर बिल्डर्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1625	U85320PN1998PTC012800	मेरीगोल्ड REक्रिएशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1626	U64202MH1997PTC109547	नेट पिपल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1627	U51909PN1998PTC012648	अलनजय रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1628	U28112MH1998PTC112773	कुचलाज इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1629	U21012MH1997PTC112377	जनसेवा पेपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1630	U29299MH1997PTC112224	साज मेकैनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1631	U20213MH1997PTC112173	संकेत पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1632	L91120PN1998PLC012748	ग्रीनरुट लशरटाइम मैनेजमेंट लिमिटेड
1633	U25201PN1998PTC012792	नमुरो पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
1634	U29150PN1998PTC012741	शोप्ला इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1635	U02221PN1998PTC012733	वर्षा ऑफसेट प्रायव्हेट लिमिटेड
1636	U70101PN1998PTC012698	अनुप रिपल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1637	U01117MH1993PTC073506	अमृत हब्स ग्रोवर्स अण्ड एक्टैक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1638	U25209MH1993PTC072874	कॉनकून एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1639	U01223MH1947PLC005687	प्युअर प्रॉडक्ट्स अण्ड मधु गैनींग लिमिटेड
1640	U70102MH1979PTC021679	करनवन ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1641	U72200MH1975PTC018732	असोसिएटेड पप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1642	U22219MH1980PTC022189	फॉर्म प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1643	U31102MH1980PTC022386	स्पार्टेन इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1644	U29299MH1980PTC022393	चिंतामणी फाउंडर्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1645	U31909MH1980PTC022504	जे टी मशीनीस्ट अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1646	U29248MH1980PTC023400	भारती केमिकल्स अण्ड अलाइड इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1647	U15316MH1975PTC018428	क्रिस्पी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1648	L92411MH1976PLC018903	गायत्री कन्सल्टन्सी सर्विसेस लिमिटेड
1649	U15421MH1964PTC013079	श्री महान काली साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड
1650	U21012MH1974PLC017880	अलासन पेपर लिमिटेड
1651	U71109MH1965PTC013240	चंदन अण्ड भारत प्रायव्हेट लिमिटेड
1652	U29199MH1978PTC020371	घाटगे प्रेसिजन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1653	U72200MH1969PTC014454	खोसला नायलॉन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1654	L24224MH1975PLC018128	अनन्त डायस्टफ इंडस्ट्रिज लिमिटेड
1655	U24232MH1949PLC007298	वेस्ट इंडिया केमिकल्स लिमिटेड
1656	U15209PN2005PLC021561	सदगुरु दुध संघ लिमिटेड
1657	U28910MH1981PTC024574	जाडे इंजिनिअरिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1658	U24222MH1975PTC018534	स्टर्लींग इन्सुलेशन कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1659	U05001PN1981PTC025560	जलसरग फीश मील प्लान्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1660	U24292MH1973PTC016652	चंदुभाई एक्सप्लोसिव्ह्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1661	L29248MH1961PLC012199	श्री बसवेश्वर लाइम वक्स लिमिटेड
1662	U01122MH1972PTC015588	रेनबो प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1663	U31909MH1978PTC020713	शुभदा सारस्वत पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1664	U74140MH1979PTC022014	परफेक्ट स्टीमवेल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
1665	L29248MH1920PLC000735	टी डेक्कन मोटर सर्विस लिमिटेड
1666	U29248MH1949PLC007287	पैको इंजिनिअरिंग लिमिटेड
1667	U29248MH1947PTC005654	बॉम्बे सप्लाय अण्ड ट्रेडिंग कं.लिमिटेड.
1668	U51909MH1973PTC016239	प्रेसिजन ऑटो ऐन्सिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1669	U40109MH1935PLC006662	मीरज इलेक्ट्रिक सप्लाय कं लिमिटेड
1670	U51909MH1987PTC043226	एक्वा सेल्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1671	U45201MH1987PTC045374	सवेरा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1672	U55101MH1986PTC040780	जसको होटेलिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1673	L72200MH1987PLC043491	मेटा टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर (इंडिया) लिमिटेड
1674	U72200MH1988PTC046881	किसकी सिस्टिम्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1675	U73100MH1988PTC046810	क्वस्ट रिसर्च डेक्कन प्रायव्हेट लिमिटेड
1676	U29297MH1986PTC039733	श्रीराम इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड.

1677	U15499MH1988PTC047079	वात्सल्य फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1678	U15201MH1986PTC038730	प्रेरणा डेअरी फार्मिंग अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1679	U72200MH1986PTC041638	सुपरमिंट टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड.
1680	U24117MH1987PTC043849	टाइमेक्स ऑर्गेनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1681	U45202MH1988PTC047801	रामजनालीज कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1682	U45201MH1987PTC042260	कर्वे कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1683	U29222MH1984PTC031884	रेडीकल मशीन टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1684	U22219MH1985PTC037257	कास प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1685	U25209MH1985PTC037251	स्पैन स्नेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1686	U85110MH1987PTC045694	न्युरेज हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1687	U45201MH1988PTC045937	खोले शाह बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1688	U17303MH1987PTC045678	इंडिया सिन्टेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1689	U45201MH1985PTC037870	अनिल शिरोळे डेव्हलपर्स अण्ड कन्सट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1690	U45201MH1985PTC037840	अमेया कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1691	U28991MH1988PTC047469	स्वजित इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1692	U24233MH1987PTC045587	चेतना आयुर्वेदीक प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1693	U72200MH1985PTC037174	युनीक कॉम्प्यूटर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1694	U25199MH1988PTC047245	अजंता फोम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1695	U34300MH1985PTC038427	हॉर्नी हॉर्कस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1696	U40200MH1987PTC045719	नोबल गैस मैनुफैक्चरींग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1697	U25209MH1988PTC046348	पूजा प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1698	U74999MH1986PTC038893	चाई बोअरवेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1699	U15203MH1985PTC038226	नवनीत मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1700	U64203MH1987PTC045486	मेबा कम्युनिकेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1701	U29309MH1985PTC038397	स्वास्तिक बेंदरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1702	U29195MH1985PTC037901	सरनाइक पॉलीपैक प्रायव्हेट लिमिटेड
1703	U51505MH1988PTC047428	शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1704	U27106MH1987PTC043761	कोल्हापुर मायक्रोअलॉइज प्रायव्हेट लिमिटेड
1705	U28112MH1987PTC043745	धरीया फैब्रिकेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1706	U15432MH1988PTC046898	सयूर कॉन्फेक्शनरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1707	U15204MH1987PTC043621	केळकर डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
1708	U28932MH1986PTC039251	सहदेव इंडस्ट्रीअल एंड प्रायव्हेट लिमिटेड
1709	U45208MH1985PTC038219	श्री चिंतामणी कन्सट्रक्शन्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1710	U21012MH1985PTC038109	बाफना पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1711	U26954MH1985PTC038258	शामल ब्रिक्स अण्ड टाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1712	U24232MH1988PTC045965	ओम फार्मा (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1713	U24119MH1987PTC044300	चांदगुडे केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1714	U17303MH1988PTC047743	परस्व सिन्थेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1715	U52334MH1987PTC043879	गोल्ड-स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1716	U29248MH1987PTC045366	अमोल कॉसमेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1717	U24231MH1988PTC047781	गेलॉड लेबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1718	U01214MH1987PTC043623	केळकर स्टड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1719	U29197MH1986PTC039029	कोकुसाई सग्यो कईहात्सु (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1720	U51312MH1986PTC038931	टेक्स्पोलाइन (पूना) प्रायव्हेट लिमिटेड
1721	U72900MH1986PTC038934	लीक वे स्टेपर मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1722	U24119MH1986PTC038860	अहमदनगर प्रोग्रेसीव्ह केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1723	U29299MH1986PTC038726	क्राउन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1724	U55101MH1986PTC039721	चंदन होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1725	U29199MH1978PTC020203	पूना रिंग्स अण्ड इस्टीग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1726	U01409MH1981PTC024460	सोमेश्वर पोल्ट्री अण्ड एगो एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1727	U25202MH1979PTC021474	सागर कॉन्टेनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1728	U31200MH1980PTC022162	रोज कॉम्प्यूटर अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1729	U19129MH1976PTC019301	प्रतीभा एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1730	U51909MH1982PTC026194	रत्न प्रकाश इंजिनिअरिंग अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1731	U55101MH1980PTC023490	प्रभावती होटेलीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1732	U74999MH1980PTC023416	स्कायलाइन विलअरींग अण्ड फॉरवर्डिंग एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड

1733	U72400MH1975PTC018673	मेहता पैकाई इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1734	U28910MH1981PTC025748	कुलकर्णी फास्नर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1735	U17299MH1972PTC016087	कोल्हापुर बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1736	U28991MH1966PTC013450	रोहीणी इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1737	U20299MH1981PTC024008	एस वुड वडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1738	U74999MH1981PTC024017	मेहर सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1739	U28992MH1982PTC026141	एम जे कंट्रोल एक्विपमेंट्स कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1740	U29120MH1979PTC021689	स्पशल टेलर पप्स कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1741	U51909MH1968PTC014096	फाउंडर्स यूनायटेड प्रायव्हेट लिमिटेड
1742	U01122MH1969PTC014180	कॉमइंडस ऐंग्री डेव्हलपमेंट्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1743	U45202PN2003PTC017989	मंगलमूर्ती प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1744	U01409MH1981PTC024473	भिमशंकर पोल्ट्री अण्ड एगो एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1745	U55103MH1971PTC015391	श्री पेट्स अण्ड वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1746	U01122MH1949PTC007235	दी जलालपुर फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1747	U15429MH1947PTC006053	जय हिंद एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1748	U29248MH1942PTC004444	दी महाराष्ट्र इस्टेट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
1749	U29248MH1981PTC023992	शेबेकर फाउंड्री प्रायव्हेट लिमिटेड
1750	U29248MH1962PTC012386	सकेल इन्वेस्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1751	U29199MH1978PTC020092	साब इंजिनिअर्स अण्ड फाउंड्री प्रायव्हेट लिमिटेड
1752	U28939MH1978PTC020160	अचन्ती मायनींग टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1753	U21099MH1981PTC024883	चैतन्य कनिफनाथ पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1754	U45201MH1978PTC020482	अडवान्सड कास्ट मास्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1755	U92112MH1980PTC023312	शामल श्री फील्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1756	U28910MH1981PTC025395	ऑलिम्पिया मेटल इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1757	U17111MH1956PTC009729	व्ही जे टेक्सटाइल्स मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
1758	U31200MH1980PTC023119	दीघे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1759	U29248MH1981PTC023974	इन्चोवेटिव्ह वॉक्स प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1760	U24249MH1979PTC021104	गोल्डन नगेट- केमीप्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1761	U01222MH1982PTC026136	राजी फार्म्स अण्ड प्रॉपरटिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1762	U27130MH1979PTC021108	संपदा कास्टिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1763	U51909MH1982PTC026402	जोशी प्रेसिजन मशीन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1764	U15511MH1975PTC018073	जोश फायर फायटींग एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1765	U17297MH1966PTC013520	साहनी होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1766	U63022MH1964PTC012894	टी एम स्टील वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1767	U51909MH1965PTC013199	आदज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1768	U70102MH1977PTC019792	नर्मदा नायलॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
1769	U29248MH1981PTC023719	रुबीकॉन मेटोप्लास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड.
1770	U63090MH1981PTC025258	वेस्ट कोस्ट टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1771	U29299MH1974PTC017788	सहेंद्री स्ट्रक्चरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1772	U34300MH1973PTC016614	मीरज ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड
1773	U20296MH1975PTC018381	वेस्टने मायक्रो फटिलाइजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1774	U29248MH1960PTC011806	मनीषा चीत्रा प्रायव्हेट लिमिटेड
1775	U74210MH1982PTC026059	एक्वाटेक इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1776	U92111MH1980PTC022507	सेजीटेरीअस मूव्हीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1777	U70102MH1964PTC012824	पीतले टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1778	U34102MH1981PTC024310	कोवेको वैहिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1779	U28910MH1979PTC021476	मार्स प्रेस मेटल प्रायव्हेट लिमिटेड
1780	U51228MH1979PTC021379	नवरचना इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1781	U24119MH1987PTC043340	सुश्री केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1782	U29248MH1986PTC040701	श्री स्वामी समर्थ पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1783	U45201MH1986PTC040504	शील्डक कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1784	U24232MH1986PTC038641	कोव्हल्स फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1785	U33111MH1987PTC045645	फ्लैश लॉग इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1786	U45201MH1987PTC044366	प्रबीण गुप्ते कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1787	U45201MH1986PTC041797	अजित रावेतकर अण्ड कंपनी (बिल्डर्स) प्रायव्हेट लिमिटेड.
1788	U74300MH1986PTC039082	एंडवेट (एडव्हरटायजिंग) प्रायव्हेट लिमिटेड

1789	U74210MH1988PTC046278	पुणे इंडस्ट्रीअल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1790	U15201MH1987PTC042287	वृद्धावन मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1791	U70101MH1987PTC043790	अराइज इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1792	U17115MH1986PTC041446	शिवम टेक्सटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड
1793	U26942MH1986PTC041798	राशी सिमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1794	U15332MH1986PTC040796	शाहना पोल्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1795	U74140MH1986PTC041239	बीइलीक मार्केटिंग अण्ड कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1796	U32209MH1987PTC044405	टोनोटोनीक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1797	U45209MH1987PTC044301	मारुती सिव्हील वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1798	U27105MH1987PTC043859	आनंद प्रिकोटेड शिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1799	U55109MH1985PTC038033	नील कमल हॉलीडे होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1800	U74999MH1985PTC037538	मैट्रिक्स सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1801	U51397MH1982PTC028335	शिल्पा इग्ज अण्ड फाइन केम प्रायव्हेट लिमिटेड
1802	U32109MH1985PTC035597	हेड्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1803	U28939MH1987PTC043410	भवानी इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1804	U29299MH1983PTC029932	परफेक्ट स्पेशल मशिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1805	U24299MH1983PTC029174	प्रो केम स्पेशलीस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
1806	U24231MH1982PTC028899	महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक एक्विपमेंट फिनीशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1807	U27106MH1984PTC033338	बीरनाले मेटल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1808	U28992MH1985PTC034983	नव महाराष्ट्र कॉन्टेनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1809	U17119MH1984PTC032244	कृपवड टेक्सटाइल्स मैनुफ्याक्चरिंग अण्ड प्रोसेसिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
1810	U74999MH1985PTC035255	सनफॉवर इंडस्ट्रीअल इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1811	U24298MH1985PTC035299	करवीर केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1812	U25199MH1987PTC042471	कोल्हापुर रबर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1813	U15492MH1987PTC043408	रशीला फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1814	U93090MH1987PTC042556	ओएसिस क्लब प्रायव्हेट लिमिटेड
1815	U33125MH1987PTC044124	पूना उद्योग प्रेसिजन मशिनींग प्रायव्हेट लिमिटेड
1816	U28991MH1987PTC045194	ट्रस्टशीप इंजिनिअरिंग एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1817	U72900MH1986PTC039198	फिनीक्स कॉम्प्यूटर कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1818	U01409MH1987PTC043370	वृशाली फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1819	U01409MH1987PTC043369	केलकॉम फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1820	U01122MH1987PTC043371	केळकर रोजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1821	U01111MH1986PTC040803	जेथे एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1822	U15143MH1986PTC040802	जेथे ऑइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1823	U55101MH1986PTC041557	सोना होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1824	U45201MH1987PTC045557	रतनी बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1825	U72100MH1987PTC045459	सिलीकॉन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1826	U15315MH1987PTC045014	भागीरथी रोलर फ्लोअर मिल प्रायव्हेट लिमिटेड
1827	U24134MH1987PTC045099	पालीडेकोर पुणे प्रायव्हेट लिमिटेड
1828	U32101MH1987PTC044732	सिगनस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1829	U29223MH1987PTC043858	माधव बॉल मिलींग प्रायव्हेट लिमिटेड
1830	U70102MH1987PTC044852	फाइन प्रोकोन्स डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1831	U45201MH1988PTC047233	घोरपडे भोर कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1832	U63040MH1983PTC031257	फ्लेमिंगो ट्रेवल्स-एन-टूरस प्रायव्हेट लिमिटेड
1833	U31909MH1983PTC031252	इन्स्टाकूल इंजिनिअरिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
1834	U31909MH1987PTC044639	इंदमन कुमार इलेक्ट्रोटेक्नीक प्रायव्हेट लिमिटेड
1835	U15201MH1987PTC042527	कृष्णा मिल्क अण्ड अलाइड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1836	U31909MH1986PTC040680	सातारा मेकनीकल वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1837	U29248MH1983PTC031017	इंडोकन इंजिनिअरिंग सिस्टिम्स लिमिटेड
1838	U29299MH1983PTC030703	मैलीटा इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1839	U01111MH1983PTC030626	शण्डील्य एगीकल्चरल अण्ड हैचरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1840	U24111MH1982PTC028036	सुपर पेट्रो-केम प्रायव्हेट लिमिटेड
1841	U29224MH1988PTC046712	सन-टेक एंथ्रेशन प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
1842	U29309MH1982PTC028436	कौकण इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1843	U74140MH1982PTC028352	संघेती कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1844	U01401MH1990PTC056784	गंगा इरीगेशन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड

1845	U45201MH1990PTC056112	नित्यसेवा कन्सल्टेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
1846	U72200MH1991PTC060430	प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर(इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1847	U80904MH1991PTC061295	साखळकस प्रकाश क्लासेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1848	U52520MH1992PTC065556	श्री दीप रिटेंडस प्रायव्हेट लिमिटेड
1849	U24119MH1990PTC057407	श्री वरदश्री केमीपेटस प्रायव्हेट लिमिटेड
1850	U52335MH1991PTC060203	सयाइ इलेक्ट्रो टेड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1851	U27310MH1991PTC061004	सूटेशन फाउंडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1852	U29120MH1991PTC062376	आर. आर. एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1853	U72200MH1991PTC062458	कोरीग्रुप इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स(इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1854	U02004MH1991PTC062856	आधुनिक पॉलीफेन प्रायव्हेट लिमिटेड
1855	U01122MH1991PTC063745	फ्लैवेक्स एगो (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1856	U45201MH1991PTC064459	सनमान कन्सल्टेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
1857	U40101MH1991PTC064628	सन डान्स पॉवर जनरेशन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1858	U24134MH1992PTC065571	जिनीअस पॉलिसील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1859	U51909MH1992PTC065632	वेद एक्सपोर्ट्स अण्ड इम्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1860	U29212MH1992PTC065240	प्रोफिलोफॉम्स इंजिनिअरिंग अण्ड टूलिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
1861	U01122MH1985PTC035036	मवीराज एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1862	U60231MH1983PTC030530	श्री गनेश शुगरकेन ट्रान्सपोर्ट क प्रायव्हेट लिमिटेड
1863	U14103MH1984PTC033552	अगरवाल स्टोन उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
1864	U74140MH1984PTC033965	अक्षया मैनेजमेंट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1865	U01122MH1984PTC033350	भागवत फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1866	U55101MH1984PTC034549	पटेल होटेलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1867	U29297MH1985PTC038167	शरवरी मशीन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1868	U27109MH1983PTC030572	भिष्मचाय इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1869	U01111MH1983PTC030620	विश्वामित्र एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1870	U52603MH1986PTC027634	कीरण ब्लीक कम्युनिकेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
1871	U27310MH1987PTC042808	महालक्ष्मी फाउंडस प्रायव्हेट लिमिटेड
1872	U72200MH1987PTC044881	हायकैलीबर कॉम्प्यूटर कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1873	U01111MH1983PTC030605	दधीची एग्रीकल्चरल डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1874	U31909MH1983PTC029931	नंदन प्रेस पाटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1875	U01111MH1983PTC030622	धूमया एग्रीकल्चरल अण्ड पॉल्ट्री प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1876	U01111MH1983PTC030613	वंशिष्ठ एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1877	U72200MH1985PTC035176	ओपन सिसेम मेमरी मशीन प्रायव्हेट लिमिटेड
1878	U45202MH1984PTC034377	गनपोले कन्सल्टेशन क. प्रायव्हेट लिमिटेड
1879	U45401MH1986PTC041924	सिन्टा टाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1880	U01111MH1983PTC030621	भृगु एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1881	U01111MH1983PTC030623	शुक्राचार्य एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1882	U72200MH1986PTC038776	इन्टाक्वीप कॉम्प्यूटर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1883	U29254MH1982PTC028421	रेमन रोम एक्विपमेंट्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1884	U29306MH1986PTC041178	मिडवेस्ट (दख्खन) एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1885	U01111MH1983PTC030614	कन्वा एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1886	U33130MH1987PTC045165	डेस्चॉन कंट्रोल्स अण्ड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1887	U29309MH1986PTC040759	सनड्यु होम अप्लायन्सेसअण्डपेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1888	U31101MH1986PTC041188	पिपासा हायड्रो प्रायव्हेट लिमिटेड
1889	U74210MH1986PTC041063	इफ्लुएन्ट केमिकल कन्सल्टन्ट्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1890	U01409MH1987PTC043368	शिवकृपा फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1891	U01409MH1987PTC043367	श्री भूलेश्वर फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1892	U24219MH1986PTC040804	जेधे एगो केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1893	U24232MH1987PTC045713	रोठमन फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
1894	U24116MH1987PTC045148	रुक्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
1895	U11201MH1988PTC046563	लक्ष्मी ऑक्सीजन प्रायव्हेट लिमिटेड
1896	U70102MH1988PTC046691	सुलक्ष्मी लैण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1897	U70101MH1988PTC046347	सफारी प्रमोटर्स अण्ड बिजनेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1898	U65993MH1986PTC041579	हरीप्रवा होटल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1899	U15137MH1986PTC041530	ऑरचर्डफूड प्रॉडक्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1900	U45201MH1986PTC039740	ऑरबीट कॉन्स्ट्रो (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड

1901	U15041MH1986PTC039024	महालक्ष्मी लेमन प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1902	U05004MH1986PTC041068	प्रवरा हंचरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1903	U33205MH1987PTC043322	झेनीथ व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड
1904	U17297MH1987PTC045406	चिटनीस इस्टरलॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
1905	U24231MH1988PTC046263	क्रिस्टल फार्मोसिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1906	U15204MH1988PTC046119	महालक्ष्मी दुग्ध व्यवसाय प्रायव्हेट लिमिटेड
1907	U55101MH1986PTC040026	श्री ओसवाल होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1908	U15313MH1987PTC045451	श्री विजय दाल मिल प्रायव्हेट लिमिटेड
1909	U55101MH1986PTC041104	अस्मिता होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1910	U72300MH1987PTC042238	ओरीअन मायक्रो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1911	U51909MH1986PTC040316	सुयश वन सिल प्रायव्हेट लिमिटेड
1912	U21012MH1986PTC039986	शिरपुर पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1913	U25207MH1987PTC043051	सायक्लो प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1914	U74994MH1987PTC043150	क्लासीक आर्ट्स (पूना) प्रायव्हेट लिमिटेड
1915	U01102MH1986PTC041542	एव्हरेज प्लस पेट्रोलिअम प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1916	U45201MH1988PTC047120	ए बी पाटील कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1917	L51399MH1986PLC040446	शाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
1918	U51399MH1986PTC042055	विश्वास एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1919	U24232MH1986PTC040445	सिलेक्टो इग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1920	U26931MH1985PTC037745	क्वालिटी ब्रिक्स अण्ड टाइल्स मैनुफ्याक्चरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
1921	U63012MH1985PTC037559	कीरन मरीन क्राफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1922	U31200MH1987PTC045650	पावरबैक एक्विपमेंट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1923	U01401MH1987PTC043356	कृषि सिंचन प्रायव्हेट लिमिटेड
1924	U31200MH1991PTC061981	आरेन कंट्रोल पैन्ल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1925	U17125MH1991PTC060738	देशपांडे एग्री कमाशियल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1926	U51219MH1980PTC022908	मान लिफ्ट इरीगेशन अण्ड एग्री-इंडस्ट्रीअल क प्रायव्हेट लिमिटेड
1927	U29294MH1980PTC022990	प्रोटोज टाइप सेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1928	U15419MH1981PTC024575	मोना-फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1929	U28999MH1981PTC024103	एंगमाथान इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1930	U51102MH1982PTC026380	डब्ल्यू आई ई केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1931	U29119MH1992PTC065458	अरीहत बाइलर अण्ड अलाइड एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1932	U29248MH1951PTC008354	अजली प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड
1933	U51909MH1990PTC056530	कैपको इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1934	U29248MH1955PTC009656	विनस मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1935	U51909MH1949PTC007174	श्री जयभवानी सिडीकट प्रायव्हेट लिमिटेड
1936	U25111MH1990PTC056957	मैट्रीक्स रबर ट्यूब इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1937	U01401MH1990PTC056651	यशोधन एक्सकैवेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1938	U45201MH1986PTC040551	कींग बिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
1939	U29299MH1991PTC061508	डेक्कन रिवाइंडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1940	U01111MH1986PTC041134	हिमालय एग्री इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1941	U24115MH1986PLC041267	आशिवाद एग्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1942	U45205MH1987PTC043372	केळकर हायड्रोपौनेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1943	U27203MH1985PTC038101	सीद्धार्थ अप्लायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1944	U74140MH1988PTC047456	देशेखर मेकैनिकल अण्ड इलेक्ट्रिकल्स इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1945	U18101MH1987PTC043773	डेबोनेअर गारमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1946	U51397MH1990PTC058573	लेजर इग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1947	U74300MH1990PTC057318	सरदार एंडव्हरटाइजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1948	U27106MH1992PTC019365	शिगोटे प्रोसेस्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1949	U15421MH1991PTC064036	गुरुकृपा रिशेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1950	U64120MH1991PTC061621	हाडीकर कुरीअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
1951	U28999MH1981PTC024057	सारगव इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1952	U34300MH1964PTC012978	संगम इलेक्ट्रिकल अण्ड मेकैनिकल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1953	U17115MH1991PTC063446	रिशभ कलांथ मैनुफ्याक्चरिंग क.प्रायव्हेट लिमिटेड
1954	U50102MH1962PTC012470	सांगली ऑटोमोबाइल अण्ड जनरल एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
1955	U63040MH1948PTC006427	भगवत मोटर सर्विस प्रायव्हेट लिमिटेड
1956	U73100MH1991PTC063469	हाय-टेक ग्लोबुज प्रायव्हेट लिमिटेड

1957	U74210MH1974PTC017926	महाजन अण्ड असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1958	U27109MH1973PTC016594	करवीर इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड
1959	U33301MH1986PTC040181	पी जैन आर्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1960	U70101MH1981PTC024738	जयकर बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1961	U29119MH1986PTC041133	लानीर इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1962	U91110MH1974PTC017601	सुमीन्स मार्केटिंग अण्ड मैन्यूफ्याक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1963	U34300MH1973PTC016752	दयासन्स इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1964	U24219MH1974PTC017327	अप्रेज केमीऑइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1965	U27310MH1971PTC015366	आर सी जी मेलेबल कास्टिंग्स इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1966	U28920MH1974PTC017966	एस पी के टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1967	U29224MH1971PTC015078	मेक राइट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1968	U85110MH1974PTC018019	पवन डैअरी फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
1969	U74999MH1981PTC024318	सदरात एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1970	U26101MH1949PTC006987	ओगले ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1971	U45205MH1981PTC025385	मिमो फिल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1972	U28939MH1981PTC024046	ग्लोबल इन्स्ट्रुमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1973	U29197MH1980PTC023018	एअर ओ-डाउन फिल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1974	U29308MH1972PTC015529	भारतेश कॉन्फ्लेक्स इंडस प्रायव्हेट लिमिटेड
1975	U14102MH1987PTC045755	नव गेनाइट इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1976	U33205MH1986PTC041533	दिपलक्ष्मी फील्म्स अण्ड स्टूडिओज प्रायव्हेट लिमिटेड
1977	U45201MH1988PTC045981	नवोदय बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1978	U23209MH1986PTC042019	इपेल पेट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड
1979	U29299MH1986PTC038540	दत्तात्रय फैब्रिकेटर्स अण्ड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1980	U25199MH1988PTC047257	शेल मोल्डर्स अण्ड रबर इंडस्ट्रिज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
1981	U28910MH1986PTC040019	वाकीकर इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1982	U31909MH1986PTC040969	एलकोपैक दाकोबस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
1983	U29248MH1961PTC012183	श्री चित्र प्रायव्हेट लिमिटेड
1984	U24297MH1986PTC040067	सी हॉर्स इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
1985	U24295MH1981PTC024346	पूना पॉली क्राफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1986	U74999MH1981PTC024367	करनीक कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1987	U52339MH1988PTC047571	ऑरचीड शॉप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1988	U01403MH1987PTC045252	पवन एगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1989	U74999MH1949PTC007309	सुपर प्रॉडक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1990	U29248MH1949PTC007141	थोपटे इलेक्ट्रिक सप्लाय कं प्रायव्हेट लिमिटेड
1991	U22212MH1981PTC024006	व्हरडीक्ट पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1992	U17119MH1946PTC004860	धनंजय मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1993	U27106MH1980PTC022703	उत्कृष्ट फाउंड्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1994	U29248MH1961PTC012136	पटवर्धन इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
1995	U29248MH1949PTC007286	कुलको इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
1996	U51221MH1972PTC015736	श्री डाइज प्रायव्हेट लिमिटेड
1997	U25199MH1974PTC017965	सेखरी अण्ड असोसिएट्स (कंसल्टिंग इंजिनिअर्स) प्रायव्हेट लिमिटेड
1998	U15412MH1990PTC054968	ए व्ही भट कॉन्फैक्शनरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
1999	U31200MH1981PTC024604	आयटीआर ग्राफीक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2000	U45203MH1986PTC039299	महाराष्ट्र कोकोनट ग्रोवर्स अण्ड फार्मइंग कॉम्पलेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2001	U31909MH1986PTC038902	ट्रायो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2002	U34300MH1989PTC053408	विजय टेम्पो प्रायव्हेट लिमिटेड
2003	U15201MH1997PTC110277	शेवतगंगा दुध-शर्ती उत्पादक प्रायव्हेट लिमिटेड
2004	U45202MH1994PTC081432	फेरमोन कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2005	U74999MH1993PTC073915	प्युअरटेक ऐक्वा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2006	U25111MH1994PTC077500	किरण टायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2007	U55101MH1993PTC073024	सावली होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2008	U15204MH1998PTC113434	अहिल्या डैअरी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2009	U15331MH1993PTC072692	शिवकमल ऐनीमल फीड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2010	U51909MH1997PTC108093	स्पार इम्पेक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2011	U28910MH1998PTC113933	थारा प्रोसेजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2012	U05004MH1993PTC075646	गॉडसन्स ऐक्वाकल्चर फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड

2013	U17117MH1995PTC084996	स्नेहवर्धिनी वूलवथे प्रायव्हेट लिमिटेड
2014	U29150MH1976PTC019068	सोमजी महा मन स्मृती खांडसारी उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
2015	U72200MH1976PTC019255	रुकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्स एक्सपोर्टर्स (प्रायवेट) लिमिटेड
2016	U15425MH1978PTC020474	घोटावडकर जगरी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2017	U31103MH1977PTC019654	क्राउनेह इलेक्ट्रिकल्स अण्ड इंजिनिअरिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
2018	U51909MH1978PTC019278	एम एम फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2019	U01122MH1979PTC021710	नानाज द्राक्ष बागायत अण्ड आधुनिक शेती सेवा सॉल्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2020	U74999MH1979PTC021475	जेम आर्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2021	U27310MH1979PTC021258	डी नोवो कार्स्टींग्स क प्रायव्हेट लिमिटेड
2022	U15424MH1978PTC020671	श्री शिवशक्ती खांडसारी शूगर मैन्युफैक्चरिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
2023	U31103MH1978PTC020516	मोटरोलो एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2024	U33301MH1989PTC052456	सदीप वाचेस सेल्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2025	U63033MH1989PTC052217	कैमकोम फ्लाय प्रायव्हेट लिमिटेड
2026	U31909MH1990PTC055724	शतनू इलेक्ट्रिक प्रायव्हेट लिमिटेड
2027	U74992MH1989PTC051012	फोनीक्स मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2028	U45201MH1989PTC051352	पुणे आर. एम. कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2029	U15499MH1989PTC050412	काले फूड्स इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2030	U24224MH1988PTC048954	प्रवरा पैटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2031	U85110MH1988PTC048835	पोफळे हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
2032	U01404MH1988PTC048281	अजीत ग्रीन फील्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
2033	U15139MH1989PTC052676	होम प्राइड फूड क्राफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2034	U52331MH1976PTC019002	श्रीराम पोटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2035	U74140MH1976PTC018771	इचलकरजी टेक्सटाइल्स मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2036	U51909MH1980PTC022193	सेण्डजीक सेल्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2037	U26959MH1977PTC019461	वेस्ट कोस्ट एसबेसटॉस प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2038	U28999MH1980PTC023248	लूना फैब्रिकेटेस अण्ड इरेक्टेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2039	U34300MH1977PTC019577	गुना नट बोल्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2040	U01405MH1975PTC018553	ट्रिप्ले इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2041	U28129MH1978PTC020289	सेल्स वीन केटेनस प्रायव्हेट लिमिटेड
2042	U29299MH1989PTC053952	हिमादे ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2043	U15511MH1970PTC014664	ट्रिटॉन इलेक्ट्रोमेक मैन्युफैक्चरिंग क प्रायव्हेट लिमिटेड
2044	U70102MH1969PTC014396	के व्ही बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2045	U29212MH1970PTC014812	वसंत फाउंड्री उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड
2046	U15520MH1971PTC014948	डेक्कन फार्म्स अण्ड डिस्ट्रीलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2047	U72200MH1977PTC019778	क्रीएटीव्ह केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2048	U29248MH1980PTC022374	रानको इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2049	U29248MH1949PTC007058	सिने यूनीट अफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2050	U28992MH1981PTC025838	डेल्टा केटेनस अण्ड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2051	U31909MH1990PTC055073	पॉवरनेटीक इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2052	U67120PN1999PTC013675	जिमिकरण सेक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2053	U63040MH1989PTC051635	कोलंबस ट्रेवल एजेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2054	U74140PN2000PTC015439	कैण्डेला कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2055	U29299PN1999PTC013986	श्री पद्मावती इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2056	U74999MH1987PTC045604	फीस्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2057	U24119MH1992PTC066881	दिवा केमो-ऑर्गेनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2058	U72900MH1992PTC066623	चिंतामणी बिड्डीनेस लीक प्रायव्हेट लिमिटेड
2059	U15142MH1992PTC065958	चिंतामणी ऑइल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2060	U15444MH1992PTC066135	पाटील अण्ड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2061	U74210MH1992PTC066049	स्वयम इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2062	U51505MH1992PTC066123	महा इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2063	U55101MH1997PTC112276	नाथ सागर होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2064	U92113MH1993PTC073308	क्रीएटीव्ह रेकॉर्डिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2065	L65910MH1994PLC080946	साबळे वाघीरे पोर्टफोलियो लिमिटेड
2066	U24222MH1993PTC074127	अर्थ पॉली यू पैटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2067	U24232MH1997PTC110416	रत्न पैरेंटरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2068	U01122MH1997PTC107477	जयदयाल शेती एग्रीको प्रायव्हेट लिमिटेड

2069	U51506MH1993PTC073843	प्यारालल ट्रैक मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2070	U26933MH1997PTC110239	ऐरेज फ्लोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2071	U45202MH1997PTC110184	सुयोग प्रमोटर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
2072	U15412MH1998PTC114221	क्लसीक न्यूट्रिएण्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2073	U51909MH1998PTC114153	विनवे शॉपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2074	U34300MH1998PTC114156	यशोदा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2075	U55101MH1998PTC114116	क्लीक फार्म्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2076	U29299MH1998PTC114089	प्रॉम्प्ट टूल्स अण्ड हाईवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
2077	U15543MH1998PTC114050	सनजीवन मिन्नरल वाटर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2078	U51229MH1990PTC057471	केतुस एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2079	U02221PN1998PTC012733	वर्षा ऑफसेट प्रायव्हेट लिमिटेड
2080	U21023MH1980PTC023249	सातारा इंडस्ट्रीअल पैकेजिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2081	U29248MH1980PTC023554	दी इचलकरजी होजीअरी इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2082	U45203MH1981PTC024992	जैक-एम-सेण्ड बिल्डर्स अण्ड ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2083	U30007MH1976PTC018791	ए बी सी अल्कलाइन बैटरीज क प्रायव्हेट लिमिटेड
2084	U51505MH1980PTC023325	डिकॉन प्ल्यूमैटिक एक्विपमेंट्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2085	U29292MH1981PTC024928	त्रिमूर्ती सिरामिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2086	U17299MH1998PTC114579	रामचंद्र निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड
2087	U25206MH1998PTC114570	लैक्सब्रो प्रेसिजन इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2088	U50909MH1998PTC114697	मरहूबा एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2089	U24119MH1980PTC022155	अंबा केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2090	U25199MH1977PTC019993	आदीत्यपुर रबर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2091	U72300MH1982PTC026083	वनगुरद दाता सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2092	U29197MH1997PTC110356	यामा फिल्टर्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2093	U01122MH1998PTC114634	काले एगो हायटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2094	U51909MH1998PTC114689	जैकल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2095	U51909MH1998PTC113141	पंचरत्न परचेस अण्ड सेल्स सर्विसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2096	U34300MH1997PTC110290	मॉडर्न ऑटो स्टैप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2097	U72900MH1979PTC021687	सिंहगड होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2098	U01222MH1998PTC114208	हेप्पी होम बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
2099	U74300MH1982PTC026032	प्रोग्राफ एडव्हर्टायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2100	U55101MH1982PTC026074	पेशवा होटेल्स अण्ड होल्डींग्स रिसोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2101	U24239MH1982PTC026053	अक्षय कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2102	U17111MH1981PTC024359	विश्वाशान्ती स्पिनींग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2103	U29111MH1973PTC016750	प्रेसिजन स्पेअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2104	U29130MH1982PTC026446	एस पी गीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2105	U23201MH1967PTC013791	अपोलो थीटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2106	U27106MH1967PTC013769	मीरज शीट मेटल अण्ड स्टील वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2107	U17299MH1972PTC016088	कौकण स्पिनींग प्रायव्हेट लिमिटेड
2108	U51909PN2001PTC015881	बिज़ीनेस ग्रुप मार्केटिंग अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2109	U51909PN2001PTC015887	ग्रीन रिसर्च अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2110	U51909PN2001PTC015901	मिलेनिअम सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2111	U93090PN2001PTC015892	अवीरत हेल्पलाइन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2112	U32109PN2001PTC015904	वरदमूर्ती इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2113	U51505PN2001PTC015811	यशवत ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2114	L51909PN2001SGC015816	टास्क मार्केटिंग (इ) लिमिटेड
2115	U72200PN2001PTC015928	वारना इन्फोटेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2116	U74940PN2001PTC015915	शिभीराज स्टूडिओज प्रायव्हेट लिमिटेड
2117	U30007PN2001PTC015922	एस पी ए ए इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2118	U26921PN2001PTC015825	शेट्टी रिफ्रिक्टरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2119	U45201PN2001PTC015934	गजानन बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2120	U72200PN2001PTC015826	शारदा सायबरनेटीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2121	U51909PN2001PTC015947	साई सेल्स सर्विसेस अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2122	U51909PN2001PTC015946	हाय-टेक नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2123	U51505PN2001PTC015931	ग्रुपमेक्स मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2124	U51909PN2001PTC015948	स्पायरनेट मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

2125	U15203PN2001PTC015833	रायगड डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2126	U51909PN2001PTC015863	ऑप्शनस अण्ड सोलुशन्स मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2127	U74140MH1998PTC114401	डीके मैनेजमेंट अण्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2128	U29193PN2002PTC016638	रिअल सेफ्टी एक्विपमेंट्स मार्केटिंग अण्ड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2129	U25206MH1998PTC114570	लैक्सब्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2130	U74140MH1998PTC114371	इफेक्टिव्ह सेल्स सोलुशन्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2131	U55101MH1998PTC114116	क्लीक फार्म्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2132	U29299MH1998PTC114089	प्रॉमिप्ट टूल्स अण्ड हार्डवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
2133	U51909PN2000PTC014945	वेब व्हैल्यूज प्रायव्हेट लिमिटेड
2134	U74201PN2000PTC014929	डिज़ाइन एन्क्लेव कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2135	U72200PN2000PTC014902	नैनोसॉफ्ट टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2136	U72200PN2000PTC014884	वरद कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2137	U51494PN2001PTC015866	क्रीशब ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2138	U51909PN2001PTC015939	कुबेर मल्टी-व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड
2139	U55101MH1988PTC048051	कॉपर लीफ होटेल्स अण्ड इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2140	U92199MH1989PTC051038	विजयंत थ्रीट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2141	U29244MH1988PTC048054	मेकॉन मटेरिअल हैंडलींग एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2142	U74140MH1989PTC050811	पूना इंजिनिअरिंग अण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2143	U45201MH1989PTC050381	पद्मा हाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2144	U15204MH1989PTC050518	आदर्श एगो डेअरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2145	U45201MH1989PTC050668	अमेया बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2146	U26102MH1988PTC049576	सीआरआर फायबर ग्लास क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2147	U24246MH1988PTC049453	शिवराज केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2148	U28999MH1988PTC049747	रहीरकर इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2149	U29197MH1989PTC051024	इन्टाक्लीन फिल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2150	U15311MH1988PTC049759	गुरुकृपा रोलर अण्ड फ्लोअर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2151	U50300MH1989PTC051199	पंचशील ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2152	U28920MH1988PTC050148	मनीभद्र मेटल प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2153	U01122MH1989PTC052627	रॉयल फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2154	U51109MH1998PTC114441	पंचवटी मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2155	U29299PN1998PTC012534	टीडीएम इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2156	U52110PN1998PTC012753	जेस्टार इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2157	U70109MH1992PTC068894	वितराग इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2158	U33130MH1992PTC068897	शिप्रा कंट्रोल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2159	U15203MH1992PTC068818	सागर डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2160	U45202MH1997PTC109834	ए वाय चाफेकर कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2161	U15142MH1997PTC109923	यू अण्ड एस ऑइल्स अण्ड कपाऊड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2162	U15499MH1997PTC105674	केडी फूड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2163	U24211MH1997PTC105578	श्री आत्माराम एगो इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2164	U17297MH1997PTC111322	पारस यान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2165	U29299MH1997PTC106675	एक्सिस ऑटोटेक अण्ड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2166	U17119MH1997PTC106354	मदना पॉलीफील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2167	U27320MH1997PTC110058	स्प्रा कास्टींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2168	U29230MH1997PTC105536	वैचर टूल्स अण्ड कास्टींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2169	U51909MH1997PTC105533	शिनो मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2170	U24119MH1997PTC110570	फलेमीन बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2171	U27106MH1997PTC110781	आर अण्ड जे अलॉइज प्रायव्हेट लिमिटेड
2172	U28991MH1997PTC110529	टीटे फासनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2173	U29299MH1997PTC108526	मेचरीक सोलुशन्स लिमिटेड
2174	U01122MH1997PTC111138	राधाद्री एगो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2175	U01111MH1997PTC111503	शिव-सुधी एगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2176	U64202MH1997PTC111456	टेकमाउंट टेलीकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
2177	U51909MH1997PTC111275	सुधीम मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2178	U01122MH1997PTC111430	एस पी कृषिधन प्रायव्हेट लिमिटेड
2179	U15201MH1997PTC111831	यशोधरा डेअरी अण्ड एगो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

2180	U34300MH1997PTC111787	सहज टेक्नोक्राफ्ट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2181	U74300PN1998PTC012803	कविश असोशिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2182	U72200MH1992PTC069334	कॉम्पू शस्त्र (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2183	U52321MH1993PTC074602	नीज्मा एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2184	U33301MH1993PTC073977	जय वाचेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2185	U72200MH1992PTC068240	श्री समर्थ प्रेसिजन कंपोनेन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2186	U74140MH1992PTC068368	क्लाक इंजिनिअर्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2187	U72200MH1992PTC067598	फ्रीपोर्ट सॉफ्टवेयर लेब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2188	U05004MH1992PTC067688	जजीरा मरीन एक्वा फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2189	U24132MH1992PTC068381	ओरीऑन लैटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2190	U29308MH1992PTC068437	श्रीलक्ष्मी एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2191	U01300MH1992PTC068620	लेन्याद्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2192	U24134MH1992PTC068614	दुर्गा पॉली थर्म प्रायव्हेट लिमिटेड
2193	U31200MH1992PTC068633	पालको कंपैसिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2194	U01404MH1992PTC069200	सुजय एगो फार्म्स अण्ड एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
2195	U15209MH1992PTC069220	नेसारी डेअरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2196	U51312MH1992PTC069230	रोविता मार्केटिंग अण्ड एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2197	U28920MH1993PTC072609	पूणे मेटल सरफेस कोटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2198	U01119MH1993PTC074535	राजासाहेब फार्म्स अण्ड एक्वाकल्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
2199	U24134MH1992PTC069173	पूणे आदित्य पॉलीकेम इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2200	U15143MH1993PLC074160	नेरला सोया फूड्स लिमिटेड
2201	U15424MH1993PTC074034	बैंकर एगो एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2202	U15142MH1993PTC073634	रामसन्स ऑइल रिफायनरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2203	U51101MH1993PTC073714	सारंग कमर्शियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2204	U51312MH1992PTC069333	कोनाक एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2205	U25029PN1998PTC012636	सुदीन पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
2206	U55101MH1992PTC069465	मृत्ता शंकर होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2207	U72300MH1997PTC107060	डेयुस बिझिनेस सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2208	U28910MH1997PTC106930	एसपीएल प्रेसइंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2209	U22121PN2000PTC015269	साक्षी प्रिंटर्स अण्ड पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2210	U51909MH1997PTC111175	नम्स ओव्हरसिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2211	U24129MH1997PTC107599	समृद्धी बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2212	U23201MH1997PTC108129	श्रीरंग ऑइल्स अण्ड मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2213	U74210MH1997PTC106897	मेट्रो आचेप्रो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2214	U72200MH1997PTC110582	तनीशक इन्फोसर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2215	U29299MH1997PTC111369	जनवरी इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2216	U51909MH1997PTC107247	जगदीश एक्सपोर्ट्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2217	U24232MH1997PTC108193	केमवेट फार्मास्यूटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2218	U15143MH1997PTC111049	कल्प-तरु नॉन-एडीबल ऑइल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2219	U74140MH1997PTC108213	सुजन प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
2220	U29299MH1997PTC108529	राम बलराम इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2221	U15141MH1997PTC107447	श्री गोदावरी एगो ऑइल प्रायव्हेट लिमिटेड
2222	U28991MH1997PTC107246	सातारा चेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2223	U72200MH1992PTC068848	कॉम्प्यूटर डाटा प्रिपेरेशन सर्विसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2224	U51229MH1997PTC107298	गारे इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2225	U74999MH1997PTC106773	इन एक्सपोज़िशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
2226	U15499MH1997PTC108889	केरल मिल्क अण्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2227	U01122MH1997PTC110577	श्रीराम मशरूम प्रायव्हेट लिमिटेड
2228	U01212MH1997PTC111202	यशोदीप गोत फार्मइंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2229	U51909MH1997PTC112081	अमरश्री सेल्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2230	U75123MH1992PTC068769	प्राची कॉमर्टेव सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2231	U01122MH1997PTC108595	ग्रीनलैण्ड फॉरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
2232	U51420MH1997PTC110550	राजाश्री (पूणे) ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2233	U31300MH1997PTC108512	कोयना कडक्टर प्रायव्हेट लिमिटेड
2234	U51909MH1997PTC107304	श्री शिवाजी मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2235	U24123MH1997PTC109633	मोरया बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड

2236	U29191MH1997PTC106611	महा कूल वामे इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2237	U55101MH1992PTC066460	मढेकर होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2238	U15493MH1992PTC066469	तस्कीन ऑइल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2239	U14106MH1992PTC066533	गोदावरी सैण्ड ड्रेजींग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2240	U70102MH1992PTC066008	दादोबा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2241	U74210MH1992PTC066002	भीडे सर्वेयर्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2242	U52339MH1992PTC066997	स्वरूप एन्टरप्राइजेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2243	U45201MH1992PTC067002	दिनकर कॉन्ट्रैक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2244	U28991MH1992PTC066970	भवानी चेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2245	U40109MH1992PTC066559	हरी प्रीया पॉवर टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2246	U45209MH1992PTC066528	फाइन एज बील्ड कॉम्प प्रायव्हेट लिमिटेड
2247	U24132MH1997PTC107594	जेकेबी थर्मोफॉर्मर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2248	U72220MH1997PTC110894	कालीडो इन्फो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2249	U25209MH1997PTC107438	लौकीक प्लास्टीक प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2250	U60231MH1997PTC110539	नॉर्देन फ्रेट मूवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2251	U74999PN2001PTC015702	विदेश पॉवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2252	U01122PN2000PTC015595	एम आर एगो फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
2253	U55100PN2000PTC015617	सी-लॉड हेल्थ अण्ड रिसोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2254	U51909PN2000PTC015600	लखानी कॉमर्स सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
2255	U74140PN2000PTC015619	अयर्कोन कॉर्पोरेट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2256	U29299PN2000PTC015613	सोनाली आर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2257	U29130PN2000PTC015624	भवानी हेवी इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2258	U45105PN2000PTC015635	हारमनी टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2259	U72200PN2000PTC015644	बालाजी बिज़्नेस सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2260	U51497PN2000PTC015649	मारुती एगो माक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2261	U25209PN2000PTC015655	अपेक्षा पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
2262	U51909PN2001PTC016315	लाइफलीक सेल्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2263	U72200PN2001PTC016284	पुनीप्राइम कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
2264	U45202PN2001PTC016289	अभिनव बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2265	U72200PN2001PTC016341	रवीराज इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2266	U15142MH1990PTC059287	बारामती ऑइल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2267	U55101MH1990PTC058476	खडेकर होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड,
2268	U51395PN2001PTC016346	आकासी मार्केटिंग अण्ड ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2269	U51909PN2001PTC016335	सीद्धनाथ सेल्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2270	U52335PN2001PTC016307	सन मून मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2271	U24231PN2002PTC016650	वात्सल्य फार्मासिटीकल प्रायव्हेट लिमिटेड
2272	U72200PN2000PTC015568	डीएमएस कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2273	U45201PN2000PTC015546	जी बी एस एस कन्सल्टेशन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2274	U15203PN2000PTC015545	ऑटोलाइन एगो कन्सेप्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2275	U85110PN2000PTC015534	आशा मेडिकल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2276	U74140PN2002PTC016675	बीज़नेट कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
2277	U51909PN2002PTC016677	सहकाय मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2278	U51909PN2002PTC016672	निमिती ट्रेडिंग अण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2279	U51909PN2002PTC016668	अर्थनेट मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2280	U32109PN2002PTC016658	सरल इलेक्ट्रोटेलीकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
2281	U01222PN2002PTC016648	श्री वाघजाईदेवी लाइव्ह स्टॉक अण्ड एगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2282	U51909PN2002PTC016653	बेस्ट वक नेटवर्क मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2283	U74140PN2002PTC016636	एस पी लिगल कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2284	U74140PN2001PTC015708	टी अलकेमीस्ट कंसल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2285	U72200PN1999PTC013757	क्रॉसओव्हर इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स अण्ड टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2286	U25191MH1982PTC028121	सनबीम फैब्रिकेटर्स अण्ड पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
2287	U72200PN2002PTC016995	पाम्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2288	U92199MH1988PTC049605	वीलो-फाइव प्लेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2289	U27104MH1988PTC049730	कल्याणी आयने प्रायव्हेट लिमिटेड
2290	U34300MH1989PTC053622	पैटसन एन्टोक्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड

2291	U22122MH1989PTC053560	करीष्मा पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2292	U50101MH1989PTC053512	देवदत्त ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2293	U17125MH1992PTC065024	राजाराम बापू टेक्सटाइल मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2294	U15531MH1991PTC064014	डायमण्ड बीअर मैन्यूफ़्याक्चरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2295	U25199MH1989PTC054570	सुजान पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
2296	U24231MH1989PTC052416	देव देवाश्री केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2297	U70101MH1988PTC049810	पंचशील इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
2298	U15549MH1989PTC052754	सन्नीगोल्ड ब्रेवरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2299	U25209MH1989PTC052819	यश प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2300	U17115PN2002PTC017538	श्री यशोलक्ष्मी कोटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2301	U72200PN2002PTC017501	कीना टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2302	U51909PN2002PTC017516	पंढरपुर बजार प्रायव्हेट लिमिटेड
2303	U70101MH1992PTC069822	ए डी अम्दागिरी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2304	U74174MH1992PTC068962	वाली फायनान्शियल कन्सल्टन्ट्स अण्ड एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2305	U24111MH1995PTC093750	रत्नगिरी एअर प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2306	U29297MH1992PLC068601	सुनानो मेडीटेक लिमिटेड
2307	U17111MH1995PTC093534	समर्थ रामदास स्वामी स्पिनींग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2308	U55101MH1995PTC093978	नलवडे होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2309	U01122MH1995PTC093563	नवगिरी अण्ड सन्स एग्री इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2310	U25209PN1999PTC014015	साईनाथ प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2311	U70109MH1995PTC093506	मेहरवन इस्टेट्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2312	U17119MH1995PLC093332	श्री गगनगिरी महाराज सूत गिरणी लिमिटेड
2313	L01119MH1996PLC097121	कॉज एग्रीटेक लिमिटेड
2314	U70101MH1990PTC058537	केलगा डेव्हलपमेंट कन्सल्टन्ट्स अण्ड इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2315	U29832MH1993PTC071249	प्रोफिलोफॉर्म्स कटौंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2316	U27202MH1993PTC070977	अल्दन इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2317	U01122MH1992PTC069162	तनंग एग्री इंडस्ट्रिज लिमिटेड
2318	L15116MH1996PLC097271	गौतम फूड्स लिमिटेड
2319	U30009MH1996PTC095835	पीसी नेट कॉम्प्यूटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2320	U15209MH1995PLC095249	शिवप्रसाद मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
2321	U11101MH1995PLC095341	वेस्टने सेबवांग इंजिनिअरिंग लिमिटेड
2322	U02221MH1995PTC095304	शालीवाहन पेपर अण्ड प्रिंट्स लिमिटेड
2323	U29306MH1995PTC095247	संब्रो रेफ्रीजरेशन इंडिया लिमिटेड
2324	U29299MH1995PLC095142	नायडू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2325	U50300MH1973PTC017086	ताम्हाणे मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2326	U29299MH1995PTC086063	एरोकम पोलेशन कंट्रोल एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2327	L60210MH1996PLC096838	जनहीत ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
2328	U21199MH1993PTC072142	पिंगळे ग्राफीक सिगनेज सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
2329	L15122MH1993PLC072341	वेनसीन फूड्स अण्ड फीड्स इंडिया लिमिटेड
2330	U27109MH1995PTC093547	जरीवाला स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2331	L21023MH1995PLC092834	रोहन पैकेजिंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
2332	U24239MH1995PTC093729	प्रतिभा बायो-केम प्रायव्हेट लिमिटेड
2333	U19116MH1995PTC093878	यशश्री लेदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2334	U28939MH1995PTC093931	कल्याणी एक्विपमेंट अण्ड टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2335	U45309MH1995PLC094543	युनायटेड डेव्हलपमेंट कन्सल्टन्ट्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
2336	U51395MH1992PTC068636	अमिताजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2337	U33125MH1992PTC068455	कवालीकॉन इन्स्ट्रुमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2338	U24299MH1992PTC068435	फुलन केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2339	U99999MH1995PTC094935	वृद्धनटेक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2340	U65993PN1992PTC015747	विनेव्हर इनवेस्टमेंट कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2341	U70101MH1992PTC069993	ज्यूपीटर पार्क इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2342	U24239MH1992PTC068442	एप्सीलॉन बायो रेमेडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2343	U70101MH1992PTC069630	सचेती ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2344	U70101MH1992PTC069992	जेमिनी पार्क इस्टेट्स (पूणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
2345	U99999MH1988PTC047997	अंबर ग्रेनाइट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2346	U28999MH1989PTC050507	सुचितन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

2347	U01222MH1989PTC050592	बारामती पोल्ट्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2348	U45201MH1989PTC050634	अभिरशी कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2349	U70101MH1989PTC050635	मैथिली इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2350	U29199MH1988PTC048884	धवल फाउंडर प्रायव्हेट लिमिटेड
2351	U52334MH1988PTC048859	रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2352	U25203MH1989PTC050725	कदम पीव्हीसी पाइप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2353	U74140PN2001PTC016621	अल्फा कन्सल्टन्सी अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2354	U29249MH1988PTC048584	महाराष्ट्र डील रॉक एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2355	U29219MH1988PTC048575	टेकसॉफ्ट मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2356	U28999MH1989PTC050813	डान्स इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2357	U52334MH1988PTC048768	अरसॉम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2358	U91990MH1988PTC048730	गोल्ड क्लब प्रायव्हेट लिमिटेड
2359	U48750MH1988PTC048750	अल्ट्रा पैट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2360	U72200PN2001PTC016628	अवीराम टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2361	U29809PN1999PTC013759	हिमानी इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2362	U51909PN1999PTC013751	डीएसव्ही ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2363	U51909PN1999PTC013767	श्री जेम्स एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2364	U15412PN1999PTC013769	शिवम बेकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2365	U55101PN1999PTC013774	श्री बनशंकरी फैमिली रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2366	U72200PN1999PTC013771	जनानी इन्फो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2367	U01403PN1999PTC013797	गीन व्हेली इंटरनैशनल प्रायव्हेट लिमिटेड
2368	U85101PN1999PTC013799	शतायु होस्पिटल (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
2369	U24231PN1999PTC013807	अभंग ऑरगेनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2370	U92131PN1999PTC013951	कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट पुणे (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2371	U72900PN1999PTC013719	गोडसे कॉम्प्यूटर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2372	U55101MH1997PTC112609	एसडी रिसोर्ट्स अण्ड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2373	U55101MH1997PTC112726	इंद्रायणी रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2374	U02001PN1998PTC012629	समिधा हॉटेल्स फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2375	U51909PN1999PTC013745	कामधेनु ट्रेडिम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2376	U01135PN2001PTC015925	डीडीएन फार्म होम प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2377	U45201PN2001PTC015919	ओमेगा बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2378	U15203PN1999PTC013684	मोतीसागर डेअरी अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2379	U74300PN1999PTC013691	कमल कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2380	U01111PN1999PTC013707	विश्वामोहिनी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2381	U15203PN1999PTC013702	साई श्रद्धा रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड
2382	U25191PN1999PTC013703	श्री सिद्धेश्वर मिल्क अण्ड एगो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2383	U55101PN1999PTC013705	नीलकमल रेस्टोरन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2384	U74140PN1999PTC013720	प्रथमेश कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2385	U72900PN2000PTC015673	राइटलैक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2386	U15209PN2000PTC015688	शान्ती मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2387	U50403PN2001PTC015701	पीजीएम ऑटोलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड
2388	U55101MH1992PTC067977	लैकमे होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2389	U51909MH1993PTC072185	डिलक्स क्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2390	U74140MH1992PTC067524	रसीजमा डिस्ट्रीब्यूटर्स अण्ड कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2391	U29231MH1990PTC059284	प्रजा ड्रग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2392	U52322MH1993PTC072359	पेटागॉन एंपरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2393	U29305MH1992PTC068056	एचन वेल्डेड प्रायव्हेट लिमिटेड
2394	U17111MH1992PTC066274	कार्थीकेयन सफॉटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2395	U72200PN1998PTC012626	सिमाटेक सॉफ्टवेअर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2396	U25104MH1997PTC112148	सीम पाइपफैब प्रायव्हेट लिमिटेड
2397	U28991MH1997PTC107528	अलसा फासनर प्रायव्हेट लिमिटेड
2398	U01122MH1997PTC108805	काशीराम एंग्रीकल्चर अण्ड सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2399	U17299MH1997PTC109394	विश्वेश्वर निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड
2400	U01401MH1997PTC109477	शर्मा एगोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2401	U27310MH1997PTC109279	कालहापुर फरनेस अण्ड हीटट्रीटमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2402	U31200PN1998PTC012691	अभी पावर अण्ड कंट्रोल सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड

2403	U15201PN1998PTC012766	ज्ञानदा डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2404	U74140MH1997PTC107456	एमसीजी इन्फोरमैटीक्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2405	U70101MH1997PTC105687	विरोना डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2406	U31909MH1997PTC105639	नैक कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2407	U21029MH1997PTC106375	डेल्टा कोरुगेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2408	U15203MH1997PTC106530	कदम फूड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2409	U25209MH1997PTC110586	चंद्रानंद प्लास्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2410	U15549MH1997PTC110530	एनआरए इरेक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2411	U29212MH1997PTC110610	सानील एगोवेस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2412	U14291MH1998PTC113713	कल्याणी जेम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2413	U27203MH1998PTC113733	शीतल एल्यूमिनीअम अण्ड ग्लास प्रायव्हेट लिमिटेड
2414	U63023MH1998PTC113851	खोडे वअरहौसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2415	U74140MH1998PTC114371	इफेक्टिव्ह सेल्स सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2416	U34102MH1998PTC114383	नटराज वैहिकल्स अण्ड ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2417	U92141MH1998PTC114349	निपा ट्रेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2418	U70102PN1998PTC012826	प्रेक्षा कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
2419	U70102PN1998PTC012824	पगारीया कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
2420	U01112PN1998PTC012822	केसरकर एगो प्रायव्हेट लिमिटेड
2421	U25209MH1990PTC059365	ब्यूटी ग्रॅपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2422	U74999PN2001PTC015907	स्पक्ट्रम एक्सपोज़िशन अण्ड इव्हेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2423	U45201MH1998PTC113000	विश्वा मुद्रा कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
2424	U21012MH1998PTC113015	सैनिक पेपर्स अण्ड बोर्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2425	U30007MH1998PTC113016	सेन कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2426	U01122MH1998PTC113130	तोरणा समुद्री एगो फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
2427	U27209MH1998PTC113462	नायक्रो इलेक्ट्रोफॉर्मर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2428	U15204MH1998PTC113547	सुसूकू डेअरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2429	U24116MH1998PTC114717	वर्देन डाय-केम प्रायव्हेट लिमिटेड
2430	U24114MH1992PTC067879	एस्ट्रीड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2431	U34300MH1997PTC109609	विनोद ब्रेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2432	U15201MH1997PTC107546	दिग्वीजय मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2433	U51909MH1992PTC069120	बायोटेक मार्केटर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2434	U24117PN1998PTC012643	रबल इंटरमिडिएट्स अण्ड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2435	U55101MH1997PTC109624	शुक्रतारा रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2436	U51909MH1997PTC110355	समर्थ केमिकल-एगो सर्विसेस लिमिटेड
2437	U72200MH1998PTC113274	पिक्सेल टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2438	U51909MH1998PTC113632	एसपीएल आइस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2439	U45202MH1997PTC112021	वास्तु रचना बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2440	U15203MH1997PTC112063	गगनगंगा मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2441	U25209MH1998PTC114429	लकी स्टार पॉलिमर प्रायव्हेट लिमिटेड
2442	U31909MH1997PTC111988	पेंटागॉन ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2443	U60231MH1997PTC109732	दो कोल्हापुर ट्रक ऑपरेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2444	U36942MH1997PTC112124	एल्सी ग्रीफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2445	U25191MH1997PTC109685	वीसान्स ग्रीफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2446	U31909MH1997PTC109728	मार्केवेन टेलीकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
2447	U27104MH1997PTC109698	मलीक स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2448	U01122MH1997PTC109975	रत्न सिंधु एगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2449	U34300MH1997PTC111853	समराज ऑटो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2450	U15421PN2002PTC017203	श्री साई समर्थ शर्गर प्रायव्हेट लिमिटेड
2451	U45202PN2002PTC017189	ओम साई प्रमोटर्स बिल्डर्स अण्ड लैंड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2452	U51909PN2002PTC017161	प्रांजल न्यूइरा मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2453	U72900PN2000PTC015339	ऑरबीट आयटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2454	U24244PN2000PTC014335	मायक्रोकेअर एंडऑन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2455	U31904MH1990PTC056115	दातार स्पेशालिटी मेटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2456	U15424PN2000PTC015263	श्री संत काकडी महाराज साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड
2457	U31909MH1990PTC056256	इनवेंटा पॉवरट्रॉनीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2458	U22121PN2000PTC015269	साक्षी प्रिंटर्स अण्ड पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

2459	U51909PN2000PTC015295	ओम-जय ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2460	U72200PN2000PTC015290	आशियाना नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
2461	U24239PN2000PTC015311	स्वाती एरोमेटिक एक्सट्रैक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2462	U70101PN2000PTC015310	सिल्वर सन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2463	U52190PN2000PTC015338	निखील डिपार्टमेंटल स्टोअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2464	U51399PN2002PTC017248	जयगनेश ट्रेडिंग अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2465	U24119PN2002PTC017115	भाग्य स्पेशलिटी केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2466	U74140PN2002PTC017149	जाई साई फायनान्शियल कन्सल्टन्सी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2467	U24239PN2002PTC017153	संसार हेल्थकेअर ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2468	U55101PN2001PTC015739	दी क्लब अण्ड एन्टरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2469	U70109PN2001PTC015733	जय व्यंकटेश मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2470	U51501PN2001PTC015732	रामाश्री अप्लायन्सेस अण्ड एगो कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2471	U74994PN2001PTC015713	अथर्व डेकोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2472	U74950PN2000PTC015267	इन्फिनीटी पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2473	U72200PN2001PTC015776	आय सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2474	U51909PN2001PTC015780	श्री स्वामी समर्थ मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2475	U51909PN2001PTC015775	रिअल ड्रीम्स मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2476	U01122PN2001PTC015777	आदर्श ऑटो अण्ड एगो कन्सेप्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2477	U45202PN2001PTC015745	करुनेश डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2478	U51909PN2001PTC015752	ग्रेस मार्केटिंग कन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2479	U29299PN2001PTC015763	पारसन बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2480	U51909PN2001PTC015754	साई कन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2481	U72900PN2001PTC015764	मेडिकल ट्रांसक्राइबर्स अकादमी प्रायव्हेट लिमिटेड
2482	U50300PN2001PTC015743	वंडर ऑटो कन्सेप्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2483	U01122PN2001PTC015767	समर्थ वीहार एगो प्रायव्हेट लिमिटेड
2484	U35914PN2001PTC015751	धीरज सुपर ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड
2485	U72200PN2001PTC015782	क्यूसेरा टेक्नोलॉजिज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2486	U29291PN2001PTC015753	झेन हायड्रोलोक एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2487	U72200PN2001PTC015783	सातारकर इन्फॉर्मेशन अण्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
2488	U30007PN2001PTC015787	तुपे कॉम्प्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2489	U50300PN2001PTC015791	एसएस नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
2490	U28910MH1990PTC056570	युरेका फेरो-अलॉइज मैनुफ़्याक्चरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2491	U72200PN2000PTC015395	सी सी टेक्स्कुल प्रायव्हेट लिमिटेड
2492	U60231MH1990PTC056135	मूला परीसर शुगरकेन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2493	U15136MH1990PTC055974	पंढरपुर एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2494	U34300MH1990PTC056226	प्रुडेंट ऑटो एक्सेसरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2495	U55101MH1990PTC056210	हार्टलेण्ड क्लब्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2496	U19129MH1990PTC056241	सिफनी लेंडर क्राफ्ट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2497	U29299MH1990PTC056280	कल्पतरु टेक्नोलॉजिज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2498	U27104MH1990PTC056303	लकी अलॉइज प्रायव्हेट लिमिटेड
2499	U45202MH1990PTC056297	साठे गोडसे कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2500	U50200MH1990PTC056286	ला बाइक कार स्कैनर अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2501	U28910MH1990PTC056442	शक्ती फोज प्रायव्हेट लिमिटेड
2502	U28991MH1990PTC056358	गारडीयन स्प्रिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2503	U31909MH1990PTC056502	विक्रमादीत्य इलेक्ट्रॉनिक्स अण्ड पावर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2504	U24222PN2002PTC017208	गुरु प्रसाद कोटिंग अण्ड कंटेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2505	U32109PN2002PTC017217	स्केब टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2506	U24116PN2002PTC017230	सहेंद्री पेट्रो-केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2507	U27109PN2002PTC017255	यशश्री आयन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2508	U24231PN2002PTC017267	महालक्ष्मी हार्मोनीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2509	U51909PN2002PTC017269	साईधन मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2510	U72200PN2002PTC017265	स्पिरीट इन्फोटेक अण्ड कॉम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2511	U72200PN2002PTC017282	क्रीएटीव्ह सुपरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड
2512	U74999PN2000PTC015360	गनेश नेशन वाइड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2513	U28122PN2000PTC015392	निरज वाटर-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2514	U51909PN2002PTC016875	आरएस विंकलॉन्च नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड

2515	U51909PN2002PTC016872	एबलमास्टर मार्केटिंग अँड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2516	U14106PN2002PTC016868	ऑनइलाइन बिल्डिंग मटेरीअलS (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2517	U72200PN2002PTC016865	नेट एनकोम मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2518	U74999PN2002PTC016842	बायोडायनामीक पेस्ट मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2519	U24231PN1999PTC013558	संहीता फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2520	U40106PN1999PTC013630	पवनसारथी प्रायव्हेट लिमिटेड
2521	U74920PN1999PTC013634	सत्याश्रय सेक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2522	U72200PN1999PTC013639	मेटाडाटा इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2523	U72200PN2000PTC014468	बुध सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2524	U63012PN2002PTC016786	कनीशक शिपींग प्रायव्हेट लिमिटेड
2225	U40108PN1998PTC013140	एनरजेन पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड
2526	U40106PN1998PTC013159	पूणे रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेस कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2527	U30007PN1998PTC013148	इनीका टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2528	U74140PN1998PTC013150	फोर-एम सर्विसेस अँड कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
2529	U01211PN1998PTC013149	शिवशक्ती कैटल फीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2530	U01111PN1998PTC013145	संकल्पसिद्धी एग्रो-फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2531	L15424PN1998PLC013144	संपतराय देशमुख शूगर मैन्यूफ़ैक्चरिंग लिमिटेड
2532	U34300PN1998PTC013132	हेरम्ब ऑटो इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2533	U55101PN1998PTC013122	गिरीजा टूरीस्ट होटल प्रायव्हेट लिमिटेड
2534	U51219PN1998PLC013125	नाथ एग्री मार्केटिंग लिमिटेड
2535	U01122PN1998PTC013117	एडेन फ्लोराटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2536	U29299PN1998PTC013071	विनीज फोटोलैब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2537	U13060PN1998PTC013059	एडीवा सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
2538	U72200PN1998PTC013052	हाय-साइटसॉफ्टवेयर कॉन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2539	U15203PN1998PTC013049	यशोधन डेअरी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2540	U55109PN1998PTC013048	स्कॉलर्स इन प्रायव्हेट लिमिटेड
2541	U55101PN1999PTC013252	जय विजय हजारे होटल प्रायव्हेट लिमिटेड
2542	U45202PN1999PTC013259	वास्तु स्तंभ कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2543	U13280PN1999PTC013280	जे. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2544	U15203PN1999PTC013292	शिवगंगा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2545	U63040PN1999PTC013440	गौरी ट्रैवलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2546	U28920PN1999PTC013444	केडकोट प्रायव्हेट लिमिटेड
2547	U51909PN2002PTC016899	लक्ष्मी पीअस नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2548	U29197PN2002PTC016898	बी जे सरव्हा एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2549	U17297PN2002PTC016896	शारदा झरी याने प्रायव्हेट लिमिटेड
2550	U63040PN2002PTC016878	सिल्वरलाइन एन्टरप्राइजेस (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
2551	U51909PN2002PTC016876	इगल नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2552	U72200PN2002PTC016858	हेल्प यूअरसेल्फ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2553	U72200PN2002PTC016856	नेटएप्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2554	U51909PN2002PTC016857	फ्रीडम लीक ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2555	U51909PN2002PTC016848	तू तू मैं मैं पैकेज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2556	U72200PN1999PTC013600	केपी सॉफ्टटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2557	U70102PN1999PTC013595	गुंजन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2558	U70102PN1999PTC013591	जीजी रिप्लेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2559	U72900PN1999PTC013588	टाइम कॉम्प्यूटर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2560	U55101PN1999PTC013576	क्रिस्टल क्लब्स अँड होलीडे रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2561	U29299PN1999PTC013579	अबीकोर बीडोल प्रॉडक्शन (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2562	U24219PN1999PTC013585	पूणे पेस्ट कंट्रोल प्रायव्हेट लिमिटेड
2563	U24232PN1999PTC013571	हूकेन (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2564	U99999MH1999PTC119512	सीजी कोरीअल प्रोग्रामेबल सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2565	U01111PN1999PTC013544	विवेक हायटेक एग्री प्रायव्हेट लिमिटेड
2566	U15204PN1999PTC013528	मालतीदेवी बाबासाहेब इंगळे डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2567	U45202PN1999PTC013527	डोंगले कन्सल्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2568	U15204PN1999PTC013521	सुपा मिल्क अँड एग्री प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2569	U17297PN1999PTC013520	महावैकटेश यान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2570	U51228PN1999PTC013490	वाइनक्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड

2571	U01403PN1999PTC013797	ग्रीन व्हेली इंटरनेशनल प्रायव्हेट लिमिटेड
2572	U51909PN1999PTC013469	विनायक मार्केट मेकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2573	U01112PN1999PTC013478	गोपाल कैटल फीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2574	U31909MH1989PTC053672	कॉन्टेक कंट्रोल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2575	U74200MH1989PTC053390	एक्शनडस कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2576	U31200MH1988PTC049715	एलटेक पॉवर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2577	U20219PN2002PTC017519	इनरशौआ अरगॉनोमीक सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
2578	U40106PN2002PTC017468	एसएम इकोएनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2579	U29197PN2002PTC017466	डाइनएक्वा फिल्टा प्रायव्हेट लिमिटेड
2580	U51399PN2002PTC017481	कैडेन्स सिस्टिम्स अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2581	U15429PN2002PTC017477	एलीअन्स कैडीको प्रायव्हेट लिमिटेड
2582	U72200PN2002PTC017462	अडवान्स मेडिट्रास प्रायव्हेट लिमिटेड
2583	U32102PN2002PTC017440	एबीटी कंपोसिटर अण्ड कंसल्टन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2584	U19119MH1989PTC052437	मैग्नम लेदर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2585	U45201MH1988PTC049949	गुल्हाणे पाटील कन्सल्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2586	U74210MH1989PTC053168	जोशी अण्ड इंदुलकर असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2587	U34300MH1989PTC053571	ऑटोफील्ड एजीन व्हॉल्व्ह एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2588	U72200PN2002PTC017489	साइन्स आय. टी. कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2589	U01551MH1989PTC052722	सन्नी गोल्ड डिस्ट्रीलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2590	U45201MH1989PTC053327	ओम टाउन हाउस प्रायव्हेट लिमिटेड
2591	U45201MH1989PTC053386	पद्मश्री बिल्डर्स अण्ड सप्लायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2592	U45202MH1989PTC053174	दिलीप चांदगुडे-पाटील डेव्हलपर्स अण्ड इन्वेस्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2593	U45202MH1989PTC053434	गोजल कन्सल्टेशन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2594	U15209MH1989PTC053494	पंचाली मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2595	U24239MH1989PTC053499	सिनकर ब्लूकेम प्रायव्हेट लिमिटेड
2596	U29169MH1988PTC049595	सन्नी लेदर गारमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2597	U31200MH1988PTC049695	पी-वाल्कमन इलेक्ट्रो सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2598	U15412MH1988PTC049706	युनीक बिस्कीट अण्ड कॉन्फेक्शनरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2599	U31103MH1996PTC100704	कृती इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2600	U45201MH1996PTC100464	निक्स बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2601	U25201MH1996PTC100389	पूणे प्लास्टो इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2602	U51909MH1996PTC100274	सहेंदी ज्युमेटिक अण्ड एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2603	U29191MH1996PTC100171	सिनजी एअरकंडीशनिंग सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2604	U52203MH1996PTC100117	डीजीडी एक्वाफार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2605	U25201MH1996PTC100118	सिक्वीन फिशरनेट (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2606	U29211MH1996PTC099824	चेतक शेती अवजारे प्रायव्हेट लिमिटेड
2607	U45201MH1996PTC099806	हनीबेल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2608	U99999MH1996PTC099571	परशुराम सेफटी वॉटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2609	U45202MH1996PTC099588	अजिंक्य वास्तु निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड
2610	U67120MH1996PTC099509	श्री लक्ष्मी-लक्ष्मण मरकेन्टाइल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2611	U40101MH1996PTC099514	डोंगराड पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2612	U05201MH1996PTC098812	काडेकर ब्रदर्स कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2613	U28999MH1996PTC099189	परफेक्ट कं ऐक्सोअल्स केबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2614	U45205MH1996PTC099469	टाकवले कन्सल्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2615	U28939MH1996PTC098808	पले एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2616	U01222MH1996PTC098804	शिव मल्हार पोल्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2617	U74210MH1996PTC099456	इंड्रो कंट्रोल प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2618	U74995MH1996PTC103454	आर्टीस्टीक डिज़ाइनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
21619	U16009MH1996PTC103444	त्रिमुर्ती टोबैको कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2620	U29120MH1996PTC102817	कृषि पंप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2621	U01111MH1996PTC102609	अशोकसन फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2622	U72200MH1996PTC103613	कांची वेबटेक कन्व्हर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2623	U74999MH1996PTC100664	सुमित पावडरकोटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2624	U15203MH1996PLC102828	श्री साई मिल्क अण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
2625	U23209MH1996PTC099323	सुर्व पेट्रोलिअम प्रायव्हेट लिमिटेड
2626	U51909MH1996PTC100274	सहेंदी ज्युमेटिक अण्ड एक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड

2627	U74999MH1996PLC100202	नायडू उद्योग लिमिटेड
2628	U74999MH1996PTC099586	प्युरा ग्राइंड-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2629	U51493MH1993PTC073046	यूनीसन मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2630	U01119MH1993PLC074684	वेस्टर्न इंडिया टैशटेक लिमिटेड
2631	U15421MH1993PTC074550	श्री गुरुप्रसाद एगो प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2632	U24239MH1993PTC074077	सरनोबत केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2633	U45102MH1994PTC080318	ग्रीनग्लेब फार्म्स अण्ड लैण्ड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2634	U27104MH1997PTC106824	शेडजी इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड
2635	U70101MH1993PTC072691	श्री तपस्वी इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
2636	U63040MH1997PTC112432	साना ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2637	U11110MH1994PTC076920	नीरापुर एगो कॉनस्ट्रू टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2638	U28939MH1993PTC074730	कॉमीक्स मशीन्स टूल्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2639	U50020MH1994PTC076020	डॉनसन मरीन प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2640	U15421MH1994PTC076232	श्री समर्थ शुगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2641	L15134MH1997PLC112080	एंगीकोस पल्प अण्ड ज्यूस लिमिटेड
2642	U23209MH1994PTC076253	इंद्रायणी पेट्रो केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2643	U01122MH1994PLC079837	लक्ष्मीरत्न सोया प्रक्रीया लिमिटेड
2644	U51397MH1994PTC079860	जनता फार्मासिटीकल लिमिटेड
2645	U15499MH1997PTC108530	श्री बालेश्वर फूड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2646	L15142MH1994PLC081862	हिरण्यकेशी एगो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
2647	U45202MH1998PTC113014	रोह पत कन्सट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
2648	U31909MH1997PTC112301	नेलटोनीक्स एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2649	U51909MH1997PTC112585	हैप्पी होम एक्विजम प्रायव्हेट लिमिटेड
2650	U51219MH1997PTC112340	ज्योती एगो प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2651	U60210MH1997PTC109138	आर.के. अगरवाल कमर्शियल कैरीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2652	U15332MH1997PTC111140	असीम फीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2653	U15406MH1994PTC078406	दग्ध एगो प्रोसेसिंग अण्ड रिफाइनरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2654	U17111MH1997PTC111806	रौनक कॉटस्पीन प्रायव्हेट लिमिटेड
2655	U15204MH1997PTC110585	श्रीनाथ डेअरी लिमिटेड
2656	U36911MH1997PTC110626	राधाकृष्णा ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2657	U70101MH1994PTC077506	कीरज रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2658	U01122MH1993PTC073425	राठी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2659	U74300MH1994PTC077776	सॉफ्टच सिस्टिम्स (पूणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
2660	U29309MH1993PTC073187	सर्नींग इंजिनिअरिंग एक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2661	U34210MH1998PTC113534	आरसी ओटो प्रायव्हेट लिमिटेड
2662	U55101MH1993PTC074680	दर्शन होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2663	U24112MH1994PTC077719	कृपा सफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
2664	U20299MH1989PTC054487	टचवुड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2665	U18101MH1997PTC112149	जे के निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड
2666	U01122PN2000PTC015582	हरी-विजय एगो प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2667	U24219PN1999PTC013452	साई-सिद्धी बायो-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2668	U01111PN1999PTC013616	मयूरेश्वर एगो फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
2669	U45202MH1990PTC055126	सॉडस प्रॉपरटिज अण्ड इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2670	U60231MH1992PTC065015	बख्तावर ट्रान्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2671	U51909PN2002PTC016863	अपेण नेटवर्क सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2672	U72200PN2002PTC016804	मास्टर ब्रेन इन्फोसीस प्रायव्हेट लिमिटेड
2673	U51909PN1999PTC013278	स्वास्तिक वक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2674	U72200PN2001PTC015741	अनुराग ऑनलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड
2675	U72200PN1999PTC013464	उत्कर्ष आलू सॉफ्टो स्विच प्रायव्हेट लिमिटेड
2676	U51909PN2002PTC016871	ड्रीमवे-कॉम नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2677	U74999PN1999PTC013258	सक्सेस बिज़ीनेस सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2678	U15203MH1990PTC056095	सैम डेअरी अण्ड फ्रोज़न फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2679	U27104MH1990PTC056171	विजयाजली टूल्स अण्ड ट्रेवल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2680	U92111MH1990PTC056213	शलक फील्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2681	U73100MH1990PTC056149	प्रीशियस रॉक एग्रीकल्चरल रिसर्च युजीलाइज प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2682	U05002MH1990PTC056300	ट्रिडेंट फिशरीज प्रायव्हेट लिमिटेड

2683	U45202PN2002PTC017094	एम के ए डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2684	U74999MH1990PTC056235	अलफैब डिजाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2685	U51909PN2002PTC017291	माहेश्वरी सेल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2686	U72900PN2000PTC015342	कॉरपोरेट डेस्क कॉम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2687	U25199MH1991PTC064306	वाही रबर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2688	U17119MH1995PTC094607	श्री पाञ्चनाथ ज्युट प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2689	U15499PN2000PTC015627	मोरना फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2690	U51909PN2000PTC015598	स्कायबर मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2691	U45202MH1971PTC015184	एम्बेसी सेवींग यूनीट प्रायव्हेट लिमिटेड
2692	U72200PN2000PTC015606	वेबवेद प्रायव्हेट लिमिटेड
2693	U51493MH1993PTC073046	यनीसन मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2694	U45201MH1990PTC056496	पीरा मानेक डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2695	U72900MH1996PTC100524	पेस अकादमी प्रायव्हेट लिमिटेड
2696	U31909MH1996PTC099840	ब्रूस स्वीचगीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2697	U45209MH1995PTC093858	आयएसओ नेचुरीक डेव्हलपमेंट्स अण्ड अलाइड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2698	U25209MH1992PTC066323	फिनीक्स एंडेसिंह-टेप्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2699	U27106MH1990PTC055482	सावत स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड
2700	U01409MH1996PTC098490	राजयोग फॉरेस्टर्स (इंडिया) लिमिटेड
2701	U28900MH1996PTC104020	योगिता इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2702	U01211MH1996PTC099527	माइची एगोटेक डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2703	U55101MH1996PTC099581	सोलेस मोटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2704	U55101MH1993PTC073264	सिवाङ्ग होटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2705	U31909MH1983PTC031347	अभिजात इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2706	U29211MH1995PTC092730	श्री साई ट्रेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2707	U15201MH1994PTC076495	अहीर डेअरी फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2708	U67110MH1995PTC086806	बजेट ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2709	U21022MH1995PTC088801	डिवाइन पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2710	U01300MH1996PTC101728	जामखेड एगो इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2711	U15137MH1996PTC101755	ही-मैन स्नेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2712	U15421MH1995PTC087440	कृषि दौलत शुगरकेन प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2713	U17119MH1990PTC055088	स्नैगोला निटींग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2714	U55101MH1983PTC030089	चेतना इन प्रायव्हेट लिमिटेड
2715	U45209MH1987PTC044476	भागवत ओक रिसवाइकर बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2716	U01111MH1985PTC037987	पिंगळे फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2717	U01409MH1987PTC043373	श्री निवास फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2718	U70101MH1988PTC047089	खेडकर प्रमोटर्स अण्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2719	L32301MH1985PLC035259	मैल्ट्रीन कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2720	U24117MH1983PTC029244	नागवेकर कारबाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2721	U27102MH1982PTC027183	मेटफॉर्म इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2722	U73100MH1985PTC035332	प्रथमेश रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
2723	U15411MH1985PTC038349	गिनीज फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2724	U74300MH1986PTC040005	लिनीशन एडव्हरटायजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2725	U31909MH1986PTC038764	मेट्रो लाइट प्रायव्हेट लिमिटेड
2726	U55101PN1998PTC013113	गोल्डन रेनबो रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2727	U15209PN1999PTC013305	श्री मथुरा कैटल अण्ड डेअरी फार्मिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2728	U01211PN1999PTC013496	श्रीनाथ लाइव्ह-स्टॉक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2729	U01223PN1999PTC013612	श्री शुद्ध मधु प्रायव्हेट लिमिटेड
2730	U26942PN1999PTC013620	साई दत्त सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2731	U24231PN1999PTC013621	नील फार्माकेम प्रायव्हेट लिमिटेड
2732	L24121PN1999PLC013727	सारडा फॉसफेट्स लिमिटेड
2733	U63022PN1999PTC013747	नंदकुमार कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड
2734	U74950PN1999PTC014168	लोधेश्वर वेल-पैक प्रायव्हेट लिमिटेड
2735	U72200PN2000PTC014739	इडी-जिनीअस सॉफ्टवेअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2736	U63022PN2001PTC016157	शाताइ कोल्ड स्टोरेज अण्ड वअरहोसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2737	U51219PN2002PTC017105	हायजेनीक फूड कन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

2738	U51397PN2002PTC017147	गलाक्टीक मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2739	U33201PN2002PTC017154	अभ्यंकर ऑप्टीशोअन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2740	U30007PN2002PTC017165	ट्रान्सट्रेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2741	U17115PN2002PTC017169	इडे काउंट टेक्सटाइल वेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2742	U64203PN2002PTC017176	वेरांस टेलीकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
2743	U13203PN2002PTC017183	लैब्स मायनींग प्रायव्हेट लिमिटेड
2744	U85199PN2002PTC017188	माय हेल्थ केअर अण्ड फिटनेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2745	U72200PN2002PTC017192	यशवंत टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2746	U51909PN2002PTC017144	उके कंज्युमर मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2747	U52110PN2002PTC017205	निनाइ बजार प्रायव्हेट लिमिटेड
2748	U27205PN2002PTC017209	डब्लू एच पेठे जेम्स अण्ड ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2749	U25206PN2002PTC017212	अनवीता एक्सट्रूजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2750	U51399PN2002PTC017229	आकांक्षापूर्ती ट्रेडिंग अण्ड मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2751	U22110PN2002PTC017245	बिज़्नेस इन पब्लिसिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
2752	U24231PN2002PTC017252	आयन केमिकल्स अण्ड हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड
2753	U24239PN2002PTC017256	खुशबू हेल्थ अण्ड केअर प्रायव्हेट लिमिटेड
2754	U72200PN2002PTC017263	ग्री प्लस सॉफ्टट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड
2755	U51399PN2002PTC017264	श्री पुष्कराज होम अप्लायन्सेस मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2756	U01122PN2002PTC017266	संध्या छाया एग्री फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
2757	U74210PN2002PTC017271	साईकल्पवृक्ष डिजाइन्स अण्ड कन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2758	U45202PN2002PTC017280	समुद्री प्रमोटर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2759	U51909PN2002PTC017286	साईकृष्णा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2760	U32309PN2002PTC017288	मिलेनिअम ऑप्टिकल डीस्क प्रायव्हेट लिमिटेड
2761	U40108PN2002PTC017295	वैद्यनाथ पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2762	U74999PN2002PTC017298	युनाइट बीझलीक प्रायव्हेट लिमिटेड
2763	U64120PN2002PTC017309	तत्काल कुरीअर प्रायव्हेट लिमिटेड
2764	U74999MH1996PTC097942	हरीत कंचन फॉरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
2765	U20221MH1996PTC097886	ऑस्ट्रीच फर्नीचर प्रायव्हेट लिमिटेड
2766	U72200PN1996PTC020589	आयडीयाविंग टाउनशिप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2767	U45201MH1996PTC097929	लकाकी कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2768	U51102MH1996PTC100040	शामला ऑटोमोबाइल्स सेल्स अण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2769	U55204PN2005PTC020436	शितला कंटेरिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2770	U45202MH1998PTC113980	मातेरे कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2771	U01407MH1996PTC101147	डाटे एग्री प्रायव्हेट लिमिटेड
2772	U24232MH1996PTC101503	हर्षल केमिकल्स अण्ड फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2773	U72900MH1996PTC101017	व्ही एच एफ कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2774	U21014MH1996PTC100895	मेरु पेपर प्रायव्हेट लिमिटेड
2775	U45202MH1996PTC100873	गंगा टाउनशिप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2776	U27106MH1996PTC100961	श्रीनीवास वायर्स अण्ड स्ट्रीप्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2777	U45201MH1996PTC101605	गोल्ड-कॉइन प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2778	U29219MH1996PTC099618	सैमियो टेक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2779	U27320MH1996PTC098609	क्वीक कास्ट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2780	U55101MH1996PTC101154	अजित मोटेल्स अण्ड रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2781	U74993MH1996PTC101388	सह्याद्री ऑफसेट प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2782	U45202MH1996PTC104434	राजस कॉनस्ट्रू प्रायव्हेट लिमिटेड
2783	U29255MH1996PTC100763	रुट्टेन स्पलबाउंड टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2784	U01222MH1997PTC105280	प्रवरा पोल्ट्री अण्ड फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2785	U72200MH1996PTC098473	मैकसीम सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
2786	U70109MH1996PTC100844	प्रायमल अर्थ कन्सट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2787	U29292MH1996PTC097474	यशवंत सिरॅमिक्स अण्ड ब्रिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2788	U99999MH1996PTC098033	जैन परमार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
2789	U01119MH1996PTC098391	गुडलक फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2790	U27203MH1995PTC086095	सकल्प मेटल पावडर प्रायव्हेट लिमिटेड
2791	U31909PN1998PTC012556	बेटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2792	U28920MH1996PTC097417	मूनलाइट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2793	U80102MH1996PTC100969	थॉन्स नॉलेज एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड

2794	U74999MH1996PTC101029	खरे फोटो स्टडीओ प्रायव्हेट लिमिटेड
2795	U01211MH1996PTC101421	सराफ डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड
2796	U74140MH1996PTC101006	ट्रीडेंट इंस्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्यूटर स्टडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
2797	U72200MH1996PTC099132	समी सिस्टीम अण्ड सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
2798	U74210MH1996PTC099088	सोना टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2799	U74210MH1996PTC099086	इशानी प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2800	U40101MH1996PTC099080	क्वॉन्टम एनर्जी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2801	U74300MH1996PTC098852	योगी प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2802	U29299MH1996PTC103421	निवागी प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2803	U72200MH1996PTC103365	मृदुल संख्यायन प्रायव्हेट लिमिटेड
2804	U45309MH1996PTC103346	सूयोग डेव्हलपर्स अण्ड इस्टेट एजन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2805	U24233MH1996PTC103361	श्री स्वामी हबेल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2806	U28910MH1996PTC103224	एलीगंट फारजिंग्स लिमिटेड
2807	U73100MH1996PTC104477	इमूनो सायन्स रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
2808	U29299MH1996PTC101214	बी अण्ड जी ब्रोमाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2809	U51909MH1996PTC100846	एस्ट्रल एक्सपोर्ट अण्ड इम्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
2810	U01409MH1996PTC097437	सेवन युनायटेड एग्री फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
2811	U74210MH1996PTC104354	जेसवीन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2812	U01211MH1996PTC097979	दातकृपा डेअरी प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2813	U27108MH1996PTC098080	हर्षवर्धन स्टील इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
2814	U45209MH1996PTC098190	रागसन बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2815	U15205MH1996PTC098265	हिमैन हेल्थ आइस क्रीम प्रायव्हेट लिमिटेड.
2816	U02006MH1996PTC098402	गुरुकृपा फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2817	U29199MH1996PTC104714	दातम-लाइन कॉम्प्यू सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2818	U60210MH1996PTC104733	राज (पुणे) ट्रेवल लाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2819	U27203MH1996PTC104795	ऑलिम्पीया इंजिनिअर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2820	U55101MH1997PTC104906	होटेल सरोवर इन प्रायव्हेट लिमिटेड
2821	U45201MH1997PTC104879	तुपे-आव्हाड कन्सल्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2822	U70101MH1997PLC104933	चाकन प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स लिमिटेड
2823	U45201MH1997PTC105151	बाकाबु कन्सल्टेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2824	U29299MH1996PTC104594	मल्टीकट इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2825	U15543MH1996PTC104662	ट्राइव्स मिनेरल वाटर प्रायव्हेट लिमिटेड
2826	U50101MH1997PTC105310	सिंग कास प्रायव्हेट लिमिटेड
2827	U50101MH1997PTC105379	औदुम्बर सेल्स अण्ड सर्विस प्रायव्हेट लिमिटेड
2828	U51909MH1997PTC105373	प्राजक्ता इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2889	U55101PN2000PTC014856	ए आर अडकर अण्ड होटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2830	U74999MH1995PTC090298	स्पैन असोसिएट्स अण्ड फिल्टरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
2831	U29299MH1995PTC086749	ओमेटा स्पैन (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2832	U74210MH1996PTC104340	विस्पा इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2833	U29299MH1996PTC104548	जी बी गदरे एन्टरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2834	U74210MH1996PTC104357	फेबुलस इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2835	U74210MH1996PTC104339	बेटटी इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
2836	U45102MH1996PTC098570	बद्रीनारायण लैण्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड
2837	U25201MH1996PTC101511	प्लास्टिक पैकर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
2838	U74210MH1996PTC101080	डिझाइन-टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2839	U74140MH1996PTC099129	कारोलाइन कन्सल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2840	U15142MH1996PTC102975	शिवनेरी ऑइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2841	U19202MH1996PTC098968	करीष्मा हवाई चप्पल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2842	U01211MH1996PLC099168	गंगा दूध प्रक्रीया लिमिटेड
2843	U28910MH1996PTC101554	बोपाराई ऑटो इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड.
2844	U55209MH1996PTC097841	पूना कॉफी हाउस प्रायव्हेट लिमिटेड
2845	U92120PN2002PTC017196	फोरचुन एन्टरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
2846	U92111PN2002PTC017148	हतात्म्या चीत्रा प्रायव्हेट लिमिटेड
2847	U14102MH1996PTC101475	महा ग्रेनाइट प्रायव्हेट लिमिटेड
2848	U72200MH1996PTC097562	एसेन्ट इंटरएक्टिव्ह मल्टीमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
2849	U80903MH1996PTC098097	नमष्कार एअरहोस्टेस ट्रेनिंग अकादमी प्रायव्हेट लिमिटेड

1	2	3
2850.	098193	मैसर्स लक्झ्म इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
2851.	104757	मैसर्स सनलैंड गोत फार्मिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2852.	098604	मैसर्स रामसुख कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2853.	098795	मैसर्स सुदर्शन एरोट्रॉल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2854.	105402	मैसर्स दीपलक्ष्मी इंजीनियर्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2855.	104435	मैसर्स सुसज्जा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2856.	104421	मैसर्स बिस्मील्ला ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2857.	046628	मैसर्स परमार एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2858.	099327	मैसर्स रामको ऑटोमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2859.	055554	मैसर्स सरोज कास्टींग्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री माता मेटल एवं एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. 560(3)/एम सी ए/कैर-शिलांग/धारा 560/2007/00435--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री माता मेटल एवं एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम जब तक कारण दर्शित नहीं किए जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिए जाएंगे।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयंबतूर-641005, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. आरओसी/सीभीई/560(5)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र.	रजिस्टर्ड	कम्पनियों का नाम
सं.	सं.	
1	2	3
467.	660	मैसर्स ब्लू माउंटेन कंस्ट्रक्शन्स एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
468.	667	मैसर्स कान्तवेल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
469.	690	मैसर्स सदर्न लेदर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
470.	693	मैसर्स एफ आई सी मेन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
471.	695	मैसर्स बी के बी एग्रो एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
472.	701	मैसर्स बालाजी मिनरल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
473.	706	मैसर्स गोल्डविन फाईल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
474.	731	मैसर्स तिरुमलाई गोपाल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
475.	735	मैसर्स सत्ये लाईवस्टोक फार्म लिमिटेड
476.	740	मैसर्स कोयंबतूर इलेक्ट्रो कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड
477.	754	मैसर्स आलेट्स प्रिंट्स एण्ड आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
478.	775	मैसर्स पेनोग्राफिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
479.	1464	मैसर्स यूनियटी मार्केटिंग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
480.	1480	मैसर्स शानबेगम ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
481.	1503	मैसर्स लूना मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
482.	1505	मैसर्स एच. मोहम्मद हुसैन कोयर रोप कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
483.	1519	मैसर्स आनन्द नटराज होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
484.	1523	मैसर्स एसएनजी ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
485.	1550	मैसर्स श्रीमगल चिट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
486.	1562	मैसर्स नर्मदा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
487.	1614	मैसर्स जी. वी. आर. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
488.	1628	मैसर्स चूडामबिगा फोरजिंग्स लिमिटेड
489.	1630	मैसर्स सुपरफाईन स्टार्च एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
490.	1635	मैसर्स के. आर. कंसलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
491.	1640	मैसर्स बेलको सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
492.	1644	मैसर्स कायुनवी चिट फंडस प्राईवेट लिमिटेड
493.	1648	मैसर्स कोंगु चिट प्राईवेट लिमिटेड
494.	1652	मैसर्स पलिनयप्पा पेपर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
495.	1656	मैसर्स कालिन्द फाईनेशियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
496.	1657	मैसर्स मेटाडोर इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
497.	1658	मैसर्स विलमैन रेडियेटर्स लिमिटेड
498.	1660	मैसर्स पेन्टागन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	1662	मैसर्स होटल्स गिवीयोर प्राईवेट लिमिटेड
500.	1669	मैसर्स प्राक्रिट्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
501.	1681	मैसर्स जियाउद्दिन अहमद कोयर रोप कम्पनी (तमिलनाडु) प्राईवेट लिमिटेड
502.	1701	मैसर्स एस. एम. मिहीबाह हेवी इंजीनियरिंग कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
503.	1703	मैसर्स येरकाड पोलीसेक्स प्राईवेट लिमिटेड
504.	1712	मैसर्स शोभा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
505.	1729	मैसर्स गुड होप पोलीपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
506.	1737	मैसर्स एनिमल जर्मप्लास्म प्राईवेट लिमिटेड
507.	1738	मैसर्स श्री सिंगारवेलन चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
508.	4107	मैसर्स इसन्स बोर्डर्स एण्ड प्लाईवुड्स प्राईवेट लिमिटेड
509.	4110	मैसर्स जूनियर टेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
510.	4111	मैसर्स जूनियर गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
511.	4119	मैसर्स कॉगू पेपर एण्ड बोर्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
512.	4126	मैसर्स एड्डी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
513.	4158	मैसर्स कंमटेक एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
514.	4162	मैसर्स आपटेक पेरिपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
515.	4165	मैसर्स जय अम्बाल सिस्टम्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
516.	4167	मैसर्स इरोड उदयम बोर्डर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
517.	4170	मैसर्स ओमेगा गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
518.	4174	मैसर्स क्लासिक सिंथेटिक डायमंड्स प्राईवेट लिमिटेड
519.	4175	मैसर्स रॉयल पार्क होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
520.	4186	मैसर्स फरेन्ड्स सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
521.	6565	मैसर्स अनिकेत सिक्युरिटीस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
522.	7365	मैसर्स राजमोहन रबर फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
523.	7370	मैसर्स बेस्टमेन गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
524.	7371	मैसर्स श्री मुथुनाच्चीयार इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
525.	7372	मैसर्स जे जे के इस्टेट्स लिमिटेड
526.	7373	मैसर्स टीएसके प्रिंट मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
527.	7374	मैसर्स आर्टूर सागो एण्ड स्टार्च एफालुयन्ट ट्रीटमेंट प्लांट कम्पनी लिमिटेड
528.	7375	मैसर्स वी एस के काम्प इन्सट प्राईवेट लिमिटेड
529.	7376	मैसर्स नवदान्य एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
530.	7378	मैसर्स एसीई थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
531.	7383	मैसर्स वीलजी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
532.	7386	मैसर्स एम फेक्टर बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
533.	7388	मैसर्स नागूर एण्डावर रबर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
534.	7390	मैसर्स वाइटल मेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
535.	7397	मैसर्स लीड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
536.	7399	मैसर्स श्री सास्त्रा वेलायुथा स्पिनरस प्राईवेट लिमिटेड
537.	7402	मैसर्स हिट टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
538.	7409	मैसर्स शिवाशक्ति आफिस ऑटोमेशनस प्राईवेट लिमिटेड
539.	7414	मैसर्स जयसूर्या एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
540.	7420	मैसर्स कनकावाल्ली इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
541.	7422	मैसर्स राजमोहन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
542.	7429	मैसर्स शंकर ब्लू मेटल्स एण्ड प्रिकास्ट लिमिटेड
543.	7447	मैसर्स शिवा बाला टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
544.	7452	मैसर्स श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वरर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
545.	7458	मैसर्स परिवार सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड
546.	7460	मैसर्स थिम्मी ग्रेनाइट्स एण्ड मारबल्स प्राईवेट लिमिटेड
547.	7461	मैसर्स श्री रंजीता फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
548.	7468	मैसर्स केजिया कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
549.	7473	मैसर्स नितेश सॉफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
550.	7474	मैसर्स पयो प्री प्लास्टो मेडीकोम्प प्राईवेट लिमिटेड
551.	7754	मैसर्स इमपास्टो इंडस्ट्रीयल कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
552.	7781	मैसर्स एसपीपी इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
553.	7790	मैसर्स एलविन होममेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
554.	7793	मैसर्स विजया नायकी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
555.	7800	मैसर्स जाइव टेक्स लिमिटेड
556.	7830	मैसर्स वामादेव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
557.	7838	मैसर्स चैयरटेक फर्नीचर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
558.	7955	मैसर्स कृष्णाप्पा वाल्वस सालेम प्राईवेट लिमिटेड
559.	9701	मैसर्स श्री ओम हर्बल प्रोडक्ट्स कावे प्राईवेट लिमिटेड
560.	9703	मैसर्स फोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी कावे प्राईवेट लिमिटेड
561.	9713	मैसर्स विटकोड सॉफ्टवेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
562.	9722	मैसर्स वनवे मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
563.	9723	मैसर्स जी एस एश्वर्या रीयल इस्टेट्स (कोयंबतूर) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
564. 9731	मैसर्स विसुधया गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	
565. 9734	मैसर्स सन यूनाइटेड कंज्यूमर ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	
566. 9736	मैसर्स कोवीजॉब्स कैरियर मैनेजमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	
567. 9737	मैसर्स तमिलनाडु कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	
568. 9749	मैसर्स चैन्नन इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	
569. 9751	मैसर्स लाइटहाऊस इन्टरप्राइजिस ऊटी प्राईवेट लिमिटेड	
570. 9756	मैसर्स मरुवर अरसी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
571. 9758	मैसर्स सुरक्षा मरचेन्ट एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	
572. 9766	मैसर्स विसिस्हा स्पिनट्रांस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
573. 9768	मैसर्स टेक्नोटेक इन्फो सोल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
574. 9771	मैसर्स कोयंबतूर स्पिन्डेल टेप्स प्राईवेट लिमिटेड	
575. 9773	मैसर्स बेस्ट विज़न एजुकेशनल सर्विसेज तमिलनाडु प्राईवेट लिमिटेड	
576. 9778	मैसर्स जेमवे कंज्यूमर मार्केटिंग (तमिलनाडु) प्राईवेट लिमिटेड	
577. 9779	मैसर्स ला बेम मार्केटिंग मदुरै प्राईवेट लिमिटेड	
578. 9780	मैसर्स एक्यूरेट कंज्यूमर मार्केटिंग इरोड प्राईवेट लिमिटेड	
579. 9783	मैसर्स बेस्टोन सोल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
580. 9784	मैसर्स लवसरी मार्केटिंग सेलम प्राईवेट लिमिटेड	
581. 9787	मैसर्स लेवरो नेट वर्क मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
582. 9789	मैसर्स ग्रेट मल्टीलेबल नेटवर्क एरोड प्राईवेट लिमिटेड	
583. 9790	मैसर्स वयो सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
584. 9791	मैसर्स चिन्नामन मार्केटर प्राईवेट लिमिटेड	
585. 9795	मैसर्स इंफोटेक टास्कफोर्स कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
586. 9796	मैसर्स गोल्डलाईन सीड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
587. 9798	मैसर्स अग्निमित्रा मार्केटिंग अबया प्राईवेट लिमिटेड	
588. 9799	मैसर्स गोल्ड ड्रोप्स मार्केटिंग कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
589. 9802	मैसर्स रिचवे मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
590. 9804	मैसर्स लक्ष्मी गोल्डकाइन्स नेटवर्क एरोड प्राईवेट लिमिटेड	
591. 9806	मैसर्स गेन मार्केटिंग कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
592. 9807	मैसर्स डीएसई गोल्डमाइन मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
593. 9810	मैसर्स निर्मल मिडिया वर्क्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
594. 9812	मैसर्स गोल्डन मोमेन्ट्स मार्केटिंग कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
595. 9814	मैसर्स के एन मल्टीप्रोडक्ट्स कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	
596. 9815	मैसर्स गोल्ड लॉयन इन्फोटेक मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
597. 9822	मैसर्स ई-पॉवरनेट मार्केटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
598. 9826	मैसर्स नेट इनफ्लो सोल्यूशन्स इंडिया लिमिटेड	
599. 9827	मैसर्स नेटकाडई कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
600. 9828	मैसर्स लाइफवे मल्टीलेबल कंज्यूमर ट्रेड कोवै प्राईवेट लिमिटेड	
601. 9830	मैसर्स इंटर ट्रेड बिजनेस एसोसिएट्स कोवै प्राईवेट लिमिटेड	
602. 9832	मैसर्स नरभजन इंफोटेक कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
603. 9833	मैसर्स श्री भुवनेश्वरी इंफो टेक प्राईवेट लिमिटेड	
604. 9977	मैसर्स अमुथासुरभी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
605. 9982	मैसर्स एरविन सिस्टम्स कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
606. 9983	मैसर्स एमगेट सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड	
607. 9993	मैसर्स बेस्ट इन्फोवे इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
608. 9996	मैसर्स वेटरी बाँयो एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
609. 10003	मैसर्स विनोओवियम डिजिटल मिडिया प्राईवेट लिमिटेड	
610. 10004	मैसर्स सिबी ऑनलाईन प्राईवेट लिमिटेड	
611. 10009	मैसर्स लार्ड एस ट्रांजटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
612. 10011	मैसर्स जेबसन ईसाफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
613. 10018	मैसर्स इमेक पम्प्स कोयंबतूर प्राईवेट लिमिटेड	
614. 10021	मैसर्स वी पी वी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	
615. 10023	मैसर्स स्लेम सटेबेलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	
616. 10040	मैसर्स ईस्टन आईटी शॉप इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
617. 10041	मैसर्स आशीर्वाद हेरिटेज टूल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
618. 10047	मैसर्स कपिला डिजिटल सिसकारप प्राईवेट लिमिटेड	
619. 10052	मैसर्स लार्ड एस मेलिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड	
620. 10057	मैसर्स डेवन इंटीग्रेटेड फार्म्स नीलगिरीस प्राईवेट लिमिटेड	
621. 10059	मैसर्स अप्पादुरै पॉवर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
622. 10061	मैसर्स ए. जी. ए. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	

पी. राजगोपालन
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमजी साईबरनेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2008/00348--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण

में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमजी साईबरनेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमिरुल्ल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रोपिकल काश्यूज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2008/00354-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रोपिकल काश्यूज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एस. एम. अमिरुल्ल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फर्सन पैकेजिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. यू74950जीए1991पीटीसी001183-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फर्सन पैकेजिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भन्मालि रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. यू31200जीए1991पीटीसी001142-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भन्मालि रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोंकण फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. यू24232जीए1985पीटीसी000606-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोंकण फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीसिद्धा माईनिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. यू14299जीए1972पीटीसी000140-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीसिद्धा माईनिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्प्रिंग मिनरल वाटर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू52206जीए2000पीटीसी002881/8611-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्प्रिंग मिनरल वाटर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स थीओस इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू72200जीए1993पीटीसी001392/8614-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थीओस इन्फोर्मेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राहीली हेल्थ रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू02479जीए1997पीटीसी002479-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राहीली हेल्थ रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

जाती है कि मैसर्स मिलेनियम डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विधाता स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू27109जीए2000पीटीसी002854/8629-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विधाता स्टील एण्ड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑटोहोम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू50101जीए2001पीटीसी003005-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऑटोहोम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोवन मजेस्टीक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेकॉन सिक्वुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू67120जीए2001पीटीसी003045-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेकॉन सिक्वुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

सं. यू55101जीए2000पीटीसी00285/8632-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोवन मजेस्टीक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेर्ना रेसीडेंशियल कैटरिंग कालेज एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू55101जीए2002पीटीसी003158/8635-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेर्ना रेसीडेंशियल कैटरिंग कालेज एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिलेनियम डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू15511जीए2000पीएलसी002812/8626-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिजीटल आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. यू72900जीए2001पीटीसी003051-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिजीटल आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचौर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर-34, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	9440	मैसर्स हारमोनी कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	25512	मैसर्स सिग्नेट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3.	25873	मैसर्स डेक्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4.	25660	मैसर्स व्योमा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
5.	27993	मैसर्स सिलेरा साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6.	4276	मैसर्स फार्मलैण्ड फाईनैस एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड
7.	37697	मैसर्स सीसीए स्टेजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8.	44257	मैसर्स टीएलसी टेक सोल्युशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
9.	34043	मैसर्स लर्निंग बीम प्राइवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर-34, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	11985	मैसर्स अलंकार पर्ल प्लाजा फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर-34, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	12001	मैसर्स सनवर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
2.	12030	मैसर्स कृष्णा कम्बाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	12047	मैसर्स सहयाद्री वाचेस लिमिटेड
4.	12054	मैसर्स सेंटम साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
5.	12056	मैसर्स स्प्रिट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	12072	मैसर्स कावेरी ट्यूब्स एण्ड बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	12083	मैसर्स ल्हासा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	12104	मैसर्स हेमगिरी फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	12106	मैसर्स ट्रेसर स्टोन प्राइवेट लिमिटेड
10.	12142	मैसर्स स्वाती कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	12171	मैसर्स श्री कोदंडरामा सेरिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
12.	12180	मैसर्स मधु सेरिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
13.	12183	मैसर्स वीगी फैशन प्राइवेट लिमिटेड
14.	12185	मैसर्स ईश्वर स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	12196	मैसर्स ब्रह्मप्पा तावनप्पानवर वनस्पति ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	12202	मैसर्स सुप्रा एडवरटाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड
17.	12229	मैसर्स ट्रांसिटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
18.	12231	मैसर्स मारुति मर्केन्डाइल प्राईवेट लिमिटेड	50.	12767	मैसर्स चामुण्डी सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	12250	मैसर्स रेनबो लेम्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	12794	मैसर्स एक्सेल रॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	12252	मैसर्स अर्चना बुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	12810	मैसर्स गीता ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	12550	मैसर्स एम इर टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड	53.	12828	मैसर्स ओशा इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	12554	मैसर्स मास्टर हायर पर्वेज एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	12835	मैसर्स स्ट्रीपलाईन माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	12566	मैसर्स एच. आर. गविष्ठा इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	55.	12879	मैसर्स स्प्रास चिट्स एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	12575	मैसर्स प्राइमरोस बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	56.	12932	मैसर्स संब्रानी लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	12580	मैसर्स नमस्ते फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड	57.	12936	मैसर्स सिनर्जीक इंटरनेशनल लिमिटेड
26.	12582	मैसर्स फेयरग्रोथ सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	58.	12940	मैसर्स अरूण प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	12589	मैसर्स हरिलक्ष्मी इन्व्स्टमेंट्स एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	12942	मैसर्स पेन्नीसुला टेक्सटाइल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
28.	12594	मैसर्स डेक्कन पोल्ट्री फीड्स लिमिटेड	60.	12944	मैसर्स हरकौरे इन्व्स्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	12595	मैसर्स गायत्री फिशरीज प्राईवेट लिमिटेड	61.	12945	मैसर्स एक्सपर्ट कम्पेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	12632	मैसर्स अंबा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	12946	मैसर्स वियार टाईप्स आनलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	12646	मैसर्स इंद्र हाउसिंग फायनेन्स कॉर्पोरेशन कम्पनी लिमिटेड	63.	12956	मैसर्स मेनहट्टन इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	12676	मैसर्स उषा ब्रिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	64.	12961	मैसर्स टोटल सर्किट टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
33.	12680	मैसर्स महेश्वरी हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेन्स कम्पनी लिमिटेड	65.	12965	मैसर्स वेंकटेश्वरा विनाइल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	12705	मैसर्स श्री सिद्धिविनायक ऑयल एक्स्ट्रैक्शन्स लिमिटेड	66.	12968	मैसर्स आगवा फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	12258	मैसर्स मल्टीटेक मेटल इम्प्रेगनेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	12970	मैसर्स कॉन्सेप्ट सोलर एण्ड कम्पोजिट्स टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
36.	12262	मैसर्स आप्टिकल कोटिंग लेबोरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	12973	मैसर्स यूनिस्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	12378	मैसर्स स्पोर्ट ऑटो फायनेन्स एण्ड इन्व्स्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	12976	मैसर्स फिनलिक (इंडिया) लिमिटेड
38.	12403	मैसर्स कोलार लेम्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	12986	मैसर्स चंद्र आर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	12409	मैसर्स निशांत रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	12991	मैसर्स सिविसन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	12422	मैसर्स पावर अर्बिट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	72.	12993	मैसर्स लाविरा मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	12436	मैसर्स कर्नाटक सोया प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	12995	मैसर्स दीपू कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	12472	मैसर्स सोनी लेदर्स गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	12999	मैसर्स यूनानिमस फायनेन्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
43.	12541	मैसर्स सत्यदेव फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	13003	मैसर्स कितान्दूर प्रोपर्टीज एण्ड इन्व्स्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	12545	मैसर्स बेंगलोर कम्पोजिटो ट्रेड वेक्स लिमिटेड	76.	13019	मैसर्स विकी रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	12302	मैसर्स ज्योति एग्रोथर्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	13030	मैसर्स सुंदर होम्स अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	12346	मैसर्स पी. टी. के. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	13039	मैसर्स कमान्डोस डिटेक्टिव्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	12743	मैसर्स अमरीन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	13045	मैसर्स मुदुगल फायनेन्स एण्ड इन्व्स्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	12748	मैसर्स हाई रिंक ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	13059	मैसर्स इनलैंड कंटेनर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
49.	12761	मैसर्स गजानना इनआर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड			

सी. वी. सजीवन

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	25024	मैसर्स दानुबे इंडिया इन्फोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	25049	मैसर्स नेटसोल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
3.	25078	मैसर्स मायसन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	25093	मैसर्स व्यासा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड
5.	25096	मैसर्स सारथी साफ्टवेयर रिसर्च एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	25104	मैसर्स शंकर रेसीडेंसी प्राईवेट लिमिटेड
7.	25136	मैसर्स एन. आर. रायल ब्रशेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	25142	मैसर्स विंकाफ होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	25147	मैसर्स फिक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	25149	मैसर्स सोना बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
11.	25170	मैसर्स जार्स करेंसी एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड
12.	25171	मैसर्स प्रेमसन बाटलर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	25172	मैसर्स लीला टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
14.	25177	मैसर्स अल्फा मीन इंपेक्स (बागलकोट) प्राईवेट लिमिटेड
15.	25682	मैसर्स सोनीस डीलर्स एण्ड ट्रेवल लाईंस प्राईवेट लिमिटेड
16.	25214	मैसर्स लक्ष्मी नरसिंहा ट्रांसपोर्ट एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	25236	मैसर्स शशांक पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	25241	मैसर्स सीडलिंग हाऊस प्लांटेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
19.	25247	मैसर्स मनमंदिर मार्केटिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
20.	25258	मैसर्स गलेक्सी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
21.	25259	मैसर्स एबीसी इंजीनियर्स एण्ड कांटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	25262	मैसर्स श्रीनिधी वाटर पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	25266	मैसर्स भोंसले एण्ड नागथन साल्वेन्ट एक्वैशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
24.	25279	मैसर्स रायल ट्रेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
25.	25287	मैसर्स वारिधी एग्रो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	25305	मैसर्स ग्रीन ड्रीम्स रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
27.	25308	मैसर्स आदर्श इन्फो सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	25321	मैसर्स ईस्ट-वेस्ट ट्रांसक्रिप्शंस प्राईवेट लिमिटेड
29.	25326	मैसर्स एस. एण्ड ए. कांसेप्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	25328	मैसर्स एस. एन. सेफ डिपॉजिट लाकर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	25332	मैसर्स क्रास फार्मालेब प्राईवेट लिमिटेड
32.	25336	मैसर्स क्वालिटी फ्रीजर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	25338	मैसर्स रेस्टवेल शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	25369	मैसर्स अंजनेय टेक्नो-प्लास्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	25370	मैसर्स गरूड बिजनेस फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	25377	मैसर्स स्पेनटेल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	25383	मैसर्स आलमिन सिक्कुरिटीज एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
38.	25386	मैसर्स बैंगलोर इस्टीट्यूट ऑफ एकाऊंटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
39.	25392	मैसर्स श्री केम्पमादेवी आऊटडोर फिल्म यूनिट प्राईवेट लिमिटेड
40.	25396	मैसर्स एम. एस. रिसोर्ट्स एण्ड फार्म्स बैंगलोर प्राईवेट लिमिटेड
41.	25398	मैसर्स हुट्टी काफी इस्ट्रेस प्राईवेट लिमिटेड
42.	25688	मैसर्स ग्रीन गार्डन फाईनैशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
43.	25426	मैसर्स मायाश्री लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
44.	25433	मैसर्स अनविल टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
45.	25437	मैसर्स आद्रिष्ट एम्प्लायमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
46.	25449	मैसर्स वीनस सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	25452	मैसर्स हालमार्क सीलिंग प्राईवेट लिमिटेड
48.	25453	मैसर्स मोविस लर्निंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	25456	मैसर्स एरोलेटेक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	25465	मैसर्स अंतर साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
51.	25480	मैसर्स सेस्कान सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	25482	मैसर्स श्री मेंथा कंसलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
53.	25483	मैसर्स कोट्टायम किडनी हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
54.	25501	मैसर्स एंगलर एण्ड प्रान्थले आईस एण्ड पेंड्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	25533	मैसर्स जलाल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	25534	मैसर्स रैनियो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
57.	25549	मैसर्स श्री अरिहंत पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
58.	25575	मैसर्स पनाम्बूर रबर प्राईवेट लिमिटेड
59.	25576	मैसर्स मार्सिले मार्बल अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	25581	मैसर्स इंडसाफ्ट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	25582	मैसर्स लार्डमेन इलेक्ट्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
62.	25592	मैसर्स लक्ष्मी पावर प्लांट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
63.	25599	मैसर्स जसमीत वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	25626	मैसर्स सोबर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	25629	मैसर्स क्रियेटिव लर्निंग आग्रेनाइजेशन प्राईवेट लिमिटेड
66.	25638	मैसर्स निम्ब्स हार्डवेयर एण्ड डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
67.	25646	मैसर्स छाया एस्टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	25652	मैसर्स थाला कावेरी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	25656	मैसर्स निर्वाण आउटडोर मोक्ष प्राईवेट लिमिटेड
70.	25663	मैसर्स नेटवर्क लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड
71.	25680	मैसर्स श्री राज राजेश्वरी स्पाइसेस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	25702	मैसर्स वी. आर. जी. नेट टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
2.	25717	मैसर्स हल्दीपुर फ्लूड पावर प्राईवेट लिमिटेड
3.	25723	मैसर्स बाबा पावर प्राईवेट लिमिटेड
4.	25726	मैसर्स सोना एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
5.	25727	मैसर्स चार्लीज साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	25742	मैसर्स सिल्वरपीक लाजिस्टीक प्राईवेट लिमिटेड
7.	25743	मैसर्स श्रीचक्र पार्लर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	25744	मैसर्स कुट्टीकंडाथिल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
9.	25764	मैसर्स इनिग्मा टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
10.	25766	मैसर्स प्रोडाइज साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
11.	25780	मैसर्स माइंडवेव इंटरनेट टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
12.	25784	मैसर्स भूमिका सिने प्राईवेट लिमिटेड
13.	25801	मैसर्स रिनेसेन्स कंसलटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
14.	25802	मैसर्स आड गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
15.	25808	मैसर्स बाम्भोर साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
16.	25810	मैसर्स वर्ल्डकॉन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
17.	25811	मैसर्स ब्लू लाइन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
18.	25816	मैसर्स बेवेर साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	25817	मैसर्स डिवाइन कार्ड्स एण्ड रिलेटेड डेवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	25825	मैसर्स बुल्स आई प्राईवेट लिमिटेड
21.	25839	मैसर्स उत्तम मीडिया कम्प्युनिकेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
22.	25853	मैसर्स बायो-मिटेक एण्ड फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	25858	मैसर्स अरेबिका कॉफी प्राईवेट लिमिटेड
24.	25867	मैसर्स इंटेल् इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	25884	मैसर्स गौरी गणेश फार्म सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	25906	मैसर्स श्री साई चंदन पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	25918	मैसर्स ओजस कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
28.	25921	मैसर्स श्रेयांस इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	25930	मैसर्स सचिदा होटल्स एण्ड काम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	25942	मैसर्स पृथ्वी कांक्रिट ब्लाक एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	25948	मैसर्स डेक्कन हार्डवियर सीड्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
32.	25953	मैसर्स शिल्पा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	25966	मैसर्स सिद्धार्थ साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	25987	मैसर्स माविनकरे इंजीनियरिंग एण्ड प्रेसिसियन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	25991	मैसर्स विस सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	26317	मैसर्स प्रेंड्स बिल्डर्स एण्ड इनोवेटिव डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	26004	मैसर्स प्लेनरी साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
38.	26026	मैसर्स विकम्पु सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	26032	मैसर्स ई. सी. बिजनेस कंसलटिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
40.	26033	मैसर्स ओटर फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
41.	26034	मैसर्स श्री विष्णु इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	26038	मैसर्स ट्रिलीनियम साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
43.	26045	मैसर्स मीनाक्षी मास सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	26067	मैसर्स डी. एस. पी. कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	26083	मैसर्स इनशिआ टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
46.	26116	मैसर्स बी. के. एच. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
47.	26118	मैसर्स पासर साफ्टटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	26128	मैसर्स पी. वी. एस. स्क्राइब्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	26131	मैसर्स जे. जी. ड्रग्स एण्ड सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	26137	मैसर्स लालवानी एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
51.	26139	मैसर्स शक्ति फिनसर्व प्राईवेट लिमिटेड
52.	26148	मैसर्स श्री रामुलु हेल्थ फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	26149	मैसर्स ब्राडकास्ट कम्युनिकेशन सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	26150	मैसर्स न्युबेन इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
55.	26172	मैसर्स एम. एस. डाट काम प्राईवेट लिमिटेड
56.	26178	मैसर्स क्विक बाइट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	26180	मैसर्स गेना टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
58.	26189	मैसर्स स्योब इंटरनेट सोल्युशंस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
59.	26191	मैसर्स विवा इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
60.	26203	मैसर्स मालितास बीच रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
61.	26206	मैसर्स हिपेस साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
62.	26211	मैसर्स बी. बी. बेवरेजेस प्राईवेट लिमिटेड
63.	26230	मैसर्स गौतम ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
64.	26253	मैसर्स आलमंड साफ्टफिन प्राईवेट लिमिटेड
65.	26254	मैसर्स पाम क्लोव साफ्टफिन प्राईवेट लिमिटेड
66.	25259	मैसर्स मुरुदेश्वर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
67.	26274	मैसर्स ईकाफेस मेट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
68.	26278	मैसर्स ईकार्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	26283	मैसर्स ब्लूस्काई एक्सप्रेस कार्गो मैनेजमेंट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
70.	26284	मैसर्स ई. एस. जी. ई. एग्रो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	26287	मैसर्स ब्रेन वेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	26297	मैसर्स आल सिसंस वेकेशन प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	26321	मैसर्स रिज हर्ब्स एण्ड स्पाईसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	26354	मैसर्स स्मूर्ति कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	26356	मैसर्स मंगलम क्रोम प्लेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	26360	मैसर्स टेक्सास साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	26370	मैसर्स ईस्पी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	26377	मैसर्स बेंगलोर प्रिंटो ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	26386	मैसर्स के. आर. टूर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	26411	मैसर्स अपूर्वा कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	26413	मैसर्स सेफ ट्रांसक्रिप्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	26415	मैसर्स फार्चून साफ्टस्क्राइब प्राईवेट लिमिटेड
11.	27032	मैसर्स इंफोपेस डाट काम प्राईवेट लिमिटेड
12.	26419	मैसर्स टफ स्टोन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	26426	मैसर्स रेसप्रा टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
14.	26432	मैसर्स मेघा इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	26434	मैसर्स सनराइस पेरिफेरल्स एण्ड इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	26465	मैसर्स साई गौतम कंफेक्शनरी प्राईवेट लिमिटेड
17.	26469	मैसर्स मेटाफोर साफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
18.	26470	मैसर्स श्री चामुण्डी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
19.	26481	मैसर्स जे. आर. के. ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
20.	26496	मैसर्स गुरुकृपा आफिस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	26504	मैसर्स नेक्टर साफ्टवेयर सोल्युशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22.	26511	मैसर्स शक्ति वाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	26514	मैसर्स वीनस स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	26516	मैसर्स नॉस्ट्रो साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
25.	26541	मैसर्स ए. वी. एस. कार्पोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	26553	मैसर्स नास्ट्रो साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
27.	26554	मैसर्स वेबमार्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	26563	मैसर्स टेम्पेस्ट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	26574	मैसर्स जयदुर्गा इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
30.	26581	मैसर्स टोटल सप्लाइस. काम प्राईवेट लिमिटेड
31.	26582	मैसर्स मेडटेक्स बायोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	26585	मैसर्स जुबा इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
33.	26593	मैसर्स जेटीपी. काम प्राईवेट लिमिटेड
34.	26603	मैसर्स क्वांटम मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	26604	मैसर्स इंगो सर्च नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
36.	26605	मैसर्स ओम पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड
37.	26630	मैसर्स आल्ट्राबिट नेटवर्क्स (इंडिया)
38.	26631	मैसर्स व्योम सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	26640	मैसर्स विश्वम इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	26655	मैसर्स धन-वर्षा नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
41.	26659	मैसर्स इटरनिटी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	26668	मैसर्स प्रोजेनिक्स इंफोमेशन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
43.	26691	मैसर्स इस्ट कोस्ट कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	26705	मैसर्स गुरुशिक्षा टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
45.	26716	मैसर्स हेरांब एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड
46.	26731	मैसर्स कौसर फेम मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	26744	मैसर्स प्रिस्टाईन हर्बिविय फामास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	26749	मैसर्स लहरी मीडिया. काम प्राईवेट लिमिटेड
49.	26780	मैसर्स फ्वास सोल्युशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
50.	26781	मैसर्स बेंगलोर टेक्नोफेब्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
51.	26796	मैसर्स सुदति टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
52.	26806	मैसर्स इक्लेटॉन ई-बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
53.	26812	मैसर्स ग्रीन सिटी कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
54.	26815	मैसर्स इंगो टेक किड्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	26817	मैसर्स सुत्र सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
56.	26823	मैसर्स एज सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	26854	मैसर्स इरिडियम इंफो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	26863	मैसर्स मेवेरिक्स डॉटकॉम प्राईवेट लिमिटेड
59.	26875	मैसर्स आईकान्टेक्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
60.	26877	मैसर्स पी. एस. क्यू. इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
61.	26887	मैसर्स रामसन्स ग्रीनफील्ड्स एण्ड रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	26894	मैसर्स आईकोड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
63.	26901	मैसर्स रेडिकल इंफो सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
64.	26904	मैसर्स बिजापुर मिल्कडेयरी एण्ड एगो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
65.	26913	मैसर्स एल्लोक्सान (इंडिया) सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	26925	मैसर्स टाईक्वेस्ट (इंटरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड
67.	26955	मैसर्स विस्डम ई-टेक प्राईवेट लिमिटेड
68.	26963	मैसर्स साइबरसाफ्ट वेब सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	26965	मैसर्स इंफोसेट डायलॉग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
70.	26970	मैसर्स यशस्वी एक्सपोर्ट हाउस प्राईवेट लिमिटेड
71.	26973	मैसर्स टाईवे टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
72.	26983	मैसर्स श्री जगतगुरु बसवेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
73.	27016	मैसर्स सर्वशक्ति रोड केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	27026	मैसर्स रेनिकॉन्स पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	27038	मैसर्स एक्सीडेंट केयर प्राईवेट लिमिटेड
2.	27073	मैसर्स मेरासिटी. काम प्राईवेट लिमिटेड
3.	27085	मैसर्स कर्नाटक मेट काम प्राईवेट लिमिटेड
4.	27086	मैसर्स सेडिला इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	27099	मैसर्स नेविलेसोफ्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	27107	मैसर्स स्ट्रीटस्मार्ट मेपिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	27108	मैसर्स वचुअल डायनामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	27146	मैसर्स ऐश्वर्य प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
9.	27148	मैसर्स मेलसी फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	27157	मैसर्स मेटापेराडिगम साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	27168	मैसर्स क्वाड्रा टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
12.	27183	मैसर्स हाल्दा आफिस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
13.	27192	मैसर्स रोजर्स सिम्युरिटीस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	27198	मैसर्स लाइव-एड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
15.	27217	मैसर्स अन्वेषण टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
16.	27225	मैसर्स सप्तगिरी तारपोलिन एण्ड पैकेजिंग मटेरियल प्राईवेट लिमिटेड
17.	27243	मैसर्स नेटिजन इंफॉर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	27247	मैसर्स सिग्नेट नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	27251	मैसर्स एकदंत प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
20.	27252	मैसर्स रीलप्ले इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड
21.	27260	मैसर्स अक्षय फ्रेट लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	27261	मैसर्स अद्वैत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	27267	मैसर्स हाइटेक नेटवर्किंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	27278	मैसर्स चौदेश्वरी ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
25.	27289	मैसर्स दिव्यश्री साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
26.	27300	मैसर्स सुदरलैंड सोफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	27311	मैसर्स निश्चय टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
28.	27304	मैसर्स मापे इंटरटेनमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	27317	मैसर्स रेयल लेजर क्यूर प्राईवेट लिमिटेड
30.	27359	मैसर्स आल केमिस्ट्री. काम प्राईवेट लिमिटेड
31.	27360	मैसर्स फिनाड फायनैसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	27361	मैसर्स हेक्साट्रिक्स होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	27372	मैसर्स श्री विमनेश एसेंसियल प्राईवेट लिमिटेड
34.	27379	मैसर्स इलेक्ट्रोसिस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
35.	27415	मैसर्स प्रथम एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
36.	27416	मैसर्स गोयडिक मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	27424	मैसर्स निमिशांका रिक्वरीस प्राईवेट लिमिटेड
38.	27445	मैसर्स कुटीर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	27461	मैसर्स अल्फा ओमेगा कंफेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	27467	मैसर्स जूपिटर ई. काम एण्ड नेटवर्क्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
41.	27515	मैसर्स ममोथ इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
42.	27518	मैसर्स ई लाइफ सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
43.	27771	मैसर्स कंप्लीट इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
44.	27520	मैसर्स ईटवेबेक्स टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
45.	27524	मैसर्स इंपेक्ट इवेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
46.	27527	मैसर्स पॉलिमार्फिक सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	27528	मैसर्स हिन्दुकुश मेनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
48.	27536	मैसर्स रूपम माकटिक प्राईवेट लिमिटेड
49.	27539	मैसर्स मार्क कनेक्शनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	27541	मैसर्स महालक्ष्मी ग्लोबल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	27549	मैसर्स सिमरिओ एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	27560	मैसर्स एड्स इंडिया डिजिटल प्री-प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
53.	27563	मैसर्स शेलम ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	27764	मैसर्स मेगनम कनेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
55.	27610	मैसर्स तीर्थकर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
56.	27653	मैसर्स सदर्न रिटेल ऑटोमेशन सर्विसेस (तमिलनाडु) प्राईवेट लिमिटेड
57.	27665	मैसर्स ओपनमाइंड रिटेलिंग प्राईवेट लिमिटेड
58.	27667	मैसर्स दोड्डामनी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	27676	मैसर्स बी. यू. राक कालम्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	27680	मैसर्स के.एम. एस. इंफो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	27682	मैसर्स लिंग साफ्टवेयर टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
62.	27688	मैसर्स श्री औरो मीरा बिण्ड एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
63.	27689	मैसर्स महाशक्ति प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
64.	27692	मैसर्स एम. सी. एस. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
65.	27726	मैसर्स श्री श्रीनिवास डिस्ट्रीलरीस प्राईवेट लिमिटेड
66.	27727	मैसर्स लक्ष्मी नरसिंहा सिल्क एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	27730	मैसर्स ईबेनेजर ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	27738	मैसर्स मंगलोर टूरिज्म डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
69.	27741	मैसर्स भवानी प्रिंसर्वेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	27748	मैसर्स शोध इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
71.	27752	मैसर्स सिलिकान मेगा मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
72.	27759	मैसर्स दक्ष साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 9th April 2008

No. DP PERS.1/2008/0077/3/56/91—The President is pleased to appoint Shri Balla Ravindra Nath, Sr. Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the afternoon of 28.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 11th April 2008

No. Admn. I/O.O. No.-05—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Sh. Vijay Kumar Gosain, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.04.2008 (FN) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 1st April 2008

No. WM-I/Q-73 (G)/Vol.-IV/01-03—Under the orders of the A.G. (A&E), W.B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade in the present divisionals/division noted against each till further orders(s) he will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

1. Sh. Shankar Kr. Pramanic

The above named officer may submit his options under FR 22(1) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as D.A.O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A.cs)

KHAN MANTRALAYA

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 28th November 2007

No. 3532/B/A-35018/DDG(F)/96-19C —In pursuance of the Government of India, Department of Personnel & Training's letter No. 11030/17/93-AIS (II) dated 11.04.2001 the Governor of Rajasthan is pleased to promote Shri A. Mukhopadhaya, IAS Officer of 1980 batch borne on the State Cadre of Rajasthan and is at present on deputation to Geological

Survey of India, Central Headquarters, Kolkata, on Supertime scale of Indian Administrative Service of Rs. 22,400-525-24,500/- on proforma basis w.e.f. 15-09-2005.

D. T. SYIEMLEH
Dir. (P & A)
For Dy. Dir. Gen. (P)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 3rd April 2008

No. 7/2(2)/2008-SUS/2314—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of Construction Services and Estate Management of this Department on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 1.8.2007 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Grade on promotion	Scale of pay	Date of assumption of charge
1.	Sh. Lala Ram	SO/E	Rs. 12,000-375-16,500/-	1.8.2007
2.	Sh. Pratap Kumar Panda	SO/E	Rs. 12,000-375-16,500/-	1.8.2007
3.	Sh. Shailendra Bahadur	SO/E	Rs. 12,000-375-16,500/-	1.8.2007

D. SURENDRAN
Officer on Special Duty

DIRECTORATE GENERAL OF INDIA

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi-110011, the 31st March 2008

No. 27/13/90-CA (NDR)/Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Deorao Domaji Bakde, Chief Architect (NDR), Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 retires from government service with effect from the afternoon of 31.3.2008.

VIJAY P. RAO
Liaison Officer to Chief Architect (New Delhi Region)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :—

New Delhi-110019, the 31st March 2008

No. ROC/Delhi/560 (5)/SM/6003/11502—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies from Serial number 1 to 6003 have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and are dissolved :—

560(5)

S.No.	Company Name	CIN
1	U22219HR1932PTC000085	PRINTERS PVT LTD
2	U99999DL1937PTC000459	MODEL BUILDING CORPN PVT LTD
3	U99999DL1945PTC000831	LAND LINES PVT LTD
4	U99999DL1945PTC000846	D G L PVT LTD
5	U51909HR1946PTC001200	KRISHAN INDUSTRIES AND GENERAL MILLS PVT LTD
6	U99999DL1948PTC001363	BIRKETT AND CO. PVT. LTD.
7	U99999DL1948PTC001380	NOR FOLK SYNDICATE (INDIA) PVT LTD
8	U60231HR1949PTC001476	SATNAM TRANSPORT CO PVT LTD
9	U74140DL1948PTC001483	JAWAHAR SINGH BIKRAM SINGH PVT LTD.
10	U99999DL1948PTC001504	MODEL ENGG AND CONSTRUCTION CO (INDIA) PVT LTD
11	U51502HR1950PTC001624	JANKI DASS AND CO PVT LTD
12	U99999DL1949PTC001630	ZANANA DAWA KHANA PVT LTD
13	U51909DL1949PTC001667	SEALAND (INDIA) PVT LTD
14	U99999DL1949PTC001705	B K KHANNA AND CO PVT LTD
15	U92112DL1950PTC001741	UPPER INDIA THEATRES PVT LTD
16	U51909HR1952PTC001746	ARIF SYNDICATE PVT LTD
17	U51909DL1950PTC001756	SHREE RANG TRADERS PVT LTD
18	U60231HR1952PTC001761	LAHORE PINDI TRANSPORT PVT LTD
19	U99999DL1950PTC001843	KHANNA TRADING AGENCY PVT LTD
20	U51909DL1951PTC001909	SHANKSON PVT LTD
21	U60231DL1951PTC001978	DELHI GOODS CARRIERS PVT LTD
22	U99999DL1952PTC002168	WELL WORTH PVT LTD
23	U51909DL1952PTC002193	R. B. L. TIRATH RAM SHAH ISHWAR DASS PVT. LTD.
24	U99999DL1953PTC002234	TEPTLITZ AERATED WATER CO PVT LTD
25	U60231HR1958PTC002242	DADRI HARYANA TRANSPORT CO PVT LTD
26	U99999DL1953PTC002304	BAWA TIMBER PVT LTD
27	U99999DL1955PTC002471	ALL INDIA PUBLISHERS PVT LTD
28	U51398DL1955PTC002529	STANDARD JEWELLERS PVT LTD
29	U99999DL1956PTC002618	SPARTON BATTERIES PVT LTD
30	U99999DL1956PTC002620	DELHI SILICATE AND CHEMICALS PVT LTD.
31	U99999DL1956PTC002632	HANDICRAFTS INDIA PVT LTD
32	U34301HR1967PTC002720	VISHAWA KARMA ENGG CO PVT LTD
33	U99999DL1957PTC002775	WHITECROFT MANUFACTURING CO PVT LTD
34	U99999DL1957PTC002801	DELHI KASHMIR GOODS TRANSPORT PVT LTD
35	U63090DL1957PTC002816	LAOD MASTER TRANSPORT CO PVT LTD
36	U99999DL1956PTC002821	PARTAP TRANSPORT AND FINANCE PVT LTD
37	U51909DL1957PTC002835	SHAMA DISTRIBUTORS PVT LTD
38	U99999DL1957PTC002842	PROCESS ENGRAVERS PVT LTD
39	U74999DL1958PTC002966	STERLING INDUSTRIES PVT LTD
40	U99999DL1959PTC003020	WEST INDIA AGENCY PVT LTD
41	U99999DL1959PTC003030	SUPERFINE CABLES PVT LTD
42	U99999DL1959PTC003120	ADVANCE ELECTRONICS PVT LTD
43	U63090DL1959PTC003127	PATIALA GOODS BOOKING AGENCY PVT LTD
44	U99999DL1960PTC003181	GREH LAKSHMI COLONIZERS PVT LTD
45	U99999DL1960PTC003206	MILHARD PVT LTD
46	U99999DL1960PTC003233	EXTRUSION INDUSTRIES PVT LTD
47	U99999DL1960PTC003277	QUALITY OFFICE APPLIANCES PVT LTD
48	U99999DL1960PTC003283	PADMINI METALS AND INDUSTRIES PVT LTD
49	U74130DL1960PTC003330	OSOCIATED MARKETING PVT LTD
50	U99999DL1960PTC003339	TRADENASTERS (INDIA) PVT LTD
51	U99999DL1960PTC003349	GLOBE ADVERTISING SERVICE PVT LTD
52	U36997DL1961PTC003435	HAIR PRODUCTS PVT LTD
53	U65921DL1961PTC003460	FINANCE SERVICE PVT LTD

54	U55101DL1961PTC003473	HOTEL KHAYAM PVT LTD
55	U99999DL1961PTC003502	MITWAX INDUSTRIES PVT LTD
56	U99999DL1961PTC003556	DELHI BOMBAY TRANSPORT CO PVT LTD
57	U99999DL1961PTC003577	RAJINDER FLOUR AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
58	U33309DL1962PTC003619	LADLI PARSAD AND SONS PVT LTD
59	U99999DL1962PTC003770	CHAND NARAYAN DUTTA AND CO PVT LTD
60	U34300DL1962PTC003777	VISHAL AUTO INDUSTRIES PVT LTD
61	U99999DL1962PTC003778	DAWN FILMS PVT LTD
62	U99999DL1962PTC003783	NORTH EAST ROADWAYS PVT LTD
63	U67120DL1962PTC003790	EVERISE PVT LTD
64	U99999DL1962PTC003839	WORLD TRAVEL SERVICE PVT LTD
65	U27109DL1963PTC003878	VASUDHA VIJAY UDYOG PVT LTD
66	U99999DL1963PTC003916	DE-VINHART ENTERPRISES PVT LTD
67	U99999DL1963PTC003937	NANAK CHAND DATTA PVT LTD
68	U99999DL1963PTC003943	METPO PVT LTD
69	U99999DL1963PTC003950	PARKYSONS INDIA PVT LTD
70	U45201DL1963PTC003998	HARSON INDIA PVT LTD
71	U99999DL1963PTC004008	ZOOLAND PVT LTD
72	U51909DL1963PTC004011	GOLDS GREEN PVT LTD
73	U36999DL1963PTC004015	NUSIL GLASS PVT LTD
74	U51909DL1963PTC004048	COCO FLEX (INDIA) PVT LTD
75	U67120DL1963PTC004059	ARORA BEOPAR CO PVT LTD
76	U63090DL1964PTC004122	DELHI GOLDEN TRANSPORT CO PVT LTD
77	U99999DL1964PTC004128	VISHNU BROTHERS INSULATED CABLES PVT LTD
78	U99999DL1964PTC004150	KOH-I-NOOR LANDED ESTATES PVT LTD
79	U45201DL1964PTC004170	ADARSH BUILDERS PVT LTD
80	U27109DL1964PTC004187	SANIFIX INDIA PVT LTD
81	U99999DL1964PTC004238	SUNRISE PAINT INDUSTRIES PVT LTD
82	U25199DL1965PTC004331	ORANGE RUBBER PVT LTD
83	U99999DL1965PTC004364	ARCEE PLASTIC AND METAL INDUSTRIES PVT LTD
84	U36991DL1965PTC004443	AMBITIOUS GOLD NIB MFG CO PVT LTD
85	U51109DL1965PTC004455	INDUSTRIAL CRANE AND FABRICATORS PVT LTD
86	U99999DL1965PTC004467	HOMER CAMERAS PVT LTD
87	U99999DL1965PTC004468	GAYCO PVT LTD
88	U99999DL1965PTC004471	DSRS MDTORS (INDIA) PVT LTD
89	U33309DL1965PTC004472	TIMEX (INDIA) PVT LTD
90	U99999DL1965PTC004477	DIPINDRA PLASTICS PVT LTD
91	U99999DL1965PTC004517	BEAS ENGINEERING PVT LTD
92	U99999DL1966PTC004536	CONSOL ELEVATORS PVT LTD
93	U74992DL1966PTC004539	LLOYD BITUMEN PRODUCTS PVT LTD
94	U21012DL1966PTC004579	PAPERS AND CARDWARES PVT LTD
95	U99999DL1966PTC004582	SCOBA ENGINEERING GROUP PVT. LTD.
96	U24299DL1966PTC004585	INTERCHEM CORPN PVT LTD
97	U99999DL1966PTC004607	ALLWYN MERCURY NORTHERN INDIA (PVT) LTD
98	U23209DL1966PTC004630	GIRSHAN INDUSTRIAL CO PVT LTD
99	U99999DL1966PTC004633	HARYANA COLONIZERS PVT LTD
100	U99999DL1966PTC004641	DURAPAC COSMETICS INDIA PVT LTD
101	U99999DL1966PTC004684	HARI CHAND AGARWAL AND CO PVT LTD
102	U63040DL1967PTC004688	ECONOMIC TRANSPORT PVT LTD
103	U99999DL1967PTC004696	ENTENTE PVT LTD
104	U99999DL1967PTC004698	ESKAY SALES PVT. LTD
105	U99999DL1967PTC004752	AMALGAMATED MACHINES PVT LTD
106	U99999DL1967PTC004775	RAYMOND AND EARNEST (INDIA) PVT LTD
107	U99999DL1967PTC004779	GYAN BHARTI PVT LTD
108	U24114DL1967PTC004790	SUMAN UDYOG PVT LTD

109	U99999DL1967PTC004820	BAWA TRADERS PVT LTD
110	U32109DL1967PTC004821	MADHU ELECTRONICS(INDIA)PVT LTD
111	U24239DL1968PTC004847	MEDI PAC MFG PVT LTD
112	U99999DL1968PTC004875	ANGJA PVT LTD
113	U51909DL1968PTC004884	LITTLESONS (INDIA) PVT LTD
114	U99999DL1968PTC004923	MODERN ESTATES PVT LTD
115	U99999DL1968PTC004928	CLEOPATRA COSMETICS (INDIA) PVT LTD
116	U99999DL1968PTC004936	CITY GAS AND ENGINEERING CO PVT LTD
117	U99999DL1968PTC004955	LINE MATERIALS(INDIA)PVT LTD
118	U99999DL1968PTC004967	SUNRISE ELECTRONICS PVT LTD
119	U99999DL1949PTC004973	ENGLISH CYCLE AND MOTOR CO (INDIA) PVT LTD
120	U99999DL1969PTC005039	WORLDWAYS TOURISTS CENTRE PVT LTD
121	U15432HR1969PTC005079	MARKANDEY KHANDSARI UDYOG PVT LTD
122	U99999DL1969PTC005129	GUPTAJEE PVT LTD
123	U34300DL1969PTC005133	TAYAL AUTOMOBILE AND AGRICULTURAL EQUIPMENT PVT LTD
124	U29792DL1969PTC005159	LAXMAN ELECTRO MECHANICAL PVT LTD
125	U99999DL1969PTC005164	EXECUTIVE AND MANAGEMENT PROGRAMS PVT LTD
126	U99999DL1969PTC005173	UNIVERSAL HOLDINGS PVT LTD
127	U99999DL1969PTC005179	WINDSOR TRAVELS PVT LTD
128	U99999DL1970PTC005212	JAMES WHEELWAYS INDIA PVT LTD
129	U99999DL1970PTC005264	MANAVASI CONSULTANTS PVT LTD
130	U99999DL1970PTC005275	NOVEL TRENDS PVT LTD
131	U99999DL1970PTC005376	KASLIWAL HOTEL ENTERPRISES PVT LTD
132	U99999DL1970PTC005379	BHUTORIA OIL MILLS PVT LTD
133	U99999DL1970PTC005411	BHARJ ENGINEERS PVT LTD
134	U99999DL1970PTC005412	SURO FOREST PRODUCTS CONSULTANTS PVT LTD
135	U28939DL1970PTC005415	TEPCO ENGINEERING SERVICES PVT LTD
136	U45201DL1970PTC005423	SAMRAT BUILDERS PVT LTD
137	U92114HR1970PTC005425	NEELAM THEATRES PVT LTD
138	U99999DL1970PTC005431	MEERA MAGIC KATZ(D)PVT LTD
139	U74950DL1970PTC005485	AMBAR INDUSTRIAL PACKAGING PVT LTD
140	U25209DL1971PTC005500	EXAKT TECHNOMATICS PVT LTD
141	U99999DL1971PTC005506	ISHAN AGENCIES PVT LTD
142	U99999DL1971PTC005534	AGNI ENGINEERS AND PROCESSORS PVT LTD
143	U99999DL1971PTC005554	A K CYCLE INDUSTRIES PVT LTD
144	U99999DL1971PTC005579	STANDARD FASTNERS PVT LTD
145	U63090DL1971PTC005597	BESTO TRANSPORT SERVICE PVT LTD
146	U99999DL1971PTC005629	KUMAR BRONGE POWDERS PVT LTD.
147	U99999DL1971PTC005658	ANJANEYA COLD STORAGE PVT LTD
148	U99999DL1971PTC005661	ARUN MINING AND METAL INDUSTRIES PVT LTD.
149	U01222DL1971PTC005667	MEHFI FARMS PVT LTD
150	U99999DL1971PTC005670	MARKETING OVERSEAS PVT LTD
151	U99999DL1971PTC005684	MEHTA MOTORS PVT LTD
152	U15142DL1971PTC005697	CHEMICAL CONSTRUCTION CO PVT LTD
153	U22219DL1971PTC005705	TIN CONTAINERS AND PRINTERS PVT LTD
154	U99999DL1971PTC005714	SHAWS SECURITY INDIA PVT LTD
155	U99999DL1971PTC005721	SWARAJIYA SANDESH PRAKASHAN PVT LTD
156	U55101DL1971PTC005723	ALPS WINE SHOP PVT LTD
157	U19122DL1971PTC005744	UNITED BAGS (DELHI) PVT LTD
158	U28999DL1971PTC005784	ALZIN CAST (INDIA) PVT LTD
159	U99999DL1971PTC005808	SURDEALS PVT LTD
160	U74140DL1971PTC005809	K.P.SATYA AGENCIES PVT LTD.
161	U99999DL1971PTC005841	ALESCO STEELS PVT LTD
162	U99999DL1971PTC005861	STAR FAN PVT LTD

163	U99999DL1971PTC005876	CHANDRA AUTO SPARES AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
164	U70101DL1971PTC005894	BANSAL DEVELOPMENT CO PVT LTD
165	U74140DL1971PTC005896	ASIA PROJECTS DEVELOPMENT CO PVT LTD
166	U99999DL1971PTC005899	BANSAL PIPES PVT LTD
167	U74210DL1971PTC005907	TEXTILE TECHNOLOGISTS AND CONSULTANTS PVT LTD
168	U99999DL1971PTC005910	EASTERN RESEARCH ASSOCIATES PVT LTD
169	U19201DL1972PTC005929	BHARAT VINYL PVT LTD.
170	U99999DL1972PTC005931	EMKAY WOOLLEN MILLS PVT LTD
171	U18101DL1972PTC005936	KATHPAL BROTHERS PVT LTD
172	U99999DL1972PTC005943	SADOR TECHNO BRASS PVT LTD
173	U99999DL1972PTC005944	ASHOKA ALLOY STEELS PVT LTD
174	U51909DL1972PTC005949	RUNGTA EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
175	U99999DL1972PTC005953	ASHOK KUMAR GUPTA AND CO PVT LTD
176	U99999DL1972PTC005970	BULLS WRECKERS PVT LTD
177	U21099DL1972PTC006018	SRINIVAS PAPER INDUSTRIES PVT LTD
178	U31909HR1972PTC006025	QUALITY MACHINERY PVT LTD
179	U99999DL1972PTC006034	MARKETING CONSUMERS INFINITUM PVT LTD
180	U99999DL1972PTC006054	KELPRO PVT LTD
181	U99999DL1972PTC006055	SPONSOR CONSTRUCTION PVT.LTD.
182	U51909DL1972PTC006057	BEARING SALES CORPN PVT LTD
183	U99999DL1972PTC006066	AHLUWALIA CONSTRUCTION CO PVT LTD
184	U99999DL1972PTC006069	SANJIB PROPERTIES PVT LTD
185	U73101DL1972PTC006082	K.L PLASTICS PVT.LTD.
186	U99999DL1972PTC006097	SADHUGARH AGRICULTURAL INDUSTRIES PVT LTD
187	U01111DL1972PTC006098	RAJPURA AGRO INDUSTRIES PVT LTD
188	U99999DL1972PTC006120	GENERAL METALICA CO PVT LTD
189	U51109DL1972PTC006138	INTERINDIA AGENCIES PVT LTD
190	U99999DL1972PTC006159	KUNDAN SONS (INDIA) PVT LTD
191	U99999DL1972PTC006160	OMEGA TEXTILES PVT LTD
192	U51109DL1972PTC006192	COMBINED AGENCIES PVT LTD
193	U99999DL1972PTC006196	BALWANT AUTOMOBILES PVT LTD
194	U99999DL1972PTC006199	DATA CONVERSION SYSTEMS PVT LTD
195	U99999DL1972PTC006201	NAV BHARAT STEELS PVT LTD
196	U99999DL1972PTC006207	SOUND ELECTRONICS PVT LTD
197	U29299DL1972PTC006212	TRIDENT ENGINEERS PVT LTD
198	U99999DL1972PTC006226	EXPORT HEALTH PVT LTD
199	U15428DL1972PTC006277	GENERAL MALLASSES CO PVT LTD
200	U99999DL1972PTC006327	WINDSOR HOTEL PVT LTD
201	U99999DL1972PTC006340	SUPREME POLYVINYLE PRODUCTS PVT LTD
202	U99999DL1972PTC006344	MAHARAJAS FOOTWEARS PVT LTD
203	U74210DL1972PTC006355	M S J (ENGINEERING)AND CO PVT LTD
204	U99999DL1972PTC006362	ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES LTD
205	U99999DL1909PTC006372	SHIVAS EXPDRTS PVT. LTD.
206	U99999DL1972PTC006375	DREAMLAND HOTELS AND MOTELS PVT LTD
207	U26109DL1973PTC006447	FIBRO INDIA PVT LTD
208	U99999DL1973PTC006458	GUROO VAYU OXYGEN PVT.LTD.
209	U31404DL1973PTC006462	SAHNI BATTERIES PVT LTD
210	U70101DL1973PTC006488	ATUL POLYMERS PVT LTD
211	U70101DL1973PTC006516	KAILASH APARTMENT PVT LTD
212	U99999DL1973PTC006533	DRESSCO EXPORTS PVT LTD
213	U74210DL1973PTC006537	INDUSTRIAL IMPEX PROMOTION PVT LTD
214	U99999DL1973PTC006538	TEMPERATE KNITTERS PVT LTD
215	U51505DL1973PTC006542	BHARTIA ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
216	U99999DL1973PTC006569	SUMEET PRAKASHAN PVT LTD
217	U74994DL1901PTC006571	ALLAMBANA PVT LTD.

218	U74210DL1973PTC006583	FRIFLO ENGINEERS PVT LTD
219	U34300DL1973PTC006615	REX AUTO PRODUCTS PVT LTD
220	U99999DL1973PTC006620	LIQUOR TRADERS PVT LTD
221	U99999DL1973PTC006672	TRANSMOTOR CO PVT LTD
222	U99999DL1973PTC006707	G.S. MARTIN AND CO. PVT. LTD.
223	U99999DL1973PTC006723	INCOWAR PVT.LTD.
224	U28939DL1973PTC006728	FINEMEASURE TOOLS MFG CO PVT LTD
225	U99999DL1973PTC006756	INDEL ELEVATORS PVT.LTD.
226	U99999DL1973PTC006765	BATHLA MOTORS PVT LTD
227	U22219DL1973PTC006767	QUICKALL PRINTERS AND PUBLISHERS PVT LTD
228	U99999DL1973PTC006775	KANCHANCHANGA CLOTHING CO PVT LTD
229	U99999DL1973PTC006779	LAKSHMI ALLOY STEELS PVT LTD
230	U99999DL1973PTC006781	R P ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
231	U24289DL1973PTC006782	SIHIFELD PHARMACEUTICALS (INDIA) PVT LTD
232	U99999DL1973PTC006800	MATHUR PAPERS AND FOILS PVT LTD
233	U99999DL1973PTC006821	MAMCHAND GIRILAL PVT LTD
234	U99999DL1973PTC006825	T R FINANCIAL CONSULTANTS AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
235	U99999DL1973PTC006834	TOOL MASTER PVT LTD
236	U99999DL1973PTC006852	NAV SHEEL ASSOCIATES PVT LTD
237	U22110DL1973PTC006857	ARNOLD PUBLISHERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
238	U27209DL1973PTC006868	MATHUR STEEL INDUSTRIES PVT LTD
239	U99999DL1973PTC006886	NALANDA INSTRUMENTS PVT LTD
240	U99999DL1973PTC006900	AFRO SPARES (INDIA) PVT LTD
241	U74992DL1973PTC006911	AMBICO PHARMACEUTICAL PVT LTD
242	U74140DL1973PTC006923	HITKARI AND HITKARI PVT LTD
243	U34300DL1973PTC006935	BUDROY (INDIA) PVT LTD
244	U28121HR1973PTC006957	NICOP METALS PVT LTD
245	U21012DL1973PTC006979	COROKRAFT PAPER PVT LTD
246	U99999DL1973PTC007002	KISHKO (INDIA) PVT LTD
247	U99999DL1973PTC007006	KRISHNA WOOLLENS PVT LTD
248	U99999DL1973PTC007007	ROCK WELL ENTERPRISES PVT LTD
249	U99999DL1974PTC007039	VEENA DEEP PVT LTD
250	U99999DL1974PTC007049	TATCO(INDIA) PVT LTD
251	U99999DL1974PTC007052	A AND P TRAVELS PVT LTD
252	U99999DL1974PTC007067	UNIVERSAL PUMPS PVT.LTD.
253	U74140DL1974PTC007077	MADANLAL AND FLOUR MILLS PVT LTD
254	U99999DL1974PTC007096	WARD ENGINEERING PVT LTD
255	U18101HR1974PTC007099	SHINGLA LOOMS TEXTILES PVT LTD
256	U99999DL1974PTC007102	GLYCE AUTO PVT LTD
257	U99999DL1974PTC007103	KAMAL NAYANTARA PVT LTD
258	U99999DL1974PTC007113	KAY CEE OVERSEAS EXPORTERS PVT LTD
259	U99999DL1974PTC007168	RESIN ADHESIVE INDUSTRIES PVT LTD
260	U99999DL1974PTC007193	SUBH CHINTAK CO PVT LTD
261	U29299DL1974PTC007218	DUSENBUERY MACHINERY INDIA PVT LTD
262	U99999DL1974PTC007228	BLUE MOON OVERSEAS PVT LTD
263	U29299DL1974PTC007237	DAAPS CREGOGENICS PVT LTD
264	U32109DL1974PTC007238	KAPBELTRONIC AGENCIES PVT LTD
265	U99999DL1974PTC007258	TEENMURTI ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
266	U99999DL1974PTC007259	BRIGHT DISTRIBUTORES PVT LTD
267	U99999DL1974PTC007285	BINGO EXPORTS PVT LTD
268	U34300DL1974PTC007299	SHAD(INDIA) AGENCIES PVT LTD
269	U99999DL1974PTC007306	ARAISH (FURNISHERS) PVT LTD
270	U99999DL1974PTC007327	DART WOODCRAFTS PVT.LTD.
271	U99999DL1974PTC007340	POLTA INTERNATIONAL PVT LTD

272	U99999DL1974PTC007342	DESORE PROPERTIES PVT LTD
273	U18101DL1974PTC007346	LINKERS SHIRT MANUFACTURING PVT LTD
274	U24209DL1974PTC007354	DURGA CHEMICAL AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
275	U99999DL1974PTC007356	ROLLY AND POLLY PVT LTD
276	U99999DL1974PTC007368	LUXMI MARKETING PVT LTD
277	U18101HR1974PTC007370	AHUJA TEXTILES AND CHEMICALS PVT LTD
278	U99999DL1974PTC007394	SONA ELECTRONICS PVT LTD
279	U99999DL1974PTC007400	SOCHISHIBA ENGINEERING CO PVT LTD
280	U29299DL1974PTC007409	LEADING ENGINEERING WORKS PVT LTD
281	U99999DL1974PTC007412	VICTORY WEAVERS PVT LTD
282	U99999DL1974PTC007419	JAGAT REFRACTORIES PVT LTD
283	U99999DL1974PTC007428	SKYLARK ASSOCIATES PVT LTD
284	U99999DL1974PTC007445	ESEN SALES PVT. LTD.
285	U24299DL1974PTC007465	SUPERIOR SYNDATES PVT.LTD.
286	U01111DL1974PTC007469	GOVAN FARMS AND TRADING CO PVT LTD
287	U99999DL1974PTC007485	DEVELOP INTERNATIONAL PVT LTD
288	U29299DL1974PTC007487	TELEVISTA INSTRUMENTS PVT LTD
289	U74140DL1974PTC007488	S K PETROLEUM CONSULTANTS PVT LTD
290	U99999DL1974PTC007517	J G FILMS (DELHI)PVT LTD
291	U99999DL1974PTC007534	GISCO AGENCIES INDIA PVT LTD
292	U99999DL1974PTC007536	TEMPEON INSULATION PVT LTD
293	U99999DL1974PTC007554	CROSSROADS PVT LTD
294	U99999DL1974PTC007558	S S PRODUCTION PVT LTD
295	U51909DL1974PTC007574	A L B AGENCIES PVT LTD
296	U27109DL1975PTC007579	RUCHIKA STEELS PVT LTD
297	U63090DL1975PTC007593	KHUSHRANG TRAVELLERS PVT LTD
298	U63090DL1975PTC007595	JYOTI TRANSPORTS PVT.LTD.
299	U99999DL1975PTC007605	HAWK TRANSPORT CO PVT LTD
300	U60231DL1975PTC007606	ADARSH SHAKTI TRAVELS PVT LTD
301	U99999DL1975PTC007643	GEM STEEL PRODUCTS PVT LTD
302	U99999DL1975PTC007658	CAPITAL HOTELS PVT LTD
303	U22110DL1975PTC007660	HEM PUBLISHERS PVT LTD
304	U51909DL1975PTC007703	OKHLA OVERSEAS PVT LTD
305	U18101DL1975PTC007709	SHAKUNTALA SALES PVT LTD
306	U45203DL1975PTC007716	K P S. CONSTRUCTORS (INTENATIONAL) PVT.LTD.
307	U26911DL1975PTC007721	ASIAN CERAMICS PVT LTD
308	U26911DL1975PTC007721	ASIAN CERAMICS PVT LTD
309	U29299DL1975PTC007725	PAMB LOADLIFTERS PVT LTD
310	U99999DL1975PTC007732	S TAJI PROJECTS PVT LTD
311	U51225DL1975PTC007742	BANSAL SPICES AND CONDIT PVT LTD
312	U24246DL1975PTC007746	PHILIPS JOANS AND CO PVT LTD
313	U24239DL1975PTC007749	FINOLABS PVT LTD
314	U99999DL1975PTC007769	SUNMATI ENGINEERING CONSULTANTS PVT LTD
315	U99999DL1975PTC007778	AMBALA FABRICS PVT.LTD.
316	U99999DL1975PTC007789	ROMIN CONSULTING SERVICES PVT LTD
317	U74300DL1975PTC007828	AKSARA ADVERTISING PVT LTD
318	U99999DL1975PTC007834	HARISH C.DUGGAL (AGENCIES) PVT LTD
319	U99999DL1975PTC007840	INTEGLIO ADVERTISING PVT LTD
320	U63090DL1975PTC007848	DISTINCTIVE TRAVEL PVT LTD
321	U17299DL1975PTC007864	ANU KNITTING MILLS PVT LTD
322	U99999DL1975PTC007880	VAISHALI MALTS PVT LTD
323	U99999DL1975PTC007882	DELHI HYDROCARBONS PVT LTD
324	U18101DL1975PTC007925	KANTI ENTERPRISES PVT LTD
325	U34300DL1975PTC007943	TERE JOGA PVT LTD
326	U34300DL1975PTC007957	MARUELL AUTO INDUSTRIES PVT LTD

327	U99999DL1975PTC007970	WODBRO(INDIA)PVT LTD
328	U21099DL1975PTC007999	VANITA PAPER AND BOARD MILLS PVT LTD
329	U99999DL1975PTC008002	FIVE STAR APPARELS PVT LTD
330	U99999DL1975PTC008006	GAY MEDIKA PVT LTD
331	U99999DL1975PTC008011	OBEROI SHIP REPAIRERS PVT LTD
332	U22910DL1901PTC008014	DARPAN PUBLISHERS PVT. LTD.
333	U99999DL1976PTC008026	STATE CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS CDRPDATION OF INDIA PVT LTD
334	U99999DL1976PTC008068	KATEX INTERNATIONAL PVT LTD
335	U99999DL1976PTC008076	LA MEDICA MANU FACTURING PVT LTD
336	U99999DL1976PTC008077	SHAH DRA INDUSTRIAL OIL SUPPLIERS AND MANUFACTURERS PVT LTD
337	U74140DL1976PTC008086	CRESCENT CONSULTANTS PVT.LTD.
338	U99999DL1976PTC008087	SHANKER OVERSEAS PVT LTD
339	U99999DL1976PTC008091	KATHALAY PVT LTD
340	U99999DL1976PTC008111	GEETA STEELS AND FORGINGS PVT LTD
341	U99999DL1976PTC008125	SEVENSEAS TRADERS PVT LTD
342	U24299DL1976PTC008131	AMAR RUBBER (CHEMICALS) INDIA PVT LTD
343	U74120DL1976PTC008145	DELHI COMPUTER AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
344	U99999DL1976PTC008151	SANGEETA EXPORTS PVT LTD
345	U27109DL1976PTC008161	VIKRANT STEEL PRODUCTS PVT LTD
346	U28991DL1976PTC008165	JEFFERSON BOLTS (INDIA)PVT LTD
347	U51311DL1976PTC008176	REFLEX INTERNATIONAL PVT LTD
348	U01403DL1976PTC008179	RASHME FARM AND IMPLEMENTS PVT LTD
349	U99999DL1976PTC008197	ATCHLESS PROJECTS ANDFINANCE CONSULTANTS PVT LTD
350	U99999DL1976PTC008199	POORVI APPARELS PVT LTD
351	U25207HR1976PTC008216	SUDESH STEEL INDUSTRIES PVT LTD
352	U45201DL1976PTC008296	DHARM CHAND JAIN PROPERTIES PVT LTD
353	U99999DL1976PTC008303	WELWERTH EXPORTS PVT LTD
354	U18101DL1976PTC008313	MAJOR DULA SINGHANDSONS PVT LTD
355	U99999DL1976PTC008319	GUARDWELL SECURITY SERVICES PVT LTD
356	U99999DL1976PTC008323	DASSEN (INDIA) (P) LTD
357	U99999DL1976PTC008327	SILVANO TELEVISIONANDELECTRONICS(I) LTD
358	U99999DL1976PTC008341	EXIB CONSULTANTS PVT.LTD.
359	U18101DL1976PTC008349	CROWN EXPORTS PVT. LTD.
360	U63090DL1976PTC008350	MACAIR PVT LTD
361	U29299DL1976PTC008367	MASTER FANS PVT LTD
362	U99999DL1976PTC008373	ENPEE EXPORTS (P) LTD
363	U65921DL1976PTC008377	ANKUR ASSOCIATES (P) LTD
364	U99999DL1976PTC008382	GREWAL ESTATES PVT.LTD.
365	U99999DL1976PTC008388	MONOCHA TOWERS PVT LTD
366	U99999DL1976PTC008389	EAGLE CHARTERERS (P) LTD
367	U99999DL1976PTC008394	DELHI CINE (P) LTD
368	U99999DL1976PTC008412	CASNALS EXPORTS PVT.LTD.
369	U99999DL1976PTC008426	RANISATI PAPER MILLS PVT LTD
370	U99999DL1976PTC008427	AIR AND SEA AGENTS (P) LTD
371	U99999DL1976PTC008437	S J RINGS PVT LTD
372	U99999DL1977PTC008486	R D AUIONICS PVT LTD
373	U34107DL1977PTC008488	TALANCIL INDIA PVT LTD
374	U22110DL1977PTC008560	SUBHAM PUBLISHING HOUSE PVT LTD
375	U25199HR1977PTC008562	MERCURY RUBBER MFG CO PVT LTD
376	U99999DL1977PTC008572	PIYA FILMS PVT LTD
377	U99999DL1977PTC008589	REPMIN OIL PRODUCTION EQUIPMENT CO (INDIA) PVT LTD
378	U99999DL1977PTC008592	SHAMSONS (I) PVT LTD
379	U99999DL1977PTC008608	AMROHI CHEMICAL ENGINEERING PVT LTD

380	U99999DL1977PTC008613	RYNE DRAGCHEM PVT LTD
381	U99999DL1977PTC008619	SAI KHOSLA (INDIA) PVT LTD
382	U99999DL1977PTC008623	ROYAL SPICES (INDIA) PVT LTD
383	U25113DL1977PTC008645	MATCHLESS TUBESANDTYRES PVT LTD
384	U99999DL1977PTC008663	JENNY DYEING AND HANDLOOM INDUSTRY PVT LTD
385	U51909DL1977PTC008665	SHUBHAM INTERNATIUNAL PVT.LTD.
386	U51109DL1977PTC008702	PICO EXPORTS PVT LTD
387	U24231DL1977PTC008703	R P DRUGS PVT LTD
388	U64120DL1977PTC008704	J M WATCH AND WORD SERVICES PVT LTD
389	U99999DL1977PTC008715	EMPIRE TRAVEL PVT LTD
390	U99999DL1977PTC008722	ARAVALI TOOLS PVT LTD
391	U51909DL1977PTC008768	ARTI ENTERPRISES PVT LTD
392	U99999DL1977PTC008777	DREGON (INDIA) PVT LTD
393	U19210DL1977PTC008790	SHIVALIK TANNERY PVT LTD
394	U99999DL1977PTC008802	INDUS EXPORTS PVT LTD
395	U99999DL1977PTC008824	PRUDENTIAL ENGINEERING (INDIA) PVT LTD
396	U99999DL1978PTC008870	BANSILAL PAPER MILLS PVT LTD
397	U24231HR1978PTC008872	SHIVALIK PHARMACEUTICALS PVT LTD
398	U99999DL1978PTC008883	BAJAL BOTTLING CO PVT LTD
399	U26101DL1978PTC008892	BLACK DIAMOND GLASSWARES PVT LTD
400	U15549DL1978PTC008903	DELHI FRUIT BREWERIES PVT LTD
401	U99999DL1978PTC008987	ARISON CRYSTALLOIDS PVT LTD
402	U45201DL1978PTC008993	APOLLO ENTERPRISES PVT LTD
403	U31300HR1978PTC009021	PRESTIGE ENGINEERING(INDIA)PVT LTD
404	U99999DL1978PTC009040	KAPOOR INDUSTRIAL TIMBERS PVT LTD
405	U99999DL1978PTC009048	CROWNN ELECTROICS PVT.LTD.
406	U99999DL1978PTC009055	ARCHANA CABLE INDUSTRIES PVT LTD
407	U99999DL1978PTC009060	AVAM JOURNAL PVT LTD
408	U99999DL1978PTC009065	DELHI SHOE CO PVT LTD
409	U99999DL1978PTC009073	SATSUM TOOLS (ASIA) PVT LTD
410	U74210DL1978PTC009087	KEY PROJECTS PVT LTD
411	U99999DL1978PTC009088	SURAJ FISHERIES PVT LTD
412	U01229DL1978PTC009119	SUNCHIX FARMS PVT LTD
413	U74210DL1978PTC009141	GANJU'S DESIGNERS COMBINE PVT LTD
414	U99999DL1978PTC009182	RANJITA INTERNATIONAL PVT LTD
415	U99999DL1978PTC009196	KRISHNA OVERSEAS PVT LTD
416	U74210DL1978PTC009208	INDIAN PROJECTS PVT LTD
417	U74999DL1978PTC009221	GARODIA ENTERPRISES PVT LTD
418	U99999DL1978PTC009298	MAHARANI CREATIONS INDIA PVT LTD
419	U99999DL1978PTC009307	GLOBE LINKERS PVT LTD
420	U99999DL1978PTC009308	MODERN DIALANOD INDUSTRIES PVT LTD
421	U24299DL1978PTC009321	SUPERTON CHEMICALS PVT LTD
422	U99999DL1978PTC009376	KHANNA INTERNATIONAL PVT LTD
423	U99999DL1979PTC009400	BALJEET PACKERS PVT LTD
424	U51420DL1979PTC009408	BRAHMA PRODUCTS PVT LTD
425	U99999DL1979PTC009413	COMBFITS MARKETING AND SERVICES PVT LTD
426	U70101DL1979PTC009417	PREE TAMSONS BOTTLERS PVT LTD
427	U19129DL1979PTC009418	SIDHARTHA ENTERPRISES PVT LTD
428	U27109DL1979PTC009437	GAURAV ENTERPRISES PVT LTD
429	U99999DL1979PTC009502	SEHGAL HOSES COMPANY PVT LTD
430	U25199DL1979PTC009505	MAHAVEER VACCUM METALIZERS PVT LTD
431	U99999DL1979PTC009517	M K GUPTA AND CO PVT LTD
432	U51229DL1979PTC009534	SARINA QUALITY FOOD PRODUCTS PVT LTD
433	U25199DL1979PTC009557	VANDANA RUBBERANDCHEMICALS PVT LTD
434	U99999DL1979PTC009572	DHIR HOSIERY AND WOOLLEN MILLS PVT LTD

435	U51396DL1979PTC009583	BAJAJ PUBLICATIONS PVT LTD
436	U99999DL1979PTC009586	R P ELECTRONICS AND ELECTRICALS PVT LTD
437	U51909DL1979PTC009594	DUBARY EXPORTS PVT LTD
438	U99999DL1979PTC009614	AGRICTRICO ENGINEERING AND CHEMICAL CO PVT LTD
439	U99999DL1979PTC009616	BATHIJA EXPORTS PVT LTD
440	U99999DL1979PTC009625	NOVA ENTERPRISES PVT LTD
441	U51216DL1979PTC009640	G AND A LEATHERMEN PVT LTD
442	U99999DL1979PTC009664	EKANT HOTELS PVT LTD
443	U99999DL1979PTC009696	DARSHAN ENGINEERING PVT LTD
444	U51109DL1979PTC009737	ORPHEUS (INDIA) PVT LTD
445	U99999DL1979PTC009775	A K ALTUBES PVT LTD
446	U99999DL1979PTC009807	GOLDEN WHEELS INDIA PVT LTD
447	U99999DL1979PTC009814	RANBIRS PVT LTD
448	U99999DL1979PTC009833	SAKET ELECTRICALS PVT LTD
449	U45201DL1979PTC009840	HINDON CONSTRUCTION PVT LTD
450	U99999DL1979PTC009849	A HANDICRAFT INN PVT LTD
451	U34300DL1979PTC009861	GOULD AUTOMOTIVE PVT LTD
452	U99999DL1979PTC009905	MOONLIGHT PENCILS PVT LTD
453	U31909HR1979PTC009911	DINKAR ELECTRONIC COMPONENTS PVT LTD
454	U99999DL1979PTC009936	L M ENTERPRISES PVT LTD
455	U99999DL1979PTC009955	BLOSSOM PUBLICATIONS PVT LTD
456	U99999DL1979PTC009972	SANT BIR SINGH AND ASSOCIATES PVT LTD
457	U67120DL1979PTC009975	SOUTH DELHI ERECTORS (INDIA) PVT LTD
458	U25199DL1979PTC009994	HILTON RUBBER AND TYRE INDUSTRIES PVT LTD
459	U51909DL1979PTC010030	RANGE INTERNATIONAL PVT LTD
460	U74999DL1979PTC010068	MANAKPUR FARMS PVT LTD
461	U31909DL1979PTC010069	GRANDLAY CABLES PVT LTD
462	U45201DL1979PTC010071	SNEH BUILDERS PVT LTD
463	U24231HR1980PTC010121	NASCENT PHARMACEUTICALS PVT LTD
464	U99999DL1980PTC010133	LONIAL ELECTRONICS PVT LTD
465	U99999DL1980PTC010178	HINDUSTAN FABRICATORS PVT LTD
466	U99999DL1980PTC010196	AVARAN EXPORTS PVT LTD
467	U61100DL1980PTC010198	TRANSHIP PVT LTD
468	U32102DL1980PTC010212	AIRWAVE RADIO ENGINEERS PVT LTD
469	U60231DL1980PTC010215	NIRMAN ROAD CARRIERS PVT LTD
470	U45201DL1980PTC010233	PODDAR CONSTRUCTION CO PVT LTD
471	U99999DL1980PTC010246	SAINI ELECTRONICS PVT LTD
472	U99999DL1980PTC010320	ANANT CONSTRUCTION PVT LTD
473	U74210DL1980PTC010321	DHINGRA CONSULTANTS PVT LTD
474	U99999DL1980PTC010327	RAJA NAVAL EXPORTS PVT LTD
475	U45201DL1980PTC010345	SUDHA CONSTRUCTION CO PVT LTD
476	U99999DL1980PTC010367	MOHINI BUILDERS PVT LTD
477	U99999DL1980PTC010388	RIB EXPORTERS PVT LTD
478	U99999DL1980PTC010389	S R A INTERNATIONAL PVT LTD
479	U99999DL1980PTC010413	KROMEX SALES CO PVT LTD
480	U27101DL1980PTC010441	SONALI STEEL CAST PVT LTD
481	U99999DL1980PTC010453	MOOLAMAL AMARNATH ESTATES PVT LTD
482	U99999DL1980PTC010489	SAILNTENATIONAL PVT LTD
483	U24114DL1980PTC010500	SUCHEM PVT LTD
484	U99999DL1980PTC010516	M G MACHINES PVT LTD
485	U99999DL1980PTC010519	NAV BHARAT CHEMICALS AND DETERGENTS PVT LTD
486	U99999DL1980PTC010533	ADVANCE OPTICS PVT LTD
487	U99999DL1980PTC010535	U S R TECHNO MARKETING SERVICES PVT LTD
488	U99999DL1980PTC010567	KULMER CONSTRUCTION PVT LTD
489	U99999DL1980PTC010577	SATLUJ CABLE INDUSTRIES PVT LTD

490	U23201DL1980PTC010584	KOTE OILS PVT LTD
491	U29130DL1980PTC010585	AKAY SINTEREO PROOUCTS PVT LTO
492	U25203OL1980PTC010586	PAPU INTERNATIONAL PVT LTO
493	U99999OL1980PTC010592	ROSSELL MACHINE TOOLS PVT LTD
494	U99999DL1980PTC010766	NAV-YUG OATA PROCESSING PVT LTO
495	U17111OL1980PTC010795	SETLON PVT LTO
496	U28129OL1980PTC010810	TRISHUL ENGINEERING PVT LTD
497	U99999DL1980PTC010826	FOX ANO WINGS PVT LTD
498	U51909DL1980PTC010846	VISHWA JUTE ANO COMMODITIES PVT LTO
499	U45201DL1980PTC010855	VIMOH A PROPERTIES PVT LTO
500	U19201OL1980PTC010892	AJAY POLYMERS PVT LTO
501	U99999DL1980PTC010912	TASHITIME FILMS PVT LTD
502	U36941DL1980PTC010936	PIEOPIPER CO PVT LTO
503	U99999DL1980PTC010948	ENCO FREIGHTS INOIA PVT LTO
504	U99999DL1980PTC010959	KAPOOR TRAVEL ANO TRANSPORT PVT LTO
505	U18101DL1980PTC010963	D E ENTERPRISES PVT LTD
506	U65992DL1980PTC011015	OECWELL ENGINEERS PVT LTO
507	U99999DL1980PTC011025	TALWAR INTERNATIONAL PVT LTD
508	U21019DL1980PTC011071	ENSON PAPER MILLS PVT LTD
509	U63040DL1980PTC011080	OUTBOUND TOURS PRIVATE LIMITED
510	U70101DL1980PTC011081	NAINWA PROPERTIES PVT LTD
511	U99999DL1980PTC011090	GAUTAM FILMS(INDIA) PVT LTD
512	U99999DL1980PTC011117	RAGHUNAH AMIT KUMAR CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
513	U28991DL1980PTC011135	JAKSON FASTNERS PVT LTO
514	U99999DL1980PTC011152	SINGH'S COTTON CONNEXION PVT LTO
515	U99999DL1980PTC011160	SUMTA IMPEX CO PVT LTD
516	U99999DL1980PTC011173	TONI TON AUTO PARTS PVT LTD
517	U99999DL1980PTC011187	MATHUR ALLOY INDUSTRIES PVT LTD
518	U01222DL1980PTC011198	ESSEX HATCHERIES PVT LTD
519	U29123DL1981PTC011252	ASPEQ PNEUMATICS PVT LTD
520	U24139DL1981PTC011336	TRISHUL PLASTICS PVT LTD
521	U99999DL1981PTC011349	EICON INOIA PVT LTO
522	U99999DL1981PTC011361	DELHI PIGMENT INDUSTRIES PVT LTD
523	U99999DL1981PTC011435	RAMASKO EXPORTS PVT LTD
524	U32105DL1981PTC011460	ENBEE TEKNIKA PVT LTD
525	U29299HR1981PTC011465	EVEREST PLATERS PVT LTO
526	U31909DL1981PTC011468	SKANDA COMPUTER SERVICES PVT LTD
527	U99999DL1981PTC011501	INTERNATIONAL SILKANA (INDIA) PVT LTD
528	U25202DL1981PTC011509	IEEKAY PACKAGING PVT LTD
529	U99999DL1981PTC011515	GITANJALI ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTO
530	U45201HR1981PTC011537	SAMTA FOUNOERS PVT LTD
531	U51109DL1981PTC011540	AAY PEE EXPORTS PVT LTD
532	U99999DL1981PTC011558	ASSOCIATED ZINAKO PVT LTD
533	U23209DL1981PTC011561	KHETAN PETROCHEMICALS PVT LTD
534	U55101DL1981PTC011576	S B AND CO PVT LTD
535	U99999DL1981PTC011579	DELHI BUSINESS SYSTEMS PVT LTO
536	U45201DL1981PTC011607	SHYAM ESTATES (DELHI) PVT LTD
537	U99999DL1981PTC011653	J K Z AVITORNICS PVT LTD
538	U99999DL1981PTC011655	GANPATI ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
539	U99999DL1981PTC011665	TERITEK PVT LTD
540	U99999DL1981PTC011674	JAZZ ELECTRONICS PVT LTD
541	U99999DL1981PTC011720	VENUS PROPERTIES PVT LTD
542	U99999DL1981PTC011724	KULWANT SALES PVT LTD
543	U45303DL1981PTC011728	ROOF ENTERPRISES PVT LTD
544	U51397DL1981PTC011729	STAR DCI PVT LTD

545	U29220DL1981PTC011731	B L G ASSOCIATES PVT LTD
546	U99999DL1981PTC011740	KALINDI BUILDERS PVT LTD
547	U99999DL1981PTC011756	ADMEX PVT LTD
548	U99999DL1981PTC011758	JAGGSONS ESTATES PVT LTD
549	U99999DL1981PTC011809	ALRR AND ASSOCIATED CONSULTANTS PVT LTD
550	U23203DL1981PTC011838	SURYA CYLINDERS PVT LTD
551	U74210DL1981PTC011891	HOLLY INTERNATIONAL PVT LTD
552	U24134DL1981PTC011893	SHAMBHU NATH PLASTICIZERS PVT LTD
553	U99999DL1981PTC011901	ANN RHAC CONSULTANTS PVT LTD
554	U99999DL1981PTC011915	LORD KRISHNA AGENCIES PVT LTD
555	U99999DL1981PTC011934	BETTER HOME PVT LTD
556	U99999DL1981PTC011935	ARJAN MECHANICAL INDUSTRIES PVT LTD
557	U99999DL1981PTC011942	CONSOLIDATED COMPUTER SERVICES PVT LTD
558	U99999DL1981PTC011947	PREETI PROPERTIES PVT LTD
559	U99999DL1981PTC011963	ARJAN STEEL TUBES PVT LTD
560	U99999DL1981PTC011974	PRITI SHIPPING AND CHARTERING PVT LTD
561	U99999DL1981PTC011985	WESTERN MARINE PVT LTD
562	U34103DL1981PTC012002	B K M TRAVELS PVT LTD
563	U99999DL1981PTC012006	S K SETH ENGINEERING CO. PVT LTD
564	U15419DL1981PTC012013	ROYAL BAKER PVT LTD
565	U51909DL1981PTC012119	MAXIM TOOLS PVT LTD
566	U51505DL1981PTC012130	AVANTI EXPORTS PVT LTD
567	U99999DL1981PTC012136	D P G C ROAD LINKERS PVT LTD
568	U70101DL1981PTC012157	VIDYA ESTATES AND APPARTMENTS PVT LTD
569	U99999DL1981PTC012158	TYAGI AND RAG PVT LTD
570	U51909DL1981PTC012160	NARULA EXPORTS PVT LTD
571	U99999DL1981PTC012199	MITTAL VARNISHES AND INDUSTRIES PVT LTD
572	U99999DL1981PTC012204	HELI CONSULTANTS PVT LTD
573	U31300DL1981PTC012206	SUNDEEPAJ INSULATED WIRES PVT LTD
574	U99999DL1981PTC012208	MOONLIGHT PENCIL INDUSTRIES PVT LTD
575	U63090DL1981PTC012213	KOCHHAR FREIGHT CARRIES PVT LTD
576	U99999DL1981PTC012235	ELVIRA PVT LTD
577	U99999DL1981PTC012239	AVANT GRADE COSMETIQUE PVT LTD
578	U27109DL1981PTC012244	SANBROS CARAMICS PVT LTD
579	U24299DL1981PTC012250	ROGERS CHEMICALS PVT LTD
580	U74993DL1981PTC012265	VINAYAK ADEVERTISERS PVT LTD
581	U40200HR1981PTC012279	INTERNATIONAL CYLINDERS PVT LTD
582	U65921DL1981PTC012308	PCP PROPERTIES PVT LTD
583	U99999DL1981PTC012311	ARVINDRA ASSOCIATES PVT LTD
584	U99999DL1981PTC012369	HIMACHAL ALLOYS AND STEEL CASTINGS PVT LTD
585	U45201DL1981PTC012378	NABAKO CONSTRUCTIONS PVT LTD
586	U99999DL1981PTC012399	TEMPERITE ENGINEERING CO PVT LTD
587	U99999DL1981PTC012411	REDIKAN PVT LTD
588	U99999DL1981PTC012443	M P A ENGINEEING PVT LTD
589	U74950DL1981PTC012445	MAHAL ENTERPRISES PVT LTD
590	U15142DL1981PTC012455	JINDAL VANASPATI UDYOG PVT LTD
591	U99999DL1981PTC012475	RASHMI ESTATE PVT LTD
592	U99999DL1981PTC012496	THETA ELECTRONICS PVT LTD
593	U39109HR1981PTC012509	MARI GOLD ENGINEERS PVT LTD
594	U45201DL1981PTC012519	JAGMIT BUILDERS AND ENGINEERS PVT LTD
595	U18101DL1981PTC012588	S.S.KNIT WORKS (INDIA) PVT.LTD.
596	U70101DL1981PTC012605	PADMA VATI ESTATE PVT.LTD.
597	U99999DL1981PTC012651	V.P.ENGINEERING SERVICES PVT.LTD.
598	U99999DL1981PTC012660	KAYAAM KHANI CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) PVT LTD
599	U24246DL1981PTC012686	KISME INDIA PVT LTD

600	U99999DL1981PTC012690	KHUSHI ETMAS PVT LTD
601	U92112DL1981PTC012751	KESHAV PICTURES PVT LTD
602	U74210DL1981PTC012766	DELHI TECHNO-CHEM INDUSTRIAL CONSULTANTS PVT LTD
603	U99999DL1981PTC012779	S S B PLASTICS PVT LTD
604	U55101DL1981PTC012839	SUSHUM OVERSEAS MARKETING PVT LTD
605	U99999DL1981PTC012854	INTERNATIONAL RESORT PVT LTD
606	U99999DL1981PTC012866	MONARCH CONSTRUCTION CO PVT LTD
607	U01111DL1981PTC012926	SAWHNEY AND KOHLI ENTERPRISES PVT LTD
608	U28992DL1982PTC013003	AM QUBIC PVT LTD
609	U31909DL1982PTC013021	RACHNA ELECTRONICS PVT LTD
610	U99999DL1982PTC013046	K K INDUSTRIES PVT LTD
611	U99999DL1982PTC013072	NICE BUILDERS PVT LTD
612	U99999DL1982PTC013082	DIVYA PLASTIC PIPES PVT LTD
613	U18101DL1982PTC013083	BINT EXPORTS (INDIA) PVT LTD
614	U99999DL1982PTC013085	DARBAR EXPORTS PVT LTD
615	U32309DL1982PTC013112	SATO INDIA PVT LTD
616	U99999DL1982PTC013116	SINGH FORSET (INDIA) PVT LTD
617	U99999DL1982PTC013118	BIHARIJI MALLEABLES (INDIA) PVT LTD
618	U22110HR1982PTC013140	SWARAN PUBLICATIONS PVT LTD
619	U55101DL1982PTC013151	SONI INTERNATIONAL PVT LTD
620	U99999DL1982PTC013153	PACIFIC OVERSEAS PVT LTD
621	U28991DL1982PTC013162	JYOTI AUTO AND FORGING PVT LTD
622	U99999DL1982PTC013163	SINGHAL ALLOYS PVT LTD
623	U92111DL1982PTC013169	B R A ENTERPRISES PVT LTD
624	U24132DL1982PTC013171	EPYTAC INTERNATIONAL PVT LTD
625	U45201DL1982PTC013175	K.C. CHHIBBER AND COMPANY PRIVATE LIMITED
626	U99999DL1982PTC013210	MIDLAND HOTELS PVT LTD
627	U36109HR1982PTC013213	DEVASHOK CARD BOARD INDUSTRIES PVT LTD
628	U99999DL1982PTC013225	AVTAR PROPERTIES PVT LTD
629	U99999DL1982PTC013238	BHAVNA AND BHARATI CO PVT LTD
630	U15511DL1982PTC013264	MELCO WINES PVT LTD
631	U65921DL1982PTC013265	ATMA RAM ESTATES PVT LTD
632	U99999DL1982PTC013270	DEVIDAYAL CASTINGS PVT LTD
633	U31909HR1982PTC013320	JAIN ELECTRO PVT LTD
634	U70101DL1982PTC013344	GULF REAL ESTATE AND TRADE SERVICES PVT LTD
635	U99999DL1982PTC013348	AN CONSULTANCY PVT LTD
636	U15311DL1982PTC013351	AGGARWAL FLOUR MILLS PVT LTD
637	U99999DL1982PTC013397	STANDARD GARDEN CARETAKERS PVT LTD
638	U28113DL1982PTC013457	BAHAMI CHEMICALS PVT LTD
639	U99999DL1982PTC013461	GONDALS PRESS PVT LTD
640	U99999DL1982PTC013464	CAPABLE CONSTRUCTION PVT LTD
641	U99999DL1982PTC013475	DAULAT SONS AND CO PVT LTD
642	U74300DL1982PTC013496	NORTHERN ADVERTISERS AND FABRICATORS PVT LTD
643	U51109DL1982PTC013515	VASA ASSOCIATES PVT LTD
644	U51109DL1982PTC013533	DURGE AGENCIES PVT LTD
645	U63090DL1982PTC013545	ASIAN CLEARING PVT LTD
646	U18101DL1982PTC013551	SWASTIKA FASHIONS (P) LTD
647	U31909HR1982PTC013583	SIDCO ELECTRODES (INDIA) PVT LTD
648	U19129DL1982PTC013587	GANDLAY SYNTHETICS PVT LTD
649	U74210DL1982PTC013621	T M F CONSULTANTS (INDIA) PVT LTD
650	U22219HR1982PTC013622	HARYANA SAWRAJ PAPER MILLS PVT LTD
651	U99999DL1982PTC013636	SAHYOG CONSULTANTS PVT LTD
652	U18101DL1982PTC013656	TRISHUL EXPORTS PVT LTD
653	U99999DL1982PTC013668	TRILINK PVT LTD
654	U99999DL1982PTC013681	CHET RAM BUILDERS PVT LTD

655	U29192DL1982PTC013711	AMOKING REFRIGERATIONS PVT LTD
656	U27320DL1982PTC013720	RADHANS PVT LTD
657	U99999DL1982PTC013761	SHARDA TECHNICAL CONSULTANTS PVT LTD
658	U29199HR1982PTC013764	TOHANNAGAR MACHINE TOOLS PVT LTD
659	U17115DL1982PTC013770	S.D. MITTAL (DELHI) PVT LTD
660	U51109DL1982PTC013795	PRESTIGE LINKERS PVT LTD
661	U25114DL1982PTC013815	LUCKY RETREADERS PVT LTD
662	U99999DL1982PTC013842	KISA EXTRUCTION PVT LTD
663	U70101DL1982PTC013851	BAIKUNTH ESTATES PVT LTD
664	U99999DL1982PTC013899	SAGARIKA PVT LTD
665	U99999DL1982PTC013904	AMULYA INTERIOR DECORATORS AND PUBLISHERS PVT LTD
666	U99999DL1982PTC013909	BIR EXPORTS PVT LTD
667	U15411DL1982PTC013922	NICE FOODS PVT LTD
668	U24239DL1982PTC013939	JASPER PHARMACEUTICALS PVT LTD
669	U99999DL1982PTC013951	ADVANCE CORPURETION SYSTEMS PVT LTD
670	U24239DL1982PTC013952	UNITHERM INDIA PVT LTD
671	U45203DL1982PTC013965	R S AGARWAL AND CO. PVT LTD
672	U99999DL1982PTC013975	KEDAR JAGGI PAPER AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
673	U99999DL1982PTC014008	TEGH FILMS PVT LTD
674	U99999DL1982PTC014026	HARYANA UNITED FORGE PVT LTD
675	U99999DL1982PTC014032	KALSON INTERNATIONAL PVT LTD
676	U51311DL1982PTC014047	ESSKAY FASHIONS PVT LTD
677	U36998DL1982PTC014129	AMULAYA AAYAT NIRYAT PVT LTD
678	U51909DL1982PTC014130	BRVK OVERSEAS PVT LTD
679	U21014DL1982PTC014142	SAI PACKERS PRIVATE LTD
680	U99999DL1982PTC014150	JANI AND COMPANY PVT LTD
681	U27209DL1982PTC014178	ANUBHAV STEELS PVT LTD
682	U45201DL1982PTC014190	KHEM CHAND SHARMA AND SONS PVT LTD
683	U99999DL1982PTC014194	AKI INTERNATIONAL PVT LTD
684	U51101DL1982PTC014203	GALLANT OVERSEAS PVT LTD
685	U99999DL1982PTC014224	KAMAL AGENCIES PVT LTD
686	U99999DL1982PTC014231	S.M.J.R. METAL AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
687	U74300DL1982PTC014239	HEAD START ADVERTISING PVT LTD
688	U45203DL1982PTC014258	OASIS TRADINGS PVT LTD
689	U99999DL1982PTC014294	OFON LIGHTING CO PVT LTD
690	U99999DL1982PTC014298	RAVIKUL HARRIS PVT LTD
691	U99999DL1982PTC014417	SURI TRADE AND CARRIERS PVT LTD
692	U99999DL1982PTC014426	PARVATIYA NEWS PAPERS PVT LTD
693	U99999DL1982PTC014433	TURCOM ANCILLIARIES PVT LTD
694	U99999DL1982PTC014466	A M TOURS PVT LTD
695	U99999DL1982PTC014486	COPEX INDIA PVT LTD
696	U29120DL1982PTC014513	OCEAN VALVES (INDIA) PVT LTD
697	U01401HR1982PTC014532	GOYAL AGROS PVT.LTD.
698	U99999DL1982PTC014569	ANOUSHKA EXPORTS PVT LTD
699	U99999DL1982PTC014590	GOURI ZIPPERS PVT LTD
700	U24231DL1982PTC014609	GAPP'S INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
701	U99999DL1982PTC014623	SKYLARK NIRMAN ENTERPRISES PVT LTD
702	U19129DL1982PTC014632	CALMIN LEATHER CHEM PVT LTD
703	U18101DL1982PTC014672	MADHU KUNJ EXPORTS PVT LTD
704	U51909DL1982PTC014673	PANBAN (FURNITURE) PVT LTD
705	U99999DL1982PTC014682	JUPS TRADING PVT LTD
706	U22110DL1982PTC014713	PRISET (INDIA) PVT LTD
707	U99999DL1982PTC014779	SUNNY ORE PVT LTD
708	U99999DL1982PTC014780	DELTA FLASHLITES PVT LTD

709	U99999DL1982PTC014790	SURYA POLYMERS PVT LTD
710	U99999DL1982PTC014800	YOKO PAINTS PVT LTD
711	U26922DL1982PTC014803	MAYUR CERAMICS PVT LTD
712	U99999DL1982PTC014837	ESH EXPORTS PVT LTD
713	U45201DL1982PTC014841	NAV GRAHA NIRMAN (DELHI) PVT LTD
714	U18101DL1982PTC014864	SAKAVI EXPORTS PVT LTD
715	U74140DL1983PTC014935	SHANMARIE CONSULTANTS PVT LTD
716	U99999DL1983PTC014938	AN GOODS PVT LTD
717	U17222DL1983PTC014939	MAHARAJA CARPETS (INDIA) PVT LTD
718	U99999DL1983PTC014977	SONTRAK SECURITY MONITERS PVT LTD
719	U99999DL1983PTC015005	VIRAT TECHNO-TRACK PVT LTD
720	U99999DL1983PTC015044	RAMA FOOD PRESERVATIONS PVT LTD
721	U99999DL1983PTC015063	INTERNAIONAL DEVELOPMENT AND ENGINEERING ASSOCIATES PVT LTD
722	U99999DL1983PTC015066	DELTA DIAMOND CHEM PVT LTD
723	U99999DL1983PTC015106	ALMASHAL MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
724	U99999DL1983PTC015144	ANGEL BASSCO PVT LTD
725	U99999DL1983PTC015147	ANKUR TEXTILES MILLS PVT LTD
726	U99999DL1983PTC015164	DEEPAK ZINCOATS PVT LTD
727	U24246DL1983PTC015169	PURE COSMETICS PVT LTD
728	U99999DL1983PTC015175	PREMIER MANPOWER PVT LTD
729	U99999DL1983PTC015181	PRASHANT CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
730	U36992DL1983PTC015185	UTTAM INDUSTRIAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
731	U85110DL1983PTC015203	DR. I KOHLI'S CLINIC PVT LTD
732	U99999DL1983PTC015204	M V SHIPPING AND OFFSHORE SERVICES PVT LTD
733	U18109DL1983PTC015221	VIJAY DHILLON PVT LTD
734	U34300DL1983PTC015222	HIGHSEAS MASTICS INDIA PVT LTD
735	U99999DL1983PTC015224	PAUL INTERNATIONAL PVT LTD
736	U99999DL1983PTC015227	JAI DEVICES PVT LTD
737	U99999DL1983PTC015253	DEV AND DAVY INDIA PVT LTD
738	U35923DL1983PTC015281	M N ARORA ASSOCIATES PVT LTD
739	U99999DL1983PTC015307	AKASH EXPORTS PVT LTD.
740	U34300DL1983PTC015331	MIDLAND MACHINES PVT LTD
741	U51909HR1983PTC015354	IMASEN ALPHA PVT LTD
742	U74950DL1983PTC015367	JAKRASO PACK AIDS PVT LTD
743	U99999DL1983PTC015375	ANUSHA FERTILIZERS AND AGROCHEMICALS PVT LTD
744	U99999DL1983PTC015378	SELECTRICAS PVT LTD
745	U31503DL1983PTC015397	SONNET LAMPS AND LUMINAIRES PVT LTD
746	U99999DL1983PTC015448	PIONEER AUTO-TECH PVT LTD
747	U24121DL1983PTC015460	MOHIT CARBIDE AND CHEMICALS PVT LTD
748	U99999DL1983PTC015482	SPEEDCONS IMPEX PVT LTD
749	U99999DL1983PTC015497	PRASHANT TRAWLERS PVT LTD
750	U99999DL1983PTC015550	AMIT METAL INDUSTRIES PVT LTD
751	U27205HR1983PTC015551	KENT TIME INDUSTRIES PVT LTD
752	U24246DL1983PTC015560	JACKSON COSMATICS (INDIA) PVT LTD
753	U24119DL1983PTC015591	HIND BIOGEN PVT LTD
754	U51109DL1983PTC015594	SAVI INTERNATIONAL PVT LTD
755	U99999DL1983PTC015634	ROHTGI PROPERTIES PVT LTD
756	U51109DL1983PTC015695	PRECIOUS OVERSEAS PVT LTD
757	U99999DL1983PTC015712	PAUL TRAVELS AND TRADERS PVT LTD
758	U99999DL1983PTC015735	SUPER MULTIPLEX CONSULTANCY AND SERVICES PVT LTD
759	U51909DL1983PTC015748	MAHARAJA KITCHEN AID PVT LTD
760	U24119DL1983PTC015769	PANIPAT CARBONIC GAS INDUSTRIES PVT LTD
761	U99999DL1983PTC015823	GULATI BHARGAVA AND ASSOCIATES PVT LTD
762	U99999DL1983PTC015824	BALBIR H TONAGRAFIX PVT LTD

763	U22212DL1983PTC015825	B K REPRO OFFSET PVT LTD
764	U99999DL1983PTC015842	GOLD ROBOT TOYS AND GAMES PVT LTD
765	U99999DL1983PTC015899	GURA CONVERTORS PVT LTD
766	U99999DL1983PTC015907	BIP AUTO PARTS PVT LTD
767	U99999DL1983PTC015916	BUSHAL PHARMA PVT LTD
768	U99999DL1983PTC015921	FABIKA SILK MILLS PVT LTD
769	U99999DL1983PTC015962	SWAD SECURITY CONSULTANTS PVT LTD
770	U99999DL1983PTC015967	TREHAN INSULATION PVT LTD
771	U45201DL1983PTC015975	G.S.LUTHRA CONSTRUCTIDNS PVT LTD
772	U51103DL1983PTC015990	SHRI HARI PRECISION TOOLS AND DIES PVT LTD
773	U99999DL1983PTC015991	DEEKSHA HOTELS PVT LTD
774	U99999DL1983PTC016006	HAKUMAT RAI AND SONS PVT LTD
775	U29302DL1983PTC016008	UNIQUE KITCHEN-AIDS PVT LTD
776	U99999DL1983PTC016014	MAHARANI SERVICES PVT LTD
777	U99999DL1983PTC016024	BHIWADI CEMENT UDYOG PVT.LTD.
778	U15541DL1983PTC016033	CAMPA COLA CO PVT LTD
779	U31102DL1983PTC016086	AURIC TRANSFORMERS INDUSTRIES PVT LTD
780	U99999DL1983PTC016090	TRI STAR VIDEOTRONICS (INDIA) PVT LTD
781	U99999DL1983PTC016095	UNITED CONSORTIUM PVT LTD
782	U99999DL1983PTC016101	CHOPRA METAL WORKS PVT LTD
783	U99999DL1983PTC016118	GORDON HERBERT (INDIA) PVT LTD
784	U99999DL1983PTC016124	D P S PACKAGING AND PLASTICS PVT LTD
785	U31506DL1983PTC016145	KIRAN LUMINARES PVT LTD
786	U17112HR1983PTC016179	PANCHSHEEL TECHNOCRATS PVT.LTD.
787	U99999DL1983PTC016198	GANDOTRA SONS PVT LTD
788	U19201HR1983PTC016219	BONY SHOE COMPANY PVT.LTD.
789	U23201DL1983PTC016290	ROXY PETROCHEM PVT LTD
790	U63040DL1983PTC016308	SIIAC TOURS AND TRAVELS PVT LTD
791	U99999DL1983PTC016319	CETRA ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
792	U99999DL1983PTC016376	MALABAR SANDAL PRODUCE CO PVT LTD
793	U99999DL1983PTC016381	BAIJNATH PRINTS PVT LTD
794	U99999DL1983PTC016404	SUPERIOR HOME PRODUCTS PVT LTD
795	U99999DL1983PTC016416	JASWARI AND CO PVT LTD
796	U99999DL1983PTC016421	G.W.C. TRAVEL AND TOURS PVT LTD
797	U99999DL1983PTC016423	JAIN SAWINGS INDIA PVT LTD
798	U99999DL1983PTC016424	NEW MEDIA MAKERS PVT LTD
799	U99999DL1983PTC016491	MANJHOO THEATRE PVT.LTD.
800	U99999DL1983PTC016507	NAMRISHIKA ELECTRONIKS PVT LTD
801	U99999DL1983PTC016539	BULBUL EXPORTS PVT LTD
802	U99999DL1983PTC016541	ROSE SHOES PVT LTD
803	U24119DL1983PTC016543	H.D.CHEMICALS PVT LTD
804	U99999DL1983PTC016557	ANMITEC TECHNO INDIA PVT LTD
805	U99999DL1983PTC016571	GOOGLY KITCHENWARES PVT.LTD.
806	U15139DL1983PTC016590	NITYA FOOD PRODUCTS(INDIA) PVT LTD
807	U99999DL1983PTC016616	BANAJ PVT LTD
808	U51909DL1983PTC016623	MEWATI (INDIA) PVT LTD
809	U26922HR1983PTC016625	ITHAD CERAMIC AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
810	U15209HR1983PTC016650	FARIDABAD DAIRIES PVT LTD
811	U99999DL1983PTC016714	P.U. PRODUCTS PVT LTD
812	U99999DL1983PTC016749	CONA CONSTRUCTION CO PVT LTD
813	U99999DL1983PTC016755	H.S. SURI ELECTRICALS PVT LTD
814	U99999DL1983PTC016756	QUICK COLOUR PROCESSING LABORATORY PVT LTD
815	U99999DL1983PTC016760	BAWA BUILDERS PVT LTD
816	U28991DL1983PTC016763	DAYMEET INDIA ENGINEERING CO PVT LTD
817	U99999DL1983PTC016794	SIKANDRA ELECTRODES PVT LTD

818	U99999DL1983PTC016812	SYNDICATE CAB SERVICE PVT LTD
819	U99999DL1983PTC016819	20TH CENTURY PLASTIC INDUSTRIES PVT LTD
820	U51909DL1983PTC016829	RANSAN IMPEX PVT LTD
821	U99999DL1983PTC016831	MITTAL ASSOCIATES PVT LTD
822	U99999DL1983PTC016870	PAWAR ELECTRONICS PVT LTD
823	U99999DL1983PTC016912	USHA TURUKEY PLANTS PVT LTD
824	U60210DL1983PTC016917	SAYA TRANSPORT PVT LTD
825	U99999DL1983PTC016924	MASE ENGINEERS PVT LTD
826	U99999DL1983PTC016925	R.P. AGRO PVT LTD
827	U99999DL1983PTC016934	SHRI DURGA LAND AND HOUSING CO PVT LTD
828	U24244DL1983PTC016950	B.K. PERFUMERS PVT. LTD.
829	U99999DL1983PTC016957	ANKUR CONTINENTAL ENTERPRISES PVT LTD
830	U99999DL1983PTC016960	INDRA GARMENTS PVT LTD
831	U28939DL1983PTC016976	SHIVANI HARDWARE AND TRADERS PVT LTD
832	U99999DL1983PTC016977	INDEPENDENT TELEVISION CO PVT LTD
833	U99999DL1983PTC016982	GOLDEN FALCON TOURS PVT LTD
834	U70101DL1983PTC017013	ANSHUL GUPTA ESTATES AGENTS PVT LTD
835	U99999DL1983PTC017015	SAI METAL INDUSTRIES PVT LTD
836	U31300DL1983PTC017044	HANSA WIRES PRODUCTS PVT LTD
837	U99999DL1983PTC017057	KARNANI POLYMERS PVT LTD
838	U99999DL1983PTC017064	TERESA PHARMA PVT LTD
839	U99999DL1983PTC017065	BHARAT UPPER LEATHER AND SHOES PVT LTD
840	U99999DL1983PTC017066	REX DYERS AND PRINTERS PVT LTD
841	U99999DL1983PTC017085	BELLS STEEL PVT LTD
842	U99999DL1983PTC017086	NARMADA DRUG CO PVT LTD
843	U29225DL1983PTC017142	MADAN ENGINEERING TOOL PRODUCTS PVT LTD
844	U51909DL1983PTC017157	RACHNA TRADING CO PVT LTD
845	U99999DL1983PTC017158	SAGAR MERCHANTS PVT LTD
846	U99999DL1983PTC017188	INTERGRATED MICRO CONSULTANTS PVT LTD
847	U99999DL1983PTC017209	PRAGATI ELECTROPLATORS PVT LTD
848	U99999DL1983PTC017210	MAFARUB CABLES PVT LTD
849	U99999DL1983PTC017242	MANDEEP METALS PVT LTD
850	U51496DL1983PTC017244	MANSHA IMPEX PVT LTD
851	U99999DL1983PTC017258	ADVANCE PULSAR DIGITAL SYSTEM PVT LTD
852	U99999DL1984PTC017275	APRINTO PACK PVT LTD
853	U29299DL1984PTC017286	KENWAL ENGINEERS INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD
854	U99999DL1984PTC017311	HITECK CONSTRUCTIONS (INDIA) PVT LTD
855	U99999DL1984PTC017318	SKYLARK STEELS PVT LTD
856	U34300DL1984PTC017329	HARYANA AUTOMOBILE ANCILLARIES AND INDUSTRIES PVT LTD
857	U99999DL1984PTC017337	VISUAL BUSINESS SYSTEMS PVT LTD
858	U71110DL1984PTC017342	KAILASH GARAGES PVT LTD
859	U99999DL1984PTC017365	VAISH IMPEX PVT LTD
860	U99999DL1984PTC017402	VITEL ELECTRONICS PVT LTD
861	U51396DL1984PTC017409	ARCHNA PUBLICATIONS PVT LTD
862	U99999DL1984PTC017419	SHARAD CONSULTANTS PVT LTD
863	U99999DL1984PTC017424	DASS MEDIA PVT LTD
864	U99999DL1984PTC017429	HORIZON ELECTRONICS PVT. LTD.
865	U28129HR1984PTC017458	T P S PACKAGINGS PVT LTD
866	U31909DL1984PTC017464	TARZIAN ELECTRONICS PVT LTD
867	U24231HR1984PTC017474	SUN PHARMA PVT LTD
868	U65910DL1984PTC017482	THAPAR PROTIENS PVT. LTD.
869	U99999DL1984PTC017485	SWAN STEELS PVT LTD
870	U99999DL1984PTC017545	METWOOD Pioducts PVT LTD
871	U99999DL1984PTC017546	KARAN FOAMS PVT LTD

872	U99999DL1984PTC017562	APEX CONSTRUCTIONS PVT LTD
873	U99999DL1984PTC017565	DEPRENTA PVT LTD
874	U99999DL1984PTC017577	A1 QUTAB EXPORTS PVT LTD
875	U99999DL1984PTC017607	REWARI TRADING CO PVT LTD
876	U51909DL1984PTC017612	COMBINED MARKETING PVT LTD
877	U24232DL1984PTC017685	NUCHEM PHARMACEUTICALS PVT LTD
878	U45201DL1984PTC017703	NIDHI BUILDERS PVT LTD
879	U99999DL1984PTC017705	VINUS TOURS AND TRAVELS PVT LTD
880	U31909DL1984PTC017707	APOLLO ELECTRONICS PVT LTD
881	U18101DL1984PTC017742	SOBHAGYA SUTING PVT LTD
882	U30001DL1984PTC017753	OFFICE AIDS PVT LTD
883	U99999DL1984PTC017782	CETEC SERVICES PVT LTD
884	U99999DL1984PTC017790	A N A EXPORTS PVT LTD
885	U45201DL1984PTC017804	M M V PROPERTIES AND TRADING CO PVT LTD
886	U99999DL1984PTC017809	TAMASHA CREATION (EXPORT) PVT LTD
887	U24299DL1984PTC017822	LILY CHEMICALS PVT LTD
888	U32204DL1984PTC017833	ECHO ENGINEERING AND ELECTRONICS PVT LTD
889	U99999DL1984PTC017837	NANDI ORGANICS PVT LTD
890	U99999DL1984PTC017860	COROMANDEL GYPSUM PVT LTD
891	U99999DL1984PTC017882	MALHOTRA PAPERS PRODUCTS PVT LTD
892	U17111DL1984PTC017902	BAWA SUPER COLOR PROCESSORS PVT LTD
893	U99999DL1984PTC017908	ISIR SEARCH PVT LTD
894	U31503DL1984PTC017909	MAGON ELECTRONICS PVT LTD
895	U15319DL1984PTC017911	MODI STALEY PVT LTD
896	U17115DL1984PTC017934	BADAR INDUSTRIES PVT LTD
897	U99999DL1984PTC017971	SARLA CHEMICALS INDUSTRIES INDIA PVT LTD
898	U99999DL1984PTC017981	SHMBHAVI GAS GAD-GETS PVT LTD
899	U99999DL1984PTC018016	JINDAL CABLES PVT LTD
900	U99999DL1984PTC018024	AKSHAR PUBLISHING CO PVT LTD
901	U99999DL1984PTC018027	STAR MOTOR SALES PVT LTD
902	U24231DL1984PTC018063	TOSHNIWAL SOMANI LABORATORIES PVT LTD
903	U99999DL1984PTC018071	POPYLON DISTRIBUTORS PVT LTD
904	U99999DL1984PTC018109	MOHIT PLYWOOD PVT LTD
905	U99999DL1984PTC018132	S.J. CONSTRUCTION PVT LTD
906	U99999DL1984PTC018135	SHARP LPG PVT LTD
907	U99999DL1984PTC018154	S.B. CERAMICS PVT LTD
908	U99999DL1984PTC018174	DASSANI INDIA PVT LTD
909	U99999DL1984PTC018201	SUPREME TECHNO CONSTRUCTION PVT LTD
910	U17219DL1984PTC018206	SAIMAN HOSIERY INDUSTRIES PVT LTD
911	U99999DL1984PTC018207	DAYAL CONSULTANTS PVT LTD
912	U99999DL1984PTC018218	NOYAMKE THOROUGHbred BREADERS PVT LTD
913	U74140DL1984PTC018244	A.K.R.SURVEYING CO.PVT LTD
914	U99999DL1984PTC018266	ANTIQUE IMPEX PVT LTD
915	U99999DL1984PTC018280	SPONES CHEM PVT LTD
916	U65922DL1984PTC018283	BRASSICA HOUSING PVT LTD
917	U65921DL1984PTC018285	CITRUS CONSTRUCTION PVT LTD
918	U99999DL1984PTC018293	GRUNTEK ELECTRONICS PVT LTD
919	U99999DL1984PTC018301	ALMEDIC INDIA PVT LTD
920	U99999DL1984PTC018303	PYRUS CHATELS PVT LTD
921	U99999DL1984PTC018319	GAGAN TEXTILE MILLS PVT LTD
922	U13209HR1984PTC018326	BAJRANG DASS METAL PVT LTD
923	U99999DL1984PTC018332	WESTERN AGENCIES PVT LTD
924	U29210DL1984PTC018335	JANPATH AUTOMOBILES PVT LTD
925	U99999DL1984PTC018340	JANPATH EXPORTS PVT LTD
926	U99999DL1984PTC018344	R M TRADE CONSULTANTS PVT LTD

927	U70101DL1984PTC018347	L M R PROPERTIES PVT LTD
928	U99999DL1984PTC018350	KARTICKARS PVT LTD.
929	U99999DL1984PTC018389	ADRASH WOOLLEN INDUSTRIES PVT LTD
930	U99999DL1984PTC018408	GROUP HOUSING CONSULTANTS AND BUILDERS PVT LTD
931	U99999DL1984PTC018429	DR SURAJ MEDICAL CENTRE PVT LTD
932	U99999DL1984PTC018445	C M A EXPORTS PVT.LTD.
933	U17118DL1984PTC018455	DESERT PRINTS PVT LTD
934	U99999DL1984PTC018478	SHEENA EXPORTS PVT LTD
935	U74300DL1984PTC018490	DOLPHIN MARKETING PVT LTD
936	U99999DL1984PTC018492	IBC COMPUTER MEDIA PVT LTD
937	U99999DL1984PTC018493	RUBBERAGE ENGINEERS PVT LTD
938	U99999DL1984PTC018510	INDICA VALVES AND REGULATORS PVT LTD
939	U99999DL1984PTC018519	WAGU SERVICES PVT LTD
940	U51399DL1984PTC018523	SNOW FLAKES EXPORTS PVT LTD
941	U70109DL1984PTC018530	AQUILH HOUSING PVT LTD.
942	U99999DL1984PTC018564	SATURN CONSTRUCTION PVT LTD
943	U99999DL1984PTC018571	MARS BUILDERS PLTD
944	U70109DL1984PTC018573	TETRAT HOUSING PVT LTD
945	U70101DL1984PTC018574	SHRUTI POLYMARB PVT LTD
946	U99999DL1984PTC018585	ADVANCE HOUSEHOLD PRODUCTS PVT LTD
947	U99999DL1984PTC018589	MAMO ADS PVT LTD
948	U32303DL1984PTC018638	ESKEI ELECTRONICS PVT.LTD.
949	U99999DL1984PTC018640	PRUDENTIAL CHEMICALS AND GASES PVT LTD
950	U99999DL1984PTC018669	INTER CONTINENTAL FASHION WEAR PVT.LTD.
951	U99999DL1984PTC018674	DELCO AIR TRADE PVT LTD
952	U99999DL1984PTC018698	NAVYUG EXPORTS PVT LTD
953	U74210DL1984PTC018712	KASAP ENGINEERING PVT.LTD.
954	U51420DL1984PTC018723	CHIC TRADING PVT LTD
955	U27109DL1984PTC018738	VIKRAM GAS CONTAINERS PVT LTD
956	U99999DL1984PTC018743	SYED ENGINEERING PVT LTD
957	U74999DL1984PTC018765	NEWAGE SERVICES PVT LTD
958	U74300DL1984PTC018786	TRI-MURTI ADVERTISING CO PVT LTD
959	U99999DL1984PTC018822	SAJ STEEL PVT LTD
960	U99999DL1984PTC018861	J CHANDRA TRANSPORT PVT.LTD.
961	U99999DL1984PTC018882	RAINBO LABORATORIES (INDIA)PVT LTD
962	U99999DL1984PTC018905	SCANLENS OPTICS PVT.LTD.
963	U99999DL1984PTC018911	NOIDA SHIRTS MAKERS PVT.LTD.
964	U11202HR1984PTC018912	RAJGARIAH OIL MILLS PVT LTD
965	U99999DL1984PTC018921	KAJ ELECTRICALS PVT.LTD.
966	U99999DL1984PTC018926	FUJI SHIBA ELECTRONICS PVT.LTD.
967	U70101DL1984PTC018939	VAISHALI LAND AND CONSTRUCTION PVT LTD
968	U17299DL1984PTC018952	BUDHA TEXTILES PVT.LTD.
969	U74140DL1984PTC018972	INTEGRATED CORPORATE SERVICES PVT LTD
970	U99999DL1984PTC018986	ROZKA LAMINATORS PVT.LTD.
971	U99999DL1984PTC018989	SKA FOODS PVT.LTD.
972	U45201DL1984PTC019000	SHELTER CONSTRUCTION PVT.LTD.
973	U17222DL1984PTC019021	STEVIK ALLIED PVT LTD.
974	U99999DL1984PTC019053	RAGHU SHREE ENGINEERS INDIA PVT LTD
975	U99999DL1984PTC019073	MITTAL CYLINDERS PVT LTD
976	U99999DL1984PTC019078	MAHESHKA ESTATES PVT LTD
977	U99999DL1984PTC019087	BROTHERS ENGINEERING PVT LTD
978	U18101DL1984PTC019109	TRIJAYA OVERSEAS PVT LTD
979	U99999DL1984PTC019120	MUNISH IMPEX PVT LTD
980	U99999DL1984PTC019134	PRAGATI FERTILIZERS PVT LTD
981	U99999DL1984PTC019153	A M.ARUTRONICS PVT LTD

982	U99999DL1984PTC019156	CRYSTAL AUDIO VIDE APPLIANCE PVT LTD
983	U24119HR1984PTC019160	SUKHRAM DASS CHEMICALS PVT LTD
984	U99999DL1984PTC019179	MECAS PVT LTD
985	U99999DL1984PTC019194	SURINDER ALLDYS PVT LTD
986	U99999DL1984PTC019220	ANU PLASTIC PVT LTD
987	U32101DL1984PTC019225	MASTERPHDNE INDUSTRIES PVT LTD
988	U99999DL1984PTC019259	APEX ENTERPRISES(INDIA) P LTD
989	U31103DL1984PTC019272	V.K.STAMPING PVT LTD
990	U99999DL1984PTC019285	SWAGAT THERMDDE PVT LTD
991	U51909DL1984PTC019324	VICTDPY MERCHANDISE PVT.LTD.
992	U99999DL1984PTC019331	RISHAB UDYDG PVT LTD
993	U51909DL1984PTC019363	STELLAR IMPEX PVT LTD
994	U99999DL1984PTC019389	REGENT PAPER MILLS(AMETHI)PVT LTD
995	U19202DL1984PTC019404	RDYAL FDDTWEAR PVT LTD
996	U36104DL1984PTC019436	JAIN AND JAYNA FDAMS PVT.LTD.
997	U51909DL1984PTC019472	SCAN TRADING CD. PVT LTD
998	U99999DL1984PTC019549	SAKSHI ENGINEERS AND BUILDERS PVT LTD
999	U99999DL1984PTC019553	VASCD ELECTRDNICS PVT LTD
1000	U99999DL1984PTC019562	SANGAM ELECTRDNICS PVT LTD
1001	U99999DL1984PTC019570	NOIDA AGRO PVT LTD
1002	U99999DL1984PTC019592	R.R.CDNSTRUCTIDNS PVT LTD
1003	U99999DL1984PTC019682	NDVATRDN PVT LTD
1004	U51909DL1984PTC019693	HIM TRADERS PVT LTD
1005	U99999DL1984PTC019731	PRAKAI ELECTRDNICS PVT LTD
1006	U22190DL1985PTC019754	SPANTECH PUBLISHERS PVT LTD
1007	U99999DL1985PTC019773	SHERU LEATHERS PVT LTD
1008	U99999DL1985PTC019782	WELLMKE FURNACES PVT LTD
1009	U99999DL1985PTC019795	PHENTEM ELECTRONICS (INDIA) PVT LTD
1010	U18101DL1985PTC019812	KAPCDN GARMENTS PVT LTD
1011	U99999DL1985PTC019813	MDNARCH ELECTRDNICS PVT LTD
1012	U99999DL1985PTC019826	SUPRIYA ELECTRDNICS PVT LTD
1013	U99999DL1985PTC019870	DRIENTAL FLDDR CDVERINGS PVT LTD
1014	U34300DL1985PTC019876	INDIA TRUCKERS PVT. LD.
1015	U99999DL1985PTC019885	ACCURATE MACHINE TOOLS PVT LTD
1016	U99999DL1985PTC019910	RISHI RAJ HDELS PVT LTD
1017	U18101DL1985PTC019927	RAGLIGNE CDLLECTIDN PVT LTD
1018	U99999DL1985PTC019934	SATIRANI CHEMICALS PVT LTD
1019	U51219DL1985PTC019947	VARUN CDMMERIAL AGENCIES PVT LTD.
1020	U24239DL1985PTC019953	NDBLE LABDRATDRIES (INDIA) PVT LTD
1021	U99999DL1985PTC019979	TEXTURES PVT LTD
1022	U99999DL1985PTC019983	GIRRAJ EXPDRTS AND INDUSTRIES PVT LTD
1023	U99999DL1985PTC019996	KANDARPA ASSDCIATES PVT LTD
1024	U70101DL1985PTC020007	DRIENT PRDPERTIES PVT LTD
1025	U99999DL1985PTC020028	KARAJ TRADING CD. PVT.LTD.
1026	U99999DL1985PTC020073	SANDB FASHIDN SETTER EXPDRTS PVT LTD
1027	U99999DL1985PTC020080	SDNIA ESTATES PVT LTD
1028	U99999DL1985PTC020145	SBL MDELS PVT LTD
1029	U99999DL1985PTC020164	UDEE ELECTRONICS AND METALS PVT I TD
1030	U99999DL1985PTC020172	RAWAT FABRICATIDN WDRKS PVT LTD
1031	U99999DL1985PTC020244	NDRCHEM PHARMECUTICALS PVT LTD
1032	U99999DL1985PTC020247	DAM TRADERS PVT LTD
1033	U99999DL1985PTC020255	EXCLUSIF ELECTRDNICS PVT.LTD.
1034	U99999DL1985PTC020277	SHAGUN METALS PVT LTD
1035	U99999DL1985PTC020290	SHIPRA GLUE AND CHEMICALS PVT.LTD.
1036	U51909DL1985PTC020335	AVIV EXPDRT HDUSE PVT LTD

1037	U18109DL1985PTC020366	AGGARWAL APPARELS PVT LTD
1038	U51499DL1985PTC020370	LIDDLES DATA SYSTEMS PVT.LTD.
1039	U17299DL1985PTC020385	DUGGAR SPINNERS PVT LTD
1040	U99999DL1985PTC020396	SUNFLAME GADGETS PVT LTD
1041	U15549HR1985PTC020399	CENYA ELECTRONICS PVT.LTD.
1042	U92111DL1985PTC020425	B. AND B.VIDEO PVT.LTD.
1043	U99999DL1985PTC020427	SOLIS ENGINEERS PVT LTD
1044	U45201DL1985PTC020432	S.G.CONSTRUCTION CO. PVT LTD
1045	U99999DL1985PTC020442	VIJAY GARMENTS PVT LTD
1046	U99999DL1985PTC020453	SUNFLAME ELECTRONICS PVT LTD
1047	U25201DL1985PTC020460	PLEXICOM ENGINEERS PVT LTD
1048	U29302DL1985PTC020480	SEAROK CYLINDERS PVT LTD
1049	U27310DL1985PTC020500	STEEL KRAFTS PANIPAT PVT LTD
1050	U99999DL1985PTC020514	S.S.VALVES PVT LTD
1051	U74140DL1985PTC020518	H.M.A. CONSULTANTS PVT.LTD
1052	U51909DL1985PTC020526	GIGA EXIM PVT.LTD
1053	U99999DL1985PTC020535	NAVYUG TYRES PVT LTD
1054	U99999DL1985PTC020539	SAGAR PLASTO CHEM PVT LTD
1055	U99999DL1985PTC020551	STEJAC ELECTRONICS PVT LTD
1056	U99999DL1985PTC020586	JUDRICKS (INDIA)PVT LTD
1057	U34300HR1985PTC020590	K.N.K.COMPONENTS PVT LTD
1058	U36101DL1985PTC020616	BRITE PLYWOOD COMPANY PVT LTD
1059	U99999DL1985PTC020630	TRIANGLE EXPORTS PVT LTD
1060	U28932DL1985PTC020632	HUDSON HOSES PVT LTD
1061	U99999DL1985PTC020697	SANT CHEMICALS AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
1062	U74210DL1985PTC020732	VIMLESH ENGINEERING PVT LTD
1063	U51909DL1985PTC020733	HEBA CONSULTANTS AND MARKETING PVT LTD
1064	U99999DL1985PTC020741	RUKMANI CEMENT CO PVT LTD
1065	U99999DL1985PTC020742	TIRUPATI APARTMENTS PVT LTD
1066	U17118DL1985PTC020744	JAY DEE SYNTHETICS PVT LTD
1067	U99999DL1985PTC020745	RAMAN MOTORS PVT LTD
1068	U99999DL1985PTC020764	PRASANTI SAI ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION PVT LTD
1069	U99999DL1985PTC020777	A. CAMERAMANS PVT LTD
1070	U27101DL1985PTC020806	SHIVA SHAKTI GRINDERS PVT LTD
1071	U99999DL1985PTC020820	SPRA PVT LTD
1072	U99999DL1985PTC020831	VIJAYANAND WOOLLEN MILLS PVT LTD
1073	U99999DL1985PTC020835	M.A.CONSULTANTS PVT LTD
1074	U99999DL1985PTC020849	RAJ DHANI PLYWOOD PVT LTD
1075	U99999DL1985PTC020860	NARINDRA LEATHERIODES PVT LTD
1076	U99999DL1985PTC020861	MONA CHEM PHARMA PVT LTD
1077	U99999DL1985PTC020867	CHIB STEEL FURNITURE PVT LTD
1078	U05001DL1985PTC020879	EMBASSY FISHERIES PVT LTD
1079	U27100DL1985PTC020891	VINEET METALS PVT LTD
1080	U99999DL1985PTC020911	SHAFI FIBRE AND CHEMICALS PVT LTD
1081	U99999DL1985PTC020928	NEW ERA ANCILLARIES PVT LTD
1082	U31909DL1985PTC020957	ASTHA ELECTRICALS PVT LTD
1083	U99999DL1985PTC020986	SAVIGO (INDIA) PVT LTD
1084	U99999DL1985PTC020995	SUVIN METALS PVT LTD
1085	U27109DL1985PTC020997	AVDESH ALLOYS PVT LTD
1086	U99999DL1985PTC021010	SONA SINGH AUTOMOTIVES PVT LTD
1087	U99999DL1985PTC021034	SAMA FOODS PVT LTD
1088	U99999DL1985PTC021063	SURENDRA STRUCTURALS PVT LTD
1089	U99999DL1985PTC021084	B.R.CONSULTANTS PVT LTD
1090	U99999DL1985PTC021108	FARIDARAD FIBRES PVT LTD

1091	U99999DL1985PTC021110	THAPSONS CHEMICALS PVT.LTD.
1092	U99999DL1985PTC021119	BEACON PAINTS PVT LTD
1093	U99999DL1985PTC021124	TEMPIRITE AIR-CONDITIONING COMPANY PVT LTD
1094	U45203DL1985PTC021133	KARTAR SINGH AND SONS PRIVATE LIMITED
1095	U74300DL1985PTC021139	GOVAN ADVERTISING COMPANY PVT LTD
1096	U99999DL1985PTC021148	KAY PEE INDUCTO STEELS PVT LTD
1097	U99999DL1985PTC021152	JUPITER INDIA PVT LTD
1098	U65999DL1985PTC021157	UNIQUE INDIA PVT LTD
1099	U18101DL1985PTC021162	KUMAR APPAREL ACCESSORIES CO. PVT LTD
1100	U99999DL1985PTC021172	PACIFIC PLASTICS PVT LTD
1101	U27104DL1985PTC021206	C AND M ADVERTISERS AND MARKETING CONSULTANTS PVT LTD
1102	U99999DL1985PTC021228	TRIBHUVAN CHEMICALS PVT LTD
1103	U99999DL1985PTC021232	PANCHSHEEL AUTOWAYS PVT LTD
1104	U34300DL1985PTC021280	EMBEE ASSOCIATES PVT LTD
1105	U99999DL1985PTC021281	S.H.P.PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
1106	U29193DL1985PTC021288	KHAPS VIRAYOR PVT LTD
1107	U99999DL1985PTC021303	BIRCHWOOD EXPORTS PVT LTD
1108	U74300DL1985PTC021313	MALA PUBLICITY SERVICES PVT LTD
1109	U99999DL1985PTC021366	JANAK RAJ GUPTA AND SONS PVT LTD
1110	U27202DL1985PTC021375	SURANA DHATU PRODUCTS PVT LTD
1111	U99999DL1985PTC021400	POLAR SALES PVT LTD
1112	U99999DL1985PTC021411	MERCURY PACKERS PVT LTD
1113	U99999DL1985PTC021412	MERCURY CASTERS PVT LTD
1114	U01122DL1985PTC021450	MEGA FARMS PVT LTD
1115	U19202HR1985PTC021463	ANAND FOOT WEAR PVT LTD
1116	U55101DL1985PTC021471	DOON VALLEY HOTELS PVT LTD
1117	U99999DL1985PTC021478	ADVANCE TECHNOMAD PVT LTD
1118	U72200DL1985PTC021499	QUICK SYSTEM SERVICES PVT. LTD.
1119	U99999DL1985PTC021515	JANVANTI FLOUR MILLS PVT LTD
1120	U99999DL1985PTC021541	S.S.ALLOYS PVT LTD
1121	U74140DL1985PTC021553	CLC.OFINDIA PVT LTD
1122	U55101DL1985PTC021558	HOTEL RAJAT PVT LTD
1123	U74140DL1985PTC021565	R.M.CONSULTANTS PVT LTD
1124	U32109DL1985PTC021571	NOIDA ELECTRONICS PVT LTD
1125	U99999DL1985PTC021605	O AND K INDIA PVT LTD
1126	U29308DL1985PTC021636	SPIDER ELECTRONICS PVT LTD
1127	U74995DL1985PTC021654	BEST LIASION (INDIA) PVT LTD
1128	U74999DL1985PTC021666	KIKSAR PROPERTIE PVT LTD
1129	U99999DL1985PTC021677	TOWER BELL ELECTRONICS PVT.LTD
1130	U67120DL1985PTC021684	NIVESH INDIA PVT LTD
1131	U99999DL1985PTC021704	SEVEN SEAS FISHERIES PVT LTD
1132	U99999DL1985PTC021743	BHARAT BRASE AND METAL INDUSTRIES PVT LTD
1133	U92490DL1985PTC021750	GEETANJALI FILMS PVT LTD
1134	UY2413DL1985PTC021783	FRIENDS POLYMERS PVT LTD
1135	U31300DL1985PTC021830	MANOJ INSULATIONS PVT LTD
1136	U99999DL1985PTC021859	UNI SYAS DYNAMIC PVT LTD
1137	U99999DL1985PTC021911	BANSAL FOOTWAR PVT LTD
1138	U29219DL1985PTC021921	AMALGAMATED MOULDINGS PVT LTD
1139	U18101DL1985PTC021922	GD GARMENTS PVT LTD
1140	U27107DL1985PTC021946	MANAV METALS PVT LTD
1141	U18109DL1985PTC021954	SC GARMENTS PVT LTD
1142	U99999DL1985PTC021973	HAMLIN ELECTRONICS PVT LTD
1143	U20221DL1985PTC021984	PAL VIDOS AND WOODCRAFT PVT LTD
1144	U52603DL1985PTC021993	CLARION ELECTRONICS PVT LTD

1145	U99999DL1985PTC021995	MACKY RUBBERS PVT LTD
1146	U99999DL1985PTC022005	KAUR ELECTRONICS PVT LTD
1147	U99999DL1985PTC022011	COMBINED FILMS PVT LTD
1148	U65993DL1985PTC022012	UNITED ELECTRO WELD ARC MACHINES PVT LTD
1149	U24211DL1985PTC022032	SM DASS AND SONS PVT LTD
1150	U99999DL1985PTC022044	CHANDU METAL PVT LTD
1151	U99999DL1985PTC022054	VANVIK PROTEIN FOODS PVT LTD
1152	U99999DL1985PTC022108	BHS SALES CO PVT LTD
1153	U99999DL1985PTC022109	ALFA BEFA CASTINGS PVT LTD
1154	U99999DL1985PTC022134	SHIVAM CARGO SERVICES PVT LTD
1155	U99999DL1985PTC022156	INDO MOULDS PVT LTD
1156	U24119DL1985PTC022174	JAINSONS CHEMICALS PVT LTD
1157	U99999DL1985PTC022175	C. R. CHEMICALS PVT LTD
1158	U99999DL1985PTC022213	OM SHIV SHAKTI PLASTICS PVT LTD
1159	U99999DL1985PTC022220	STAR TRAVELS PVT LTD
1160	U99999DL1985PTC022235	TROWICA ELECTRONICS CO PVT LTD
1161	U22219DL1985PTC022248	SCAN TYPE PVT LTD
1162	U99999DL1985PTC022294	MUNDRA TECH (INDIA) PVT LTD
1163	U25201DL1985PTC022333	ANCHOR POLYMERS PVT LTD
1164	U99999DL1985PTC022336	SHAHINA ELECTRONICS PVT LTD
1165	U99999DL1985PTC022338	PASHUPATI BOTTLERS PVT LTD
1166	U99999DL1985PTC022347	FAST INDIA PVT LTD
1167	U99999DL1985PTC022355	INTER CONTINENTAL PAINTS PVT LTD
1168	U99999DL1985PTC022356	MISAKKI ELECTRONICS PVT LTD
1169	U99999DL1985PTC022368	BPC PUBLICATIONS PVT LTD
1170	U34300DL1985PTC022394	GARUDA AUTOMOTIVE PVT LTD
1171	U72200DL1985PTC022398	COSMOS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SERVICES PVT LTD
1172	U99999DL1985PTC022406	ROJKA WIRES PVT LTD
1173	U99999DL1985PTC022435	MANSON POLY COMP PVT LTD
1174	U18101DL1985PTC022453	RATAN TEXTILES PVT LTD
1175	U85110DL1985PTC022461	HOPE HOSPITAL PVT LTD
1176	U51909DL1985PTC022465	VEANU DISTRIBUTORS PVT LTD
1177	U99999DL1985PTC022477	PRAGATI APARTMENTS PVT LTD
1178	U99999DL1985PTC022514	AHUJA ELECTRONICS AND ENGINEERS PVT LTD
1179	U27109HR1985PTC022518	MINAXI ISPAT UDYOG PVT LTD
1180	U99999DL1985PTC022527	IND CAN BIOCHEM PVT LTD
1181	U45201DL1985PTC022535	B.B.BUILDERS PVT LTD
1182	U72200DL1985PTC022545	MAC COMPUTERS AND CONSULTANTS PVT LTD
1183	U99999DL1985PTC022556	Y. S. METALS PVT LTD
1184	U99999DL1985PTC022567	MALHOTRA CERAMICS PVT LTD
1185	U99999DL1985PTC022596	AKAYS JYOTI IMPEX PVT LTD
1186	U99999DL1985PTC022637	PATRA KONA PRIVATE LTD
1187	U99999DL1985PTC022640	SIMPLEX INTERNATIONAL PVT LTD
1188	U34300DL1985PTC022647	RAJNATH AND SONS PVT LTD
1189	U29150DL1985PTC022648	OMEGA ELEVATORS PVT LTD
1190	U33121DL1985PTC022677	PHOENIX CONTROL EQUIPMENT PVT LTD
1191	U01222HR1985PTC022690	HATCH BRO PVT LTD
1192	U63040DL1985PTC022698	NAMASTE TRAVEL PVT LTD
1193	U51909DL1985PTC022699	SARIN AGENICS PVT LTD
1194	U99999DL1985PTC022702	ARMADA SALES PVT LTD
1195	U65202DL1985PTC022738	MEKASTER OVERSEAS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1196	U99999DL1985PTC022779	SARAM AND COMPANY PVT LTD
1197	U30005DL1985PTC022787	CRESCENT COMPUTERS PVT LTD

1198	U22803DL1985PTC022803	CONSOLIDATED SEA FARMING AND SHIPPING PVT LTD
1199	U34300DL1985PTC022804	M.J.AUTO FORGINGS PVT LTD
1200	U28991DL1985PTC022807	REC FASTERNS PVT LTD
1201	U63040DL1985PTC022808	HARITAGE INDIA TOURS AND TRAVELS PVT LTD
1202	U99999DL1985PTC022854	RAJHANS PROPERTIES PVT LTD
1203	U74210DL1985PTC022863	EVEREST CONSULTANTS PVT LTD
1204	U51390DL1985PTC022884	SUPER ASSOCIATES PVT LTD
1205	U99999DL1985PTC022888	APEX TELETRON PVT LTD
1206	U99999DL1985PTC022891	GEATY CHEMICALS PVT LTD
1207	U65921DL1985PTC022905	PROMPT PROPERTIES PVT LTD
1208	U99999DL1985PTC022913	RUHIKA ELECTRICALS PVT LTD
1209	U34300DL1985PTC022915	GULF REPOWERING WORKS PVT LTD
1210	U22211DL1986PTC022975	DHRUVCO PRINTERS PVT LTD
1211	U99999DL1986PTC022977	NIKITARONICS PVT. LTD.
1212	U22211DL1986PTC022986	MILAP PRESS PVT LTD
1213	U99999DL1986PTC023016	MICRO MAINTINANCE PVT LTD
1214	U99999DL1986PTC023030	SHIVAJI CHEMICALS PVT LTD
1215	U99999DL1986PTC023050	DEE ESS OIL EXTRACTION PVT LTD
1216	U70101DL1986PTC023075	RAVINDRA ASSOCIATES PVT LTD
1217	U99999DL1986PTC023079	SEBA (INDIA) PVT LTD
1218	U99999DL1986PTC023088	AB DATA SYSTEMS PVT LTD
1219	U99999DL1986PTC023093	JASSIN INSTRUMENTATION PVT LTD
1220	U99999DL1986PTC023096	JAINCHANDNANI TRADING COMPANY PVT LTD
1221	U99999DL1986PTC023100	D D S QUILTS HANDICRAFTS PVT LTD
1222	U29294DL1986PTC023104	GAYATHRI MACHINERIES PVT LTD
1223	U29299DL1986PTC023105	HARYANA METERS PVT LTD
1224	U36101DL1986PTC023106	J M KALIA AND SONS PVT LTD
1225	U99999DL1986PTC023109	STEPPING STONE COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
1226	U99999DL1986PTC023115	KAMAL TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
1227	U99999DL1986PTC023116	H N FINANCIAL MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
1228	U31909DL1986PTC023132	ZETA ENERGY CONTROLS PVT LTD
1229	U99999DL1986PTC023151	TRACE SYSTEMS PVT LTD
1230	U15499DL1986PTC023152	GAJRAJ FOODS PVT LTD
1231	U99999DL1986PTC023156	J T BHARAJ AND SONS PVT LTD
1232	U99999DL1986PTC023167	SHIVALIK ERCETORS PVT LTD
1233	U99999DL1986PTC023177	XPOLOGIK SYSTEMS PVT LTD
1234	U99999DL1986PTC023212	MICROBIT COMPUTERS PVT LTD
1235	U24221DL1986PTC023245	GOLD SEAL PIGMENTS AND CHEMICALS PVT LTD
1236	U51211DL1986PTC023257	R.K. OVERSEAS PVT LTD
1237	U99999DL1986PTC023259	S R CRAFTS PVT LTD
1238	U51909DL1986PTC023269	MODERN MARCHANDISE PVT LTD
1239	U99999DL1986PTC023282	SAI ASSOCIATES PVT LTD
1240	U99999DL1986PTC023334	ROHIT ASSOCIATES PVT LTD
1241	U99999DL1986PTC023344	ORCHID ADVERTISING PVT LTD
1242	U99999DL1986PTC023381	MANOJ ASSOCIATES PVT LTD
1243	U99999DL1986PTC023387	PALM BEACH AGENCIES PVT LTD
1244	U29199DL1986PTC023405	BLISS ANAND INSTRUMNETS PVT LTD
1245	U01122HR1986PTC023420	HONEY TREE HOUSE PVT LTD
1246	U99999DL1986PTC023424	JUCEEKA FOOD PROCESSORS PVT LTD
1247	U99999DL1986PTC023434	HARI OM LAMINATES PVT LTD
1248	U67190DL1986PTC023442	PAWAN CONSULTANTS AND MARKETING PVT LTD
1249	U99999DL1986PTC023452	KRAFT MULTIPLEX PVT LTD
1250	U99999DL1986PTC023456	TARA SYNTHESIES AND PACKAGINGS (INDIA) PVT LTD
1251	U27101DL1986PTC023458	BAJAJ UTENSILS PVT LTD

1252	U99999DL1986PTC023467	S.M.G. ELECTRONICS PVT LTD
1253	U70109DL1986PTC023500	RAVINDRA NIRMAL PVT LTD
1254	U51909DL1986PTC023527	V.R. TRADERS PVT LTD
1255	U99999DL1986PTC023555	UNIQUE FOOTWEAR AND HOSIERY PVT LTD
1256	U28991DL1986PTC023560	REC SCREWS PVT LTD
1257	U74210DL1986PTC023567	BEGHUM INDIA CONSULTANTS PVT LTD
1258	U51909DL1986PTC023576	SUPERSTAR IMPEX LINKERS PVT LTD
1259	U74202DL1986PTC023610	SAVITKAR COMMUNICATION SERVICES PVT LTD
1260	U32301DL1986PTC023626	PREMIER RADIOS PVT LTD
1261	U99999DL1986PTC023627	COMPLINK COMPUTERS PVT LTD
1262	U99999DL1986PTC023628	SHIRAN EXPORTS PVT LTD
1263	U15511DL1986PTC023632	PREM NATH BALKISHAN BREWRIES PVT LTD
1264	U19202DL1986PTC023644	SUMIT POLYMERS (INDIA) PVT LTD
1265	U15419DL1986PTC023647	MILAR ASSOCIATES PVT LTD
1266	U99999DL1986PTC023653	NEW ERA CONTRACTORS PVT LTD
1267	U45201DL1986PTC023657	BIKRAM BUILDERS PVT LTD
1268	U99999DL1986PTC023674	SIGMANODE PVT LTD
1269	U99999DL1986PTC023683	NATURAL FOOD PRODUCTS P LTD
1270	U29306DL1986PTC023686	PUNEET HOME APPLIANCES P LTD
1271	U22122DL1986PTC023702	DASHING PUBLICATIONS PVT LTD
1272	U99999DL1986PTC023715	SHARDA MOOVIES P LTD
1273	U99999DL1986PTC023728	ASIA SLOTS P LTD
1274	U99999DL1986PTC023734	GAUTAM REFINERY PVT LTD
1275	U99999DL1986PTC023736	SOMANI COMMERCIAL CO PVT LTD
1276	U99999DL1986PTC023756	ALUPCO METALS PVT LTD
1277	U31909DL1986PTC023764	POLY SALES RACK PVT LTD
1278	U99999DL1986PTC023785	UNIQUE FUELEX (INDIA) PVT LTD.
1279	U99999DL1986PTC023808	N.N. CONSULTANTS PVT LTD.
1280	U99999DL1986PTC023825	REACTIVE DYES AND CHEMICALS PVT LTD.
1281	U99999DL1986PTC023836	SAI HOMEO PVT LTD.
1282	U24239DL1986PTC023841	CROSS HEALTH CARE PRODUCTS PVT LTD.
1283	U99999DL1986PTC023864	BABALATURIYA STEELS PVT LTD.
1284	U99999DL1986PTC023875	S.K. AGRO ENTERPRISES PVT LTD.
1285	U18101DL1986PTC023889	SAITEX AGENCIES PVT LTD.
1286	U70101DL1986PTC023902	RAWAT LAND AND HOUSING PVT LTD.
1287	U99999DL1986PTC023911	BOON TRADING PVT LTD.
1288	U25199DL1986PTC023929	VESTA RUBBERS PVT LTD.
1289	U99999DL1986PTC023939	K SPAN (INDIA) PVT LTD.
1290	U24114HR1986PTC023965	BUBBER DIE CASTINGS PVT LTD.
1291	U19202DL1986PTC023985	ASCOT SHOES PVT LTD.
1292	U99999DL1986PTC024000	MANIKARAN MOTOR SALES PVT LTD.
1293	U70101DL1986PTC024013	DEEP BUILDERS INDIA PVT LTD.
1294	U99999DL1986PTC024043	CONNECT AIR PVT LTD.
1295	U31900DL1986PTC024046	MONGA INDUSTRIES PVT LTD.
1296	U24119DL1986PTC024050	CRYO MEDICAL GASES PVT LTD.
1297	U99999DL1986PTC024052	HI TECH OVERSEAS PVT LTD.
1298	U99999DL1986PTC024062	SHANTI ENAMEL ENTERPRISES PVT LTD.
1299	U70101DL1986PTC024067	JK ANAND AND COMPANY PVT LTD.
1300	U99999DL1986PTC024071	KUBER OVERSEAS PVT LTD.
1301	U70101DL1986PTC024082	WISDOM ESTATES PVT LTD.
1302	U99999DL1986PTC024085	MATRI PAPERS PVT LTD.
1303	U99999DL1986PTC024096	YATENDRA MACHINES PVT LTD.
1304	U45201DL1986PTC024103	ADARSH PROMOTORES PVT LTD.
1305	U63040DL1986PTC024187	COMFORT TRAVELS P. LTD.
1306	U29305DL1986PTC024205	STEFAB DOMESTIC APPLIANCES COMPANY P. LTD.

1307	U99999DL1986PTC024234	N.I.P. ORGANICS PVT. LTD.
1308	U99999DL1986PTC024288	AMC CONSULTANTS P.LTD.
1309	U74210DL1986PTC024289	SINTEC (INDIA) PVT. LTD.
1310	U31200DL1986PTC024310	SKYLINE ELECTRONICS INDUSTRIES PVT. LTD.
1311	U99999DL1986PTC024314	NALWA PIPES PVT LTD
1312	U29306DL1986PTC024390	KUMAR COMFORT AIR PVT. LTD.
1313	U27101DL1986PTC024435	BANSAL AUTO ELECTRONIC PVT. LTD.
1314	U18101DL1986PTC024439	ANGRO GARMENTS MANUFACTURING PVT LTD.
1315	U74210DL1986PTC024457	S.L.H TRADING AND AND CONTRACTING COMPANY PVT. LTD.
1316	U01121DL1986PTC024458	VINOD JAIN AND COMPANY PVT LTD
1317	U99999DL1986PTC024466	PIK PACK AGENCIES PVT. LTD.
1318	U99999DL1986PTC024469	NICHON CHEMICALS PVT LTD
1319	U99999DL1986PTC024504	USHA AUTO SPARES PVT LTD
1320	U99999DL1986PTC024506	ALLIED PLASTICS PVT. LTD.
1321	U24239HR1986PTC024523	VEE KEY MEDICARE PVT. LTD.
1322	U24216DL1986PTC024526	STANFAR ORGANICS PVT. LTD.
1323	U51505DL1986PTC024535	SHARYAD TRADING ENTERPRISES PVT. LTD.
1324	U51909DL1986PTC024538	YADAV TRADING ENTERPRISES PVT. LTD.
1325	U74140DL1986PTC024553	A.A. MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
1326	U99999DL1986PTC024555	SAKAR CONTRACTS INDIA PVT. LTD.
1327	U25206DL1986PTC024577	PRECISION POLYTECH INDUSTRIES PVT. LTD.
1328	U99999DL1986PTC024596	NOVA SHOES PVT. LTD.
1329	U63040DL1986PTC024599	SKYVENTURE TRAVEL INDIA PVT. LTD.
1330	U24239HR1986PTC024606	AVID PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1331	U99999DL1986PTC024620	VARIANT DIAMONDS PVT LTD
1332	U74210DL1986PTC024658	MANJULA DESIGN CENTRE PVT. LTD.
1333	U99999DL1986PTC024659	C.S.MODI AND COMPANY PVT. LTD.
1334	U17113DL1986PTC024700	VINEX WOOLEN INDUSTRIES PVT. LTD.
1335	U99999DL1986PTC024746	SACHDEVA AND ASSOCIATES PVT. LTD.
1336	U99999DL1986PTC024776	SHAN SOUND SYSTEMS PVT. LTD.
1337	U99999DL1986PTC024777	EM JAY MARKETING COMPANY PVT.LTD.
1338	U99999DL1986PTC024782	PERIYAR EXPORTS PVT.LTD.
1339	U41000DL1986PTC024803	CHECK WATER PVT.LTD.
1340	U70109DL1986PTC024822	BHATIA AND COMPANY PVT.LTD.
1341	U99999DL1986PTC024828	CRYO EQUIPMENT TRANSPORT BAND COMPPRESSING CO.PVT LTD.
1342	U31101DL1986PTC024851	M.G. POWER SYSTEMS PVT.LTD.
1343	U51101DL1986PTC024864	RACHNA EXPORTS IMPORTS PVT.LTD.
1344	U51310DL1986PTC024903	HARKISHAN LAL AND COMPANY PVT.LTD.
1345	U99999DL1986PTC024911	UNITED EXCO INDIA PVT. LTD.
1346	U28099DL1986PTC024930	FRIENDS LOCKING DEVICES PVT.LTD.
1347	U99999DL1986PTC024971	RAJESHWAR DAYAL MILK PRODUCTS PVT. LTD.
1348	U29200DL1986PTC024984	RGR ENGINEERING PVT. LTD.
1349	U99999DL1986PTC024995	PRIME DEVICES (INDIA) PVT. LTD.
1350	U99999DL1986PTC025018	NORTH INDIA ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
1351	U25209DL1986PTC025043	SURYA SYNTEX PVT. LTD.
1352	U65993DL1986PTC025057	BETA FAXTEL PVT. LTD.
1353	U99999DL1986PTC025063	HINDON HOTELS PVT. LTD.
1354	U99999DL1986PTC025070	ASHISH INDUSTRIAL MARKETING PVT. LTD.
1355	U45202HR1986PTC025083	JAMNIKHERA BUILDERS PVT. LTD.
1356	U65992DL1986PTC025085	VASCO ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
1357	U20101DL1986PTC025089	BAHUBALIDEVELOPERS PVT. LTD.
1358	U45203DL1986PTC025113	OPAL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1359	U45203DL1986PTC025115	MINTECH BUILDERS PVT. LTD.

1360	U99999DL1986PTC025134	BLUE LINE BUILDERS PVT. LTD.
1361	U24231DL1986PTC025138	RELIABLE TESTING LABORATORY PVT. LTD.
1362	U45203DL1986PTC025157	ANNU BUILDERS PVT. LTD.
1363	U70101DL1986PTC025177	BATHLA APARTMENTS PVT. LTD.
1364	U74140DL1986PTC025185	B.M.C. FINANCIAL CONSULTANTS PVT. LTD.
1365	U74210DL1986PTC025218	MAAN UTILITY SERVICES PVT. LTD.
1366	U18101DL1986PTC025231	GLAMOUR OVERSEAS PVT. LTD.
1367	U19201DL1986PTC025244	RUCHIKA FOOTWEARS PVT. LTD.
1368	U70101DL1986PTC025254	KELA SONS PVT. LTD.
1369	U27101DL1986PTC025259	KHANDELWAL ISPAT PVT. LTD.
1370	U70101DL1986PTC025281	SHIVANI CONSTRUCTIONS PVT LTD
1371	U55101DL1986PTC025288	PRASHANT MANDAKINI HOTELS PVT. LTD.
1372	U99999DL1986PTC025290	SWAMI OXYGEN PVT. LTD.
1373	U24121DL1986PTC025300	CATO POLISH INDIA PVT. LTD.
1374	U28996DL1986PTC025304	SWEETHOME APPLIANCES PVT. LTD.
1375	U99999DL1986PTC025311	HARVIL ELECTRONICS PVT. LTD.
1376	U63040DL1986PTC025315	INTER POINT TRAVELS PVT. LTD.
1377	U25209DL1986PTC025329	DURHA MACHINES PVT. LTD.
1378	U17229DL1986PTC025340	DREAM FLOOR CARPET PVT. LTD.
1379	U74140DL1986PTC025381	IMPACT MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
1380	U17111DL1986PTC025383	BUDHA OVERSEAS PVT. LTD.
1381	U30007DL1986PTC025393	J D COMSTAT PVT. LTD.
1382	U99999DL1986PTC025408	AMIT FASTNERS INDUSTRIES PVT. LTD.
1383	U15312HR1986PTC025430	CHUG(INDIA)AGGARWAL RICE MILLER PVT. LTD.
1384	U27101DL1986PTC025433	ANAND FORGINGS PVT. LTD.
1385	U99999DL1986PTC025453	SABISA ELECTRONICS PVT. LTD.
1386	U21014DL1986PTC025461	APPLE PACKS PVT. LTD.
1387	U99999DL1986PTC025479	PARMAR CHEMICALS AND FERTILIZERS PVT. LTD.
1388	U24322DL1986PTC025489	KEMIXON (INDIA) PVT. LTD.
1389	U92113DL1986PTC025502	TWENTY FIRST CENTURY STUDIOS PVT. LTD.
1390	U32101DL1986PTC025503	VOODOO ELECTRONIKS PVT. LTD.
1391	U74210DL1986PTC025521	KABA CONSULTANTS AND MARKETING PVT. LTD.
1392	U99999DL1986PTC025535	NARBADA CYCLES PVT. LTD.
1393	U51909DL1986PTC025559	UNICO MARKETING PVT. LTD.
1394	U51909DL1986PTC025585	VEGITAMINS INDIA PVT. LTD.
1395	U51909DL1986PTC025587	NATURAL HEALTH FARM PRODUCTS PVT. LTD.
1396	U99999DL1986PTC025589	INDIAN SAFTY MATCHES COMPANY PVT. LTD.
1397	U74300DL1986PTC025615	ADWORTH PUBLIC RELATION PVT. LTD.
1398	U30007DL1986PTC025616	INNOVATIVE SOFTWARE RESOURCES PVT. LTD.
1399	U19116HR1986PTC025617	SANJAY LEATHERS PVT. LTD.
1400	U74300DL1986PTC025640	SHEMS COMMUNICATIONS AMBIT PVT. LTD.
1401	U31300DL1986PTC025642	MEHBRO CABLES AND CONDUCTORS PVT LTD.
1402	U99999DL1986PTC025669	SAMSON CARGO AND TRAVELS PVT LTD.
1403	U99999DL1986PTC025674	NORTH SOUTH APPARELS PVT LTD.
1404	U99999DL1986PTC025681	BONSAI CONSULTANTS PVT LTD.
1405	U05002DL1986PTC025772	U R FISHERIES PVT LTD.
1406	U24231DL1986PTC025793	RAJASTHAN INSECTICIDES PVT LTD.
1407	U72309DL1986PTC025805	BANCAPITAL SEISTECH PVT LTD.
1408	U31909DL1986PTC025816	GENERIC HARDWAARE PVT LTD.
1409	U99999DL1986PTC025819	LACHHMAN DASS JAI KISHAN DASS AND SONS PVT LTD
1410	U99999DL1986PTC025822	DURABLE TEXTILES PVT LTD.
1411	U99999DL1986PTC025833	TOEOTIA ESTATES PVT LTD.
1412	U24299DL1986PTC025843	COSMOLAB FORMULATIONS PVT LTD.
1413	U99999DL2000PTC025850	UDAY AGENCIES PVT. LTD.
1414	U74140DL1986PTC025892	G.S.ASSOCIATED PVT LTD.

1415	U99999DL1986PTC025899	DEEPA PACKAGING AND PRINTING PVT LTD.
1416	U99999DL1986PTC025946	ANNUPAMA NURSERY AND FARMING PVT LTD.
1417	U99999DL1986PTC025948	CONCOR CONSULTANTS PVT LTD.
1418	U99999DL1986PTC025969	JINDAL FARMS PVT LTD.
1419	U34105DL1986PTC026001	PAE MOTORS PVT LTD.
1420	U93090DL1986PTC026009	NANVIK INDIA PVT LTD.
1421	U51109DL1986PTC026011	TALWAR TRADING PVT LTD.
1422	U99999DL1986PTC026016	ADNMARK CONSULTANTS PVT LTD.
1423	U99999DL1986PTC026027	VT PHARMAKON LABORATORIES PVT LTD.
1424	U99999DL1986PTC026059	AMIT PROPERTIES PVT LTD.
1425	U99999DL1986PTC026078	WELLWISHER CONSULTANTS PVT LTD.
1426	U22219DL1986PTC026096	RAJSON SPINTEX MILLS PVT LTD.
1427	U51311DL1986PTC026108	MACRO IMPEX PVT LTD.
1428	U99999DL1986PTC026126	HIND COMPUTERS TELE COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS LTD.
1429	U63040DL1986PTC026133	TOSHAR TRAVELS PVT LTD.
1430	U99999DL1986PTC026136	INDU COMUTERS AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD.
1431	U99999DL1986PTC026145	NANAK AUTO PARTS PVT LTD.
1432	U99999DL1986PTC026147	POPULAR HOUSING PROJECTS PVT LTD.
1433	U99999DL1986PTC026163	S S PAPER PRINTS PVT LTD.
1434	U72200DL1986PTC026167	APPLICON COMPUTERS PVT LTD.
1435	U34300DL1986PTC026177	MATCHLESS RADIATOR PVT LTD.
1436	U74140DL1986PTC026219	N M D CONSULTANTS PVT LTD.
1437	U99999DL1986PTC026248	SHIV SHANKER BUILDERS AND PROMOTERS PVT. LTD.
1438	U99999DL1986PTC026274	DELTA PROTEINS PVT. LTD.
1439	U99999DL1986PTC026282	SHRI GIRDHARI FOUNDARY AND WORK SHOP PVT. LTD.
1440	U26109DL1986PTC026285	VARSHNEY GLASS PVT. LTD.
1441	U18101DL1986PTC026296	CLASSIC HANDICRAFTS EMPORIUM PVT. LTD.
1442	U99999DL1986PTC026304	EMPIRE METALS AND COMMODITIES PVT. LTD.
1443	U99999DL1986PTC026308	HINDUSTAN APPAEL PVT. LTD.
1444	U74210DL1986PTC026309	PRI AVIA TECH PVT. LTD.
1445	U99999DL1986PTC026340	TOFT LABS PVT. LTD.
1446	U70101DL1986PTC026356	GHAZIABAD DEVELOPERS PVT LTD
1447	U99999DL1986PTC026369	ALLIED CONTRACTS AND INTERCONSULT PVT LTD
1448	U99999DL1986PTC026381	KANIKA HOTELS PVT. LTD.
1449	U99999DL1986PTC026391	BRACO ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
1450	U51909DL1986PTC026394	G.C. KHANNA AND COMPANY PVT. LTD.
1451	U99999DL1986PTC026407	EESHANI AUTO PVT. LTD.
1452	U99999DL1986PTC026409	S.R. MINES AND MINERALS PVT. LTD.
1453	U34300DL1986PTC026419	TECHNOCOM ASSOCIATES PVT. LTD.
1454	U99999DL1986PTC026426	VIMSA CYCLES PVT. LTD.
1455	U19202DL1986PTC026442	NOVA POLYMERS PVT. LTD.
1456	U99999DL1986PTC026447	HPM MARKETING PVT. LTD.
1457	U99999DL1986PTC026475	JAGDAMBA PROPERTIES PVT. LTD.
1458	U99999DL1986PTC026489	STEP UP ASSOCIATES PVT. LTD.
1459	U99999DL1986PTC026493	MOULIMEX KITCHEN AIDS PVT. LTD.
1460	U51109DL1986PTC026497	LINTEX EXPORTS PVT. LTD.
1461	U99999DL1986PTC026501	ABLE COMPUTER FORMS PVT. LTD.
1462	U63090DL1986PTC026506	PERFECT HANDLING AND TRANSPORT PVT. LTD.
1463	U72200DL1986PTC026521	INNOVISION MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
1464	U99999DL1986PTC026532	SAFE CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1465	U99999DL1986PTC026549	BABU THEATRES PVT. LTD.
1466	U99999DL1987PTC026562	KICHHA ORGANIC CHEMICALS PVT LTD
1467	U99999DL1987PTC026564	PROMINENT EXPORTS PVT LTD
1468	U51909DL1987PTC026569	FAMOUS SALES AND MARKETING CO PVT LTD

1469	U99999DL1987PTC026570	TAMBEE ERECTORS PVT LTD
1470	U99999DL1987PTC026592	BALAJI FARMS PVT LTD
1471	U26931DL1987PTC026611	PARSURAM BRICK KILN PVT LTD
1472	U31300DL1987PTC026626	SHREE KAILASH MANSAROVAR ELECTRONICS PVT LTD
1473	U99999DL1987PTC026666	STERLING OIL PRODUCTS PVT LTD
1474	U51311DL1987PTC026672	MAYA HOUSE HOLD APPLIANCES PVT LTD
1475	U99999DL1987PTC026687	APEX CORPORATE ADVISORS PVT LTD
1476	U99999DL1987PTC026704	SAG ASSOCIATES PVT LTD
1477	U31900DL1987PTC026809	TRIVENI MICROCIRCUITS PVT LTD
1478	U99999DL1987PTC026837	SHIV SHAKTI ENGINEERS PVT LTD
1479	U70101DL1987PTC026838	BUDHVIHAR HOUSING AND ESTATES PVT LTD
1480	U99999DL1987PTC026853	AUMESIA CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1481	U99999DL1987PTC026875	SARVODAYA PLASTIC INDUSTRIES PVT. LTD.
1482	U99999DL1987PTC026884	K.N.D. STEEL INDUSTRIES PVT. LTD.
1483	U99999DL1987PTC026896	TRAVERSE TOURS AND SERVICES PVT. LTD.
1484	U15319DL1987PTC026905	GAJANAND FLOUR MILLS PVT. LTD.
1485	U45201DL1987PTC026908	SUNRISE REAL ESTATE PVT. LTD.
1486	U63040DL1987PTC026917	SAT PROPERTIES AND BUILDERS PVT. LTD.
1487	U36999DL1987PTC026933	INSULTEK ENGINEERS PVT. LTD.
1488	U18101DL1987PTC026943	ARCHANA HANDICRAFTS PVT. LTD.
1489	U74140DL1987PTC026951	L K R IMPEX AND CONSULTANTS PVT. LTD.
1490	U99999DL1987PTC026975	DLR MARKETING PVT. LTD.
1491	U51506DL1987PTC026976	RENTZ COMPUTERS PVT. LTD.
1492	U74999DL1987PTC026987	SUPREME SCANNING SERVICES PVT. LTD.
1493	U15201DL1987PTC026988	SHARDA ICE FACTORY PVT. LTD.
1494	U99999DL1987PTC026990	HYSECURITY SYSTEMS PVT. LTD.
1495	U51311DL1987PTC027019	ARTHA EXPORTS PVT. LTD.
1496	U74210DL1987PTC027037	UNITED APARTMENTS (INDIA) PVT. LTD.
1497	U99999DL1987PTC027052	CREATIVE TECHNOLOGIES PVT. LTD.
1498	U99999DL1987PTC027109	CARNIK ENGINEERING AND TRADING COMPANY PVT. LTD.
1499	U99999DL1987PTC027111	KANSONS PLASTICS PVT. LTD.
1500	U99999DL1987PTC027134	STELLER CALENDERS AND PLANNERS PVT. LTD.
1501	U36999DL1987PTC027146	SHIVKARAN FISHERIES PVT. LTD.
1502	U74210DL1987PTC027208	SNEH CONTRACTS PVT. LTD.
1503	U72200DL1987PTC027218	ATLAS COMUTERS AND COMMUNICATIONS PVT. LTD.
1504	U99999DL1987PTC027242	UNIGRAPHIC EQUIPMENT PVT. LTD.
1505	U99999DL1987PTC027280	ATULIT AGENCIES INDIA PVT. LTD.
1506	U99999DL1987PTC027289	GILL AUTO INDUSTRIES PVT. LTD.
1507	U74210DL1987PTC027306	J K STEEL ENGINEERS PVT. LTD.
1508	U99999DL1987PTC027308	KMN OBEROISON DYING AND PROCESSING MILLS PVT. LTD.
1509	U51398DL1987PTC027309	PRIYA SHIPBREAKERS PVT. LTD.
1510	U99999DL1987PTC027348	ROYAL OVERSEAS PVT. LTD.
1511	U70109DL1987PTC027442	R V DEVELOPERS PVT. LTD.
1512	U99999DL1987PTC027484	SIROHI SYNTHETICS PVT LTD
1513	U99999DL1987PTC027510	UPPERIND PHARMA PVT LTD
1514	U99999DL1987PTC027518	UNITRON ELECTRONICS PVT LTD
1515	U99999DL1987PTC027538	KHANDELWAL METALS PVT LTD
1516	U99999DL1987PTC027556	AD BAZAAR (INDIA) PVT LTD
1517	U45202DL1987PTC027605	SHARMA DEVELOPERS AND COLONIZERS PVT.LTD
1518	U51109DL1987PTC027630	KAY CHOON CONNECTIONS PVT LTD
1519	U45201DL1987PTC027646	NANDINI ESTATES PVT LTD
1520	U99999DL1987PTC027647	FRIENDS ROLLING MILLS PVT LTD
1521	U99999DL1987PTC027650	SUNROOFING SHEETS PVT LTD
1522	U99999DL1987PTC027671	VICTOR ENGINEERING CO PVT LTD
1523	U99999DL1987PTC027674	K AND K PACIFIC PVT LTD

1524	U99999DL1987PTC027680	SUPER TRAVELS PVT LTD
1525	U51909DL1987PTC027689	ANNIE EXPORTS PVT LTD
1526	U31402DL1987PTC027690	SUMMIT ACCUMULATORS PVT LTD
1527	U15139DL1987PTC027691	HPL FOODS (INDIA) PVT LTD
1528	U99999DL1987PTC027714	UPDATE PHARMACEUTICALS PVT LTD
1529	U19202DL1987PTC027717	GENUIN LEATHER PVT LTD
1530	U27109DL1987PTC027724	UNISERVE PIPES PVT LTD
1531	U63040DL1987PTC027736	SAN TRAVELS PVT LTD
1532	U74140DL1987PTC027742	WAHAL ENGINEERS PVT LTD
1533	U36991DL1987PTC027754	HEART TO HEART CARD CO PVT LTD
1534	U15549DL1987PTC027763	PEP DRINKS PVT LTD
1535	U51432DL1987PTC027783	AMA BUILDERS PVT LTD
1536	U99999DL1987PTC027808	TINA PLAS PVT LTD
1537	U99999DL1987PTC027832	PRERIT SPORTS AND ENGINEERING PVT LTD
1538	U99999DL1987PTC027834	GRACE FOOTWEAR PVT LTD
1539	U99999DL1987PTC027855	ARCHIVES PUBLISHERS PVT LTD
1540	U22121DL1987PTC027900	PVR PUBLICATIONS PVT LTD
1541	U29305DL1987PTC027905	GROVER HOME APPLIANCES PVT LTD
1542	U71110DL1987PTC027950	FALCON CAR RENTAL PVT LTD
1543	U99999DL1987PTC027954	LAL OVERSEAS PVT LTD
1544	U18101DL1987PTC027964	FIRST RESOURCE PVT LTD
1545	U51909DL1987PTC027996	RELIABLE OVERSEAS PVT LTD
1546	U99999DL1987PTC028011	ALKON LABORATORIES PVT LTD
1547	U99999DL1987PTC028022	COMPUTER LAND PVT LTD
1548	U99999DL1987PTC028078	INDUS TECHNOLOGIES PVT LTD
1549	U18101DL1987PTC028087	PAREEKSHA FASHION SPVT LTD
1550	U28997DL1987PTC028110	RATTAN APPLIANCES PVT LTD
1551	U51909DL1987PTC028117	VARUN ASSOCIATES PVT LTD
1552	U99999DL1987PTC028122	A C K ASSOCIATES PVT LTD
1553	U24139DL1987PTC028128	QUALITY SYNTEX PVT LTD
1554	U99999DL1987PTC028130	SUBHAM FOAMS PVT LTD
1555	U27109DL1987PTC028132	A R STEELS PVT LTD
1556	U99999DL1987PTC028155	MANAHAL IMPEX PVT LTD
1557	U51909DL1987PTC028156	JACKPOT EXPORTS PVT. LTD.
1558	U99999DL1987PTC028169	SUBIJ PACKAGING PVT LTD
1559	U74110DL1987PTC028177	FICON SERVICES PVT LTD
1560	U99999DL1987PTC028188	DURGA POLY PACK INDUSTRIES PVT LTD
1561	U99999DL1987PTC028196	SAFETY STEELS ROPES PVT LTD
1562	U01122DL1987PTC028204	MID MAC BUILDERS PVT LTD
1563	U99999DL1987PTC028209	KEYWANS CREATION PVT LTD
1564	U85110DL1987PTC028214	S.B. HEALTH RESEARCH INSTITUTE PVT LTD
1565	U99999DL1987PTC028215	V.K. KASREEJA ASSOCIATES PVT LTD
1566	U99999DL1987PTC028216	KIBS ASSOCIATES PVT LTD
1567	U30007DL1987PTC028226	PLUS COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
1568	U25112DL1987PTC028239	AKSHAYA AUTO TUBES AND RUBBER PRODUCTS PVT LTD
1569	U99999DL1987PTC028258	LAHORE MOTOR DRIVING COLLEGE PVT LTD
1570	U25111DL1987PTC028262	SACHDEVA RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
1571	U99999DL1987PTC028299	RAVINDRA PROPERTIES PVT LTD
1572	U99999DL1987PTC028319	SODHI FREIGHT CARRIER PVT LTD
1573	U15311DL1987PTC028320	GHAZIABAD FLOUR MILLS PVT LTD
1574	U63040DL1987PTC028322	FACILITATION TRAVELS PVT LTD
1575	U99999DL1987PTC028331	SUNAYANA HOUSING CO PVT LTD
1576	U74140DL1987PTC028357	GLOBEFERN (INDIA) PVT LTD
1577	U25209DL1987PTC028359	SHAH CANE PVT LTD
1578	U99999DL1987PTC028392	MILTON KEYS OVERSEAS PVT LTD

1579	U99999DL1987PTC028405	NEW ROYAL FIRE WORKS MANUFACTURERS PVT LTD
1580	U65921DL1987PTC028407	SAGARIKA FRATERNITY PVT LTD
1581	U99999DL1987PTC028428	CROWN TRAVELS PVT LTD
1582	U99999DL1987PTC028436	STARTRITE ELECTRONICS AND ENGINEERING PVT LTD
1583	U99999DL1987PTC028440	GIRIRAJ OVERSEAS PVT LTD
1584	U99999DL1987PTC028449	ODR TRAVELS AND CARGO MOVERS PVT LTD
1585	U99999DL1987PTC028453	PRECITECH DEVICES PVT LTD
1586	U45201DL1987PTC028456	SUMANGALAM BUILDERS PVT LTD
1587	U27105HR1987PTC028463	KALKA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1588	U19129DL1987PTC028483	NAVEEN EXPORTS PVT LTD
1589	U99999DL1987PTC028490	KULLENBERG HJORTH (INDIA) PVT. LTD
1590	U45201DL1987PTC028520	RAZA AND RAJA CO PVT LTD
1591	U30007DL1987PTC028533	SAR TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD
1592	U99999DL1987PTC028567	IMAJOR PRODUCTIONS PVT LTD
1593	U99999DL1987PTC028615	BABALS ASSOCIATES PVT LTD
1594	U45200DL1987PTC028624	ASHOK KAMAL CAPITAL BUILDERS PVT LTD
1595	U99999DL1987PTC028627	SILGA METALS PVT LTD
1596	U99999DL1987PTC028640	FOURWAYS TOURS INDIA PVT LTD
1597	U24232DL1987PTC028668	UNIMAC LABORATORIES PVT LTD
1598	U99999DL1987PTC028705	UNI BALLS PVT LTD
1599	U24222DL1987PTC028708	T. C. GULIANI AND CO PVT LTD
1600	U99999DL1987PTC028709	GANPATI JEWELS PVT LTD
1601	U99999DL1987PTC028715	JANAPRIYA ASSOCIATES PVT LTD
1602	U99999DL1987PTC028717	HARI CHAND JAI RAM SHAH PVT LTD
1603	U20299DL1987PTC028734	SATYA PLYWOOD INDUSTRIES PVT LTD
1604	U99999DL1987PTC028751	KOHINOOR REAL ESTATES PVT LTD
1605	U99999DL1987PTC028767	MEWAT GRIT UDYOG PVT LTD
1606	U63040DL1987PTC028780	CONTOUR TRAVELS PVT LTD
1607	U99999DL1987PTC028784	ABS EXIM PVT LTD
1608	U99999DL1987PTC028800	JAGDAMBA METALS PVT LTD
1609	U51909DL1987PTC028820	MECBER ASSOCIATES PVT LTD
1610	U15141DL1987PTC028829	NEETU SHAH REFINERY PVT LTD
1611	U99999DL1987PTC028830	DELTA DESIGNS PVT LTD
1612	U92120DL1987PTC028837	VISTAR PRESENTATIONS PVT LTD
1613	U34300DL1987PTC028845	RASVI ENGINEERING PVT LTD
1614	U51909DL1987PTC028852	PARAGAON PAINTS AND CONTRACTS PVT LTD
1615	U99999DL1987PTC028857	P. K. POULTRY FARM PVT LTD
1616	U33203DL1987PTC028861	R. K. OPTICAL SERVICES PVT LTD
1617	U99999DL1987PTC028869	FOUR SEASONS FOODS PVT LTD
1618	U99999DL1987PTC028873	OPTIMA ELECTRONICS INDIA PVT LTD
1619	U99999DL1987PTC028890	CON FREIGHT PVT LTD
1620	U45201DL1987PTC028896	SLF BUILDERS PVT LTD
1621	U63040DL1987PTC028905	SHIVANI TRAVELS PVT LTD
1622	U99999DL1987PTC028938	KHAITAN PHARMACEUTICALS PVT LTD
1623	U51501DL1987PTC028998	VICTOR FORGINGS PVT LTD
1624	U99999DL1987PTC029016	SUBER CEE VITAMINS PVT LTD
1625	U27104DL1987PTC029018	DIAMOND FASTNERS PVT LTD
1626	U51221HR1987PTC029029	CRAZY FOODS PVT LTD
1627	U19119DL1987PTC029030	CITY PLYWOOD PVT LTD
1628	U99999DL1987PTC029089	RISING STAR ELECTRICALS PVT LTD
1629	U99999DL1987PTC029092	SHARDA HOMEIO LABORATORIES PVT LTD
1630	U99999DL1987PTC029099	KINGS ASSOCIATES PVT LTD
1631	U99999DL1987PTC029101	NIRMALA FERTILIZERS AND CHEMICALS PVT LTD
1632	U33130DL1987PTC029109	DENEUZEN ENGINEERING PVT LTD
1633	U92114DL1987PTC029116	SPARK COLOUR LAB PVT LTD

1634	U63040DL1987PTC029123	SCAND INAVIAN OVERSEAS TRAVELS AND TRAOE PVT LTD
1635	U99999DL1987PTC029124	MUKESH WIRE NETTING PVT LTD
1636	U99999DL1987PTC029150	ATARI CONSULTANTS PVT LTD
1637	U99999DL1987PTC029159	MOON PRINTERS AND PUBLICATION PVT LTD
1638	U23201DL1987PTC029203	S. AUTOMOBILES SPECIALITIES AND LUBRICANTS PVT LTD
1639	U28112DL1987PTC029222	ESS VEE AND ASSOCIATES PVT LTD
1640	U99999DL1987PTC029226	INSAF AGENCIES PVT LTD
1641	U99999DL1987PTC029231	D.A. PLASTICS PVT LTD
1642	U32101DL1987PTC029241	TRIUNE ELECTRONICS PVT LTD
1643	U70101DL1987PTC029245	AVANTI ESTATES PVT LTD
1644	U70101DL1987PTC029247	GOMTI ESTATES PVT LTD
1645	U31200DL1987PTC029266	S.M. CONSTRUCTIONS PVT LTD
1646	U17119HR1987PTC029268	R.C. WOOLEN INDUSTRIES PVT LTD
1647	U52322DL1987PTC029269	VICTOR IMPEX PVT LTD
1648	U45202DL1987PTC029294	KESHA ENGINEERS PVT LTD
1649	U99999DL1987PTC029306	SUBH PAPER PRODUCTS PVT LTD
1650	U25201DL1987PTC029314	S.S. ANCILLARIES NIRMAN PVT LTD
1651	U99999DL1987PTC029321	EUFCEE ENTERPRISES PVT LTD
1652	U99999DL1987PTC029329	GUJRATIA BUILDERS PVT LTD
1653	U99999DL1987PTC029337	AFAR ENERGY AND FUELS PVT LTD
1654	U70109DL1987PTC029353	KLPS ESTATES PVT LTD
1655	U15209DL1987PTC029386	BATRA HOME PRODUCTS PVT LTD
1656	U15139HR1987PTC029407	SUMITRA BREWERIES PVT LTD
1657	U99999DL1987PTC029413	SOUTH ASIA CONSTRUCTION PVT LTD
1658	U52396DL1987PTC029445	SUNITA ASSOCIATES PVT LTD
1659	U99999DL1987PTC029452	SARASWATI TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
1660	U99999DL1987PTC029477	L R TYRE INDUSTRIES PVT LTD
1661	U99999DL1987PTC029519	CAPITAL SKIN CO PVT LTD
1662	U51109DL1987PTC029545	GM ASSOCIATES PVT LTD
1663	U99999DL1987PTC029559	CONSCIOUS IMPEX PVT LTD
1664	U63040DL1987PTC029573	PARAMOUNT AIR TOURS AND TRAVELS PVT LTD
1665	U63090DL1987PTC029650	FAST MOVERS CARGO AGENTS PVT LTD
1666	U18101DL1987PTC029667	PUSHPEE KNITTING SYSTEMS PVT LTD
1667	U92112DL1987PTC029676	AAKRITI MAGHAVISION PVT LTD
1668	U99999DL1987PTC029690	ZEBRA SERVICES PVT LTD
1669	U24238DL1987PTC029692	TIDCO ASSOCIATES PVT LTD
1670	U45201DL1987PTC029696	NARAIN BUILDERS PVT LTD
1671	U99999DL1987PTC029709	S.K. COKERIES PVT LTD
1672	U99999DL1987PTC029736	PRATYABHOOT AVAS VIKAS PVT LTD
1673	U51226DL1987PTC029814	LACTOPAC MARKETING PVT LTD
1674	U99999DL1987PTC029835	A.J. KNITTING MILLS PVT LTD
1675	U99999DL1987PTC029843	UNI INSURANCE PLANNERS AND INDEMNITY CONSULTANTS PVT LTD
1676	U52190DL1987PTC029863	SUMTI AGENCIES PVT LTD
1677	U31909DL1987PTC029868	UNITEC CONTROLS PVT LTD
1678	U74210DL1987PTC029875	TALUPULA ENGINEERING CONSTRUCTION CO PVT LTD
1679	U18101DL1987PTC029876	FASHIONWAYS OVERSEAS PVT LTD
1680	U99999DL1987PTC029879	GEETA FRUITS AND VEGETABLES PVT LTD
1681	U99999DL1987PTC029888	A L GASES PVT LTD
1682	U74210DL1987PTC029893	B.E. SERVICES PVT LTD
1683	U99999DL1987PTC029987	A S A RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1684	U32109HR1987PTC029997	A.A. TECHNOLOGY 2000 PVT LTD
1685	U99999DL1987PTC029999	HIM SILEN INDIA PVT LTD
1686	U32201DL1987PTC030002	MUKESH ELECTRONICS PVT LTD
1687	U45201DL1987PTC030014	PRIYADARSHINI BUILDERS PVT LTD

1688	U51109DL1987PTC030069	SPUTNIK EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
1689	U99999DL1987PTC030149	J D M EXPORTS (INDIA) PVT LTD
1690	U31300DL1988PTC030171	HIMALAYA TELECORDS PVT LTD
1691	U15135HR1988PTC030189	CHAMPION EDIBLE PRODUCTS (P) LTD
1692	U01119HR1988PTC030197	JAWAR FARMS PVT LTD
1693	U26921HR1988PTC030198	ARYA CERAMICS INDUSTRIES PVT LTD
1694	U33119DL1988PTC030219	VILA HOSPILLEX (INDIA) PVT LTD
1695	U99999DL1988PTC030222	PRECON CONTROLS PVT LTD
1696	U22219HR1988PTC030224	EMSONS PRESS PVT LTD
1697	U01409DL1988PTC030232	VATIKA ESTATES PVT. LTD.
1698	U27202HR1988PTC030234	SUPER-TECH WIRES PVT. LTD.
1699	U29299DL1988PTC030239	A TO Z ENGINEERS (INDIA) PVT LTD
1700	U99999DL1988PTC030257	QUACTRO-DIGITAL SYSTEMS PVT LTD
1701	U32300DL1988PTC030285	BABBER VISION INDIA PVT LTD
1702	U99999DL1988PTC030293	TRIGEN CONSULTANTS PVT LTD
1703	U01405HR1988PTC030308	G.B. GINNING PRESSING AND OIL MILLS PVT. LTD
1704	U25202HR1988PTC030326	DUTTA PACK-O-PRINT PRIVATE LIMITED
1705	U55101HR1988PTC030335	SHABNAM RESORTS PVT LTD
1706	U74999HR1988PTC030346	ROMA PROFILES PRIVATE LTD.
1707	U31300HR1988PTC030356	SIYA RAM ELECTRODES PVT LTD
1708	U99999DL1988PTC030359	PARAG FOOD PRODUCTS PVT LTD
1709	U26915HR1988PTC030382	JAIN CERAMICS PVT LTD
1710	U99999DL1988PTC030410	SYNERGY TECHNOLOGIES PVT LTD
1711	U31300DL1988PTC030416	KANISHKA CABLES AND WIRES PVT LTD
1712	U99999DL1988PTC030440	MANORAMA VAID AND SONS PVT LTD
1713	U17110HR1988PTC030446	A.V. TEXTILES PVT LTD
1714	U33125DL1988PTC030449	HARYANA SCIENTIFIC CO PVT LTD
1715	U15311HR1988PTC030450	PACS ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1716	U99999DL1988PTC030462	NEW INDIA MARKETING PVT LTD
1717	U99999DL1988PTC030474	JACKY ENGINEERS PVT LTD
1718	U99999DL1988PTC030476	VENTURE COMPUTRONICS PVT LTD
1719	U70101HR1989PTC030499	STAR LAND SALES PVT LTD
1720	U99999DL1988PTC030524	UNIFICAL HOUSING AND PROJECTS SERVICES PVT LTD
1721	U31909DL1988PTC030530	ASSOCIATED INTERCOM SERVICES (P) LTD
1722	U31101HR1989PTC030555	IRAM ELECTRONICALS PVT. LTD.
1723	U24294HR1989PTC030584	MEGHA MUSICATTES PVT. LTD.
1724	U22110DL1988PTC030590	KAYSONS PRINTERS PVT LTD
1725	U99999DL1988PTC030602	CLASSIC COLLECTIONS PVT LTD
1726	U45203DL1988PTC030604	VISHWAKARMA CONSTRUCTORS PVT LTD
1727	U01111HR1989PTC030607	PEE DEE AGRO INDUSTRIES PVT. LTD
1728	U14291HR1989PTC030628	BLACK DIAMOND MINES AND GRANITE PVT. LTD.
1729	U99999DL1988PTC030638	JAGDAMBA STEEL TUBES PVT LTD
1730	U99999DL1988PTC030644	RAJ GANESH FINANCIERS (P) LTD
1731	U80301DL1988PTC030666	UNIVAC SERVICES PVT LTD
1732	U29230HR1989PTC030668	LUXMI RESEARCH LABORATORY PVT. LTD.
1733	U35301DL1988PTC030675	IMPRIMIS TRIDENT PVT LTD
1734	U99999DL1988PTC030689	HINDUSTAN ROLLING SHUTTERS AND ENGINEERING WORKS (P) LTD
1735	U99999DL1988PTC030696	SIYAM MACH-EQUIP PVT LTD
1736	U34300HR1989PTC030700	MAYANI AUTO INDUSTRIES PVT. LTD
1737	U99999DL1988PTC030705	SHARDA AND ASSOCIATES CO PVT LTD
1738	U17115DL1988PTC030715	SACHDEVA OVERSEAS (P) LTD
1739	U99999DL1988PTC030740	KEY VIDEOTECH PVT LTD
1740	U99999DL1988PTC030759	RUCHIKA PROPERTIES PVT LTD
1741	U99999DL1988PTC030761	SIGNET LEATHERITE PVT LTD

1742	U29120DL1988PTC030767	FLOWERY CONTROLS PVT LTD
1743	U74210DL1988PTC030768	D A. INDUSTRIAL CONSULTANTS PVT LTD
1744	U70101DL1988PTC030780	RAHUL PROMOTORS PVT LTD
1745	U60231DL1988PTC030786	RAFCO ROADWAYS (P) LTD
1746	U74300DL1988PTC030817	ADVIS COMMUNICATIONS PVT LTD
1747	U70101DL1988PTC030837	PELICAN BUILDERS PVT LTD
1748	U99999DL1988PTC030914	SWARMIL ASSOCIATES PVT LTD
1749	U99999DL1988PTC030925	GRAFIC PESTICIDES PVT LTD
1750	U34300HR1990PTC030960	ROSS STEERINGS PVT. LTD.
1751	U99999DL1988PTC030973	R R.MARKETING PVT LTD
1752	U55101DL1988PTC030994	FAIRWAY HOTEL ENTERPRISES PVT LTD
1753	U99999DL1988PTC031000	S A L SHIPPING PVT LTD
1754	U36991HR1990PTC031005	MONA STATIONERY PRODUCTS PVT. LTD.
1755	U24232HR1990PTC031027	EXTERNAL PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1756	U99999DL1988PTC031027	MULTIPLE CONSULTANTS PVT LTD
1757	U51490HR1990PTC031064	ARAVALI ENTERPRISES PVT. LTD.
1758	U99999DL1988PTC031073	CRISPY EXPORTS (INDIA) PVT LTD
1759	U24299DL1988PTC031121	HANSA OIL CO PVT LTD
1760	U99999DL1988PTC031150	DELTA POLYMERS PVT LTD
1761	U99999DL1988PTC031173	MATCHLESS AIRCONDITIONING COMPANY PVT LTD
1762	U18101DL1988PTC031176	CRAFAB EXPORTS P. LTD.
1763	U74999HR1991PTC031185	B.R. GASES PVT.LTD.
1764	U26910HR1991PTC031206	KUSAM CERAMICS PVT.LTD.
1765	U60231DL1988PTC031207	ABC CARGO CARRIERS P. LTD.
1766	U99999DL1988PTC031232	MASTER CASSETIE P. LTD.
1767	U63090DL1988PTC031246	ABC FREIGHTERS P. LTD.
1768	U17297HR1991PTC031263	CHARLE SPINNERS PVT. LTD.
1769	U99999DL1988PTC031283	KUNAL LAND AND COLONIER P. LTD.
1770	U99999DL1988PTC031288	SUBH CONSULTANTS P. LTD.
1771	U31300HR1991PTC031319	R.B.C. SMELTING PVT.LTD.
1772	U99999DL1988PTC031325	EASTEND IMPEX P. LTD.
1773	U51226DL1988PTC031389	GANESH PACKAGING PVT LTD
1774	U70100HR1991PTC031396	RUSTOGI BUILDERS PVT.LTD.
1775	U99999DL1988PTC031431	PANORAMIC MANTREX (INDIA) PVT LTD
1776	U99999DL1988PTC031441	SMC ENGINEERING PVT LTD.
1777	U17297HR1991PTC031442	J.P. TEXTILES PVT.LTD.
1778	U45201DL1988PTC031447	SHIV INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CONSULTANTS P. LTD.
1779	U99999DL1988PTC031448	DIPANK MARKETING ASSOCIATES PVT LTD.
1780	U99999DL1988PTC031450	SONU EXPORTS PVT LTD.
1781	U70101DL1988PTC031467	JHANKAR CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD.
1782	U99999DL1988PTC031478	PROMINENT VAULTS PVT LTD.
1783	U74999HR1991PTC031484	SKAMS EXPO INDIA PVT.LTD.
1784	U29120DL1988PTC031488	DEW LIKE ENGINEERS PVT LTD.
1785	U15544HR1991PTC031490	VASHIST ICE AND COLD STORGE PVT.LTD.
1786	U51909DL1988PTC031509	DALIP OIL INDUSTRIES PVT LTD.
1787	U99999DL1988PTC031514	J R MUSIC PVT LTD.
1788	U24299DL1988PTC031521	SHIVALIK PAINTS PVT LTD.
1789	U21012DL1988PTC031535	NAV BHARAT PULPS PVT LTD.
1790	U72200DL1988PTC031537	ANUJ SOFTWARE PVT LTD.
1791	U74999DL1988PTC031553	DUBE LIGHTER AIR PVT LTD.
1792	U24246HR1992PTC031587	RANS AND DOTTIES EXPORTS PVT.LTD.
1793	U21014HR1992PTC031604	RAJSON THERMOPACK PVT.LTD.
1794	U74999DL1988PTC031609	K M SOFETEK PVT LTD.
1795	U31900DL1988PTC031612	TECHNOCRAT MARKETING PVT LTD.

1796	U32109DL1988PTC031618	OLYMPUS ELECTRONICS PVT LTD.
1797	U74999DL1988PTC031635	BANSAL FURNITURE WORKS PVT LTD.
1798	U19201DL1988PTC031638	FIXWELL FOOTWEARS PVT LTD.
1799	U99999DL1988PTC031653	BHUPINDER BUILDERS AND DESIGNERS PVT LTD.
1800	U26933HR1992PTC031657	SERVESHER CERAMICS PVT. LTD.
1801	U27109DL1988PTC031661	ZENON TRADE LINKS PVT LTD.
1802	U99999DL1988PTC031693	LN MARKET LINK PVT LTD.
1803	U65921DL1988PTC031701	FUHAR BUILDERS PVT LTD
1804	U99999DL1988PTC031711	CHIVALIKA BUILDERS AND PROMOTORS PVT LTD
1805	U24241HR1992PTC031731	J.T. HEALTH CARE PVT. LTD.
1806	U27109HR1992PTC031735	SUPERHIT TRADING COMPANY PVT. LTD.
1807	U74140DL1988PTC031738	FINPRO CONSULTANTS PVT LTD
1808	U99999DL1988PTC031757	VIJMAN FAMCO PRINTERS PVT LTD
1809	U29120HR1992PTC031762	SEICO PNEUMATICS PVT. LTD
1810	U17222DL1988PTC031766	ZEPHYR IMPEX PVT LTD
1811	U74910HR1992PTC031777	YASIN EXPORTS PVT. LTD.
1812	U25199HR1992PTC031802	NU-POLITE JOINTINGS (INDIA) PVT. LTD.
1813	U13204DL1988PTC031813	TREND SETTERS MATELS PVT LTD
1814	U99999DL1988PTC031829	SATLITE BUILDERS PVT LTD
1815	U99999DL1988PTC031832	MORNING CONSULTANTS PVT LTD
1816	U85110HR1992PTC031836	CHANDRAWATI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH CENTRE PVT LTD
1817	U24239HR1992PTC031843	NIPCON CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
1818	U99999DL1988PTC031843	AMAR PLAST PVT LTD
1819	U51909DL1988PTC031864	POLYGON HOTEL ENGINEERS AND TRADERS PVT LTD
1820	U74140DL1988PTC031874	E.MEX COMMERCIOTECH PVT LTD
1821	U51100DL1988PTC031878	SHRESTHA IMPEX PVT LTD
1822	U99999DL1988PTC031883	MAHESHWARI YARN SUPPLY AGENCIES PVT LTD
1823	U99999DL1988PTC031885	NOIDA ENGINEERS PVT LTD
1824	U65929HR1993PTC031890	V.V. CONSULTANTS PVT LTD
1825	U20211DL1988PTC031923	SONA LAMINATES PVT LTD.
1826	U51100DL1988PTC031951	SHUBIZ EXPORT PVT LTD.
1827	U21093DL1988PTC031954	N. KUMAR KANODIA PAPERS PVT LTD.
1828	U27106HR1993PTC031967	VYVERSRAIYA ENERGY CONSERVATION SYSTEMS PVT LTD
1829	U29211HR1993PTC031973	KST EXTRUDERS PVT LTD
1830	U99999DL1988PTC031980	DHARA TRADERS PVT LTD.
1831	U80221DL1988PTC032033	SHIVALIK SHIKSHA PRANALI PVT LTD.
1832	U32109HR1993PTC032035	N.K. COMPUTER INDUSTRIES PVT LTD.
1833	U45102DL1988PTC032044	AHUJA CECON INDIA PVT LTD.
1834	U15201HR1993PTC032048	YOGESH MILKOPRODUCTS PVT.LTD.
1835	U74999HR1993PTC032053	ATUL STAMPINGS PVT LTD
1836	U99999DL1988PTC032064	RELIANT BUILDERS PVT LTD.
1837	U99999DL1988PTC032065	DIALEX MARKETING SERVICES PVT LTD.
1838	U74999HR1993PTC032068	KATARIA POTTERIES PVT LTD
1839	U74140DL1988PTC032093	DELPHI CONSULTANTS PVT LTD.
1840	U85110DL1988PTC032134	BALAJI MEDICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH CENTRE PVT LTD.
1841	U26932HR1993PTC032142	EVEREST POLY PIPES PVT LTD
1842	U51100DL1988PTC032146	CROSS MEN'S APPERALS PVT LTD.
1843	U24230DL1988PTC032155	JINDAL PLASTICIERS PVT LTD.
1844	U30009HR1993PTC032163	DEEPAK COMPUTERS PVT LTD
1845	U23200DL1988PTC032184	BRITEFLO FILTERS PVT LTD.
1846	U31200DL1988PTC032193	RILOKSUN ELECTRONICS PVT LTD.
1847	U51909HR1994PTC032198	AVTAR ENGINEERS PVT LTD
1848	U99999DL1988PTC032207	MAYAR MOTELS PVT.LTD

1849	U24299DL1988PTC032227	KAYO PACKCHEM PVT LTD
1850	U51311HR1994PTC032235	JHANKRITA EXPORTS PVT LTD
1851	U33201HR1994PTC032240	K.K. LABO TECH INSTRUMENTS PVT LTD
1852	U63040DL1988PTC032247	EXPRESS CONNECTIONS PVT LTD
1853	U65921DL1988PTC032250	RAKSHA ESTATES PVT LTD
1854	U27104DL1988PTC032254	CIC ENGINEERING PVT LTD
1855	U17231HR1994PTC032256	G.T. COTSYN PVT LTD
1856	U51505HR1994PTC032258	COMPETENT OVERSEAS PVT LTD
1857	U74999HR1994PTC032262	MA MA INTERNATIONAL PVT LTD
1858	U28113HR1994PTC032264	ARIHANT FASTNERS PVT LTD
1859	U24119HR1994PTC032272	HARYANA INORGANICS PVT LTD
1860	U99999DL1988PTC032288	DRONE TIMBER AND PLYWOOD PVT LTD
1861	U32101DL1988PTC032292	MARUTI COPPER INDUSTRIES PVT LTD
1862	U74140HR1994PTC032305	VISHWA KARMA BUSINESS CONSULTANTS PVT LTD
1863	U29199HR1994PTC032309	VALLABH ENTERPRISES AND SECURITIES PVT LTD
1864	U99999DL1988PTC032310	SHIPRA MACHINERY PVT LTD.
1865	U72501DL1988PTC032315	MEGA INFORMATICS PVT LTD.
1866	U01121HR1994PTC032320	PACE MUSHROOMS PVT LTD
1867	U29120DL1988PTC032329	SEVARTH BOREWELL PVT LTD.
1868	U17111HR1994PTC032363	GANGOTRI HANDICRAFTS PVT LTD
1869	U31909DL1988PTC032373	MONEX ELECTRONICS PVT LTD.
1870	U25209DL1988PTC032380	SOLITAIRE PLASTICS PVT LTD.
1871	U25209DL1988PTC032383	AAKANSHA INDUSTRIAL MACHINES SUPPLY AND EXPORTS PVT LTD.
1872	U60231DL1988PTC032416	TRANS HIMALAYAN EXPEDITIONS PVT LTD.
1873	U45201DL1988PTC032424	ABHIJIT BUILDERS PVT LTD.
1874	U63090DL1988PTC032429	SPEEDWAYS FREIGHT FORWARDERS PVT LTD.
1875	U31300DL1988PTC032438	FRIENDS ARTS AND CRAFTS PVT LTD.
1876	U99999DL1988PTC032448	DAK ENGINEERING ASSOCIATES PVT LTD
1877	U72100DL1988PTC032457	WISE SOFTWARE SYSTEMS PVT LTD
1878	U45201DL1988PTC032461	GALAXY CONSTRUCTIONS PVT LTD
1879	U17111HR1994PTC032471	NISTHA YARNS PVT LTD
1880	U18101DL1988PTC032482	POOJHA DRESSES PVT LTD
1881	U31909DL1988PTC032496	RAGHU TECHNOLOGIES PVT LTD
1882	U22219DL1988PTC032502	ABHIVRIDHI PUBLISHERS PVT LTD
1883	U25191HR1995PTC032521	SIYARAM POLYTUBES (INDIA) PVT. LTD.
1884	U74999HR1995PTC032522	SAMEER POTTERIES PVT. LTD.
1885	U40200HR1995PTC032523	KUBER GASES PVT. LTD.
1886	U23201HR1995PTC032530	FATEHABAD FUEL PVT. LTD.
1887	U15421HR1995PTC032545	K.M.S. REFLECTORES PVT. LTD.
1888	U29191HR1995PTC032547	HOODA ESS AGENCIES PVT. LTD.
1889	U17299DL1988PTC032555	DIAMOND SILK MILL PVT LTD
1890	U01112DL1988PTC032558	PROGRESSIVE HYBRIDS PVT LTD
1891	U51311HR1995PTC032566	WINWELL EXIM PVT LTD
1892	U74999HR1995PTC032567	VIKI TECHNICAL SUPPORT AND SERVICES PVT. LTD.
1893	U99999DL1988PTC032568	TON SUR TON INDIA PVT. LTD.
1894	U99999DL1988PTC032587	GOODWILL TEXTILES PVT LTD
1895	U33301HR1995PTC032602	ATLAS WATCH INDUSTRIES PVT. LTD.
1896	U99999DL1988PTC032602	RAI PLASTIC PVT LTD
1897	U99999DL1988PTC032625	DELTA SPEAKCOM PVT LTD
1898	U29199DL1988PTC032628	PARVEEN MECHANICAL UDYOG PVT LTD
1899	U24239HR1995PTC032690	A.G. PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
1900	U99999DL1988PTC032708	JITENDRA OILS PVT LTD
1901	U17210HR1995PTC032710	LATHER TEXTILES PVT. LTD.
1902	U21011HR1995PTC032712	S.D. PAPERS AND CRAFT PVT. LTD.

1903	U17119HR1995PTC032717	MANGLA JUTE AND FABRICS PVT. LTD.
1904	U24246HR1995PTC032719	SPLENDOUR COSMETICS PVT. LTD.
1905	U22110DL1988PTC032726	MOTHER AND CHILD CARE PUBLICATIONS PVT LTD
1906	U65910DL1988PTC032742	SUMITRA MOTORS PVT LTD
1907	U51213HR1995PTC032743	NORTHERN POUL CARE PVT. LTD.
1908	U99999DL1988PTC032743	CAMELLIA TEA CO. PVT LTD
1909	U24110HR1995PTC032754	BABA COLOURS PVT. LTD.
1910	U99999DL1988PTC032761	WADHWA ASSOCIATES PVT LTD
1911	U24120HR1995PTC032765	SHAHABAD FERTILIZERS PVT. LTD.
1912	U74140HR1995PTC032774	STABLE CONSULTANTS PVT LTD
1913	U01112HR1995PTC032775	NITIN SEEDS PVT LTD.
1914	U20101DL1988PTC032779	JOLLY PLYWOOD PVT LTD
1915	U99999DL1988PTC032786	ONALL STEERINGS PVT LTD
1916	U19129DL1988PTC032788	ASISH LEATHER CLOTH PVT LTD
1917	U51909DL1988PTC032803	DISTINCTION INTERIORS PVT LTD
1918	U74210DL1988PTC032804	TRIKAL DARSHI CONSULTANCY PVT. LTD
1919	U17117HR1995PTC032813	VIMAL CARPETS PVT. LTD.
1920	U01122DL1988PTC032814	MULTI FIELD AGRO INDUSTRY PVT LTD
1921	U31504DL1988PTC032825	LALL ELECTRICAL APPLIANCES PVT LTD
1922	U27209DL1988PTC032833	COMPOSITION ALLOYS AND CHEMICALS PVT LTD
1923	U72200DL1988PTC032835	BYTEK COMPUTERS PVT LTD
1924	U29191DL1988PTC032852	OM REFRIGERATION PVT LTD
1925	U99999DL1988PTC032855	BAL-SUNI MICROWAY PVT LTD
1926	U18101DL1988PTC032882	WEATHERITE FASHION INDUSTRIES PVT LTD
1927	U32109DL1988PTC032887	INDO HITECH PVT LTD
1928	U21010HR1995PTC032892	WADHWA APPLIANCES PRIVATE LIMITED
1929	U27209DL1988PTC032894	SOCKET (INDIA) PRIVATE LIMITED
1930	U01120HR1995PTC032897	SELECT BLOSSOMS PVT. LTD.
1931	U55109DL1988PTC032908	DHANOLTI RESORTS PVT LTD
1932	U63040DL1988PTC032910	MAHARANI TRAVEL AND OVERSEAS PVT LTD
1933	U32109DL1988PTC032913	YOSHIDA ELECTRO COOL PVT LTD
1934	U99999DL1988PTC032920	ESQUIRE TRAVEL SERVICES PVT LTD
1935	U51229DL1988PTC032928	APURV TRADING PVT LTD
1936	U99999DL1988PTC032938	CLOUD NINE COMMUNICATIONS PVT LTD
1937	U99999DL1988PTC032948	LASER COMPUTER SERVICES PVT LTD
1938	U45303DL1988PTC032970	HIGH TENSION ENGINEERING PROJECTS PVT LTD
1939	U99999DL1988PTC032974	DHANVANTRI AYURVEDIC PVT LTD
1940	U40108DL1988PTC032991	UNITED SYNERTECH PVT LTD
1941	U27310HR1996PTC032992	CHAUDHARY METALS PVT LTD.
1942	U99999DL1988PTC032999	R.V. CONSTRUCTIONS PVT LTD.
1943	U92113DL1988PTC033001	N.G. VIDEO INDIA PVT LTD
1944	U72200HR1996PTC033010	D D S COMPUTERS PVT. LTD.
1945	U24119HR1996PTC033016	P.S.G. CHEMICALS PVT LTD
1946	U99999DL1988PTC033019	RED BARRON COURIERS PVT LTD
1947	U27106HR1996PTC033028	GURU MARKANDESHWAR STEELS PVT. LTD.
1948	U29299DL1988PTC033034	TECHNO ROLLS (INDIA) PVT LTD
1949	U27201HR1996PTC033039	JAGDAMBA GROVERAS PVT LTD.
1950	U70101HR1996PTC033058	SHIVANK AGRO LAND DEVELOPMENT PVT. LTD.
1951	U99999DL1988PTC033060	YORNING APETILE PVT LTD
1952	U99999DL1988PTC033112	KUND SON CONSULTANCY ENGINEERS PVT LTD
1953	U22110DL1988PTC033115	DESK TOP PUBLISHERS PVT LTD
1954	U99999DL1988PTC033116	ANGAD PROPERTIES PVT LTD
1955	U67120HR1996PTC033118	SWADHIN SECURITIES PVT. LTD.
1956	U99999DL1988PTC033125	PREM PACKAGING PVT LTD
1957	U30007DL1988PTC033143	SYSOREX COMPUTER COMPANY PVT LTD

1958	U72300HR1996PTC033147	PIXELS SYSTEMS PVT. LTD.
1959	U51909DL1988PTC033150	MODE OVERSEAS PVT LTD
1960	U32101DL1988PTC033162	CHAWLA T.V. COMPANY PVT LTD
1961	U27103HR1996PTC033179	R.S.D. STEELS PVT. LTD.
1962	U28939DL1988PTC033179	SURYA INDUSTRIAL TOOLS PVT LTD
1963	U51101DL1988PTC033185	VICHITRA OVERSEAS PVT LTD
1964	U99999DL1988PTC033190	DIVECHA FIBRE GLASS PVT LTD
1965	U74999DL1988PTC033214	RMRA AD PRINT SERVICES PVT LTD
1966	U70200HR1996PTC033217	LUXMI DOORS AND WOODCRAFTS PVT.LTD.
1967	U99999DL1988PTC033219	PMC WELLPOINT DEWATERING PVT LTD
1968	U51222DL1988PTC033224	SWAPAN LIVE STOCK PVT LTD
1969	U15511DL1988PTC033228	SAI DISTILLERS PVT LTD
1970	U25111DL1988PTC033235	MAG RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
1971	U74999HR1996PTC033239	CLEAR MARKETING PVT. LTD.
1972	U30007DL1988PTC033240	ABHIRUCHI EDP AIDS PVT LTD
1973	U99999DL1988PTC033258	SHARAN (NRI) PORTFOLIO AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
1974	U72900HR1996PTC033276	BRAHMA ATLANTA TECHNOLOGY SYSTEMS PVT. LTD.
1975	U24241HR1996PTC033283	SKYLAB TRADING PVT. LTD.
1976	U99999DL1988PTC033299	INDRAPRASTHA BUILDERS PVT LTD
1977	U74210DL1988PTC033305	AQUARIAN CONSULTANTS AND ENGINEERS PVT LTD
1978	U29120DL1988PTC033326	SUN HYDRO SYSTEMS PVT LTD
1979	U99999DL1988PTC033327	TEKNIS CONSTRUCTIONS AND BUILDERS PVT LTD
1980	U17297HR1996PTC033331	OPK TEXTILES PVT. LTD.
1981	U28932DL1988PTC033355	SUCHETA ENGINEERINGS COMPANY PVT LTD
1982	U17115HR1996PTC033365	HARYANA SPINTEX PVT LTD
1983	U27107HR1996PTC033374	CHAUDHARY ALLOYS PVT. LTD
1984	U99999DL1988PTC033391	MALHOTRA CONDOMINIUMS PVT. LTD.
1985	U24302DL1988PTC033393	SHREE BAHUBALI SYNTHETICS PVT LTD
1986	U51503HR1996PTC033395	TIRUMALA ISPAT AGENCIES PVT LTD
1987	U51909DL1988PTC033410	ALLIED FORGE PVT LTD
1988	U63023DL1988PTC033415	ANKUR DAIRIES PVT LTD
1989	U99999DL1988PTC033418	UNIQUE CONVERTORS PVT LTD
1990	U24111HR1996PTC033421	HIMANK SARASWATI PRODUCTS PVT. LTD.
1991	U99999DL1988PTC033429	DIXIT MOTORS PVT LTD
1992	U99999DL1988PTC033441	SAGAR VIDOTECH PVT LTD
1993	U63090DL1988PTC033447	FAST FIRWARD SERVICES PVT LTD
1994	U27105HR1997PTC033449	TOHANA STEEL INDUSTRIES PVT. LTD.
1995	U29261HR1997PTC033454	LOKESH TOOLS AND TRADING PVT. LTD.
1996	U74210DL1988PTC033456	NEWTECH ENGINEERS PVT LTD
1997	U99999DL1988PTC033463	SAVITA PARKASHAN PVT LTD
1998	U99999DL1988PTC033480	GAY TOURS PVT LTD
1999	U25209HR1997PTC033481	H.D. PLAST PVT. LTD.
2000	U99999DL1988PTC033481	KASLEY PEERS EXIM PVT LTD
2001	U45201DL1988PTC033492	SINCERE BUILDERS PVT LTD
2002	U63090DL1988PTC033501	UNICORP TRADE LINK SERVICES PVT LTD
2003	U70101DL1988PTC033520	SUPREME ESTATE PVT LTD
2004	U51109DL1988PTC033522	DISCON MARKETING PVT LTD
2005	U36101DL1988PTC033542	FUTRIC BUSINESS FURNITURES PVT LTD
2006	U45209DL1988PTC033562	SACHIN BANDHU DEVELOPERS PVT LTD
2007	U51311DL1988PTC033589	POONAM OVERSEAS PVT LTD
2008	U29292HR1997PTC033625	BEE ELL REFLECTORIES PVT. LTD.
2009	U25209DL1988PTC033675	SUPRIYA PLASTIC PVT LTD
2010	U01401HR1997PTC033682	KISAN IRRIGATION CO (INDIA) PVT LTD
2011	U31103HR1997PTC033690	WELTECH POWER ELECTRONICS PVT LTD

2012	U15142HR1997PTC033720	A.D.B. AGRO OIL PRODUCTS PVT. LTD.
2013	U99999DL1988PTC033720	BLUE CHIP RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
2014	U74210HR1997PTC033749	SAILENDRA ENGINEERS PVT LTD
2015	U99999DL1988PTC033771	SAVITRI GUNWATI AND SON PVT. LTD.
2016	U99999DL1988PTC033785	DAM HOTELS AND BUILDERS PVT LTD.
2017	U29191HR1997PTC033787	UNIK AIRCONDITIONERS (P) LTD.
2018	U52602HR1997PTC033800	SPEED LINE APPLIANCES SERVICES PRIVATE LIMITED
2019	U17112HR1997PTC033802	HARPAT RAI COTGINNING (P) LTD.
2020	U99999DL1988PTC033804	HI-TECH EPOX-SEAL PVT LTD.
2021	U45209HR1997PTC033810	DENSUN CONSTRUCTION (P) LTD.
2022	U15311DL1988PTC033813	KALRA FLOUR MILLS PVT.LTD.
2023	U15499DL1988PTC033814	SAN PARFACTO FOODS PVT. LTD.
2024	U64204HR1997PTC033816	PROFESSIONAL CABLE VIEW NETWORK PVT LTD
2025	U99999DL1988PTC033840	MVSR IMPEX PVT LTD.
2026	U27109DL1988PTC033857	JAGWIN ENGINEERING EQUIPMENT AND TOOLS PVT.LTD.
2027	U31909DL1988PTC033861	TORNEX COMPONENTS PVT. LTD.
2028	U29230DL1988PTC033867	OTHENTIK ELECTRODES PVT.LTD.
2029	U99999DL1988PTC033887	KEEP KOOL ENGINEERS PVT.LTD.
2030	U74995HR1998PTC033896	QUALSPEC INDIA PVT. LTD.
2031	U74140HR1998PTC033903	LOVE GAIN AND MARKETING PVT LTD
2032	U63040DL1988PTC033910	KINGS TRAVELS AND TOURS PVT. LTD.
2033	U51395DL1988PTC033912	E.L.ELECTRONIC INSTRUMENTATION PVT.LTD.
2034	U99999DL1988PTC033922	JAI MATA TOURS AND TRAVELS PVT.LTD.
2035	U22110HR1998PTC033923	BAKSHI BOOK CENTRE PVT. LTD.
2036	U51431DL1988PTC033923	HARJIT BROTHERS PVT.LTD.
2037	U55101DL1988PTC033932	LA SAGRITA HOTELS PVT.LTD.
2038	U99999DL1988PTC033940	MERRY HILLS TOURIST RESORT PVT.LTD.
2039	U74140DL1988PTC033943	RAJE ASSOCIATES PVT.LTD.
2040	U33121HR1998PTC033962	KUNDLI TOOLS (INDIA) PVT. LTD.
2041	U21104DL1988PTC033981	RRN PACKAGING INDUSTRIES PVT.LTD.
2042	U15419HR1998PTC033987	G FOODS (INDIA) PVT. LTD.
2043	U72900DL1988PTC033989	M.G.M. SOFTWARE AND BUSINESS CONSULTANTS PVT.LTD.
2044	U99999DL1988PTC033993	PADMABATI CONSULTANCY SERVICE PVT LTD.
2045	U99999DL1988PTC034006	EKTA FOODS PVT. LTD.
2046	U52190HR1998PTC034011	J.R. MARKETER PRIVATE LIMITED
2047	U99999DL1998PTC034017	RAJ OXIDE PRIVATE LIMITED
2048	U99999DL1988PTC034017	SRIRAM AUTOMOBILES PVT.LTD.
2049	U32109HR1998PTC034022	SHIVA FILMS AND MUSIC CO. (P) LTD.
2050	U65921DL1988PTC034044	A.K.I. ESTATES PVT.LTD.
2051	U15432DL1988PTC034046	KAN FOODS PVT.LTD.
2052	U64120DL1988PTC034052	GARUR EXPRESS COURIER SERVICES PVT.LTD.
2053	U72900HR1998PTC034074	SYS-INFOTECH PVT. LTD.
2054	U55101HR1998PTC034075	MARIGOLD RESORTS PVT. LTD.
2055	U31399HR1998PTC034102	EMELSON HOME APPLIANCES PVT. LTD.
2056	U99999DL1988PTC034110	J AND J ELECTRICALS PVT LTD
2057	U63013DL1988PTC034140	EASTWEST SERVICES PVT LTD
2058	U51496HR1999PTC034144	CHROME STAR CHEMICAL WORKS (P) LTD.
2059	U33139HR1999PTC034159	LOGLIFE MEDICARE PVT. LTD.
2060	U72200HR1999PTC034209	VISHESH INFOTECH PVT. LTD.
2061	U74920HR1999PTC034212	COPS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2062	U17110DL1988PTC034215	SHIV GORAKH HOSIERY MILLS PVT LTD
2063	U99999DL1988PTC034230	RAJENDRA NURSING AND MATERNITY HOME PVT LTD
2064	U61211HR1999PTC034236	GEETANJALI HATCHERIES PRIVATE LIMITED
2065	U25200DL1988PTC034240	BAT BROS THERMOPLAST PVT LTD
2066	U26940DL1988PTC034256	SURAJ CEMENT (INDIA) PVT LTD.

2067	U99999DL1988PTC034268	VIRGO WOMAN OVERSEAS PVT LTD.
2068	U99999DL1988PTC034278	RECTOFAB PVT LTD
2069	U34102HR1999PTC034281	GURDYAL MOTORS PRIVATE LIMITED
2070	U24114HR1999PTC034288	VIVEK DYEING AND PROCESSING HOUSE PRIVATE LIMITED
2071	U64110DL1988PTC034310	RAMEX SERVICES PVT LTD
2072	U74140HR1999PTC034314	HAB AND REHAB ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2073	U24235HR1999PTC034343	PHARMACIA INDIA PRIVATE LIMITED
2074	U99999DL1988PTC034347	KELVIN CABLES PVT LTD
2075	U99999DL1988PTC034355	MARUTI APPLIANCES PVT LTD
2076	U32309HR1999PTC034366	DBI DIGITAL BROADCASTING PRIVATE LIMITED
2077	U52335DL1988PTC034367	AVINASHI SELLING AGENCY PVT LTD
2078	U99999DL1988PTC034376	FRESH VEGETABLE PRODUCTS PVT LTD
2079	U51909DL1988PTC034389	AHIMSA OVERSEAS PVT LTD
2080	U63031DL1988PTC034394	SHIVKASHI ROAD CARRIERS PVT LTD
2081	U51397HR1999PTC034400	EVENTS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2082	U74140DL1988PTC034405	GOGIA INVESTMENTS CONSULTANTS PVT LTD
2083	U24119HR2000PTC034406	BANDLAS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2084	U99999DL1988PTC034413	KAN HITASHY BUILDERS PVT LTD
2085	U21012DL1988PTC034422	TECHNICAL GRAPHS (INDIA) PVT LTD
2086	U24302DL1988PTC034432	ARISTO POLYCOATS PVT LTD
2087	U72100HR2000PTC034458	BHARAT BHARATI NETWORKS PRIVATE LIMITED
2088	U17297DL1989PTC034487	NOVELTY SPINNING MILLS PVT LTD
2089	U74210DL1989PTC034505	A.A GHARE DESIGN CONSULTANTS PVT LTD
2090	U99999DL1989PTC034523	S.V. APARTMENTS PVT LTD
2091	U51909HR2000PTC034523	L.R. COAL INDIA PVT LTD
2092	U29219DL1989PTC034536	INDIAN SPRAYERS PVT LTD
2093	U99999DL1989PTC034544	EAST WEST ADVISERS PVT LTD
2094	U29302DL1989PTC034546	PENTAGON KITCHEN MATES AND DMESTIC APPLIANCES PVT LTD
2095	U99999DL1989PTC034562	MIDAIR TRANSPORT PVT LTD
2096	U70101DL1989PTC034566	UNA CONSTRUCTIONS PVT LTD
2097	U99999DL1989PTC034573	B.R. EXPORTS PVT LTD
2098	U74219DL1989PTC034575	MAN VEE CONTRACTORS PVT LTD
2099	U45201DL1989PTC034587	S.J. BUILDERS PVT LTD
2100	U51311DL1989PTC034613	HITECH HIND IMPEX PVT LTD
2101	U99999DL1989PTC034615	AMIT ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS PVT LTD
2102	U74999DL1989PTC034620	JAIN PROOFIX INDUSTRIES PVT LTD
2103	U99999DL1989PTC034649	R.A ELECTRONIC SYSTEMS PVT LTD
2104	U99999DL1989PTC034669	CHIRDIA FILMS PVT LTD
2105	U51311DL1989PTC034673	SHAW COLOUREX PVT LTD
2106	U99999DL1989PTC034675	VICHAR NEWS SERVICES PVT LTD
2107	U70101DL1989PTC034687	KLER DEVELOPERS PVT LTD
2108	U65999DL1989PTC034727	COUNTDOWN (INDIA) PVT LTD
2109	U99999DL1989PTC034729	CONTEC AIRCONDITIONERS PVT LTD
2110	U33125DL1989PTC034734	GHAZIPURIA ELECTROCHEM PVT LTD
2111	U99999DL1989PTC034740	ESPREE ELECTRICALS PVT LTD
2112	U99999DL1989PTC034753	HELM SOCKETS PVT LTD
2113	U99999DL1989PTC034755	K.D. ELECTRONICS PVT LTD
2114	U99999DL1989PTC034757	K. DEEKSHA BUILDERS PVT LTD
2115	U99999DL1989PTC034764	R.K. TRANSMISSION PVT LTD
2116	U99999DL1989PTC034769	MALIK OVERSEAS PVT LTD
2117	U99999DL1989PTC034781	INDRA COLOUR LAB PVT LTD
2118	U99999DL1989PTC034790	SHOW CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
2119	U45201DL1989PTC034799	LAVISH PROMOTERS AND BUILDERS PVT LTD
2120	U99999DL1989PTC034811	EXCLUSIV OVERSEAS PVT LTD

2121	U99999DL1989PTC034818	POONAM CHEMICALS PVT LTD
2122	U99999DL1989PTC034837	B.M. TRANSPORT PVT LTD
2123	U99999DL1989PTC034877	KUNAL SALES PVT LTD
2124	U70101DL1989PTC034887	BARUTA CONSTRUCTION (INDIA) PVT LTD
2125	U51909DL1989PTC034889	VITAL INGREDIENTS MARKETING PVT LTD
2126	U67120DL1989PTC034904	YOGI HOLDINGS PVT LTD
2127	U63040DL1989PTC034907	EXPLORE INDIA TRAVELS PVT LTD
2128	U51420DL1989PTC034910	RAMA ISPAT PVT LTD
2129	U99999DL1989PTC034947	PARMANAND HOTELS AND EXPORTS PVT LTD
2130	U99999DL1989PTC034978	PANKAJ AUTOMOTIVE COMPONENTS PVT LTD
2131	U60231DL1989PTC035002	NEELKANTH CARRIERS PVT LTD
2132	U15311DL1989PTC035005	JINDAL FOODS PVT LTD
2133	U70101DL1989PTC035018	NOTION DAISY ARCHITECTS PVT LTD
2134	U32101DL1989PTC035055	RMA ELECTRONICS PVT LTD
2135	U45201DL1989PTC035082	SHRI LALJI HOUSING PVT LTD
2136	U70109DL1989PTC035084	DHANIKA PROPERTIES PVT LTD
2137	U99999DL1989PTC035094	RAM PLAST PVT LTD
2138	U70109DL1989PTC035115	ANKIT PROMOTORS PVT LTD
2139	U99999DL1989PTC035118	DURGA MONOMERS PVT LTD
2140	U34300DL1989PTC035120	JAIMATA AUTOMOTIVE PVT LTD
2141	U70101DL1989PTC035129	SHIOM ASSOCIATES PVT LTD
2142	U34201DL1989PTC035163	DAPS ENGINEERING WORKS PVT LTD
2143	U99999DL1989PTC035206	BLUE DIAMOND PUBLICATIONS PVT LTD
2144	U51496DL1989PTC035251	TECHNO AGENTS PVT LTD
2145	U51909DL1989PTC035295	POONAM TRADING PVT LTD
2146	U22219DL1989PTC035322	PATRIKA PRINTS PVT LTD
2147	U63640DL1989PTC035341	INSTYLE HOLYDAY PLANNERS PVT LTD
2148	U99999DL1989PTC035369	D.S. FABRICATORS PVT LTD
2149	U99999DL1989PTC035381	SEEBA EXPORTS PVT LTD
2150	U70101DL1989PTC035384	WINNER TRADERS AND PROPERTIES PVT LTD
2151	U99999DL1989PTC035400	NEXT EXPORTS PVT LTD
2152	U99999DL1989PTC035404	ACTION COURIER SERVICES PVT LTD
2153	U99999DL1989PTC035405	QUICK SAFE SURE COURIERS PVT LTD
2154	U99999DL1989PTC035418	HARDEL ESTATES PVT LTD
2155	U15412DL1989PTC035479	WALIA FOOD ENTERPRISES PVT LTD
2156	U32101DL1989PTC035481	SIROHI ELECTRONICS INDUSTRIES PVT LTD
2157	U45201DL1989PTC035484	SAHYOG DEVELOPERS PVT LTD
2158	U99999DL1989PTC035493	REGAL INDUSTRIAL DIRECTORY PVT LTD
2159	U01122DL1989PTC035524	CLASSICS FARMS PVT LTD
2160	U99999DL1989PTC035540	UNI FLON PVT LTD
2161	U74940DL1989PTC035542	AJANTA COLOR LAB PVT LTD
2162	U18109DL1989PTC035547	ANURADHA APPARELS PVT LTD
2163	U51909DL1989PTC035559	CONSOLIDATED CONSUMER PRODUCTS PVT LTD
2164	U99999DL1989PTC035575	YOGENDRA PAL AND SONS PVT LTD
2165	U99999DL1989PTC035588	PARNAMI WOOLLENS PVT LTD
2166	U99999DL1989PTC035605	JOSEPH CONSTRUCTIONS PVT LTD
2167	U85199DL1989PTC035620	PURATAN HEALTH SYSTEMS PVT LTD
2168	U51494DL1989PTC035641	KUNAL FABRIC PVT LTD
2169	U99999DL1989PTC035672	ENERGY FOODS PVT LTD
2170	U63040DL1989PTC035674	VISHWAKARMA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
2171	U99999DL1989PTC035688	PRADEEP CHOWDHRY AND COMPANY (DEVELOPMENT CATALYSTS) PVT LTD
2172	U70101DL1989PTC035709	VICTORIA ESTATES PVT LTD
2173	U99999DL1989PTC035716	TEAMUP SERVICES PVT LTD
2174	U99999DL1989PTC035743	CYCLIC COMPUTERS PVT LTD

2175	U99999DL1989PTC035751	SUNRAM ENGINEERS PVT.LTD.
2176	U99999DL1989PTC035825	BALAJI PROMOTERS PVT.LTD.
2177	U24242DL1989PTC035826	LUSTRE CHEMICALS PVT.LTD.
2178	U99999DL1989PTC035846	SETH BUILDERS PVT.LTD.
2179	U22121DL1989PTC035847	DINANK PUBLISHING HOUSE PVT.LTD.
2180	U99999DL1989PTC035867	RAJESHWARI SALES PVT. LTD.
2181	U85110DL1989PTC035885	NVR HEALTH CARE PVT. LTD.
2182	U99999DL1989PTC035896	SATGURU EXPORTS PVT.LTD.
2183	U99999DL1989PTC035901	MAA-MAA EXPORTS PVT. LTD.
2184	U27101DL1989PTC035911	AMAR ALLOYS PVT. LTD.
2185	U99999DL1989PTC035912	SANTEX YARN PVT. LTD.
2186	U99999DL1989PTC035921	GANGA DOORS PVT. LTD.
2187	U99999DL1989PTC035925	JAMINE FOOTWEAR PVT. LTD.
2188	U99999DL1989PTC035938	SUPER AGRICULTURAL APPLIANCES AND WAREHOUSING SERVICES PVT.LTD.
2189	U50300DL1989PTC035939	R.S. AUTOMOBILES PVT.LTD.
2190	U99999DL1989PTC035949	PETMAN ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT. LTD.
2191	U70101DL1989PTC035977	PRAKASH PROMOTERS PVT. LTD.
2192	U29142DL1989PTC035986	BHIWANI ISPAT PVT. LTD.
2193	U99999DL1989PTC035988	HERMAN MEDIA PVT. LTD.
2194	U99999DL1989PTC036002	TRINITY CONTROL SYSTEMS PVT. LTD.
2195	U99999DL1989PTC036004	SPARKTEK DIES AND MOULDS PVT. LTD.
2196	U74140DL1989PTC036006	GARG PAWAN KUMAR AND COMPANY PVT.LTD.
2197	U99999DL1989PTC036111	LEISSHA APPARELS PVT.LTD.
2198	U24299DL1989PTC036116	ARINSO ASSOCIATES PVT.LTD.
2199	U28991DL1989PTC036134	HARI KISHAN SHRI KISHAN PVT.LTD.
2200	U99999DL1989PTC036143	EMC TECHNICAL SERVICES INDIA PVT.LTD.
2201	U99999DL1989PTC036157	KARSONS AUTOMOTIVE COMPONENTS PVT.LTD.
2202	U99999DL1989PTC036173	HITHASH EXPORTS PVT.LTD.
2203	U72502DL1989PTC036175	BOILET SERVICES PVT.LTD.
2204	U99999DL1989PTC036181	ESSKAY HOLIDAY RESORTS PVT.LTD.
2205	U45201DL1989PTC036193	SPRING FARMS PVT.LTD.
2206	U99999DL1989PTC036197	HIMACHAL PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
2207	U99999DL1989PTC036210	LORD ELECTRONICS PVT. LTD.
2208	U30007DL1989PTC036223	MEDCON INSTRUMENTS PVT.LTD.
2209	U29299DL1989PTC036226	PRIMA TECH SERVICES PVT.LTD.
2210	U99999DL1989PTC036247	JOSHI MEHRA EXPORTS PVT. LTD.
2211	U99999DL1989PTC036249	SURPRISE BUILDERS PVT. LTD.
2212	U99999DL1989PTC036272	SLIK COURIERS AND TRAVELS PVT.LTD.
2213	U99999DL1989PTC036280	INDPAP TRADING PVT.LTD.
2214	U99999DL1989PTC036286	J.M.V.D. PIPES PVT.LTD.
2215	U99999DL1989PTC036309	BAL SHAN FARMS AND LAND DEVELOPERS PVT.LTD.
2216	U99999DL1989PTC036313	A.C.E. ASSOCIATES PVT. LTD.
2217	U45201DL1989PTC036334	GULISTAN BUILDERS AND DEVELOPERS PVT.LTD.
2218	U65910DL1989PTC036336	VMS BUILDERS PVT.LTD.
2219	U99999DL1989PTC036348	S.P. FOODS PVT.LTD.
2220	U20296DL1989PTC036436	TRIDENT POLYBUTTON PVT.LTD.
2221	U99999DL1989PTC036454	INDOOR SILK PLANTS MANUFACTURING PVT.LTD.
2222	U45203DL1989PTC036458	NOMITA BUILDERS PVT.LTD.
2223	U99999DL1989PTC036495	AD ALINE ADVERTISING AND MARKETING PVT.LTD.
2224	U51431DL1989PTC036500	RAVS WOODWOOL PVT. LTD.
2225	U99999DL1989PTC036501	RAM BRICKS PVT.LTD.
2226	U99999DL1989PTC036524	TARUN PLASTIC INDUSTRY PVT.LTD.
2227	U52322DL1989PTC036546	MALHOTRA EXIM PVT.LTD.
2228	U51909DL1989PTC036547	DIA PRINT EQUIPMENTS PVT.LTD.

2229	U51109DL1989PTC036559	IMPRESSION EXPORT PVT.LTD.
2230	U29111DL1989PTC036568	CRYPGENIC INDUSTRIAL GASES PVT. LTD.
2231	U99999DL1989PTC036590	SWHNEY AND SHONTEK PVT. LTD.
2232	U99999DL1989PTC036592	DEWAN AND COMPANY STOCK AND SHARE CONSULTANTS PVT. LTD.
2233	U74140DL1989PTC036595	SARASWAT ASSOCIATE CONSULTANTS PVT.LTD.
2234	U99999DL1989PTC036602	TRIONIX TECHNOLOGY PVT. LTD.
2235	U99999DL1989PTC036625	PARAM LEATHER INDUSTRIES PVT. LTD.
2236	U63040DL1989PTC036650	SIS TRAVELS PVT. LTD.
2237	U99999DL1989PTC036658	MEKASTER TELECOM PVT.LTD.
2238	U01122DL1989PTC036679	KANSY AGRO AND BIOTECH PVT. LTD.
2239	U99999DL1989PTC036693	SOUTH ASIAN RETEATS PVT. LTD.
2240	U99999DL1989PTC036695	SANAT SCREWS AND WIRES PVT.LTD.
2241	U16008DL1989PTC036703	YAMU PAN MASALA AND FRAGRANCES PVT.LTD.
2242	U45201DL1989PTC036705	SHAKTI BUILDERS PVT. LTD.
2243	U51909DL1989PTC036706	NIDHI OVERSEAS PVT.LTD.
2244	U27203DL1989PTC036751	MECO ALLOYS PVT. LTD.
2245	U45201DL1989PTC036766	BANGALORE BUILDERS PVT.LTD.
2246	U24132DL1989PTC036792	S.J. POLYMER PRIVATE LIMITED
2247	U99999DL1989PTC036797	R AND A EXPORTS PVT. LTD.
2248	U99999DL1989PTC036812	RAJEEV ELECTRICALS PVT.LTD.
2249	U51909DL1989PTC036820	RANCHERS MARKETING PVT. LTD.
2250	U51109DL1989PTC036864	PLUTO AGENCIES PVT.LTD.
2251	U99999DL1989PTC036870	PANDITS DAIRY PRODUCTS PVT. LTD.
2252	U99999DL1989PTC036878	G.K. CREATIONS PVT.LTD.
2253	U99999DL1989PTC036885	NIRMAN TRAVELS PVT.LTD.
2254	U11001DL1989PTC036907	AKASH GANGA ENTERPRISES PVT.LTD.
2255	U26954DL1989PTC036931	NDSA BRICKS PVT.LTD.
2256	U74210DL1989PTC036940	INTEGRATED POWERTECH PVT.LTD.
2257	U99999DL1989PTC036952	YAMUNAANCHAL IMPEX PVT.LTD.
2258	U29305DL1989PTC036957	LAZER APPLIANCES PVT.LTD.
2259	U51109DL1989PTC036967	COSMOS RAJNEESH AGENCIES PVT. LTD.
2260	U72900DL1989PTC036983	AVIROL DATATECH PVT.LTD.
2261	U24114DL1989PTC036992	RITURAJ SALES PVT.LTD.
2262	U37107DL1989PTC037006	ESQUIRE DISTRIBUTING AND SERVICING COMPANY (NEW DELHI) PVT. LTD.
2263	U99999DL1989PTC037014	TRIMURTI PROPERTIES PVT.LTD.
2264	U99999DL1989PTC037021	UNIQUE POLYCONTAINERS PVT.LTD.
2265	U99999DL1989PTC037034	NUTECH CONTAINERS PVT.LTD.
2266	U65999DL1989PTC037046	DISC (INFORMATION TECHNOLOGY) PVT.LTD.
2267	U74210DL1989PTC037062	TRISTAR ENGINEERING CONTRACTORS PVT.LTD.
2268	U29299DL1989PTC037068	SWARNA MOTORS PVT.LTD.
2269	U99999DL1989PTC037105	CREATION CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2270	U51909DL1989PTC037108	GROVERSONS TRADING PVT.LTD.
2271	U99999DL1989PTC037130	QUARTZ ELECTRONICS PVT.LTD.
2272	U27202DL1989PTC037135	K.M.WIRE DRAWING PVT. LTD.
2273	U99999DL1989PTC037165	KAMLIWALA COMFORTERS PVT.LTD.
2274	U51109DL1989PTC037173	VENTURE TRADERS PVT.LTD.
2275	U99999DL1989PTC037201	SYSTEMATICA EXPORTS AND IMPORTS PVT. LTD.
2276	U99999DL1989PTC037204	HI-TECH FOAM COMPANY PVT. LTD.
2277	U30007DL1989PTC037207	AMBA PERIPHERALS PVT. LTD.
2278	U45201DL1989PTC037223	RAJESH PROMOTERS PVT.LTD.
2279	U21099DL1989PTC037228	SWAMI PULP AND PAPER PVT.LTD.
2280	U99999DL1989PTC037233	EXEL TECHNO-COMPUTERS PVT. LTD.
2281	U99999DL1989PTC037249	HIMANSHU AD PVT.LTD.

2282	U99999DL1989PTC037273	ADVANTAGE MARKETING PVT. LTD.
2283	U51109DL1989PTC037299	AMALGAMATED AUTO AGENCY PVT. LTD.
2284	U18101DL1989PTC037313	V.K.TAYAL AND COMPANY PVT. LTD.
2285	U99999DL1989PTC037320	IBA EXPORTS PVT. LTD.
2286	U99999DL1989PTC037332	AANADI ASSOCIATES PVT. LTD.
2287	U55101DL1989PTC037337	SZECHWAN FOODS PVT. LTD.
2288	U99999DL1989PTC037462	APEX GASES AND LIQUIDS PVT. LTD.
2289	U51100DL1989PTC037476	ION MARKETING AND CONSULTANCY PVT. LTD.
2290	U99999DL1989PTC037483	DEE ESS STEEL MILLS PVT. LTD.
2291	U99999DL1989PTC037503	THAKRAN COLD STORAGE PVT. LTD.
2292	U99999DL1989PTC037542	INDO-CHEM IMPEX INTERNATIONAL PVT. LTD.
2293	U51491DL1989PTC037571	SAICOMPGIBBON OVERSEAS PVT. LTD.
2294	U29307DL1989PTC037578	SURYA ENERGY EQUIPMENTS PVT. LTD.
2295	U99999DL1989PTC037593	GOBIND SHOETECH PVT. LTD.
2296	U99999DL1989PTC037602	ANOORAJ ESTATES PVT. LTD.
2297	U99999DL1989PTC037621	ROYAL KITCHENS PVT. LTD.
2298	U70101DL1989PTC037639	QUEEN BUILDERS PVT. LTD.
2299	U99999DL1989PTC037648	K.N.K. PIPES PVT. LTD.
2300	U30007DL1989PTC037661	SYSTECH COMPUTER SERVICES PVT. LTD.
2301	U99999DL1989PTC037674	K.S. AGENCIES PVT. LTD.
2302	U31909DL1989PTC037681	H.I.C. TECHNOCRATES (INDIA) PVT. LTD.
2303	U45203DL1989PTC037695	REFCON CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2304	U99999DL1989PTC037700	QUICKWELL SERVICES PVT. LTD.
2305	U99999DL1989PTC037706	B.N. SILICATES PVT. LTD.
2306	U99999DL1989PTC037728	TRIDENT CARTONS AND LABELS PVT. LTD.
2307	U26955DL1989PTC037753	R.P. MARVEL TILES PVT. LTD.
2308	U99999DL1989PTC037774	V. FORBS SALES PVT. LTD.
2309	U99999DL1989PTC037791	ATULYA MARKETING AGENCIES PVT. LTD.
2310	U99999DL1989PTC037801	TOFU PROTEIN PVT. LTD.
2311	U29192DL1989PTC037816	PEECON ENGINEERS PVT. LTD.
2312	U99999DL1989PTC037837	HORNBILL TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2313	U99999DL1989PTC037839	AURIC EXPORTS PVT. LTD.
2314	U99999DL1989PTC037863	NARINDER NATH AND SONS PVT. LTD.
2315	U99999DL1989PTC037864	ARAVALI HOTELS PVT. LTD.
2316	U25239DL1989PTC037871	ORGANON LABORATORIES PVT. LTD.
2317	U32204DL1989PTC037914	ALLIANCE ELECTRONICS PVT. LTD.
2318	U51909DL1989PTC037916	C.D. IMPEX PVT. LTD.
2319	U99999DL1989PTC037923	OCEAN POWER PVT. LTD.
2320	U99999DL1989PTC037937	GANPATI PAINTS PVT. LTD.
2321	U99999DL1989PTC037942	MOHIT FABRICS PVT. LTD.
2322	U99999DL1989PTC037968	PANORAMIC YELLOW PAGES PVT. LTD.
2323	U63040DL1989PTC037970	ROLEX TRAVELS PVT. LTD.
2324	U63040DL1989PTC037998	SITARA TRAVELS PVT. LTD.
2325	U51311DL1989PTC038004	MARTIN EXPORTS PVT. LTD.
2326	U99999DL1989PTC038012	LA FASHION GARMENTS PVT. LTD.
2327	U52190DL1989PTC038019	TRIPTI COMMERCIAL SERVICES PVT. LTD.
2328	U15139DL1989PTC038025	CELESTIAL FOODS PVT. LTD.
2329	U99999DL1989PTC038040	B. VERMA JEWELLERY EXPORTS PVT. LTD.
2330	U99999DL1989PTC038051	SUKAM TELECOMMUNICATIONS PVT. LTD.
2331	U99999DL1989PTC038088	UNITED DATABASE INDIA (WEST ZONE) PVT. LTD.
2332	U51311DL1989PTC038102	COMBIND EXPORTS PVT. LTD.
2333	U70101DL1989PTC038105	MARGDARSHAK DEVELOPERS PVT. LTD.
2334	U72900DL1989PTC038109	INSIGHT COMPUTERS PVT. LTD.
2335	U99999DL1989PTC038158	CHETAN EXPORTS PVT. LTD.
2336	U99999DL1989PTC038164	PANSY RESEARCH LABORATORIES PVT. LTD.

2337	U14101DL1989PTC038168	MASTOGI GRANITES PVT. LTD.
2338	U18101DL1989PTC038182	SAVI APPARELS PVT. LTD.
2339	U20219DL1989PTC038203	VIKUNNU BOARDS PVT. LTD.
2340	U01222DL1989PTC038207	HERRY POULTRIES PVT. LTD.
2341	U45201DL1989PTC038210	CONTEMPORARY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2342	U51909DL1989PTC038214	VIDS MARKETING SERVICES PVT. LTD.
2343	U29308DL1989PTC038240	TALAT ELECTRONICS PVT. LTD.
2344	U99999DL1989PTC038247	SELSIKEM PHARMA PVT. LTD.
2345	U24232DL1989PTC038253	KALPATRU BASIC DRUGS PVT. LTD.
2346	U99999DL1989PTC038262	MADANI IMPEX PVT. LTD.
2347	U99999DL1989PTC038275	CARAVAN COURIER PVT. LTD.
2348	U51398DL1989PTC038282	LUNAWAT EXPORTS PVT. LTD.
2349	U99999DL1989PTC038305	INSITU FOAMING PVT. LTD.
2350	U51507DL1989PTC038348	LIFE CARE SURGICALS PVT. LTD.
2351	U99999DL1989PTC038351	DECON DRUGS (INDIA) PVT. LTD.
2352	U99999DL1989PTC038359	ASWAN TRAVELS PVT. LTD.
2353	U18201DL1989PTC038382	KLASSIC PROCESSORS PVT. LTD.
2354	U99999DL1989PTC038398	BALLABH GARH FARMS PVT. LTD.
2355	U99999DL1989PTC038407	RSM AUTO DEALERS AND LESSORS PVT. LTD.
2356	U51109DL1989PTC038413	PTB EDUCATIONAL SYSTEMS PVT. LTD.
2357	U99999DL1989PTC038414	MOHARCH FIBRES PVT. LTD.
2358	U74210DL1989PTC038465	ANUPAM SANITARYWARES PVT. LTD.
2359	U99999DL1989PTC038474	ANIKA EXPORTS PVT. LTD.
2360	U99999DL1989PTC038487	BAL EXPORTS PVT. LTD.
2361	U17299DL1989PTC038492	AAKRITI FASHIONS PVT. LTD.
2362	U35921DL1989PTC038516	METRO RIMS INDIA PVT. LTD.
2363	U51102DL1989PTC038571	SANGHI PETROCHEMICALS PVT. LTD.
2364	U99999DL1989PTC038575	CLASSIQUE FURNISHERS PVT. LTD.
2365	U85110DL1989PTC038593	HEALING TOUCHES HOSPITAL AND NURSING HOME PVT. LTD.
2366	U24304DL1989PTC038605	J.R. APPAREL PVT. LTD.
2367	U99999DL1989PTC038610	MENKA BUILDERS PVT. LTD.
2368	U99999DL1989PTC038636	BOSE BABBAR ARCHITECTS PVT. LTD.
2369	U24299DL1989PTC038637	SUGAM CHEMICALS PVT. LTD.
2370	U51494DL1989PTC038639	HARITAGE IMPEX PVT. LTD.
2371	U51398DL1989PTC038652	SPAN VEE OVERSEAS PVT. LTD.
2372	U99999DL1989PTC038659	A.R. GUPTA AND SONS PVT. LTD.
2373	U22299DL1989PTC038672	JOYDEEP ENTERPRISES PVT. LTD.
2374	U17222DL1989PTC038704	PANIPAT SPINNERS PVT. LTD.
2375	U99999DL1989PTC038724	PRIMY CONCEPTS PVT. LTD.
2376	U51109DL1989PTC038726	SAIMAX SALES PVT. LTD.
2377	U99999DL1989PTC038749	P. G. INSTITUTE OF COMPUTERS PVT. LTD.
2378	U51398DL1989PTC038756	BEE ARYAN EXPORTS PVT. LTD.
2379	U99999DL1989PTC038764	SAMUNDRA AUTOMOBILES PVT. LTD.
2380	U70101DL1990PTC038785	TS PROPERTIES PVT. LTD.
2381	U99999DL1990PTC038793	HEART BEAT FITNESS CENTRE PVT. LTD.
2382	U70101DL1990PTC038810	SABRE ESTATES PVT. LTD.
2383	U99999DL1990PTC038815	SUDAMA PLASTO PVT. LTD.
2384	U45203DL1990PTC038816	TRIDENT CONSTRUCTION PVT. LTD.
2385	U74140DL1990PTC038833	DARMAC CONSULTANTS AND SERVICES PVT. LTD.
2386	U99999DL1990PTC038865	RAJHANS COURIERS PVT. LTD.
2387	U29142DL1990PTC038872	NC STEEL TUBES PVT. LTD.
2388	U51909DL1990PTC038882	MUKUL IMPEX PVT. LTD.
2389	U63040DL1990PTC038884	MIAMI INTERNATIONAL TRAVEL PVT. LTD.
2390	U92113DL1990PTC038889	DESKTOP VIDEO PRODUCTION PVT. LTD.

2391	U99999DL1990PTC038920	STYLUSS FIRE PROTECTION ENGINEERS PVT. LTD.
2392	U99999DL1990PTC038924	MAPAS ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
2393	U31200DL1990PTC038947	TICK TACK ELECTRICALS PVT. LTD.
2394	U99999DL1990PTC038960	MIDLAND FOODS PVT. LTD.
2395	U99999DL1990PTC038979	SHOPPERS PARADISE PVT. LTD.
2396	U74210DL1990PTC038980	SVABLUM COMPUTERS PVT. LTD.
2397	U29191DL1990PTC038988	SURAV REFRIGERATION INDUSTRIES PVT. LTD.
2398	U99999DL1990PTC039007	21ST CENTURY RENT-A-CAR PVT. LTD.
2399	U24139DL1990PTC039008	SUNSHADE AWNINGS PVT. LTD.
2400	U99999DL1990PTC039028	AMARNATH HARBANS LAL JEWELLERS PVT. LTD.
2401	U99999DL1990PTC039065	DIXIT AUTOMOBILES PVT. LTD.
2402	U99999DL1990PTC039072	GAMMA TELESKETCH (INDIA) PVT. LTD.
2403	U27102DL1990PTC039075	DELTA STEELS PVT. LTD.
2404	U99999DL1990PTC039076	LOHIA ESTATE AGENCIES PVT. LTD.
2405	U99999DL1990PTC039081	ENCORE PRINTERS PVT. LTD.
2406	U51494DL1990PTC039083	KHANDELWAL EXIM PRIVATE LIMITED
2407	U31909DL1990PTC039093	K.V. COMPONENTS PVT. LTD.
2408	U99999DL1990PTC039096	NEO ELECTRICALS AND INSULATION PVT. LTD.
2409	U26299DL1990PTC039117	ORELL FUSSLI INDIA PVT. LTD.
2410	U74210DL1990PTC039133	BANMIK CONSULTANCY PVT. LTD.
2411	U51109DL1990PTC039147	ALKA MARKETING PVT. LTD.
2412	U51397DL1990PTC039160	WELFARE TRADING ENTERPRISES PVT. LTD.
2413	U99999DL1990PTC039166	SONI SANITAS (MARKETING) PVT. LTD.
2414	U99999DL1990PTC039172	KUNAL ESTATES AND DEVELOPERS PVT. LTD.
2415	U99999DL1990PTC039187	F C COURIERS PVT. LTD.
2416	U99999DL1990PTC039200	NARD CHEMICALS PVT. LTD.
2417	U99999DL1990PTC039221	MADEERA IMPEX PVT. LTD.
2418	U01111DL1990PTC039232	MAHARAJA FARMS PVT. LTD.
2419	U99999DL1990PTC039239	JAGANNATH REAL ESTATE PVT. LTD.
2420	U99999DL1990PTC039240	SHERASTHA ESTATES PVT. LTD.
2421	U99999DL1990PTC039248	YAGG DUTT HOTELS PVT. LTD.
2422	U63040DL1990PTC039252	SOG TRAVELS PVT. LTD.
2423	U01122DL1990PTC039254	KRISHNA KRISHI VIKAS PVT. LTD.
2424	U25209DL1990PTC039259	D.N.S. PLASTICIZERS PVT. LTD.
2425	U17229DL1990PTC039279	PERSIAN CARPET MANUFACTURERS PVT. LTD.
2426	U99999DL1990PTC039283	P M MEDICAL PLACEMENTS PVT. LTD.
2427	U99999DL1990PTC039296	S.M. AIRCON PVT. LTD.
2428	U99999DL1990PTC039314	BABUSHAW VANASPATI PVT. LTD.
2429	U99999DL1990PTC039315	LARK FISHING AND PROCESSING PVT. LTD.
2430	U31300DL1990PTC039322	ABHISHEK ELECTRICALS PVT. LTD.
2431	U99999DL1990PTC039361	FAIR DETECTIVE AGENCY PVT. LTD.
2432	U19201DL1990PTC039363	UJALA FOOTWEARS PVT. LTD.
2433	U51909DL1990PTC039369	SHER-E-PUNJAB ENGINEERING WORKS PVT. LTD.
2434	U18101DL1990PTC039385	ANGAD DESIGN PVT. LTD.
2435	U99999DL1990PTC039407	GRNIOUS SECURITY SERVICES PVT. LTD.
2436	U15205DL1990PTC039417	KATYANI COLDSTORAGE PVT. LTD.
2437	U99999DL1990PTC039423	SAI WEARS PVT. LTD.
2438	U99999DL1990PTC039428	TIMELESS TOURS PVT. LTD.
2439	U99999DL1990PTC039431	PALIKA STORES PVT. LTD.
2440	U99999DL1990PTC039448	ADHUNIK MERCHANTS PVT. LTD.
2441	U99999DL1990PTC039454	PUNIA ELECTRONICS PVT. LTD.
2442	U99999DL1990PTC039456	SHAILJA OVERSEAS PVT. LTD.
2443	U99999DL1990PTC039496	ARO TOOLS PVT. LTD.
2444	U99999DL1990PTC039522	WEBCHICK FARMS PVT. LTD.
2445	U31300DL1990PTC039531	PARINA CONDUCTORS INDIA PVT. LTD.

2446	U45201DL1990PTC039539	MAHA DEEPTA DEVELOPERS AND BUILDERS PVT.LTD.
2447	U72200DL1990PTC039547	KHANNA ENTERPRISES PVT.LTD.
2448	U99999DL1990PTC039548	FAIR AGRO-VENTURES PVT. LTD.
2449	U51311DL1990PTC039552	VERTEX OVERSEAS PVT LTD.
2450	U99999DL1990PTC039570	PRAVASI INTERNATIONAL PVT. LTD.
2451	U74210DL1990PTC039604	ARYA DESIGN CONSULTANTS PVT. LTD.
2452	U74140DL1990PTC039612	KATYAL CONSULTANTS PVT.LTD.
2453	U17119DL1990PTC039631	V.TEX FIBRE AND FABRICS PVT.LTD.
2454	U99999DL1990PTC039633	SPEEDMAX COMMUNICATIONS PVT.LTD.
2455	U45201DL1990PTC039642	ASIAD CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2456	U17119DL1990PTC039647	AADINATH WOOLLEN MILLS PVT.LTD.
2457	U99999DL1990PTC039669	PROMIVAC ENGINEERS PVT.LTD.
2458	U72200DL1990PTC039681	COGNITIVE SYSTEM TECHNOLOGIES PVT. LTD.
2459	U99999DL1990PTC039690	X-BEAMS TECHNICAL SERVICES PVT. LTD.
2460	U51312DL1990PTC039707	SAVVY FOOTWEAR PVT.LTD.
2461	U99999DL1990PTC039713	MJR TOWERS PVT. LTD.
2462	U70100DL1990PTC039716	HINMIC IMPEX PVT. LTD.
2463	U99999DL1990PTC039741	REAL TIME INTERIOR DECORATORS PVT. LTD.
2464	U99999DL1990PTC039777	PERFECT STEELS PVT.LTD.
2465	U99999DL1990PTC039796	RS DATAVISION COMPUTER SERVICES PVT.LTD.
2466	U99999DL1990PTC039798	VISHI CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
2467	U99999DL1990PTC039814	UPDESH CHEMICLAS PVT.LTD.
2468	U99999DL1990PTC039827	DHANORIWALA'S WINE TRADERS PVT. LTD.
2469	U99999DL1990PTC039845	AIR BRIDGE COURIERS AND MARKETING PVT.LTD.
2470	U99999DL1990PTC039881	SWASTIK HOSIERY PVT. LTD.
2471	U99999DL1990PTC039910	EDEN EXPORTS PVT. LTD.
2472	U51109DL1990PTC039913	TRIDENT OVERSEAS PVT. LTD.
2473	U29299DL1990PTC039927	KELVIN ELECTRONICS PVT.LTD.
2474	U51431DL1990PTC039968	GARIMA TIMBERS PVT. LTD.
2475	U99999DL1990PTC039973	ASMAR SOAPS AND DETERGENTS PVT. LTD.
2476	U24110DL1990PTC039983	A TO Z CHEM PVT.LTD.
2477	U99999DL1990PTC040009	NIRANJAN POLYMERS PVT. LTD.
2478	U99999DL1990PTC040016	EXCLUSIVE CONFECTIONERY PVT.LTD.
2479	U51311DL1990PTC040021	VHB EXPORTS PVT. LTD.
2480	U24241DL1990PTC040025	PREM SOAP AND DETERGENTS PVT. LTD.
2481	U99999DL1990PTC040027	BHANU SALES PVT.LTD.
2482	U99999DL1990PTC040076	HAPAKTS MARKETING AND EXPORT PVT. LTD.
2483	U99999DL1990PTC040091	CIMMCO VALVES PRIVATE LIMITED
2484	U99999DL1990PTC040103	SONNET ELECTRONICS PVT. LTD.
2485	U17297DL1990PTC040132	SIDHANT OVERSEAS PVT.LTD.
2486	U99999DL1990PTC040143	OCEAN OVERSEAS PVT. LTD.
2487	U99999DL1990PTC040144	KABOOTER COURIER PVT. LTD.
2488	U24299DL1990PTC040148	WELL CROP PESTICIDES PVT.LTD.
2489	U31506DL1990PTC040170	MAYFAIR LUMINAIRES (INDIA) PVT. LTD.
2490	U34300DL1990PTC040177	KIRPARAM AUTO ENGINEERS PVT. LTD.
2491	U74999DL1990PTC040179	MJ DESIGNER'S COLLECTION PVT. LTD.
2492	U51909DL1990PTC040180	PRESENTATION EXIM PVT.LTD.
2493	U01222DL1990PTC040198	KHAN BROITERS PVT. LTD.
2494	U33201DL1990PTC040203	VICTORY OPTICALS PVT. LTD.
2495	U51909DL1990PTC040210	MVM EXIM PVT. LTD.
2496	U99999DL1990PTC040211	ROSHAN CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2497	U51432DL1990PTC040213	MOHAK TRADING PVT. LTD.
2498	U99999DL1990PTC040228	YASHTECH ELECTRONIC SYSTEMS PVT. LTD.
2499	U99999DL1990PTC040229	CHINU PRESS AND PRAKASHAN PVT.LTD.
2500	U74210DL1990PTC040307	RAJIV GOEL ARCHITECTS PVT.LTD.

2501	U99999DL1990PTC040311	SMG MARKETING SERVICES PVT.LTD.
2502	U99999DL1990PTC040312	SESSILE IMPEX PVT. LTD.
2503	U99999DL1990PTC040345	D.D.TRAVEL AND TOURS PVT.LTD.
2504	U24299DL1990PTC040349	KAPUR POLYPACK AND CHEMICALS PVT.LTD.
2505	U29308DL1990PTC040375	GLOW ELECTRIC COMPANY PVT.LTD.
2506	U72300DL1990PTC040379	NAVSHEK COMPUTER SERVICES PVT. LTD.
2507	U99999DL1990PTC040398	N.G. BUILDERS AND DEVELOPERS PVT.LTD.
2508	U99999DL1990PTC040402	HIND POLYMERS PVT.LTD.
2509	U99999DL1990PTC040427	PROXIMITY SERVICES (INIDA) PVT. LTD.
2510	U45201DL1990PTC040444	ADHUNIKA ESTATES PVT.LTD.
2511	U99999DL1990PTC040446	TRISONS BUILDERS AND PROMOTERS PVT.LTD.
2512	U99999DL1990PTC040454	KUNJ PACKAGING PVT. LTD.
2513	U99999DL1990PTC040458	NIDHI LEATHER TECH PVT. LTD.
2514	U99999DL1990PTC040465	AUDIOCRAFT EQUIPMENTS PVT.LTD.
2515	U45201DL1990PTC040483	OAM PROJECTS PVT. LTD.
2516	U27109DL1990PTC040493	VISHNU IRON INDUSTRIES PVT.LTD.
2517	U99999DL1990PTC040494	D.F. COMMUNICATION EQUIPMENTS PVT. LTD.
2518	U18101DL1990PTC040512	RIZV GARMENTS AND EXPORTS PVT.LTD.
2519	U99999DL1990PTC040521	MADINA CHEMICALS PVT. LTD.
2520	U99999DL1990PTC040524	COMPLE-MED PVT.LTD.
2521	U32101DL1990PTC040534	DINA ELECTRONICS PVT. LTD.
2522	U30007DL1990PTC040568	SONASTAR ELECTRONICS PVT. LTD. ✓
2523	U51495DL1990PTC040618	N.M. OVERSEAS PVT.LTD.
2524	U99999DL1990PTC040637	GRANDLAY MEDICAL CENTRE PVT. LTD.
2525	U74999DL1990PTC040646	SAKTMAN CHARTERING AND SHIPPING PVT. LTD.
2526	U63040DL1990PTC040651	SKYLARK AIRWAYS PVT.LTD.
2527	U17112DL1990PTC040659	NISSAN FABRICS PVT. LTD.
2528	U99999DL1990PTC040676	LAKHANPAL CHEMICALS AND PESTICIES PVT. LTD.
2529	U99999DL1990PTC040685	RAJYOG EXPORTS PVT. LTD.
2530	U99999DL1990PTC040688	BHAJI'S FLOUR MILLS PVT. LTD.
2531	U74140DL1990PTC040700	MINALI MARKETING PVT.LTD.
2532	U99999DL1990PTC040740	TRUE FOODS PVT. LTD.
2533	U31300DL1990PTC040757	NELCON CABLES PVT.LTD.
2534	U99999DL1990PTC040769	G.R. GRANITES PVT. LTD.
2535	U74140DL1990PTC040776	YASHO MEDIA SERVICES PVT.LTD.
2536	U51909DL1990PTC040781	DEAN MARKETING AND SERVICES PVT. LTD.
2537	U99999DL1990PTC040787	PLUMAGE PLASTIC PVT.LTD.
2538	U99999DL1990PTC040823	INDO KOREAN IMPEX PVT.LTD.
2539	U29299DL1990PTC040828	RADIUM AUTO ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
2540	U45201DL1990PTC040841	ARENA COMMUNICATIONS PVT.LTD.
2541	U45201DL1990PTC040851	KALGIRHAR BUILDERS PVT.LTD.
2542	U99999DL1990PTC040862	PARTH OILS PVT.LTD.
2543	U99999DL1990PTC040863	ELEGANT DETECTIVE AGENCY PVT. LT.
2544	U99999DL1990PTC040883	BISEN STRAMIT AND ALLIED PRODUCTS PVT. LTD.
2545	U99999DL1990PTC040908	MEENAKSHI HOME APPLIANCES PVT.LTD.
2546	U99999DL1990PTC040918	JINDAL IMPEX INDIA PVT. LTD.
2547	U18101DL1990PTC040933	GAURIKA GARMENTS PVT. LTD.
2548	U51420DL1990PTC040935	INDSERJEET METAL PVT. LTD.
2549	U24299DL1990PTC040939	PACIFIC AEROSOLS PVT. LTD.
2550	U99999DL1990PTC040965	NSG IMPEX PVT. LTD.
2551	U99999DL1990PTC040972	DARSHAN LAL JEWELLERS PVT. LTD.
2552	U31200DL1990PTC040975	METAL TEKNIK (INDIA) PVT.LTD.
2553	U18101DL1990PTC040984	PKK ZIPPS PVT. LTD.
2554	U29302DL1990PTC041004	OSWAL APPLIANCES PVT. LTD.
2555	U99999DL1990PTC041033	KARAN WOOLLEN MILLS PVT.LTD.

2556	U99999DL1990PTC041036	SARIKA BUILDERS PVT.LTD.
2557	U72900DL1990PTC041050	ORACLE DATA SYSTEMS PVT.LTD.
2558	U74300DL1990PTC041057	RNA MARKETING CONSULTANTS PVT. LTD.
2559	U99999DL1990PTC041079	DRD AND SONS PVT. LTD.
2560	U99999DL1990PTC041132	VINLAB IMPEX PVT. LTD.
2561	U51109DL1990PTC041133	SKIN CRAFT IMPEX PVT.LTD.
2562	U99999DL1990PTC041138	ROY OVERSEAS AND TECHNICAL CONSULTANTS PVT.LTD.
2563	U99999DL1990PTC041144	HINDUSTAN GRANITES PVT. LTD.
2564	U74999DL1990PTC041148	QUALITY MANAGEMENT NETWORK PVT. LTD.
2565	U85110DL1990PTC041156	PARAS HOTELS PVT.LTD.
2566	U99999DL1990PTC041167	MATRICKS INFORMATION TECHNOLOGY PVT. LTD.
2567	U70101DL1990PTC041172	MADHUNEER ESTATES PVT. LTD.
2568	U65921DL1990PTC041189	ASSET DEVELOPERS PVT.LTD.
2569	U51494DL1990PTC041196	TRUE VALUE APPARELS PVT.LTD.
2570	U29299DL1990PTC041201	SU-CHEM MACHINES PVT. LTD.
2571	U99999DL1990PTC041202	KIDEARE (INDIA) PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
2572	U99999DL1990PTC041209	RAGE CRAFTS PVT. LTD.
2573	U99999DL1990PTC041211	DELHI NEWS MEDIA PVT. LTD.
2574	U74210DL1990PTC041212	BIJIT ENGINEERING CONSULTANTS PVT.LTD.
2575	U63040DL1990PTC041238	FEATHER TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2576	U51229DL1990PTC041240	INDIAN SPICES AND PROCESSED FOODS PVT. LTD.
2577	U99999DL1990PTC041284	ALEK FOOD PRODUCTS PVT.LTD.
2578	U51909DL1990PTC041289	APN DUKAN DEPARTMENTAL STORES PVT. LTD.
2579	U99999DL1990PTC041331	ULTRA COMMUNICATION SYSTEMS PVT.LTD.
2580	U99999DL1990PTC041332	SATISFACTION DOMESTIC AIDS PVT. LTD.
2581	U51909DL1990PTC041342	SAI OVERSEAS PVT.LTD.
2582	U99999DL1990PTC041359	ADVENT MARKETING PVT. LTD.
2583	U18101DL1990PTC041370	VIDYA VASTRA PVT. LTD.
2584	U99999DL1990PTC041373	UNIQUE WOOL PROCESSORS PVT.LTD.
2585	U99999DL1990PTC041374	NEW BEAM FERRO ALLOYS PVT. LTD.
2586	U72200DL1990PTC041385	PERISCOPE SOFTWARE PVT.LTD.
2587	U51909DL1990PTC041422	CHANDER PRABHU AGENCIES PVT. LTD.
2588	U15202DL1990PTC041429	AGRO INDIA MALTS PVT.LTD.
2589	U74210DL1990PTC041430	AJRC CONSULTANTS PVT. LTD.
2590	U99999DL1990PTC041463	MERITEC EXPORTS PVT. LTD.
2591	U99999DL1990PTC041487	HIMJET EXPORT PVT. LTD.
2592	U33130DL1990PTC041507	SPR HI-VAC SYSTEMS PVT.LTD.
2593	U45201DL1990PTC041536	SOMBUILDERS (TAPA) PVT. LTD.
2594	U65923DL1990PTC041539	DCM EMPLOYEES WELFARE COMPAY PVT. LTD.
2595	U18109DL1990PTC041564	ALPS INDIA CLOTHING COMPANY PVT. LTD.
2596	U99999DL1990PTC041576	HEMKUNT BUILDERS AND CONTRACTORS PVT. LTD.
2597	U99999DL1990PTC041598	NEW TECH FOODS PVT. LTD.
2598	U29192DL1990PTC041604	MEHTA MECHANICAL WORKS PVT.LTD.
2599	U99999DL1990PTC041618	SHIVALIK BUILDERS PVT.LTD.
2600	U99999DL1990PTC041623	J.D.C. ENTERPRISES PVT. LTD.
2601	U99999DL1990PTC041673	ANNYKA TRAVELS PVT. LTD.
2602	U99999DL1990PTC041675	ANNYKA CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2603	U99999DL1990PTC041683	LOKESH LOOMTEX PVT. LTD.
2604	U29299DL1990PTC041690	JHINGA IRRIGATION EQUIPMENTS PVT. LTD.
2605	U99999DL1990PTC041725	ACT COMPUTER SYSTEMS PVT. LTD.
2606	U99999DL1990PTC041732	EXCEL TRAVELS PVT. LTD.
2607	U99999DL1990PTC041736	TREKAN ENGINEERING COMPANY PVT.LTD.
2608	U99999DL1990PTC041740	AMEER DIWAN FARMS PVT.LTD.
2609	U99999DL1990PTC041751	COMBAT COMPUTERS PVT. LTD.
2610	U29308DL1990PTC041780	TELLY VCR PVT. LTD.

2611	U27109DL1990PTC041840	GENUINE STEEL ALLOYS PVT. LTD.
2612	U99999DL1990PTC041851	SEVEN COMBINES STUTIOS PVT. LTD.
2613	U24119DL1990PTC041865	SUN REPROCHEM PVT. LTD.
2614	U31200DL1990PTC041870	PUNSHU ELECTRONICS PVT. LTD.
2615	U31200DL1990PTC041909	FINEX ELECTRICALS PVT. LTD.
2616	U99999DL1990PTC041934	K.N. BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
2617	U45201DL1990PTC041945	POOJA HOUSING COMPANY PVT. LTD.
2618	U24246DL1990PTC041972	ROCKLAND AROMATICS PVT. LTD.
2619	U32101DL1990PTC042006	HITEK APPLIANCES PVT. LTD.
2620	U51909DL1990PTC042011	REGAL ROBES PVT. LTD.
2621	U32201DL1990PTC042012	JASMEET ELECTRONICS PVT. LTD.
2622	U99999DL1990PTC042029	PROMORDIAL GOURMET PVT. LTD.
2623	U99999DL1990PTC042037	SUZU PROPERTIES PVT. LTD.
2624	U99999DL1990PTC042071	IMPLICARE CONSULTANCY PVT. LTD.
2625	U99999DL1990PTC042120	G.R. METALS PVT. LTD.
2626	U51109DL1990PTC042145	IMPERIAL TRADERS PVT. LTD.
2627	U52322DL1990PTC042150	PRAHLAD EXPORTS PVT. LTD.
2628	U99999DL1990PTC042163	HYDRAU CON ENGINEERING PROJECTS PVT. LTD.
2629	U99999DL1990PTC042198	MAKEN RUBBER PVT. LTD.
2630	U19111DL1990PTC042212	NITSU LEATHER PVT. LTD.
2631	U99999DL1990PTC042215	RAMESHWARAM CONSTRUCTION PVT. LTD.
2632	U51311DL1990PTC042224	SUKANYA APPARELS PVT. LTD.
2633	U99999DL1990PTC042236	ELSINE SYSTEMS PVT. LTD.
2634	U99999DL1990PTC042254	SHANI EXPORTS PVT. LTD.
2635	U99999DL1990PTC042266	SHIVAM HOME APPLIANCES PVT. LTD.
2636	U18101DL1990PTC042277	MID-TOWN OVERSEAS PVT. LTD.
2637	U74300DL1990PTC042282	SHALLEY ADS PVT. LTD.
2638	U51909DL1990PTC042284	MOONLIGHT EXPORTS PVT. LTD.
2639	U99999DL1990PTC042293	HEEWAN FOODS PVT. LTD.
2640	U33112DL1990PTC042331	LALSON DIAGNOSTICS PVT. LTD.
2641	U74140DL1990PTC042354	G.A. MANAGEMENT AND ENTREPRENEURS SERVICES PVT. LTD.
2642	U99999DL1990PTC042358	IEH ENGINEERING PVT. LTD.
2643	U55101DL1990PTC042385	BMK HOTEL AND CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD.
2644	U51909DL1990PTC042394	RUCHI OVERSEAS PVT. LTD.
2645	U99999DL1990PTC042399	PALTECH ENGINEERS AND TRADERS PVT. LTD.
2646	U72100DL1990PTC042405	A.G. COMPU-GRAPHICS PVT. LTD.
2647	U27310DL1990PTC042407	INDER RAJ BATRA STEELS PVT. LTD.
2648	U24222DL1990PTC042444	BHUNIT CHEMICALS PVT. LTD.
2649	U99999DL1990PTC042450	MANCHANDA ESTATES PVT. LTD.
2650	U73100DL1990PTC042459	LOOMBA LABORATORIES PVT. LTD.
2651	U99999DL1990PTC042481	ANTRIKSH AIRWAYS PVT. LTD.
2652	U19201DL1990PTC042485	SHASLIMAR LEATHER INDUSTRIES PVT. LTD.
2653	U99999DL1990PTC042507	SAP ALLOYS PVT. LTD.
2654	U51909DL1990PTC042508	ELEGANT MARKETING PVT. LTD.
2655	U18101DL1990PTC042532	LIGHT KNITS PVT. LTD.
2656	U99999DL1990PTC042555	STAG FOOTWEAR PVT. LTD.
2657	U99999DL1991PTC042562	VIKRAM FASHIONS PVT. LTD.
2658	U99999DL1991PTC042567	RASLEEN ART PRINTERS PVT. LTD.
2659	U24131DL1991PTC042585	ASHISH POLYTEX PVT. LTD.
2660	U51399DL1991PTC042588	ARTISAN HANDICRAFTS SERAI PVT. LTD.
2661	U99999DL1991PTC042620	HELPING HANDS SERVICES PVT. LTD.
2662	U99999DL1991PTC042627	DEESHE APPLIANCES PVT. LTD.
2663	U99999DL1991PTC042638	SOVEREIGN TRAVELS PVT. LTD.
2664	U17223DL1991PTC042641	UMESH WOOLLEX PVT. LTD.

2665	U99999DL1991PTC042694	DUREX ENGINEERS PVT.LTD.
2666	U51311DL1991PTC042697	V.A.P. EXPORTS PVT.LTD.
2667	U99999DL1991PTC042699	CROSSFIELD LAND DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT.LTD.
2668	U99999DL1991PTC042714	PARWAT SPINNING AND WEAVING MILLS PVT. LTD.
2669	U51909DL1991PTC042720	STUDIO SPEL ENTERPRISES PVT. LTD.
2670	U17101DL1991PTC042744	KAYEM ALUMINIUM PVT.LTD.
2671	U99999DL1991PTC042756	PROFESOR N.K. SINGH ASSOCIATES PVT.LTD.
2672	U74999DL1991PTC042767	PUNARVASU SYNERGY SYSTEMS PVT. LTD.
2673	U72200DL1991PTC042777	LOHARA SOFTWARE SYSTEMS PVT. LTD.
2674	U32109DL1991PTC042790	MULTIDATA MEDICAL PHYSICS INDIA PVT.LTD.
2675	U99999DL1991PTC042799	R.J. STEELMAN INDUSTRY PVT.LTD.
2676	U26109DL1991PTC042806	NEW ERA GLASS INDUSTRIES PVT. LTD.
2677	U99999DL1991PTC042816	BUSHI EXPORTS PVT.LTD.
2678	U99999DL1991PTC042834	NEON TELECOM ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT. LTD.
2679	U99999DL1991PTC042849	INTRAVISION CABLES SYSTEMS PVT.LTD.
2680	U99999DL1991PTC042861	CASPINE EXPORTS PVT.LTD.
2681	U24139DL1991PTC042868	MONTANA TAPES PVT.LTD.
2682	U99999DL1991PTC042877	PAARUA SONS MARKETING PVT. LTD.
2683	U99999DL1991PTC042890	RAVISH CASSIETTE INDUSTRIES PVT.LTD.
2684	U99999DL1991PTC042892	RIWAZ EXPORTS PVT.LTD.
2685	U51109DL1991PTC042904	FIRST STOP SALES PVT.LTD.
2686	U99999DL1991PTC042912	PARAVION TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2687	U51311DL1991PTC042938	S AND A PRODUCTS PVT. LTD.
2688	U45201DL1991PTC042964	REPID CONTRACTING COMPANY PVT. LTD.
2689	U99999DL1991PTC042969	COL TECH DYEING MILLS PVT.LTD.
2690	U99999DL1991PTC042983	RAN TECH BOOK (INDIA) PVT. LTD.
2691	U99999DL1991PTC042992	MADHYANT FARMS PVT. LTD.
2692	U99999DL1991PTC042996	VRIDHI CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
2693	U99999DL1991PTC043013	PRAPTI BUILDERS PVT. LTD.
2694	U99999DL1991PTC043041	INDIA ZIPPERS AND ELASTICS PVT. LTD.
2695	U70101DL1991PTC043045	SUMAN COLONISERS PVT.LTD.
2696	U99999DL1991PTC043072	G.P. PROPERTIES PVT.LTD.
2697	U99999DL1991PTC043107	SUNVIEW HOTELS PVT. LTD.
2698	U51492DL1991PTC043126	SADHU RAM KISHAN CHAND PVT.LTD.
2699	U31300DL1991PTC043136	VUBHU INDUSTRIES PVT.LTD.
2700	U99999DL1991PTC043152	SAMUDRA COMPUTERS PVT. LTD.
2701	U99999DL1991PTC043160	NIRMAL COEDGE BELTS PVT.LTD.
2702	U80302DL1991PTC043191	APT DATAMATICS PVT. LTD.
2703	U74210DL1991PTC043193	ON JOB ENGINEERS PVT. LTD.
2704	U99999DL1991PTC043196	PARATECH CONSULTANTS PVT. LTD.
2705	U15549DL1991PTC043213	RELIANCE BEVAERAGES PVT. LTD.
2706	U63040DL1991PTC043242	BIKANER PUNJAB ROAD CARRIERS PVT.LTD.
2707	U32101DL1991PTC043259	EN VEE ELECTRICALS PVT.LTD.
2708	U99999DL1991PTC043270	AANPRIYA MARKETING PVT.LTD.
2709	U99999DL1991PTC043271	A TOUCH SYSTEMS PVT.LTD.
2710	U99999DL1991PTC043296	SIDDHI YINAYAK ELECTRO DEVICES PVT.LTD.
2711	U99999DL1991PTC043304	RAGINI CONSTRUCTION PVT. LTD.
2712	U99999DL1991PTC043346	VVARUN OLVENT PVT. LTD.
2713	U45202DL1991PTC043354	MAHASHAKTI CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
2714	U74950DL1991PTC043370	AL PACK (INDIA) PVT.LTD.
2715	U45202DL1991PTC043378	VIJAY CONTRACTORS AND CIVIL ENGINEERS PVT.LTD.
2716	U27109DL1991PTC043400	MEHANDIPUR STEELS PVT.LTD.
2717	U99999DL1991PTC043403	SAVERSA ELECTRICALS PVT.LTD.
2718	U99999DL1991PTC043422	MOHCO EXPORTS PVT. LTD.

2719	U99999DL1991PTC043433	GAURAV PRDDUCTS PVT. LTD.
2720	U99999DL1991PTC043436	SHAILA EXPDRTS AND TRADING PVT.LTD.
2721	U22219DL1991PTC043470	SANPARK PRESS PVT. LTD.
2722	U51397DL1991PTC043471	NKS MARKETING PVT. LTD.
2723	U50101DL1991PTC043486	SANMATI AUTD TRADERS PVT.LTD.
2724	U99999DL1991PTC043496	PRATECH SYSTEMS PVT.LTD.
2725	U51909DL1991PTC043499	V-FINE ESSENTIAL HDME PRDDUCTS AND SERVICES PVT.LTD.
2726	U26942DL1991PTC043509	DAKSHDEEP CDMPUTERS PVT.LTD.
2727	U99999DL1991PTC043510	SAI CEMENT WDRKS PVT. LTD.
2728	U99999DL1991PTC043524	PRATYUSH AGENCIES PVT. LTD.
2729	U99999DL1991PTC043533	IMAGE BUILDERS PVT.LTD.
2730	U99999DL1991PTC043534	J.S. BEVERAGES PVT.LTD.
2731	U31900DL1991PTC043581	HGB PRECISIDN CDMPDNENTS PVT. LTD.
2732	U99999DL1991PTC043592	YDUNG CDMMUNICATIDN PVT.LTD.
2733	U63040DL1991PTC043605	NEERU TRAVELS PVT. LTD.
2734	U99999DL1991PTC043635	PRIME HEART CARE AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD.
2735	U45201DL1991PTC043648	SHIVALIC STRUCTURES PVT. LTD.
2736	U36104DL1991PTC043678	GOLDSTAR COIR PVT. LTD.
2737	U99999DL1991PTC043690	KDLD STEEL EXTRUSIDNS PVT.LTD.
2738	U99999DL1991PTC043715	APEX FDDTWEAR PVT. LTD.
2739	U32109DL1991PTC043741	REMCD CDMPDNENTS PVT.LTD.
2740	U99999DL1991PTC043753	VDGUE LEATHER GARMENTS PVT. LTD.
2741	U99999DL1991PTC043777	A.P. WIRE AND CABLES PVT. LTD.
2742	U51311DL1991PTC043779	MAYANK EXPDRTS PVT.LTD.
2743	U65910DL1991PTC043800	SDRD SYSTEMS PVT.LTD.
2744	U99999DL1991PTC043817	MGT COMPUTERS PVT. LTD.
2745	U51109DL1991PTC043835	DEVINA MERCHANTS PVT.LTD.
2746	U99999DL1991PTC043857	BIRDIE MARKETING (INDIA) PVT.LTD.
2747	U99999DL1991PTC043899	TEXFAB EXPDRTS PVT. LTD.
2748	U74210DL1991PTC043918	FAIZ ENGINEERS AND TRADERS PVT. LTD.
2749	U67120DL1991PTC043927	FEDEX CARGD AND CDURIERS PVT. LTD.
2750	U99999DL1991PTC043952	AKSHAY FDDDS AND BEVERAGES PVT.LTD.
2751	U92111DL1991PTC043981	ABHAR MDVIES PVT.LTD.
2752	U99999DL1991PTC044000	DURGA APARTMENTS PVT.LTD.
2753	U51909DL1991PTC044006	FIBRD APPLIANCES PVT.LTD.
2754	U24222DL1991PTC044030	BALI PDLYMERS PVT. LTD.
2755	U24221DL1991PTC044078	WINTER GREENS TEXCHEM PVT. LTD.
2756	U26956DL1991PTC044079	PREASH ENGINEERS PVT. LTD.
2757	U99999DL1991PTC044106	VINDDESH PDLYINKS PVT.LTD.
2758	U99999DL1991PTC044107	MANN TDWERS PVT.LTD.
2759	U99999DL1991PTC044123	MAHASHAKTI BUILDERS PVT. LTD.
2760	U99999DL1991PTC044128	PARVATI MACHINE TDDLS PVT.LTD.
2761	U99999DL1991PTC044142	AVIV PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
2762	U51216DL1991PTC044165	RUSINDA IMPEX PVT. LTD.
2763	U51909DL1991PTC044168	S.A. SALES CDMPAMY PVT. LTD.
2764	U51109DL1991PTC044175	DM CDNSIGNEE AGENTS PVT.LTD.
2765	U99999DL1991PTC044189	NEW ENERGY TECHNDLDGY AND PRDJECTS PVT.LTD.
2766	U74300DL1991PTC044205	RAHI ART SERVICES PVT.LTD.
2767	U21022DL1991PTC044224	NEW GAYATRI PAKWAYS PVT. LTD.
2768	U70101DL1991PTC044227	M.BAHL AND CDMPANY PVT.LTD.
2769	U74210DL1991PTC044246	SCDPIC INDIA ENGINEERS PVT.LTD.
2770	U99999DL1991PTC044250	QUEST INDIA HDTLS TRAVELS AND TDURS PVT.LTD.
2771	U22122DL1991PTC044259	NEWSJDY PUBLICATIDNS PVT.LTD.
2772	U51311DL1991PTC044268	LAADI TDSHI EXPDRTS PVT.LTD.

2773	U99999DL1991PTC044275	COMET TRADERS PVT.LTD.
2774	U24231DL1991PTC044278	SUPER VITAMINS AND DUGES PVT.LTD.
2775	U92412DL1991PTC044283	SINGING HILLS COUNTRY CLUB PVT.LTD.
2776	U01214DL1991PTC044326	A.B. STUD AND AGRICULTURAL FARM PVT. LTD.
2777	U99999DL1991PTC044341	HIMGIRI EXPORTS PVT.LTD.
2778	U63040DL1991PTC044349	ISAN TRAVELS PVT.LTD.
2779	U99999DL1991PTC044354	DISCOVERY INTERNATIONAL PVT.LTD.
2780	U63090DL1991PTC044360	MIKADO AGENCIES PVT LTD
2781	U99999DL1991PTC044375	AMOL CHEMICALS LABORATORIES PVT.LTD.
2782	U45201DL1991PTC044379	MANSI CONSTRUCTION PVT.LTD.
2783	U99999DL1991PTC044404	GDN OVERSEAS PVT. LTD.
2784	U51909DL1991PTC044412	ALMAZ IMPEX PVT.LTD.
2785	U99999DL1991PTC044448	TAURUS TAGS PVT.LTD.
2786	U99999DL1991PTC044486	J.M.D. ENTERPRISES PVT.LTD.
2787	U99999DL1991PTC044499	DINESH ENVIRONMENTAL SERVICES POLLUTION CONTROL AND CHEMICALS PVT. LTD.
2788	U19119DL1991PTC044533	R.A.S. FOOTWEAR PVT.LTD.
2789	U51311DL1991PTC044542	GSB OVERSEAS PVT.LTD.
2790	U99999DL1991PTC044563	PASTEL OVERSEAS PVT.LTD.
2791	U99999DL1991PTC044566	CMS (INDIA) REXPRESS CARD PVT.LTD.
2792	U99999DL1991PTC044570	MILAN RASTA AND FOOD PRODUCTS PVT. LTD
2793	U99999DL1991PTC044574	PARBHA PRODUCTS AND BUILDERS PVT.LTD.
2794	U63031DL1991PTC044578	CAPT. R.S. SINDHU TRANSPORT PVT. LTD.
2795	U51101DL1991PTC044586	BON TON IXPEX PVT. LTD.
2796	U51399DL1991PTC044598	GUPTA SUPPLIERS PVT. LTD.
2797	U31503DL1991PTC044609	SANDY ELECTRONICS PVT.LTD.
2798	U51311DL1991PTC044636	DECENT SALES PVT. LTD.
2799	U74210DL1991PTC044653	SHIRIESH MALPANI AND ASSOCIATES PVT. LTD.
2800	U99999DL1991PTC044661	SUNDAWN MANUFACTURING COMPANY PVT. LTD.
2801	U74140DL1991PTC044678	MURGAI ASSOCIATES PVT. LTD.
2802	U74210DL1991PTC044692	E.S. ENGINEERS PVT. LTD.
2803	U99999DL1991PTC044707	WHITECITY BUILDERS PVT. LTD.
2804	U31900DL1991PTC044730	SHAKTI HANKUK PVT. LTD.
2805	U99999DL1991PTC044752	MAYA PLASTICS PVT.LTD.
2806	U99999DL1991PTC044788	INDFIN -TECH CONSULTANCY PVT.LTD.
2807	U99999DL1991PTC044797	NIKI IMPEX PVT. LTD.
2808	U41909DL1991PTC044806	BAPAL TRADING PVT.LTD.
2809	U99999DL1991PTC044812	VRINDAVAN ESTATES PVT.LTD.
2810	U99999DL1991PTC044840	UTSAV PLAST PVT. LTD.
2811	U25209DL1991PTC044842	SATGURU PLASTIC INDUSTRIES PVT.LTD.
2812	U74999DL1991PTC044852	VENUS PRECISION PARTS PVT.LTD.
2813	U99999DL1991PTC044862	VISION EARTH COMMUNICATIONS PVT.LTD.
2814	U51909DL1991PTC044878	JPS MEDICARE PVT.LTD.
2815	U36101DL1991PTC044902	DURA BUILT FURNITURE PVT.LTD.
2816	U99999DL1991PTC044917	STANDARD MINIATURE CIRCUIT BRAKER PVT. LTD.
2817	U99999DL1991PTC044918	JAI KRISHNA CEMENT WORKS PVT. LTD.
2818	U74899DL1991PTC044933	DEC-HOM APPLIANCES PVT LTD
2819	U99999DL1991PTC044941	ARVIND TECHNO CONTRACTS PVT LTD
2820	U74999DL1991PTC044956	BIRBAL GIFTS PVT. LTD.
2821	U63040DL1991PTC044962	DESIGNERS TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2822	U99999DL1991PTC044968	N.N. SCRIVENER INDIA PVT LTD.
2823	U99999DL1991PTC045006	NUMERONIX SYSTEMS PVT.LTD.
2824	U99999DL1991PTC045009	PEACE TOOLS AND ELECTRICALS PVT. LTD.
2825	U99999DL1991PTC045034	TIMELESS EXPORTS PVT. LTD.
2826	U99999DL1991PTC045044	RAJNINGANDA ENTERPRISES PVT.LTD.

2827	U67120DL1991PTC045082	ASTHA HDLDINGS PVT. LTD.
2828	U24114DL1991PTC045099	AYODHYA CHEMICALS PVT. LTD.
2829	U99999DL1991PTC045103	SPACE SDFTWEAR PVT. LTD.
2830	U99999DL1991PTC045119	AAKARSHAN TRAVELS AND CARGO PVT. LTD.
2831	U99999DL1991PTC045143	TREND SETTERS APPLIANCES PVT. LTD.
2832	U74999DL1991PTC045148	HELICDN METALS PVT. LTD.
2833	U27204DL1991PTC045158	SWEETY CHEMICALS PVT. LTD.
2834	U99999DL1991PTC045169	SWASTIK VASTAR UDYDG PVT. LTD.
2835	U99999DL1991PTC045190	PATVAAR CDNSTRUCTION CDMPANY PVT. LTD.
2836	U99999DL1991PTC045203	CLB STEEL AND ALLDYS PVT. LTD.
2837	U99999DL1991PTC045227	SAB DVERSEAS PVT. LTD.
2838	U99999DL1991PTC045245	TASTY TEA PACKAGER PVT. LTD.
2839	U99999DL1991PTC045265	TRIVENI EXTUBITDRS PVT. LTD.
2840	U17102DL1991PTC045318	JAIN INDUSTRIES PVT. LTD.
2841	U99999DL1991PTC045368	JAI AMBICA PLASTIC MDULDING PVT. LTD.
2842	U27101DL1991PTC045392	MAHADEV RDLLINGS PVT. LTD.
2843	U99999DL1991PTC045399	DMS MARINE CDNSULTANCY AND EQUIPMENTS PVT. LTD.
2844	U51311DL1991PTC045450	RAKUL EXPDRTS PVT. LTD.
2845	U99999DL1991PTC045464	FDURIER ELECTRD SYSTEMS PVT. LTD.
2846	U51909DL1991PTC045505	CHARANJIT LAL AND CDMPANY PVT. LTD.
2847	U34300DL1991PTC045530	MDHINDRA AUTO PVT. LTD.
2848	U99999DL1991PTC045539	TRANS MEDIA PVT. LTD.
2849	U99999DL1991PTC045547	DALSHEM VECIAP (INDIA) PVT. LTD.
2850	U92490DL1991PTC045555	GUDKIT AUDID VISUALS PVT. LTD.
2851	U51109DL1991PTC045558	SWIFT DISTILLERIES PVT. LTD.
2852	U99999DL1991PTC045571	RDTHMAN TRAVELS PVT. LTD.
2853	U99999DL1991PTC045573	SHIPRA TDURS (INDIA) PVT. LTD.
2854	U22219DL1991PTC045575	PATRIDI PUBLISHERS PVT. LTD.
2855	U17102DL1991PTC045579	HIMANSHU STEELS PVT. LTD.
2856	U99999DL1991PTC045602	A.S. PARMAR AND CDMPANY PVT. LTD.
2857	U74999DL1991PTC045615	R. TELECDM BUSINESS SERVICES PVT. LTD.
2858	U52399DL1991PTC045617	SHABAB-E- KHAL PVT. LTD.
2859	U63090DL1991PTC045627	SPARRDW CDURIER PVT. LTD.
2860	U99999DL1991PTC045631	TRISHUL ELECTRDNICS PVT. LTD.
2861	U99999DL1991PTC045647	MANAV FDDD PRDDUCTS PVT. LTD.
2862	U99999DL1991PTC045655	FLEX PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
2863	U17299DL1991PTC045694	KUMADN WDDLENS PVT. LTD.
2864	U99999DL1991PTC045744	A.D. FUEL INDIA PVT. LTD.
2865	U74300DL1991PTC045803	SYNDPSIS ADVERTISING AND MARKETING PVT. LTD.
2866	U45201DL1991PTC045815	RAWAT PRDMDTERS PVT. LTD.
2867	U99999DL1991PTC045817	KWALITY CATERERS PVT. LTD.
2868	U99999DL1991PTC045822	VDLGA PIGMENTS PVT. LTD.
2869	U74920DL1991PTC045830	B.H. MANPDWER ASSDCIATES PVT. LTD.
2870	U22121DL1991PTC045855	SHABDARTH SANCHAR PVT. LTD.
2871	U22121DL1991PTC045855	SHABDARTH SANCHAR PVT. LTD.
2872	U51909DL1991PTC045856	NDRTH DELHI TRADERS PVT. LTD.
2873	U70109DL1991PTC045863	SWARAN KAMAL APARTMENTS PVT. LTD.
2874	U70109DL1991PTC045884	MEHER DEVELOPERS PVT. LTD.
2875	U99999DL1991PTC045885	CHAKRA ADVERTISING AND MARKETING PVT. LTD.
2876	U26941DL1991PTC045896	NAV BHARAT CEMENTS PVT. LTD.
2877	U99999DL1991PTC045897	PUSHP MDHAN PRDDUCTIONS PVT. LTD.
2878	U51109DL1991PTC045912	EVERLITE EXPDRTS PVT. LTD.
2879	U51420DL1991PTC045922	KUTEER METALS UDYDG PVT. LTD.
2880	U99999DL1991PTC045928	SDDHI SECURITY SERVICES PVT. LTD.
2881	U70101DL1991PTC045961	METRD FARMS PVT. LTD.

2882	U51101DL1991PTC045967	DCM TRANSWORLD PRIVATE LIMITED
2883	U99999DL1991PTC045990	SANYA APPLIANCES PVT. LTD.
2884	U74300DL1991PTC046000	UMANG AUDIOVOICE ADVERTISERS PVT. LTD.
2885	U99999DL1991PTC046023	EMESS PROMOTERS PVT. LTD.
2886	U72200DL1991PTC046024	VISION TECHNOLOGIES PVT. LTD.
2887	U99999DL1991PTC046036	NIMBI STEELS PVT. LTD.
2888	U31102DL1991PTC046043	NOVOMEK PRODUCTS PVT. LTD.
2889	U99999DL1991PTC046052	VERBEEK DREDGE CONSULTANTS PVT. LTD.
2890	U99999DL1991PTC046071	HALONIX EXPORTS PVT. LTD.
2891	U80302DL1991PTC046072	NOSTRUM CONSULTANCY PVT. LTD.
2892	U99999DL1991PTC046073	SAKSHI OVEREAS PVT. LTD.
2893	U99999DL1991PTC046096	SHAN OIL FIELD SERVICES PVT. LTD.
2894	U99999DL1991PTC046102	PRINCE HARBALS PVT. LTD.
2895	U99999DL1991PTC046123	GURMEET ASSOCIATES PVT. LTD.
2896	U99999DL1991PTC046155	KAILASPATI MILK PRODUCTS PVT. LTD.
2897	U99999DL1991PTC046184	KUNDLI TRADERS PVT. LTD.
2898	U65910DL1991PTC046186	MID EAST FARM PVT. LTD.
2899	U99999DL1991PTC046188	MID WEST INKS PVT. LTD.
2900	U99999DL1991PTC046189	ATA CONSULTANTS PVT. LTD.
2901	U65910DL1991PTC046196	KUSUM FARMS PVT. LTD.
2902	U99999DL1991PTC046211	CPS EXPORTS INDIA PVT. LTD.
2903	U45201DL1991PTC046226	KAPIL BUILDERS PVT. LTD.
2904	U99999DL1991PTC046268	BITS AND BYTES SYSTEMS PVT. LTD.
2905	U99999DL1991PTC046278	PRIYANKA SUPPLIERS PVT. LTD.
2906	U99999DL1991PTC046289	QUICK COAL MOVERS AND SUPPLIERS PVT. LTD.
2907	U51219DL1991PTC046303	YUBIL OVERSEAS PVT. LTD.
2908	U51311DL1991PTC046407	PBR ENGINEERING EXPORTS PVT. LTD.
2909	U33119DL1991PTC046410	EXOTIC HERBS PVT. LTD.
2910	U45201DL1991PTC046466	DEMBLA BUILDERS PVT. LTD.
2911	U99999DL1991PTC046470	DISCOVERY MARKETING PVT. LTD.
2912	U99999DL1991PTC046475	ACTION RUBBERS (INDIA) PVT. LTD.
2913	U24241DL1991PTC046483	ARVO SYNET PVT. LTD.
2914	U99999DL1991PTC046489	EPS TECHNOLOGY PVT. LTD.
2915	U99999DL1991PTC046522	S. SPACE ONIX PVT. LTD.
2916	U18101DL1991PTC046541	SPOT-KNOT EXPORTS PVT. LTD.
2917	U99999DL1991PTC046542	SIVA CHLORIDES PVT. LTD.
2918	U51395DL1991PTC046543	COCOON MERCANTILES PVT. LTD.
2919	U45202DL1991PTC046547	ATHENA PROPERTIES AND CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2920	U45202DL1991PTC046559	PARKVIEW CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
2921	U99999DL1991PTC046562	PATIAL AGRO FUELS PVT. LTD.
2922	U99999DL1991PTC046566	GAYATRI TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
2923	U29192DL1991PTC046576	CHAMPION AIR CONDITIONING PVT. LTD.
2924	U99999DL1991PTC046627	MENWAH FILMS AND VIDEO STUDIO PVT. LTD.
2925	U99999DL1991PTC046632	SGM OVERSEAS PVT. LTD.
2926	U99999DL1991PTC046633	CUREM PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
2927	U15142DL1991PTC046636	NEW SANMAN OIL AND CHEMICALS INDUSTRIES PVT. LTD.
2928	U25207DL1991PTC046641	YASHITE PLASTICS PVT. LTD.
2929	U17299DL1991PTC046669	UPPER CLASS APPARELS PVT. LTD.
2930	U27108DL1991PTC046701	N. R. STEELS PVT. LTD.
2931	U99999DL1991PTC046743	K. B. CONSTRUCTION PVT. LTD.
2932	U99999DL1991PTC046745	SHANTI FERTILIZERS PVT. LTD.
2933	U51909DL1991PTC046747	NIPHA EXPORTS PVT. LTD.
2934	U99999DL1991PTC046754	K. M. CONSULTANTS AND IMPEX PVT. LTD.
2935	U99999DL1991PTC046755	SHALIMAR DOORS PVT. LTD.
2936	U51494DL1991PTC046757	COSMO FASHIONS PVT. LTD.

2937	U99999DL1991PTC046760	PRONTO COURIERS PVT. LTD.
2938	U99999DL1991PTC046779	OKI EXPORTS PVT. LTD.
2939	U99999DL1991PTC046782	RAMA ELECTRICALS PVT. LTD.
2940	U99999DL1991PTC046793	BAJAJ ICE COLD STORAGE PVT. LTD.
2941	U99999DL1991PTC046821	LURE COMETICS PVT. LTD.
2942	U99999DL1991PTC046829	SHYAM SAVERA CO-COURIERS PVT. LTD.
2943	U99999DL1991PTC046837	KOKIL EXPORTS PVT. LTD.
2944	U99999DL1991PTC046839	DADI TELEVISION AND TELE COMMUNICATION PVT. LTD.
2945	U99999DL1991PTC046844	AJAY CEMENTS PVT. LTD.
2946	U99999DL1991PTC046848	GAV COMPUTERS PVT. LTD.
2947	U99999DL1991PTC046855	PUNAM LEATHER PVT. LTD.
2948	U51311DL1991PTC046883	RICHIE RICH OVERSEAS PVT. LTD.
2949	U51109DL1991PTC046889	FLORID AGENCIES PVT. LTD.
2950	U99999DL1991PTC046890	BLOSSOM EXPORTS PVT. LTD.
2951	U65992DL1991PTC046924	PRANS CARTOONS PVT. LTD.
2952	U99999DL1991PTC046939	SHRUBI PRINTS AND PACKS PVT. LTD.
2953	U51909DL1991PTC046946	PENGUIN OVERSEAS PVT. LTD.
2954	U99999DL1992PTC046947	SULAH CHEMICALS PVT. LTD.
2955	U74140DL1992PTC046993	BHAGAVAN EXPORTS PVT. LTD.
2956	U99999DL1992PTC047048	ANYTIME APPARELS PVT. LTD.
2957	U35121DL1992PTC047070	KUKU TRAVELS PVT. LTD.
2958	U74300DL1992PTC047073	DONAL ADVERTISERS PVT. LTD.
2959	U51909DL1992PTC047083	LEHAR EXPORTS PVT. LTD.
2960	U51909DL1992PTC047102	HARMINA R. EXPORTS PVT. LTD.
2961	U99999DL1992PTC047108	SECONDLIFE SURGICALS PVT. LTD.
2962	U74994DL1992PTC047131	FLOW TECH COOLING TOWERS PRIVATE LIMITED
2963	U52322DL1992PTC047152	SANTANA EXPORTS (INDIA) PVT. LTD.
2964	U99999DL1992PTC047228	B.S. RETREADS PVT. LTD.
2965	U74140DL1992PTC047232	KUMAR SOFTWARE SYSTEMS PVT. LTD.
2966	U99999DL1992PTC047244	PAHUJA FASHIONS PVT. LTD.
2967	U99999DL1992PTC047257	BAKEMANS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2968	U63040DL1992PTC047270	UTTHAN TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
2969	U99999DL1992PTC047276	HYTHRO POWER ENGINEERS PVT. LTD.
2970	U99999DL1992PTC047289	AMIT LEATHERS PVT. LTD.
2971	U99999DL1992PTC047293	S.K. MANGANESE PVT. LTD.
2972	U99999DL1992PTC047309	NOOPUR OVERSEAS PVT. LTD.
2973	U99999DL1992PTC047326	SHRI HARIVANSH TEXTILES PVT. LTD.
2974	U99999DL1992PTC047330	A.D. REFRIGERATION PVT. LTD.
2975	U51909DL1992PTC047353	VIVEKNANDA MARKETING PVT. LTD.
2976	U99999DL1992PTC047364	ATLANTIA MILK PVT. LTD.
2977	U51228DL1992PTC047370	A. SOOD AND CO. PVT. LTD.
2978	U36109DL1992PTC047404	TUSH AND TEE INTERNATIONAL PVT. LTD.
2979	U85110DL1992PTC047407	ALLIANCE BODY CARE PVT. LTD.
2980	U51909DL1992PTC047409	HARSHA COPIERS MARKETING PVT. LTD.
2981	U24299DL1992PTC047415	JMD CHEMICALS PVT. LTD.
2982	U99999DL1992PTC047432	TEKNISKIL ENGINEERING PVT. LTD.
2983	U51909DL1992PTC047434	D.N. ENTERPRISES PVT. LTD.
2984	U99999DL1992PTC047441	J.N. NANDA TECHNICAL LABORATORY PVT. LTD.
2985	U99999DL1992PTC047501	MANIKA SERVICES PVT. LTD.
2986	U99999DL1992PTC047515	K.R. APPLIANCES PVT. LTD.
2987	U80302DL1992PTC047569	DOPPLER CENTRE FOR ULTRASOUND AND VASCULAR STUDIES PVT. LTD.
2988	U31200DL1992PTC047664	BILT ELECTRONICS PVT. LTD.
2989	U99999DL1992PTC047675	SANCHITA PETROFOAMS PVT. LTD.
2990	U99999DL1992PTC047695	ASALATNAGAR FOUNDRY PVT. LTD.

2991	U99999DL1992PTC047699	EXTHOS ELECTRONICS PVT. LTD.
2992	U99999DL1992PTC047732	VANSH ESTATES PVT. LTD.
2993	U51505DL1992PTC047776	SUPER FAX MACHINES PVT. LTD.
2994	U99999DL1992PTC047788	VISHISHT CHEMICALS PVT. LTD.
2995	U72200DL1992PTC047826	FALCON TYPORGRAPHIC ART (INDIA) PVT. LTD.
2996	U99999DL1992PTC047842	IYFAL CONSTRUCTIONS (INDIA) PVT. LTD.
2997	U72200DL1992PTC047845	INFOLINKS COMPUTERS PVT. LTD.
2998	U45201DL1992PTC047859	AMBIKA DEVELOPERS AND PROMOTORS PVT. LTD.
2999	U99999DL1992PTC047861	R.L. TRANSPORT CO. PVT. LTD.
3000	U51109DL1992PTC047866	JAM ASSOCIATES PVT. LTD.
3001	U74140DL1992PTC047872	IMEGA ENGINEERS PVT. LTD.
3002	U99999DL1992PTC047900	PNEUTROL INSTRUMENTATION (INDIA) PVT. LTD.
3003	U80302DL1992PTC047907	A.M. ROY COMPUTERS EDUCATION CENTRE PVT. LTD.
3004	U99999DL1992PTC047920	ANAND PAINTS PVT. LTD.
3005	U24231DL1992PTC047938	GUPTA MEDICARE PVT. LTD.
3006	U99999DL1992PTC047942	VINICO CHEMICALS PVT. LTD.
3007	U99999DL1992PTC047950	TOFAZUL FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
3008	U99999DL1992PTC047988	PRIMAL BUILDERS AND ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD.
3009	U51909DL1984PTC047992	CHOICE MARKETING AND SERVICES PVT. LTD.
3010	U99999DL1992PTC047993	RANA EXPORTS PVT. LTD.
3011	U99999DL1992PTC048023	RNG ENTERPRISES PVT. LTD.
3012	U99999DL1992PTC048033	GIRJIA CHEMICALS PVT. LTD.
3013	U21012DL1992PTC048038	AVS POLYMERS PVT. LTD.
3014	U99999DL1992PTC048052	LADDER PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3015	U67120DL1992PTC048065	MANHATTAN SECURITIES PVT. LTD.
3016	U99999DL1992PTC048096	AAKARSHAN MEDIA PVT. LTD.
3017	U51909DL1992PTC048102	RAMINDRA EXPO AND IMPO PVT. LTD.
3018	U99999DL1992PTC048110	TRIPLE'S ENTERPRISES PVT. LTD.
3019	U99999DL1992PTC048139	TRI AMBIKEY FOODS PVT. LTD.
3020	U99999DL1992PTC048158	MERIDIAN OVERSEAS PVT. LTD.
3021	U45201DL1992PTC048164	BAHL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
3022	U99999DL1992PTC048173	TOP PLUS OVERSEAS PVT. LTD.
3023	U99999DL1992PTC048180	ANKIT SUPPLIERS PVT. LTD.
3024	U99999DL1992PTC048256	LEGEND MERCANTILE PVT. LTD.
3025	U99999DL1992PTC048266	RACHHOYA EXPORTS PVT. LTD.
3026	U99999DL1992PTC048274	CROSSWIND EXIM PVT. LTD.
3027	U99999DL1992PTC048280	VIA SECURITIES PVT. LTD.
3028	U32109DL1992PTC048284	VARTA SYSTEMS PVT. LTD.
3029	U99999DL1992PTC048285	ARIHANT TERRY TOWELS PVT. LTD.
3030	U99999DL1992PTC048287	ANTRIKSH EXIM INDIA PVT. LTD.
3031	U99999DL1992PTC048299	KARESS OVERSEAS PVT. LTD.
3032	U99999DL1992PTC048327	SINGING EARTH FILMS PVT. LTD.
3033	U99999DL1992PTC048329	SPECTRUM CRYSTAL GLASS PVT. LTD.
3034	U99999DL1992PTC048331	AQUARIAN MULTICHANNEL MEDIA PVT. LTD.
3035	U99999DL1992PTC048338	NICE NETWORK PVT. LTD.
3036	U99999DL1992PTC048348	SHREE KRISHNA ESTATES DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT. LTD.
3037	U99999DL1992PTC048354	SALONI HOLDINGS PVT. LTD.
3038	U99999DL1992PTC048397	SANJIVINI EDUCATIONAL SYSTEMS COMPUTER DIVISION PVT. LTD.
3039	U70101DL1992PTC048404	VISHWA LAXMI BUILDERS PVT. LTD.
3040	U99999DL1992PTC048422	COMPRESSOR EQUIPMENTS (INDIA) PVT. LTD.
3041	U99999DL1992PTC048439	S.R.C. SCIENTIFIC EQUIPMENTS PVT. LTD.
3042	U27203DL1992PTC048450	SHREE BALAJEE NAME PLATE PVT. LTD.

3043	U99999DL1992PTC048468	CANYON PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3044	U17115DL1992PTC048473	SULDCHNA YARNS PVT. LTD.
3045	U99999DL1992PTC048478	SHIVANI FABRICS PVT. LTD.
3046	U51311DL1992PTC048485	R. P. SETHI AND ASSOCIATES PVT. LTD.
3047	U99999DL1992PTC048497	S. K. J. HOSIERIES PVT. LTD.
3048	U70101DL1992PTC048514	S. C. GUPTA DEVELOPERS AND BUILDERS PVT. LTD.
3049	U99999DL1992PTC048536	KHURANA SHARES AND SECURITIES PVT. LTD.
3050	U18101DL1992PTC048540	PEARL GARMENTS PVT. LTD.
3051	U74140DL1992PTC048574	FINWORTH ENTERPRISES PVT. LTD.
3052	U24999DL1992PTC048575	INZOSIL CHEMICALS AND EQUIPMENTS PVT. LTD.
3053	U99999DL1992PTC048652	VISHWALAKSHMI TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
3054	U99999DL1992PTC048685	SHILPI TOWERS PVT. LTD.
3055	U99999DL1992PTC048693	V. S. SYSTEMS PVT. LTD.
3056	U99999DL1992PTC048723	GANDHARVA PRAKASHAN PVT. LTD.
3057	U99999DL1992PTC048737	CROSS COUNTRY TELEVISION AND CABLES PVT. LTD.
3058	U99999DL1992PTC048780	A AND P OVERSEAS PVT. LTD.
3059	U99999DL1992PTC048792	INTEGRATED SWITCH DEVELOPMENT AND NETWORKING PVT. LTD.
3060	U99999DL1992PTC048793	RAJDHANI READYMADE GARMENTS PVT. LTD.
3061	U51109DL1992PTC048855	ROOTS MARKETING PVT. LTD.
3062	U99999DL1992PTC048884	PARTAMA PRODUCTS PVT. LTD.
3063	U99999DL1992PTC048892	MAHALAXMI MOTHER AND CHILD HOSPITAL PVT. LTD.
3064	U99999DL1992PTC048971	ARCHANA ENVIRON TECHNOLOGIES PVT. LTD.
3065	U99999DL1992PTC049028	DAS ADVERTISING AND COMMUNICATIONS PVT. LTD.
3066	U74140DL1992PTC049033	SOFTRONICS INFORMATION TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.
3067	U72300DL1992PTC049039	NUCLEUS (INDIA) PVT. LTD.
3068	U99999DL1992PTC049060	KHANDUJA ARCHITECTS AND BUILDERS PVT. LTD.
3069	U99999DL1992PTC049095	SUPER AIR CONDITIONING PVT. LTD.
3070	U99999DL1992PTC049118	DUDHWAL DAIRIES PVT. LTD.
3071	U99999DL1992PTC049126	SHIVOX FINE PRODUCTS PVT. LTD.
3072	U01214DL1992PTC049150	ASSOCIATED HORSE BREEDING COMPANY PVT. LTD.
3073	U99999DL1992PTC049169	VIJAY OVERSEAS PVT. LTD.
3074	U72200DL1992PTC049174	JASS ENTERPRISES PVT. LTD.
3075	U99999DL1992PTC049188	CAPITAL COMMUNICATIONS COMPANY PVT. LTD.
3076	U74999DL1992PTC049192	SALONI MARKETING COMPANY PVT. LTD.
3077	U99999DL1992PTC049211	DOMINUS JEANS PVT. LTD.
3078	U99999DL1992PTC049216	ISSANT PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3079	U99999DL1992PTC049219	VARUN APPARELS PVT. LTD.
3080	U30007DL1992PTC049247	PROLIFIC COMPUTERS PVT. LTD.
3081	U99999DL1992PTC049256	THAKURJEE SALES PVT. LTD.
3082	U99999DL1992PTC049273	SIRDMANI SPRINGS PVT. LTD.
3083	U51909DL1992PTC049274	LIMCO OVERSEAS PVT. LTD.
3084	U99999DL1992PTC049293	APAR MERCANTILE PVT. LTD.
3085	U36939DL1992PTC049316	UPHAR SPORTS INDUSTRIES PVT. LTD.
3086	U99999DL1992PTC049389	PRIME COLLECTIONS PVT. LTD.
3087	U99999DL1992PTC049390	PATRIOT SYSTEMS PVT. LTD.
3088	U51215DL1992PTC049394	CHOPRA ASSOCIATES PVT. LTD.
3089	U05001DL1992PTC049399	C. C. CATAMARANS CHARTER PVT. LTD.
3090	U99999DL1992PTC049404	TRI-LOKE CARGO MOVERS PVT. LTD.
3091	U74999DL1992PTC049408	MATEL COMMUNICATIONS PVT. LTD.
3092	U99999DL1992PTC049415	PASHUPATI ROLLING MILLS PVT. LTD.
3093	U74300DL1992PTC049422	S AND A ASSOCIATES PVT. LTD.
3094	U99999DL1992PTC049424	TRISTAR FOILS PVT. LTD.
3095	U24299DL1992PTC049446	UPHAR AGRICHEMICALS PVT. LTD.
3096	U51909DL1992PTC049483	DORR EXPORTS INDIA PVT. LTD.

3097	U20211DL1992PTC049504	PREMIER PLYWOODS PVT. LTD.
3098	U51505DL1992PTC049519	SAM OVERSEAS PVT. LTD.
3099	U64204DL1992PTC049532	SPLASH COVERAGE (INDIA) PVT. LTD.
3100	U99999DL1992PTC049550	INTEGRATED SECURITY SERVICES (EXSERVICEMEN) PVT. LTD.
3101	U99999DL1992PTC049645	GROWFAST CONSULTANTS PVT. LTD.
3102	U99999DL1992PTC049710	FRANCHISE ASIA PVT. LTD.
3103	U99999DL1992PTC049711	MULTIPLEX SALES AND SERVICES PVT. LTD.
3104	U25209DL1992PTC049714	EMNENT LUGGAGE PVT. LTD.
3105	U25209DL1992PTC049720	NISHANT POLY CHEM PVT. LTD.
3106	U74210DL1992PTC049758	SINHA AND ASSOCIATES PVT. LTD.
3107	U74210DL1992PTC049793	PREMIER ENGINEERING AND ECONOMIC CONSULTANTS PVT. LTD.
3108	U74219DL1992PTC049803	BLUE SEES INTERNATIONAL PVT. LTD.
3109	U99999DL1992PTC049804	ALLIED SALES PVT. LTD.
3110	U51494DL1992PTC049821	POLY GON IMPEX PVT. LTD.
3111	U29308DL1992PTC049832	MANGLA ELECTRICALS PVT. LTD.
3112	U99999DL1992PTC049855	FASHION CITY EXPORTS PVT. LTD.
3113	U99999DL1992PTC049862	CAPITAL AIR PVT. LTD.
3114	U70109DL1992PTC049870	S. S. PROPERTIES PVT. LTD.
3115	U99999DL1992PTC049889	KARAN OVERSEAS PVT. LTD.
3116	U51109DL1992PTC049907	RAMRATTAN OVERSEAS PVT. LTD.
3117	U99999DL1992PTC049911	TRANTOR SYSTEMS (INDIA) PVT. LTD.
3118	U99999DL1992PTC049924	JINNY EXPORTS PVT. LTD.
3119	U99999DL1992PTC049928	BHAGWATI DISTRIBUTORS PVT. LTD.
3120	U74999DL1992PTC049954	NOBLE HITECH SERVICES PVT. LTD.
3121	U99999DL1992PTC049963	LUNAR JEWELLERY CO. PVT. LTD.
3122	U99999DL1992PTC050006	LOVELY TEXTILES PVT. LTD.
3123	U74999DL1992PTC050016	TARA CHAND SPINNING MILLS PVT. LTD.
3124	U99999DL1992PTC050065	IRIS FARMS PVT. LTD.
3125	U99999DL1992PTC050080	MICRO PULSE COMPONENTS PVT. LTD.
3126	U99999DL1992PTC050084	BALWINDER CHEMICALS AND CONTAINERS PVT. LTD.
3127	U99999DL1992PTC050085	PYRAMID TECHNOLOGIES PVT. LTD.
3128	U99999DL1992PTC050098	NEHA ENTERPRISES PVT. LTD.
3129	U99999DL1992PTC050169	ARZ AMINES AND CHEMICALS PVT. LTD.
3130	U99999DL1992PTC050218	KAMAL FOODS AND SPICES PVT. LTD.
3131	U99999DL1992PTC050222	GHAWSIA BUILDERS ASSOCIATES PVT. LTD.
3132	U99999DL1992PTC050237	NEON GLASS AND ART EXPORT PVT. LTD.
3133	U99999DL1992PTC050238	SIROHI EXPORTS PVT. LTD.
3134	U72200DL1992PTC050248	S. M. DATANET TECHNOLOGIES PVT. LTD.
3135	U51399DL1992PTC050272	GROWAY MARKETING PVT. LTD.
3136	U26941DL1992PTC050323	ROHIT CEMENT INDUSTRIES PVT. LTD.
3137	U99999DL1992PTC050393	AANDM SYSTEMS CONSULTANTS PVT. LTD.
3138	U99999DL1992PTC050399	ISHAN AIRCONDITIONING PVT. LTD.
3139	U99999DL1992PTC050429	AMBE OIL MILL PVT. LTD.
3140	U99999DL1992PTC050448	CAPITAL FISHERIES PVT. LTD.
3141	U74210DL1992PTC050450	NABH AUTOMOBILE PVT. LTD.
3142	U74210DL1992PTC050474	MIKANSHU TECHNOLOGIES AND MARKETING PVT. LTD.
3143	U99999DL1992PTC050491	DOX TRADING PVT. LTD.
3144	U74140DL1992PTC050548	SWEKAR CONSULTANTS PVT. LTD.
3145	U99999DL1992PTC050567	HAMILTON HIDE EXPORTS PVT. LTD.
3146	U51909DL1992PTC050611	ROTAS IMPEX PVT. LTD.
3147	U18101DL1992PTC050633	KAY BEE APPARELS PVT. LTD.
3148	U51909DL1992PTC050641	OPERA MARKETING PVT. LTD.
3149	U99999DL1992PTC050651	BIOFER IMPEX PVT. LTD.

3150	U99999DL1992PTC050652	GROWMORE PACKAGINGS PVT. LTD.
3151	U99999DL1992PTC050655	ARCHIES CONSULTANTS PVT LTD
3152	U25209DL1992PTC050656	TARA SEALS PVT. LTD.
3153	U99999DL1992PTC050738	LAXSAV OVERSEAS PVT LTD
3154	U99999DL1992PTC050746	MEC DETERGENTS PVT LTD
3155	U99999DL1992PTC050751	SUNILA FABS PVT LTD
3156	U72100DL1992PTC050754	SUPRA FAXCINE PVT LTD
3157	U18201DL1992PTC050770	CORNELL GUPTA PRINTING PVT. LTD.
3158	U74910DL1992PTC050775	MCS CONSULTANTS PVT LTD
3159	U51909DL1992PTC050802	VAIBHAV OVERSEAS PVT LTD
3160	U24299DL1992PTC050810	PARMESHVAR CHEMICALS PVT LTD
3161	U99999DL1992PTC050817	LUFT TRAVELS PVT LTD
3162	U74999DL1992PTC050818	RED ROSE IMPEX PVT LTD
3163	U99999DL1992PTC050859	SAHIL STEELS PVT LTD
3164	U32302DL1992PTC050898	MULTI DIMENSIONAL ELECTRONICS PVT. LTD.
3165	U74999DL1992PTC050914	LE ROSELINE BEAUTY AND HEALTH CENTRE PVT LTD
3166	U99999DL1992PTC050944	DESTLI MARKETING AND ADVERTISING PVT LTD
3167	U99999DL1992PTC050945	RASHIDEEN BUILDERS PVT LTD
3168	U51109DL1992PTC050975	A.B. STEVIAR SYSTEMS PVT LTD
3169	U65910DL1992PTC051013	F.S. MATTA AND SONS PVT LTD
3170	U99999DL1992PTC051032	CONTECH CONSULTANTS AND BUILDERS PVT LTD
3171	U99999DL1992PTC051054	SHARP KNITWEARS PVT LTD
3172	U99999DL1992PTC051073	BANI FASHION PVT LTD
3173	U63040DL1992PTC051091	ARC TOURS AND TRAVELS PVT LTD
3174	U14109DL1992PTC051101	NICKY MINERALS PVT LTD
3175	U99999DL1992PTC051112	INDUS GOOD EARTH HOMES AND CONSTRUCTION PVT LTD
3176	U63040DL1992PTC051120	WISHY TOURS AND TRAVELS PVT LTD
3177	U99999DL1992PTC051144	V.S. DISTRIBUTORS PVT LTD
3178	U63090DL1992PTC051154	ANAND CARGO MOVERS PVT LTD
3179	U51909DL1992PTC051214	STAG EXIM PVT LTD
3180	U99999DL1992PTC051216	POOJA SECURITY SERVICES PVT LTD
3181	U99999DL1992PTC051268	SPAM FARMERS TECHNOLOGIES PVT LTD
3182	U51223DL1992PTC051273	ANDAMEN EXOTICA AQUAFARMS PVT LTD
3183	U92112DL1992PTC051278	AKANKSHA FILMS PVT LTD
3184	U99999DL1992PTC051304	G.D.D.M. MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
3185	U99999DL1992PTC051364	AGARWAL MEDIA PVT LTD
3186	U99999DL1992PTC051365	DYNAPACK COURIERS PVT LTD
3187	U51109DL1992PTC051373	BARCO TRADING PVT. LTD.
3188	U99999DL1992PTC051405	DAAMAN EXPORTS PVT LTD
3189	U01122DL1992PTC051408	ASHWANI FARMS PVT LTD
3190	U99999DL1992PTC051500	ORIGINAL FOODS AND DRINKS PVT LTD
3191	U18101DL1993PTC051531	K. SIKANDS EXPORTS (INDIA) PVT LTD
3192	U55101DL1993PTC051573	SERVEALL RESORTS AND HOTELS PVT LTD
3193	U99999DL1993PTC051611	VAISHNO FLOAT GLASS WORKS PVT LTD
3194	U99999DL1993PTC051629	SKY LIGHT MARKETING PVT LTD
3195	U17299DL1993PTC051676	ARCHIT HANDLOOM PVT LTD
3196	U99999DL1993PTC051704	VICKWAY ENGINEERING CO. PVT LTD
3197	U99999DL1993PTC051725	SURAJPUR POLYMERS PVT LTD
3198	U99999DL1993PTC051740	VALENTINOS GARMENTS PVT LTD
3199	U99999DL1993PTC051748	BAZGAR EXPORTS PVT LTD
3200	U99999DL1993PTC051792	LARA IMPEX PVT LTD
3201	U99999DL1993PTC051807	ESARAM AIR TRAVELS PVT LTD
3202	U99999DL1993PTC051833	DELHI HARYANA MADRAS TRANSPORT CO. PVT LTD
3203	U99999DL1993PTC051838	EXCEL T.V. PRODUCTIONS PVT LTD
3204	U99999DL1993PTC051875	U.D. COMPUTER CONSULTANTS PVT LTD

3205	U99999DL1993PTC051948	QUALITY PROFESSIONAL CONSORTIUM PVT LTD
3206	U60200DL1993PTC051987	SHARK TRANSPORT CO PVT LTD
3207	U51109DL1993PTC051993	HANSCH EXPORTS PVT LTD
3208	U99999DL1993PTC052027	BUSINESS EDUCATION APPLICATION TRAINING SERVICES PVT LTD
3209	U51909DL1993PTC052052	VINAYAK FILMS PVT LTD
3210	U70101DL1993PTC052062	JAGSON PAL HOUSING PVT LTD
3211	U74910DL1993PTC052179	ANNA PURNA CONSULTANTS PVT LTD
3212	U99999DL1993PTC052180	YOUNG KNITS PVT LTD
3213	U93010DL1993PTC052230	SPOT CLEANERS PVT LTD
3214	U99999DL1993PTC052289	HI-SKY STEELS PVT LTD
3215	U99999DL1993PTC052347	DIAMOND EDGE CUTTERS PVT LTD
3216	U72100DL1993PTC052376	SUPERTRON COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
3217	U99999DL1993PTC052416	ANSHOOO COMMUNICATION PVT LTD
3218	U99999DL1993PTC052418	POSITIVE PUBLISHERS PVT LTD
3219	U27106DL1993PTC052489	HUSAKA EXPORTS PVT LTD
3220	U51109DL1993PTC052550	ELEGANCE WOVEN LABLES PVT LTD
3221	U32109DL1993PTC052579	BLUE CHIP TELETRONICS PVT LTD
3222	U63040DL1993PTC052591	ALL WAYS MARKETING AND TRAVEL SERVICES PVT LTD
3223	U99999DL1993PTC052636	K S. MERCHANTS PVT LTD
3224	U99999DL1993PTC052663	GANPATI TRAVELS PVT LTD
3225	U99999DL1993PTC052673	EASYMOVE INDUSTRIAL EQUIPMENTS PVT LTD
3226	U99999DL1993PTC052677	VAISHALI PANEL BOARD INDUSTRIES PVT LTD
3227	U74210DL1993PTC052707	INDEP HYDROCARBON PVT LTD
3228	U99999DL1993PTC052720	WINATON ELECTRONICS PVT LTD
3229	U17297DL1993PTC052724	MODINAGAR TEXTILES PVT LTD
3230	U99999DL1993PTC052727	PRIZE PROPERTIES PVT LTD
3231	U99999DL1993PTC052739	ALIGARH PIPES PVT LTD
3232	U99999DL1993PTC052744	HONEY HOLDING PVT LTD
3233	U51505DL1993PTC052748	BRUCK COMMERCIAL PVT LTD
3234	U99999DL1993PTC052775	MODERN EXPORTS PVT LTD
3235	U99999DL1993PTC052778	BATLA BUILDERS PVT LTD
3236	U74999DL1993PTC052784	TAYAL TUBES PVT LTD
3237	U52110DL1993PTC052822	SUVIDHA DEPARTMENTAL STORES PVT LTD
3238	U32303DL1993PTC052860	SUPER TEE MAGNETICS PVT LTD
3239	U99999DL1993PTC052878	ADVANCE CONSUMER EFFICIENCY PRODUCTS PVT LTD
3240	U51494DL1993PTC052879	MAHITAS EXPORTS PVT LTD
3241	U99999DL1993PTC052885	GOODFAITH PROPERTIES AND INDUSTRIES PVT LTD
3242	U67190DL1993PTC052907	INFOTRONIC BUSINESS SERVICES INDIA PVT LTD
3243	U45201DL1993PTC052941	AMOS REALTORS PVT LTD
3244	U99999DL1993PTC052948	BEUPRA CONSULTANCY AND SERVICES PVT LTD
3245	U45201DL1993PTC052978	PRASAD DEVELOPERS PVT LTD
3246	U99999DL1993PTC053019	ST INFORMATION SERVICES PVT LTD
3247	U99999DL1993PTC053038	BRIGHTWAYS EXPORTS PVT LTD
3248	U74300DL1993PTC053062	ULTRA ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD.
3249	U74940DL1993PTC053070	PROLIFIC PRINTERS PVT LTD
3250	U99999DL1993PTC053097	REIL CHEMICALS INDUSTRIES PVT LTD
3251	U51432DL1993PTC053108	SURINDER SAND SUPPLY CO. PVT LTD
3252	U52609DL1993PTC053131	SUPREME DIESELS SERVICES PVT LTD
3253	U99999DL1993PTC053140	GARIMA FOODS PVT LTD
3254	U99999DL1993PTC053150	DANSUI CONSULTANTS AND SYSTEMS PVT LTD
3255	U41719DL1993PTC053187	AJAY SONS PVT LTD
3256	U99999DL1993PTC053189	TALWAR ROAD LINES PVT LTD
3257	U14101DL1993PTC053226	GANPATI MARBLES PVT LTD
3258	U51311DL1993PTC053230	LUCINE AIMS EXPORTS (INDIA) PVT LTD

3259	U19202DL1993PTC053247	CAMEY FOOTWEARS PVT LTD
3260	U24232DL1993PTC053254	OSHO DRUG MARKETING PVT LTD
3261	U74140DL1993PTC053259	SOCIAL SURVEYS (GALLUP POLL) INDIA PVT LTD
3262	U63040DL1993PTC053264	INDUS INTER MODEL CARRIERS PVT LTD
3263	U99999DL1993PTC053291	SANDHARBH PROPERTIES PVT LTD
3264	U51311DL1993PTC053305	BIG CHOICE FASHION PVT LTD
3265	U24231DL1993PTC053335	STERLING DENTAL EQUIPMENTS PVT LTD
3266	U52322DL1993PTC053337	SPARROW IMPEX PVT LTD
3267	U92112DL1993PTC053338	AQS MOVIE PVT LTD
3268	U99999DL1993PTC053368	SAGAR ALMIGHTY SERVICES PVT LTD
3269	U99999DL1993PTC053373	INDOFORE INTERNATIONAL PVT LTD
3270	U29197DL1993PTC053380	ARROW HEAD ENVIROTECH PVT LTD
3271	U99999DL1993PTC053381	SPARSH SHIPPING CO. PVT LTD
3272	U51909DL1993PTC053423	NISMO IMPEX PVT LTD
3273	U99999DL1993PTC053453	GRAPHIC COMVERSION AND SOFTWARE (I) PVT LTD
3274	U99999DL1993PTC053495	DEEL COMPUTERS PVT LTD
3275	U99999DL1993PTC053521	BUTANI PVT LTD
3276	U99999DL1993PTC053554	DAGSON PROCESSED FOODS PVT LTD
3277	U51109DL1993PTC053591	H.H. INTERNATIONAL COMPANY PVT LTD
3278	U99999DL1993PTC053644	SUPER DE PEE ADVERTISING PVT LTD
3279	U99999DL1993PTC053656	SATON INDIA PVT LTD
3280	U99999DL1993PTC053659	SURYODAYA HOLDING PVT. LTD.
3281	U99999DL1993PTC053673	SHORANUR COURIER AND CARGO SERVICES PVT LTD
3282	U99999DL1993PTC053689	RAJ SHREE MARKETING AND SERVICES PVT LTD
3283	U72100DL1993PTC053702	RISING SUN SOFTWARE PVT LTD
3284	U99999DL1993PTC053709	RISHABH LABS PVT LTD.
3285	U63033DL1993PTC053712	ANTRIKSH AIR SERVICES PVT LTD.
3286	U63033DL1993PTC053716	OPEN SKY CARGO PVT LTD
3287	U51497DL1993PTC053762	RUSAGRO INDIA PVT LTD.
3288	U51311DL1993PTC053769	HANDSOME TRADING AND SERVICES PVT LTD.
3289	U99999DL1993PTC053774	EMPIRE TRAVELS AND TOURS PVT LTD.
3290	U99999DL1993PTC053818	NAZER SPORTS WORLD PVT LTD
3291	U99999DL1993PTC053850	MOMIN LATIF RESORTS PVT LTD
3292	U99999DL1993PTC053853	SONU SYSTEMS PVT LTD.
3293	U99999DL1993PTC053857	SATYA PHARMACEUTICALS PVT LTD.
3294	U99999DL1993PTC053859	HELLO MARKETING PVT LTD.
3295	U29220DL1993PTC053870	SYMPHONY TRADELINKS PVT LTD.
3296	U99999DL1993PTC053902	S B J.M. ISPAT PVT LTD.
3297	U99999DL1993PTC053910	NIRMAL HI FABS PVT LTD.
3298	U99999DL1993PTC053916	BIMEX CONBOUS AND CHEMICALS PVT LTD
3299	U99999DL1993PTC053917	WEST POINT INTERIORS DESIGNS, EXHIBITIONS AND SERVICES(DELHI)PVT LTD.
3300	U51494DL1993PTC053949	BAGARIA INTERNATIONAL PVT LTD.
3301	U51494DL1993PTC053993	EXCLUSIF FASHION PVT LTD.
3302	U63040DL1993PTC054061	EARTH WINDS TRAVELS INDIA PVT LTD
3303	U99999DL1993PTC054069	GIRI EDUCATION PVT LTD
3304	U99999DL1993PTC054083	HI-SKY IMPEX PVT LTD
3305	U99999DL1993PTC054219	UNIK FOAM AND COIR PVT. LTD.
3306	U92112DL1993PTC054239	NOCHET AND DEV FILMS PVT LTD.
3307	U99999DL1993PTC054276	SAFE CIRCUITS PVT LTD
3308	U74210DL1993PTC054287	WEDAS CONSULTANTS PVT LTD
3309	U99999DL1993PTC054322	ALFA GYPSUM PVT LTD
3310	U17115DL1993PTC054337	NAMMO SHIVAYA SILK MILLS PVT LTD
3311	U28939DL1993PTC054374	ESSEE INDUSTRIAL ENGINEERING PVT LTD
3312	U99999DL1993PTC054408	KIKSON ELECTRICALS PVT LTD

3313	U99999DL1993PTC054450	SUNSHINE SILICATE PVT LTD
3314	U74140DL1993PTC054453	TRIMURTI SECURITY SERVICES PVT LTD
3315	U51399DL1993PTC054494	JASCO MARKETING PVT LTD
3316	U74999DL1993PTC054524	STAR TELECOM PVT LTD
3317	U99999DL1993PTC054537	JAMA GARMENT EXPORTS PVT LTD
3318	U99999DL1993PTC054543	NEETARA SHELTERS PVT LTD
3319	U99999DL1993PTC054546	AMEETA PACKAGINGS PVT LTD
3320	U67120DL1993PTC054557	S AND F SECURITIES PVT LTD
3321	U99999DL1993PTC054684	HAP INTERNATIONAL PVT LTD
3322	U74920DL1993PTC054688	ARNAF SECURITY SERVICES PVT LTD
3323	U99999DL1993PTC054697	USHABH ALLOYS PVT LTD
3324	U72200DL1993PTC054709	ELECTRONIC DESIGN INDIA PVT LTD
3325	U99999DL1993PTC054726	ALKA IRON AND STEEL PVT LTD
3326	U74140DL1993PTC054743	ANULAK CONSULTANTS PVT LTD
3327	U67120DL1993PTC054748	PEARL SECURITIES PVT LTD
3328	U99999DL1993PTC054752	HOUROUS AGRI CEMETICS PVT LTD
3329	U99999DL1993PTC054764	RAJMAL MARKETING PVT LTD
3330	U99999DL1993PTC054768	ARSUN SYSTEMS PVT LTD
3331	U99999DL1993PTC054777	ALL WAYS CARGO SERVICES PVT LTD
3332	U31909DL1993PTC054802	MYSORE SWITCH GEARS PVT LTD
3333	U51909DL1993PTC054809	NESTOR MARKETING PVT LTD
3334	U99999DL1993PTC054830	MEDORI OVERSEAS PVT LTD
3335	U99999DL1993PTC054848	PREM SUKLA ESTATES PVT LTD
3336	U99999DL1993PTC054851	A H WIRES PVT LTD
3337	U99999DL1993PTC054867	MADHUVAN OVERSEAS PVT LTD
3338	U99999DL1993PTC054892	KALINDI TRAVEL AND TOURS PVT LTD
3339	U29130DL1993PTC054896	INDIAN BEARINGS PRIVATE LIMITED
3340	U99999DL1993PTC054906	EMPRO SONA OFFSHORE PV LTD
3341	U27101DL1993PTC054919	MITUN ALLOYS PVT LTD
3342	U99999DL1993PTC054931	PAREX OVERSEAS PVT LTD
3343	U99999DL1993PTC054942	ENTRI DESTINE PVT LTD
3344	U99999DL1993PTC054947	FIRE DUST INDIA AUTOMOBILES AND RETREADS PVT LTD
3345	U99999DL1993PTC054976	SOHI GANGES CANAL HOLIDAY HOME PVT LTD
3346	U99999DL1993PTC055004	BABRA MARKETING PVT LTD
3347	U63040DL1993PTC055005	UPASAKA TRAVELS PVT LTD
3348	U45201DL1993PTC055014	NIZO CONTRUCTIONS PVT LTD
3349	U99999DL1993PTC055042	MAPS MERCHANDISING PVT LTD
3350	U28991DL1993PTC055056	RAJASTHAN AUTO SPINNINGS PVT LTD
3351	U99999DL1993PTC055059	ARAVALI MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
3352	U99999DL1993PTC055061	JAI MATA POLYMERS PVT LTD
3353	U99999DL1993PTC055084	NIKHIL POLYMERS PVT LTD
3354	U25209DL1993PTC055097	R D. POLYMERS PVT LTD
3355	U99999DL1993PTC055113	INDORS SAFETY DEVICES PVT LTD
3356	U51909DL1993PTC055115	HILLOCK INDIA PVT LTD
3357	U51909DL1993PTC055131	TIMET ENGINEERING AND MARKETING ASSOCIATES PVT LTD
3358	U45209DL1993PTC055132	SHAMEEM BUILDERS PVVT LTD
3359	U99999DL1993PTC055153	RAINBOW BUILDERS PVT LTD
3360	U99999DL1993PTC055195	CAREER MANAGEMENT INDIA PVT LTD
3361	U99999DL1993PTC055199	SHIPRA AIRWAYS PVT LTD
3362	U51909DL1993PTC055230	RATISONS TRADING CO. PVT LTD
3363	U99999DL1993PTC055243	ITI SHREE INTERIORS PVT LTD
3364	U99999DL1993PTC055250	FLUKE TRAVELLERS PVT LTD
3365	U17119DL1993PTC055324	SUNRAJ KNIT FAB PVT LTD
3366	U64201DL1993PTC055335	RURAL PAGING NETWORK PVT LTD

3367	U27320DL1993PTC055371	TOMER STEELS PVT LTD
3368	U99999DL1993PTC055374	ARTICA GEMS AND JEWELS PVT LTD
3369	U99999DL1993PTC055381	SKYDART MARKETING PVT LTD
3370	U51494DL1993PTC055398	KAMY EXPORTS PVT LTD
3371	U99999DL1993PTC055406	SYSTEM CHEMINISER INDIA PVT LTD
3372	U51909DL1993PTC055476	APAAR IMPEX PVT LTD
3373	U99999DL1993PTC055480	MAKAN CHEMICALS PVT LTD
3374	U99999DL1993PTC055489	SHILPI CREATIVE PVT LTD
3375	U99999DL1993PTC055490	DEV SHILPI ADVERTISING PVT LTD
3376	U99999DL1993PTC055496	STAR GARMENTS PVT LTD
3377	U99999DL1993PTC055520	NORTHERN HYDRO POWER GENERATION CO. LTD
3378	U99999DL1993PTC055541	CNC TRAVELS AND CARGO PVT LTD
3379	U99999DL1993PTC055542	FUZITEK COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
3380	U51109DL1993PTC055581	ANSA IMPEX PVT LTD
3381	U99999DL1993PTC055582	VSA GARMENTS PVT LTD
3382	U51909DL1993PTC055585	ZERA OVERSEAS PVT LTD
3383	U74210DL1993PTC055606	IN-DECOR (INDIA) PVT LTD
3384	U27106DL1993PTC055610	A.D. STEELS PVT LTD
3385	U99999DL1993PTC055613	BASANT SPRINGS PVT LTD
3386	U99999DL1993PTC055624	PHLOX MARKETING PVT LTD
3387	U99999DL1993PTC055651	KARTAR POLYMERS PVT LTD
3388	U67190DL1993PTC055658	H.S. GALAIAN CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
3389	U27101DL1993PTC055675	KANIKA MARKETING AND MANUFACTURING PVT LTD
3390	U63040DL1993PTC055679	MAP AVIATION PVT LTD
3391	U99999DL1993PTC055681	NDT ISPAT TEST HOMES PVT LTD
3392	U99999DL1993PTC055685	NIMBLE PACKWELL PVT LTD
3393	U64120DL1993PTC055689	RAJDHANI SECURITY AND DETECTIVE PVT LTD
3394	U99999DL1993PTC055704	SELEX APPLIANCES PVT LTD
3395	U63040DL1993PTC055732	NORTH STAR AIRLINES PVT LTD
3396	U31909DL1993PTC055762	TRANCE EXIM PVT LTD
3397	U99999DL1993PTC055775	MOTIVATIONAL MARKETING PVT LTD
3398	U99999DL1993PTC055778	DRISTIKONE CONSTRUCTIONS PVT LTD
3399	U99999DL1993PTC055799	UNI REMEDIES PVT LTD
3400	U99999DL1993PTC055832	AJUNI EXPORTS PVT LTD
3401	U99999DL1993PTC055834	EVERCOM TRADING (I) PVT LTD.
3402	U74210DL1993PTC055847	CARE COMMERCIAL PVT LTD
3403	U99999DL1993PTC055848	PLASTO PROCESSORS INDIA PVT LTD
3404	U64120DL1993PTC055958	VAYU SEVA COURIERS(INDIA) PVT LTD
3405	U74210DL1993PTC055982	QUEST CONSTRUCTIONS PVT LTD
3406	U70101DL1993PTC055988	GAGANDEEP DEVELOPERS PVT LTD
3407	U45203DL1993PTC055992	DEVI PRAKASH MITTAL ^AND CO. PVT LTD
3408	U51311DL1993PTC055995	ADWYT IMPEX PVT LTD
3409	U99999DL1993PTC055999	DOMINANT PRESS PVT LTD
3410	U65993DL1993PTC056020	C.LAL PROPERTIES PVT LTD
3411	U99999DL1993PTC056027	FAINI CONSTRUCTIONS PVT LTD
3412	U99999DL1993PTC056050	TASY FROZEN FOODS PVT LTD
3413	U99999DL1993PTC056115	PMK AGRO PVT LTD
3414	U99999DL1993PTC056121	ATTAR FIBRES PVT LTD
3415	U99999DL1993PTC056134	TIGER PROPERTIES PVT LTD
3416	U99999DL1993PTC056138	S.S. SHARE CARE SERVICES PVT LTD
3417	U99999DL1993PTC056173	SAKA COMPUTERS PVT LTD
3418	U99999DL1993PTC056178	SUKHMAN CHLOROCEM PVT LTD
3419	U51398DL1993PTC056189	TEE SOLUTIONS IMPEX PVT LTD
3420	U99999DL1993PTC056191	K P V PLACEMENT AND SECURITY SERVICES PVT LTD
3421	U33125DL1993PTC056198	LAGESH ENGINEERING PVT LTD

3422	U22121DL1993PTC056199	LEARNING PUBLISHERS PVT LTD
3423	U99999DL1993PTC056205	VIRGUS MEDICARE PVT LTD
3424	U99999DL1993PTC056226	RSM EXPORTS PVT LTD
3425	U31909DL1993PTC056238	STELLAR TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD
3426	U55101DL1993PTC056260	TREASURE HOLIDAY RESORTS PVT LTD
3427	U17115DL1993PTC056281	SHREE CHANDI YARN PROCESSORS P. LTD.
3428	U99999DL1993PTC056292	NOVEL CREATIONS PVT LTD
3429	U99999DL1993PTC056303	LEGAL EAGLES CONSULTING SERVICES INDIA PVT LTD
3430	U22219DL1993PTC056305	GOVERDHAN LABELLETS AND PACKAGINGS PVT LTD
3431	U51311DL1993PTC056331	G.S. FASHIONS PVT LTD
3432	U99999DL1993PTC056333	PIOUS FOODS PRODUCT PVT LTD
3433	U74210DL1993PTC056364	CITIZEN POLYMERS PVT LTD
3434	U31300DL1993PTC056367	NAVKESH ALLOYS PVT LTD
3435	U99999DL1993PTC056393	SURVEY PROGRAMMER INITIATORS AND CO-ORDINATORS (INDIA) PVT LTD
3436	U99999DL1993PTC056398	ZEE MERCANTILE PVT LTD
3437	U99999DL1993PTC056399	KALIKA OVERSEAS PVT LTD
3438	U99999DL1993PTC056403	AGARWAL IMPEX PVT LTD
3439	U99999DL1993PTC056408	SHREE GARUD TRAVELS PVT LTD
3440	U99999DL1993PTC056411	NAPCO HOME APPLIANCES PVT LTD
3441	U17115DL1993PTC056413	TANU TEXTILES PVT LTD
3442	U99999DL1993PTC056423	KARAN EXIM PVT LTD
3443	U99999DL1993PTC056435	MARATHON HARDWARE PVT LTD
3444	U99999DL1993PTC056473	SHRIYANG EXPORTS AND CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
3445	U99999DL1993PTC056504	HOMAKERS CONSTRUCTION PVT LTD
3446	U99999DL1993PTC056528	TITIKSHA MARKETING INDIA PVT LTD
3447	U51399DL1993PTC056552	SOHNA EXPORTS PVT LTD
3448	U99999DL1993PTC056558	SHIVA SEEDS PVT LTD
3449	U45201DL1993PTC056566	D.D. ESTATES PVT LTD
3450	U67120DL1993PTC056577	TRINETRA SECURITIES PVT LTD
3451	U99999DL1993PTC056587	DEFINITE MARKETING PVT LTD
3452	U74140DL1993PTC056595	MASH CONSULTANTS PVT LTD
3453	U18101DL1993PTC056606	T.C. SILK MILLS PVT LTD
3454	U99999DL1993PTC056613	COMPTEL SYSTEMS INDIA PVT LTD
3455	U92114DL1993PTC056616	DECTRA INDIA PVT LTD
3456	U99999DL1993PTC056630	MAJESTIC TOURS AND TRAVELS INDIA PVT LTD
3457	U99999DL1993PTC056632	ALPINE ROBOTICS PVT LTD
3458	U51398DL1993PTC056701	ROHIKA EXPOIRTS PVT LTD
3459	U63040DL1993PTC056713	AHLUWALIA TRAVEL SERVICES PVT LTD
3460	U99999DL1994PTC056733	TSV INFORMATICS PVT LTD
3461	U99999DL1994PTC056747	AGYA INTRADE PVT LTD
3462	U99999DL1994PTC056757	MIDAS TOUCH PROFESSIONALS PVT LTD
3463	U99999DL1994PTC056758	CHARU CHANDRA PUBLICATION PVT LTD
3464	U99999DL1994PTC056765	KAPS ADVERTISING PVT LTD
3465	U63040DL1994PTC056777	G.B. EXIM PVT LTD
3466	U74210DL1994PTC056786	SATRAVIA SERVICES PVT LTD
3467	U24239DL1994PTC056821	MITAL HERBALS PRIVATE LIMITED
3468	U99999DL1994PTC056851	NASIB PUTRA EXPORTS PVT LTD
3469	U99999DL1994PTC056905	GREEN CIRCLE ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD
3470	U72200DL1994PTC056907	SUVANS SOFTO PVT LTD
3471	U99999DL1994PTC056913	DEEP FRAGNENCIES PVT LTD
3472	U99999DL1994PTC056951	SATNAM FOODS PVT LTD
3473	U99999DL1994PTC056994	ANSH MEDIA ESPRESSIONS PVT LTD
3474	U74300DL1994PTC057012	GEMINI DESIGNES PVT LTD

3475	U30007DL1994PTC057021	XCALIBRE SOFTWARE PVT. LTD.
3476	U74300DL1994PTC057028	INSAT ADVERTISING PVT LTD
3477	U99999DL1994PTC057054	JAGMOHAN ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD
3478	U32109DL1994PTC057070	KARAM AUTOMATION PVT LTD
3479	U92111DL1994PTC057086	TRIVIDHA COMMUNICATIONS PVT LTD
3480	U99999DL1994PTC057090	SURYA KEROSIN COMPANY PVT LTD
3481	U99999DL1994PTC057093	NUPUR HOLDINGS PVT LTD
3482	U99999DL1994PTC057106	SAMANVAYS HOSETEX PVT LTD
3483	U51909DL1994PTC057122	RV POLYPACKS PVT LTD
3484	U99999DL1994PTC057161	GANPATI SHIV SHANKAR SECURITY PVT LTD
3485	U99999DL1994PTC057173	JINGAM EXPORTS PVT LTD.
3486	U74130DL1994PTC057186	SRAG INDIA PVT LTD
3487	U99999DL1994PTC057193	ARION INTERNATIONAL PVT LTD
3488	U24231DL1994PTC057214	PRINTO FORMULATIONS PVT LTD
3489	U99999DL1994PTC057215	TRACT INDIA PVT LTD
3490	U25209DL1994PTC057220	VIVA PLASTICS AND PLYWOOD INDUSTRIES PVT LTD
3491	U67120DL1994PTC057230	WILARD CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
3492	U99999DL1994PTC057242	R. PAUL INTERNATIONAL TRADERS PVT LTD
3493	U99999DL1994PTC057252	DHUREY EARTHMOVERS PVT LTD
3494	U99999DL1994PTC057262	KAR I IKAM EXIM PVT LTD
3495	U99999DL1994PTC057269	MORE FOODS AND HOTELS PVT LTD
3496	U99999DL1994PTC057272	LANCERS MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
3497	U99999DL1994PTC057311	SKY HIGH TRAVELS PVT LTD
3498	U99999DL1994PTC057314	KANTI COMPUTERS PVT LTD
3499	U99999DL1994PTC057321	MONTAUS OVERSEAS PVT LTD
3500	U01111DL1994PTC057325	SARSA AGRO CO. PVT LTD
3501	U99999DL1994PTC057371	GINNI UTILITY IMPEX PVT LTD
3502	U99999DL1994PTC057378	SAYA SPRINGS PVT LTD
3503	U99999DL1994PTC057429	SAINI HAIR CLINIC PVT LTD
3504	U99999DL1994PTC057444	A R S GRAPHICS PVT LTD
3505	U51311DL1994PTC057454	RANK OVERSEAS PVT LTD
3506	U99999DL1994PTC057457	VISA ENTERPRISES PVT LTD
3507	U99999DL1994PTC057467	DURGA INTERNATIONAL PVT LTD
3508	U99999DL1994PTC057484	CAMINDA ENTERPRISES PVT LTD
3509	U99999DL1994PTC057504	AMBROSE FINANCIAL AND CREDIT CONSULTANT PVT LTD
3510	U27109DL1994PTC057533	NIGAM SHARMA STEELS PVT LTD
3511	U25199DL1994PTC057538	EASTERN LATEX PVT LTD
3512	U51909DL1994PTC057539	ARCO EXPORTS PVT LTD
3513	U51909DL1994PTC057542	GOOD VILLAGE DESIGN PVT LTD
3514	U99999DL1994PTC057559	BEACON MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
3515	U99999DL1994PTC057562	HINDUSTAN FRICTION PVT LTD
3516	U72200DL1994PTC057578	ULTRAMET ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS PVT LTD
3517	U99999DL1994PTC057582	COLSON PETROCHEMICALS PVT LTD
3518	U40107DL1994PTC057613	AIR IMPACT INDIA PVT LTD
3519	U51909DL1994PTC057637	GREEN FIELD OVERSEAS PVT LTD
3520	U99999DL1994PTC057641	TRUE VISION OVERSEAS PVT LTD
3521	U99999DL1994PTC057645	SHARAD MATHUR DESIGNS PVT LTD
3522	U74210DL1994PTC057669	DEMINZGE TECHNO LAB PVT LTD
3523	U99999DL1994PTC057685	KAMAL FLOUR MILLS PVT LTD
3524	U51909DL1994PTC057686	OASIS IMPEX PVT LTD
3525	U17297DL1994PTC057752	INDIAN HERITAGE PVT LTD
3526	U51226DL1994PTC057783	DEEP VALLEY TEA PVT LTD
3527	U67120DL1994PTC057800	SANDIRA HOLDINGS PVT LTD
3528	U99999DL1994PTC057821	PIONEER OUILLS PVT LTD
3529	U55101DL1994PTC057841	AMERICAN GOLF AND RESORTS INDIA PVT LTD

3530	U17151DL1994PTC057851	LA CAMPAGINE DU MODE INIA PVT LTD
3531	U29302DL1994PTC057877	KING HOME APPLIANCES PVT LTD
3532	U99999DL1994PTC057906	SIGNAALAY TOBACCO COMPANY PVT LTD
3533	U99999DL1994PTC057909	COMPUTRACK SYSTEM AND ENGINEERS PVT LTD
3534	U29192DL1994PTC057928	UNITED AIR CONDITIONERS PVT
3535	U99999DL1994PTC057930	LINEAGE EXPORTS PVT LTD
3536	U99999DL1994PTC057949	SKY TEK INDIA PVT LTD
3537	U18101DL1994PTC057950	GOBIND KNITTERS PVT LTD
3538	U99999DL1994PTC057957	STEEPS AND SLOPES RESORTS PVT LTD
3539	U74994DL1994PTC057970	SUPAN INTERIORS PVT LTD
3540	U99999DL1994PTC057980	MONARCH AUTO INDIA PVT LTD
3541	U99999DL1994PTC057981	PRIM BULK DRUGS PVT LTD
3542	U99999DL1994PTC057989	DELTA BUSINESS MACHINES PVT LTD
3543	U55101DL1994PTC057998	R.K. VED AND DISTILITES DIVINE RESORTS PVT LTD
3544	U63090DL1994PTC058049	MISSION EXPRESS PVT LTD
3545	U63090DL1994PTC058082	MAHAMAYA AGENCIES PVT LTD.
3546	U99999DL1994PTC058103	SUN SIGN COMPUTR TRAINING INSTITUTE PVT LTD
3547	U99999DL1994PTC058112	AVON COURIER EXPRESS PVT LTD
3548	U99999DL1994PTC058142	SUNSIGN COMPUTERS PVT LTD
3549	U27209DL1994PTC058220	SANGO METAL PVT LTD
3550	U99999DL1994PTC058248	SHUDDHI ENVIRO SYSTEMS PVT LTD
3551	U99999DL1994PTC058258	MIRAZ SCREEN PRINTERS PVT LTD
3552	U99999DL1994PTC058299	DHAWAN SPORTS PVT LTD
3553	U99999DL1994PTC058306	DIMENSION COMPUTERS PVT LTD
3554	U99999DL1994PTC058316	VIKRANT SOFTWARE PVT LTD
3555	U29214DL1994PTC058326	J.P. AGRO IMPLEMENTS PVT LTD
3556	U99999DL1994PTC058375	ALCARE PHARMA PVT LTD
3557	U99999DL1994PTC058394	FINE PHOTO EXPRESS PVT LTD
3558	U33112DL1994PTC058400	D.K. HEALTHWAYS PVT. LTD.
3559	U99999DL1994PTC058424	VITSUVISHI FIGURESETTE PVT LTD
3560	U99999DL1994PTC058425	INTER FACE MARKETING PVT LTD
3561	U99999DL1994PTC058493	TULJA EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
3562	U63040DL1994PTC058496	SUNCHESAR TRAVELS AND TOURS PVT LTD
3563	U15549DL1994PTC058504	ALLIED BEVERAGES CO. PVT LTD
3564	U72900DL1994PTC058521	TODAY BUSINESS DATA PVT LTD
3565	U99999DL1994PTC058538	MAXWELL ELECTRONICS PVT LTD
3566	U99999DL1994PTC058604	NARWAL REAL ESTATES PVT LTD
3567	U51909DL1994PTC058696	S.M. GUPTA CO. PVT LTD
3568	U18101DL1994PTC058702	RUSHAB DESIGNERS PVT LTD
3569	U57311DL1994PTC058720	ANDETO IMPEX PVT LTD
3570	U71301DL1994PTC058721	COMBINE ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS PVT LTD
3571	U25209DL1994PTC058724	LEGALO PLAST PVT LTD
3572	U99999DL1994PTC058728	TALHAGAT EXPORTS PVT LTD
3573	U99999DL1994PTC058734	CONICA SURGICAL EQUIPMENTS PVT LTD
3574	U31102DL1994PTC058784	UNIVATION ELECTRONICS PVT LTD
3575	U45201DL1994PTC058790	INDERSONS BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
3576	U34300DL1994PTC058815	NIPPOMEX BRAKES PVT LTD
3577	U63040DL1994PTC058873	BAHUBALI TRAVELS PVT LTD
3578	U99999DL1994PTC058890	N.M.S. EXPORTS PVT LTD
3579	U62100DL1994PTC058899	R.J. FREIGHT MOVERS PVT LTD
3580	U51109DL1994PTC058900	TSEKEL EXPORTS PVT LTD
3581	U99999DL1994PTC058914	REGENCY RETREATS PVT LTD
3582	U99999DL1994PTC058939	HEIDELBERG INDIA PRIVATE LIMITED
3583	U99999DL1994PTC058967	AAR STEEL WIRES PVT LTD
3584	U99999DL1994PTC058977	BASANT SAMIR IMPEX PVT LTD

3585	U22121DL1994PTC059013	INDIA TIMES PVT LTD
3586	U99999DL1994PTC059074	PALDEEP PERIPHERALS PVT LTD
3587	U99999DL1994PTC059077	EAGLE FUSEGEARS PVT LTD
3588	U45209DL1994PTC059175	GURUKRIPA AROMATICS PVT LTD
3589	U99999DL1994PTC059176	VIMLESH STEELS PVT LTD
3590	U99999DL1994PTC059206	SAKUMBRAS MINES AND MARBLES PVT LTD
3591	U99999DL1994PTC059217	PAGODA MARKETING PVT LTD
3592	U99999DL1994PTC059249	FIRM MARKETING PVT LTD
3593	U99999DL1994PTC059255	MANOJ PACKAGING PVT LTD
3594	U99999DL1994PTC059274	MALLI INTERNATIONAL PVT LTD
3595	U99999DL1994PTC059291	SHARE POINT PORTFOLIO SERVICES INDIA PVT LTD
3596	U17222DL1994PTC059310	NECK-N-NECK FASHIONS PVT LTD
3597	U31909DL1994PTC059343	MTI INDIA PVT LTD
3598	U99999DL1994PTC059368	MAYANK IMPEX PVT LTD
3599	U99999DL1994PTC059380	SHANGRILA TOURS AND TRAVELS PVT LTD
3600	U99999DL1994PTC059386	JAI MATA METAL CASTINGS PVT LTD
3601	U51311DL1994PTC059429	V.S.A. IMPEX PVT LTD
3602	U99999DL1994PTC059456	ZAITECH SYSTEMS PVT LTD
3603	U99999DL1994PTC059466	N P REFINERIES PVT LTD
3604	U31101DL1994PTC059470	S G GENERATORS PVT LTD
3605	U99999DL1994PTC059481	SATTAR KITCHEN WEAR PVT LTD
3606	U99999DL1994PTC059488	ABHAY TEXTILE PVT LTD
3607	U99999DL1994PTC059509	ARCHANA FILMS PVT LTD
3608	U24222DL1994PTC059532	ALISHAN PAINTS AND CHEMICALS PVT LTD
3609	U28994DL1994PTC059542	LIGHT AND BRIGHT INDIA PVT LTD
3610	U51909DL1994PTC059583	MIRRA IMPORT EXPORTS PVT LTD
3611	U74140DL1994PTC059597	RAJME CONSULTANTS PVT LTD
3612	U63040DL1994PTC059634	VACATIONS ABROAD PVT LTD
3613	U21012DL1994PTC059635	R.R. PAPER PVT LTD
3614	U92114DL1994PTC059646	KARISHMA FILMS PVT LTD
3615	U99999DL1994PTC059661	INDIA FAXROLLS PVT LTD
3616	U99999DL1994PTC059698	RECLAIMED RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
3617	U99999DL1994PTC059707	SRUSHTI TRADE LINKS PVT LTD
3618	U51311DL1994PTC059711	FIGURE FASHION PRIVATE LIMITED
3619	U51909DL1994PTC059724	BUBNA ASSOCIATES PVT LTD
3620	U99999DL1994PTC059732	PRITAM SINGH AND SONS PVT LTD
3621	U99999DL1994PTC059766	GOODLIFE MAILORDER PVT LTD
3622	U51909DL1994PTC059797	K N R IMPEX PVT LTD
3623	U99999DL1994PTC059842	LAXMI THREAD PVT LTD
3624	U99999DL1994PTC059869	AKSHAY ASSOCIATES PVT LTD
3625	U99999DL1994PTC059933	SOHAIL OVERSEAS PVT LTD
3626	U63040DL1994PTC059997	SPAN WORLD TRAVELS PVT LTD
3627	U99999DL1994PTC060005	VIBHA ENTERPRISES PVT LTD
3628	U99999DL1994PTC060066	SARVJEET ADVERTISING AND PRINTING SERVICES PVT LTD
3629	U99999DL1994PTC060070	ACHATE MARKETING PVT LTD
3630	U99999DL1994PTC060092	INTER CRAFT KNITWEARS CONSOLIDATED PVT LTD
3631	U99999DL1994PTC060095	PATODI TRAVELS PVT LTD
3632	U99999DL1994PTC060107	MASHO FOODS PVT LTD
3633	U99999DL1994PTC060123	NAVODIT MOTORS PVT LTD
3634	U99999DL1994PTC060124	MID TOWN CENTRAL HOTEL PVT LTD
3635	U99999DL1994PTC060134	VEDIC HERBAL INDIA PHARMACEUTICALS PVT LTD
3636	U33112DL1994PTC060140	KAILASH HOME HEALTH CARE PVT LTD
3637	U33119DL1994PTC060160	CARDIAC ELECTROMEDICAL EQUIPMENTS PVT LTD
3638	U24129DL1994PTC060161	HAC PESTICIDES PVT LTD

3639	U72200DL1994PTC060316	SHRIMENT COMMUNICATION AND ELECTRONIC PVT LTD
3640	U74995DL1994PTC060328	ADROVIG SECURITY AND DETECTIVES PVT LTD
3641	U63040DL1994PTC060338	PANDACHE TOURSIT COMPANY PVT LTD
3642	U02423DL1994PTC060357	SUPERMAG DRUGS PVT LTD
3643	U99999DL1994PTC060401	SATGURU OVERSEAS PVT LTD
3644	U99999DL1994PTC060424	SHEHSHAH EXPORTS INDIA PVT LTD
3645	U99999DL1994PTC060446	ABHINAND ELECTRONICS PVT. LTD.
3646	U51909DL1994PTC060457	CHETAN IMPEX PVT. LTD.
3647	U18101DL1994PTC060508	PINE OVERSEAS PVT. LTD.
3648	U99999DL1994PTC060528	SURYA AIRLINKS PVT. LTD.
3649	U74999DL1994PTC060533	ITOKI MARKETING PVT. LTD.
3650	U99999DL1994PTC060545	SHAHNOOR CATERERS PVT LTD
3651	U51909DL1994PTC060547	SANDYALIA EXPORTS PVT. LTD.
3652	U99999DL1994PTC060599	DHANISHA IMPORT EXPORT PVT. LTD.
3653	U52321DL1994PTC060638	MASTER FRANCHISE PVT LTD
3654	U85110DL1994PTC060667	KOTHARI MEDICAL CENTRE PVT LTD
3655	U99999DL1994PTC060705	SERTECH EAST WESTT PHARMA PVT LTD
3656	U22219DL1994PTC060707	KURUKSHETRA COMPUTOR CONCEPT (INDIA) PVT. LTD.
3657	U51219DL1994PTC060714	SABHAR OVERSEAS PVT LTD
3658	U17298DL1994PTC060729	ADITI TEXTILES PVT LTD
3659	U99999DL1994PTC060757	ALTRUSISTIC ADVERTISERS PVT LTD
3660	U99999DL1994PTC060791	JURASSIC COMPUTERS SERVICES PVT. LTD.
3661	U71110DL1994PTC060847	SAI CABS PVT LTD
3662	U67120DL1994PTC060885	SHRISHTI MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
3663	U14219DL1994PTC060902	KOLAR MINING CO. PVT LTD
3664	U99999DL1994PTC060915	CRUISE AND INCENTIVE TRAVEL SPECIALITIES INDIA PVT LTD
3665	U51215DL1994PTC060945	JAPNA INTERNATIONAL PVT LTD
3666	U51311DL1994PTC060960	AKASH GANGA BUILDERS PVT LTD
3667	U99999DL1994PTC061012	FUSION EXIM PVT LTD
3668	U70101DL1994PTC061061	SUPREME PROMOTERS PV TLTD
3669	U99999DL1994PTC061084	TTI INDIA PVT LTD
3670	U51311DL1994PTC061094	VINVIK EXIM PVT. LTD.
3671	U99999DL1994PTC061120	INDKARMS MARKETING PVT LTD
3672	U63040DL1994PTC061125	ASTRONOM TRAVEL AND TOURS PVT. LTD.
3673	U99999DL1994PTC061146	SHRI JAGDISH AGRO INDUSTRIES PVT LTD
3674	U99999DL1994PTC061167	MPR ELECTRONICS PVT. LTD.
3675	U99999DL1994PTC061188	ANTARTIKA EXPORTS AND IMPORTS PVT. LTD.
3676	U99999DL1994PTC061242	JUNIPER DISTILLERIES AND BEWERIES PVT. LTD.
3677	U29211DL1994PTC061254	INDOO HI TECH SEEDS PVT. LTD.
3678	U99999DL1994PTC061297	SHANTA OVERSEAS PVT LTD
3679	U24114DL1994PTC061303	PAL EXIM PVT. LTD.
3680	U99999DL1994PTC061318	SHAMBHAVI ENTERPRISES PVT. LTD.
3681	U99999DL1994PTC061358	CRB PORTFOLIO AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
3682	U51507DL1994PTC061372	POLY COMPUTERS PVT LTD
3683	U51491DL1994PTC061383	SAHSARA WORLDWIDE PVT LTD
3684	U74140DL1994PTC061387	ACHIN PRINTS FABS PVT. LTD.
3685	U51311DL1994PTC061424	FORCE DEE MAJEURE APPARELS PVT LTD
3686	U99999DL1994PTC061431	CONSOLIDATED FREIGHTAGE PVT LTD
3687	U99999DL1994PTC061445	NANDHI INTERNATIONAL ELECTRONICS PVT LTD
3688	U99999DL1994PTC061460	ORIGINAL TEAM EXPORTS PVT LTD
3689	U99999DL1994PTC061470	BLUE STAR OVERSEAS PVT LTD
3690	U99999DL1994PTC061479	CAREFREE ESTATES PVT LTD
3691	U99999DL1994PTC061487	OCEANIC AQUACULTURE PVT LTD
3692	U45201DL1994PTC061499	S.R BUILDCON INDIA PVT LTD

3693	U21098DL1994PTC061527	GOLD LEAF CARBONS PVT LTD
3694	U99999DL1994PTC061538	ASCENT CREATIONS INDIA PVT LTD
3695	U99999DL1994PTC061551	SNS MICRO ELECTRONIC PVT LTD
3696	U51311DL1994PTC061562	RECONEX EXPORT PVT LTD
3697	U51909DL1994PTC061618	SHREE VINAYAKA ENGINEERING PVT LTD
3698	U55101DL1994PTC061631	CONVOY HOTELS PVT LTD
3699	U99999DL1994PTC061653	FAST AID SERVICES PVT LTD
3700	U65993DL1994PTC061656	DAKSH SECURITIES PVT. LTD.
3701	U99999DL1994PTC061669	SHABA PROPERTIES PVT LTD
3702	U99999DL1994PTC061673	EN CONDIA PVT LTD
3703	U99999DL1994PTC061679	JAISAMAND LAKE RESORTS PVT LTD
3704	U33119DL1994PTC061692	PARATECH BIO SYSTEMS PVT LTD
3705	U24233DL1994PTC061779	SAINI MARKETING PVT LTD
3706	U99999DL1994PTC061827	SOLO MIA FASHIONS PVT LTD
3707	U99999DL1994PTC061838	MARS GRAPHICS PVT LTD
3708	U99999DL1994PTC061862	PANCHTARNI SHIP BREAKERS PVT LTD
3709	U99999DL1994PTC061863	SHUDH FOODS PVT LTD
3710	U99999DL1994PTC061875	KESHAV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3711	U51311DL1994PTC061892	JADE CDMMERICAL PVT LTD
3712	U99999DL1994PTC061930	MANAV DYERS PVT LTD
3713	U99999DL1994PTC061932	NARESH STEELS AND ALLOY PVT LTD
3714	U51909DL1994PTC061933	PREKSHA OVERSEAS PVT LTD
3715	U99999DL1994PTC061944	GREEN CARGO CARRIERS PVT. LTD
3716	U99999DL1994PTC061959	STRAITS INDIA EXPLORATION PVT LTD
3717	U99999DL1994PTC061996	PRADEEP IMPEX PVT LTD
3718	U92199DL1994PTC062031	MADHUR SANGEET PVT LTD
3719	U99999DL1994PTC062053	ANAND CLAIMS SERVICES PVT LTD
3720	U25209DL1994PTC062058	SUGAM MOULDS AND DIES PVT LTD
3721	U99999DL1994PTC062064	KAMAL COMPUTERS PVT LTD
3722	U72200DL1994PTC062110	SAGAR GRAPHICS PVT LTD
3723	U92111DL1994PTC062174	MAGNUM NEXUS PVT LTD
3724	U24290DL1994PTC062192	KANISHKA DETERGENTS PVT LTD
3725	U31300DL1994PTC062204	D.R. BECK WIRE AND CABLES PVT LTD
3726	U70101DL1994PTC062239	SHAN-E-KHUDA PROPERTIES PVT LTD
3727	U51399DL1994PTC062273	GAURANGI EXPORTS AND TRADERS PVT LTD
3728	U99999DL1994PTC062284	COMARE POLYMERS PVT LTD
3729	U99999DL1994PTC062294	TSM EXPORT PVT LTD
3730	U51398DL1994PTC062304	SIALKOTI JEWEL EXPORTS PVT LTD
3731	U45201DL1994PTC062319	GURMUKH CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
3732	U27106DL1994PTC062358	APSARA STEELS PVT LTD
3733	U01111DL1994PTC062363	CORYDON FOOD AND DAIRIES PVT LTD
3734	U99999DL1994PTC062478	HIMANI TOURS AND TRAVELS PVT LTD
3735	U99999DL1994PTC062524	SHAKUN SONS EXPORTS IMPORTS PVT LTD
3736	U28121DL1994PTC062548	VAN OMMERAM TANK TERMINAL INDIA PVT LTD
3737	U99999DL1994PTC062566	ALPHA DATAMATICS PVT LTD
3738	U99999DL1994PTC062568	AGRITEX EXIM INDIA PVT LTD
3739	U18101DL1994PTC062569	FAIRMARK APPARELS INDIA PVT LTD
3740	U99999DL1994PTC062602	AJAY DISTILLERS PVT LTD
3741	U33112DL1994PTC062608	TMJ MEDICOLD PVT LTD
3742	U99999DL1994PTC062643	DIMO PHARMACEUTICALS PVT LTD
3743	U17117DL1994PTC062647	BATRA WOOLLEN PVT LTD
3744	U99999DL1994PTC062710	DIXIT PACKAGINGS PVT LTD
3745	U99999DL1994PTC062715	KUBER AGRO PVT LTD
3746	U99999DL1994PTC062717	RICHU STEELS PVT LTD
3747	U20101DL1994PTC062724	S.D.Y. ASSOCIATES PVT LTD

3748	U34300DL1994PTC062736	SAKA AUTOTEL SYSTEMS PVT LTD
3749	U99999DL1994PTC062746	VAISHALI HOUSE KEEPING PVT LTD
3750	U99999DL1994PTC062747	SHRIGAN STEELS PVT LTD
3751	U19201DL1994PTC062778	ISM INDIA PVT LTD
3752	U99999DL1994PTC062789	RELIABLE CARGO MOVERS PVT LTD
3753	U70101DL1994PTC062813	CHARNESH CONSTRUCTIONS PVT LTD
3754	U85199DL1994PTC062838	WEIGHT WATCHERS ORIENTAL PVT LTD
3755	U72200DL1994PTC062847	PINE TECHNOLOGIES PVT LTD
3756	U51229DL1994PTC062865	AADI BUSINESS COMPANY PVT LTD
3757	U51909DL1994PTC062876	SUPERSTAR TRADERS PVT LTD
3758	U51909DL1994PTC062922	CORDIABLE MARKETING PVT LTD
3759	U99999DL1994PTC062975	V.G. VASTU NIRMAN PVT LTD
3760	U30007DL1994PTC062992	STARTUM COMPUTERS PVT LTD
3761	U99999DL1994PTC063027	K-LON HOSIERY PRODUCTS PVT. LTD.
3762	U30007DL1994PTC063069	AADHUNIK SYSTEMS PVT LTD
3763	U13118DL1994PTC063074	VYAS INTERNATIONAL PVT. LTD.
3764	U74300DL1994PTC063082	INDIAN BAZAAR PVT. LTD.
3765	U29192DL1994PTC063087	PASCDN ENGINEERS PVT. LTD.
3766	U74190DL1994PTC063148	ONTRACK DETECTIVES PVT. LTD.
3767	U99999DL1994PTC063159	NITSAL EXPORTS PVT LTD
3768	U25207DL1994PTC063167	SETH FABRICS PVT. LTD.
3769	U74300DL1994PTC063198	RAASTE MULTIMEDIA ADVERTISING AND MARKETING PVT. LTD.
3770	U99999DL1994PTC063219	EXCELLENT MACHINE WORKS PVT LTD
3771	U99999DL1994PTC063241	IMPRESSION INDUSTRIAL RESOURCES PVT LTD
3772	U74210DL1994PTC063312	KME PROJECTS (INDIA) PVT. LTD.
3773	U30007DL1994PTC063343	YARA COMPONENTS PVT LTD
3774	U51909DL1994PTC063400	D.K. AGRD BREEDERS AND INDUSTRIES PVT LTD
3775	U99999DL1994PTC063410	SAI HOSIERY PRODUCTS PVT. LTD.
3776	U99999DL1994PTC063458	PROFILE COMFORTS (INDIA) P. LTD.
3777	U99999DL1994PTC063473	CREST AQUA FARMS PVT. LTD.
3778	U99999DL1994PTC063477	CITYLINK COMMUNICATIONS PVT LTD
3779	U99999DL1994PTC063501	APARNA STEELS PVT LTD
3780	U99999DL1994PTC063507	SANSUR APPARELS PVT LTD
3781	U55101DL1994PTC063536	SAROVA HOTELS (INDIA) PVT. LTD.
3782	U99999DL1994PTC063640	ARISTOCRAT GLASS PVT LTD
3783	U99999DL1994PTC063718	ANAMIKA AESTHETICS PVT. LTD.
3784	U99999DL1994PTC063739	RATIKA TRADE -LINKS PVT. LTD.
3785	U74140DL1994PTC063780	SERVEL DECCAN SYSTEMS AND SERVICES PVT. LTD.
3786	U51399DL1994PTC063834	SATGURU FASHIONS PVT. LTD.
3787	U51399DL1994PTC063834	SATGURU FASHIONS PVT. LTD.
3788	U99999DL1994PTC063861	TODAY CARGO AND TRAVELS PVT. LTD.
3789	U27101DL1994PTC063877	ESS PEE DHATU UDYOG PVT. LTD.
3790	U26941DL1994PTC063893	RELIANCE CEMENTS PVT. LTD.
3791	U99999DL1994PTC063928	AHRAM ORGANICS PVT LTD
3792	U74140DL1994PTC063937	SAYA CHEMICALS PVT. LTD.
3793	U99999DL1995PTC063970	MIGHTY MINDS INTERNATIONAL PVT. LTD.
3794	U99999DL1995PTC063972	SHRIYANG SPRINGS PVT. LTD.
3795	U99999DL1995PTC063982	RBS SALES PVT LTD
3796	U99999DL1995PTC063993	NORTHERN INDIA TELECOM SERVICES PVT. LTD.
3797	U99999DL1995PTC064000	EAST WEST IMPEX PVT LTD
3798	U51211DL1995PTC064042	RICCI EXPORTS PVT. LTD.
3799	U60221DL1995PTC064049	YUVRAJ MOTORS PVT LTD
3800	U45201DL1995PTC064081	NAVIGROW BUILDERS PVT. LTD.
3801	U25202DL1995PTC064119	HIMALAYA PACKAGING AND PRINTING PRIVATE LIMITED

3802	U99999DL1995PTC064123	PEE KAY IMPEX PVT. LTD.
3803	U99999DL1995PTC064129	JVP TRADERS PVT. LTD.
3804	U51103DL1995PTC064191	AADHAR SHILA ENTERPRISES PVT. LTD.
3805	U51506DL1995PTC064266	MARC SYSTEMS PVT. LTD.
3806	U99999DL1995PTC064274	DEVPRAYAG FASHION EXPORTS PVT LTD
3807	U99999DL1995PTC064277	SPAN STRUCTURALS PVT. LTD.
3808	U99999DL1995PTC064284	CROSSLAND TRADERS CROSSLAND TRADERS PVT LTD
3809	U65921DL1995PTC064308	EYE SIGHT COMPUTERS PVT. LTD.
3810	U99999DL1995PTC064309	VINAY BREWARIES PRIVATE LIMITED
3811	U99999DL1995PTC064354	ESTATE-AGE PVT. LTD.
3812	U24239DL1995PTC064404	MODERN FORMULATIONS PVT. LTD.
3813	U99999DL1995PTC064406	BLARE CASSETTES PVT. LTD.
3814	U99999DL1995PTC064413	DAKOTA TRADING COMPANY (INDIA) PVT. LTD.
3815	U21019DL1995PTC064423	ARROW POLY PRINTERS PVT. LTD.
3816	U51909DL1995PTC064429	KARALI IMPEX PRIVATE LIMITED
3817	U24231DL1995PTC064502	MARK MEDICINES PVT. LTD.
3818	U99999DL1995PTC064577	GRAMS IMPEX PVT. LTD.
3819	U63040DL1995PTC064610	FUTURE TRVLS PVT. LTD.
3820	U99999DL1995PTC064642	PREMIUM TRADING AND HOLDING PVT. LTD.
3821	U99999DL1995PTC064651	KALL BACK EXPRESS PVT. LTD.
3822	U45201DL1995PTC064707	KOCCHAR AND KOCHHAR ESTATES PVT. LTD.
3823	U99999DL1995PTC064709	RAJPUT OVERSEAS PVT. LTD.
3824	U99999DL1995PTC064718	DHARIWAL ,ELECTRONICS PVT. LTD.
3825	U99999DL1995PTC064726	TWINKLE CABLES PVT LTD
3826	U70101DL1995PTC064747	KUBER REAL ESTATES PVT. LTD.
3827	U70101DL1995PTC064748	JAIMA REAL ESTATES PVT. LTD.
3828	U99999DL1995PTC064759	PJ LALS INDIA PVT. LTD.
3829	U24231DL1995PTC064788	PHARMA REMEDIES (INDIA) PVT. LTD.
3830	U99999DL1995PTC064796	YASMOO EXPORTS PVT. LTD.
3831	U99999DL1995PTC064818	SHRUYANG EXPORTS PVT. LTD.
3832	U85191DL1995PTC064820	MEDI AID PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3833	U99999DL1995PTC064854	G.B. TRADING CO. PVT. LTD.
3834	U99999DL1995PTC064903	PRIME DECOR GLASS PVT. LTD.
3835	U51507DL1995PTC064904	VEERAAJITA POLYCLINIC PVT. LTD.
3836	U99999DL1995PTC064950	BELLMARK TELECOM PVT. LTD.
3837	U15313DL1995PTC064983	SHANKER LAL AGGARWAL DAL MILL PVT. LTD.
3838	U32204DL1995PTC064993	TELEVOICE (INDIA) PVT. LTD.
3839	U99999DL1995PTC065010	SATYAM GRAPHICS PVT. LTD.
3840	U99999DL1995PTC065054	ELECTRON ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
3841	U51299DL1995PTC065123	TIME OVERSEAS PVT. LTD.
3842	U99999DL1995PTC065124	LUTHRA DEVELOPERS PVT. LTD.
3843	U99999DL1995PTC065175	GABOR HOLOGRAPHIC LABS PVT. LTD.
3844	U80221DL1995PTC065185	IEC SCHOOL OF ART AND FASHION PVT. LTD.
3845	U30007DL1995PTC065193	INTERLINK SOFTWARE PVT. LTD.
3846	U99999DL1995PTC065196	ASHOKA HOME CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
3847	U01401DL1995PTC065210	KHAN TUBEWELL ENGINEERS PVT. LTD.
3848	U31102DL1995PTC065211	A.P.S. ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
3849	U99999DL1995PTC065220	KAMPURI LIQUID AND CHEMICALS PVT. LTD.
3850	U72100DL1995PTC065224	FOURCEES FOODS PVT. LTD.
3851	U99999DL1995PTC065243	AMBHEY MOTOR AND ALLIED SERVICES LTD
3852	U99999DL1995PTC065292	AYESHA IMPEX PVT. LTD.
3853	U99999DL1995PTC065322	FRIGKING ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.
3854	U99999DL1995PTC065379	CHEERWORTH ESTATES PVT. LTD.
3855	U99999DL1995PTC065453	PARAS COMPUTERS PVT. LTD.
3856	U99999DL1995PTC065476	YOGVEER PRINTERS PVT. LTD.

3857	U70101DL1995PTC065529	HAMILTON ESTATES PVT. LTD.
3858	U99999DL1995PTC065538	DIANA EXPORTS PVT. LTD.
3859	U99999DL1995PTC065554	VAT RESOURCES PVT. LTD.
3860	U99999DL1995PTC065602	ANEK FOODS PVT. LTD.
3861	U99999DL1995PTC065610	IPB PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3862	U36920DL1995PTC065627	HOHNER INDIA PVT. LTD.
3863	U99999DL1995PTC065643	VIRGIN AUTO PRODUCTS PVT. LTD.
3864	U99999DL1995PTC065647	GLOBAL CLEARING CORPORATION PVT. LTD.
3865	U99999DL1995PTC065655	MULTI-TECH (INDIA) PVT. LTD.
3866	U80301DL1995PTC065659	SCITECH EDUCATION PVT. LTD.
3867	U99999DL1995PTC065661	KUNDAN SECURITIES PVT. LTD.
3868	U99999DL1995PTC065674	UNISTAR AIRCON PVT. LTD.
3869	U99999DL1995PTC065698	AMBER PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3870	U72200DL1995PTC065754	TOTAL MANAGEMENT SOLUTIONS PVT. LTD.
3871	U99999DL1995PTC065766	NISHANT TOURIST SERVICES PVT. LTD.
3872	U99999DL1995PTC065777	PAX SOFTWARES PVT. LTD.
3873	U99999DL1995PTC065835	D-TONE HOME PRODUCTS PVT. LTD.
3874	U99999DL1995PTC065843	ETI SOFTWARE PVT. LTD.
3875	U17121DL1995PTC065845	SHICHANDRA COTTON PVT. LTD.
3876	U74300DL1995PTC065894	HALLMARK ADVERTISING PVT. LTD.
3877	U99999DL1995PTC065900	SAFALTA IMPEX AND SERVICES PVT. LTD.
3878	U63013DL1995PTC065906	G.K. AIR FREIGHTERS PVT. LTD.
3879	U99999DL1995PTC065933	A AND Z EXPORTS PVT. LTD.
3880	U99999DL1995PTC065989	SHAHNSHAH EXPORTS PVT. LTD.
3881	U99999DL1995PTC066001	STRATEGY CONSULTING GROUP PVT. LTD.
3882	U99999DL1995PTC066012	GENIUS ACADEMY OF EDUCATION PVT. LTD.
3883	U99999DL1995PTC066018	MEGAWORTH ESTATES PVT. LTD.
3884	U99999DL1995PTC066026	R.K.B. INK AND PRINT PVT. LTD.
3885	U45201DL1995PTC066039	KALRA CONTRACTORS (INDIA) PVT. LTD.
3886	U99999DL1995PTC066044	HINDUSTAN GLOBAL PVT. LTD.
3887	U99999DL1995PTC066172	AQBALSON LEADERDD PVT. LTD.
3888	U99999DL1995PTC066193	PRO TEL INDIA PVT. LTD.
3889	U99999DL1995PTC066226	CAPITAL SCAFFOLDINGS PVT. LTD.
3890	U51223DL1995PTC066279	PARBHU JI AGENCIES PVT. LTD.
3891	U99999DL1995PTC066294	CORDSTONE ESTATES PVT. LTD.
3892	U99999DL1995PTC066296	JEEVAN SECURITIES PVT. LTD.
3893	U45202DL1995PTC066304	PAY T.V. INDIA PVT. LTD.
3894	U99999DL1995PTC066329	INDITEL COMMUNICATIONS PVT. LTD.
3895	U74140DL1995PTC066347	D B R ENGINEERS PVT. LTD.
3896	U67120DL1995PTC066418	FAIRCOM SECURITIES PVT. LTD.
3897	U99999DL1995PTC066432	N.V. TRAVELS (INDIA) PVT. LTD.
3898	U99999DL1995PTC066447	EAGLE COURIERS AND CARGO PVT. LTD.
3899	U64201DL1995PTC066460	C G TELENETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3900	U99999DL1995PTC066463	A.S. MEDITRONIKS PVT. LTD.
3901	U67110DL1995PTC066486	B G FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
3902	U99999DL1995PTC066476	SINGH PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3903	U74300DL1995PTC066550	AMAZE ADVERTISING PVT. LTD.
3904	U19201DL1995PTC066581	ESTEEM FOOTWEARS PVT. LTD.
3905	U99999DL1995PTC066669	ZED ENGINEERING PVT. LTD.
3906	U99999DL1995PTC066694	ABRO MACHINES PVT. LTD.
3907	U99999DL1995PTC066695	ABRO STEELS PVT. LTD.
3908	U34103DL1995PTC066714	SWADESHI MOTOR COMPANY PVT. LTD.
3909	U99999DL1995PTC066715	WARSI EXPORTS PVT. LTD.
3910	U99999DL1995PTC066724	SUPER FOTOTYPE PVT. LTD.
3911	U99999DL1995PTC066739	DELHI EXTRACTIONS PVT. LTD.

3912	U18101DL1995PTC066757	TANMAY IMPEX PVT. LTD.
3913	U63040DL1995PTC066779	SAAKSHI TOURS AND TRAVEL PVT. LTD.
3914	U63090DL1995PTC066786	A-ONE CAR RENTALS PVT. LTD.
3915	U99999DL1995PTC066813	AKANKSHA ENGG. AND CONSULTANTS PVT. LTD.
3916	U99999DL1995PTC066828	J.D. POLYFAB PVT. LTD.
3917	U99999DL1995PTC066906	AJOONI AUTOMOTIVES PVT. LTD.
3918	U36999DL1995PTC066930	GURUSON INDIA PVT. LTD.
3919	U99999DL1995PTC066958	SKYLINE AIRWAYS PVT. LTD.
3920	U99999DL1995PTC066978	YAMUNA TRANST AND CONTRACT PVT. LTD.
3921	U99999DL1995PTC066982	DARPAN COLOR LAB PVT. LTD.
3922	U99999DL1995PTC066984	SAHIR EXPORTS PVT. LTD.
3923	U99999DL1995PTC066992	VISA HEALTH CARE AND PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
3924	U99999DL1995PTC067052	M.R.G. ENTERPRISES PVT. LTD.
3925	U99999DL1995PTC067099	AMIT INTERGOLD PVT. LTD.
3926	U99999DL1995PTC067107	PETAL SMILE CREATIONS PVT. LTD.
3927	U99999DL1995PTC067110	C.R.M. LEATHERS PVT. LTD.
3928	U99999DL1995PTC067123	SAF EXPORTS PVT. LTD.
3929	U30007DL1995PTC067133	ENMMASSAY COMPUTERS PVT. LTD.
3930	U01111DL1995PTC067142	PAHARI AGROTECH PVT. LTD.
3931	U99999DL1995PTC067143	PVS TELECOM PVT. LTD.
3932	U99999DL1995PTC067155	SANTOSH CARRIERS PVT. LTD.
3933	U99999DL1995PTC067162	R.V. TRAVELS PVT. LTD.
3934	U99999DL1995PTC067164	FUTURE COMMUNICATIONS PVT. LTD.
3935	U99999DL1995PTC067174	ZEN STEEL AND FOIL INDUSTRIES PVT. LTD.
3936	U99999DL1995PTC067181	COUNT COMPUTER SERVICES PVT. LTD.
3937	U22121DL1995PTC067209	R.D. PRINTERS PVT. LTD.
3938	U24219DL1995PTC067214	DARA AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
3939	U24219DL1995PTC067219	DARA AGROTECH PVT. LTD.
3940	U51311DL1995PTC067232	MULBERRY APPARELS PVT. LTD.
3941	U99999DL1995PTC067256	TIRUPATI PRECISION SCREWS PVT. LTD.
3942	U74140DL1995PTC067270	DYNASTY ADVISERS PVT. LTD.
3943	U99999DL1995PTC067274	RUDRAKSH MARK-ADS PVT. LTD.
3944	U99999DL1995PTC067305	SHATAK MEDIA PVT. LTD.
3945	U67200DL1995PTC067346	SUPER SHIPPING (INDIA) PVT. LTD.
3946	U99999DL1995PTC067350	GREEN HEART MARKETING SERVICES PVT. LTD.
3947	U99999DL1995PTC067371	PAMANS COLLECTIONS PVT. LTD.
3948	U99999DL1995PTC067386	RUPA INNOVATIONS PVT. LTD.
3949	U99999DL1995PTC067398	ARVIND AGRO FARMS PVT. LTD.
3950	U99999DL1995PTC067414	SHRI JI SECURITIES PVT. LTD.
3951	U74999DL1995PTC067457	GEOTECH INDIA PVT. LTD.
3952	U99999DL1995PTC067475	SPECTRUM AGROTECH (INDIA) PVT. LTD.
3953	U15319DL1995PTC067477	KURMANCHAL POTATO CHIPS PVT. LTD.
3954	U99999DL1995PTC067502	PEE ENN OVERSEARS PVT. LTD.
3955	U32109DL1995PTC067526	J.K. TELE COMMUNICATION PVT. LTD.
3956	U51909DL1995PTC067620	ARJUN DISTRIBUTORS PVT. LTD.
3957	U67120DL1995PTC067623	WALTER FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
3958	U99999DL1995PTC067684	AASTHA YARNS PVT. LTD.
3959	U45309DL1995PTC067701	HERITAGE REALMS PVT. LTD.
3960	U51311DL1995PTC067704	G.T.C. IMPEX PVT. LTD.
3961	U75110DL1995PTC067710	KURMANCHAL SECURITY SERVICES PVT. LTD.
3962	U99999DL1995PTC067736	HARYANA THERMOPLAST PVT. LTD.
3963	U99999DL1995PTC067754	TECHNOTEX IMPEX PVT. LTD.
3964	U99999DL1995PTC067761	MEENA TEXNITT PVT. LTD.
3965	U99999DL1995PTC067782	SUPER HOSIERY PVT. LTD.
3966	U63031DL1995PTC067805	SHIV ROAD CARRIERS PVT. LTD.

3967	U51909DL1995PTC067842	MOONGIPA OVERSEAS PVT. LTD.
3968	U99999DL1995PTC067853	S AND B IMPEX PVT. LTD.
3969	U18101DL1995PTC067912	DRESS AND STYLE EXPORTS PVT. LTD.
3970	U99999DL1995PTC067922	LATA STEEL AGENCY PVT. LTD.
3971	U99999DL1995PTC067943	STUDIO GRAPHICS (INDIA) PVT. LTD.
3972	U99999DL1995PTC068012	R.K. COMMUNICATIONS PVT. LTD.
3973	U28129DL1995PTC068013	DREAM ENTERPRISES PVT. LTD.
3974	U99999DL1995PTC068059	RAAHAT ADHESIVES (INDIA) PVT. LTD.
3975	U99999DL1995PTC068060	K.L. NAGPAL TRADING CO. PVT. LTD.
3976	U99999DL1995PTC068075	SAHIBU IMPEX PVT. LTD.
3977	U99999DL1995PTC068106	SUPER INFOTECH PVT. LTD.
3978	U99999DL1995PTC068111	OSHIBA ELECTRONICS PVT. LTD.
3979	U64201DL1995PTC068134	EURO TEL INDIA PVT. LTD.
3980	U292*4DL1995PTC068161	GURMEET AUTO PVT. LTD.
3981	U32204DL1995PTC068180	KESAR SISTER ELECTRONICS PVT. LTD.
3982	U45201DL1995PTC068195	PARKWAY BUILDERS PVT. LTD.
3983	U99999DL1995PTC068216	VIBROS SALES AND FARMS PVT. LTD.
3984	U99999DL1995PTC068236	YAMUNANAGAR POWER COMPANY PVT. LTD.
3985	U99999DL1995PTC068240	B.K. PLASTIC INDUSTRIES PVT. LTD.
3986	U19201DL1995PTC068250	ALL FOR THE SHOES PVT. LTD.
3987	U99999DL1995PTC068316	IC SERVICES INDIA PVT. LTD.
3988	U99999DL1995PTC068324	DVS TRAVELS PVT. LTD.
3989	U99999DL1995PTC068339	SANRA EXPORT PROMOTION (INDIA) PVT. LTD.
3990	U19201DL1995PTC068354	ACLAS PRODUCTS PVT. LTD.
3991	U51909DL1995PTC068378	ELMUN OVERSEAS PVT. LTD.
3992	U30007DL1995PTC068396	APORIS INSTITUTE FOR COMPUTER MANUFACTURING AND TRAINING P. LTD.
3993	U30007DL1995PTC068410	BLOOM COMPUTERS AND SOFTWARES PVT. LTD.
3994	U51909DL1995PTC068415	ATM TRADING CO. PVT. LTD.
3995	U99999DL1995PTC068426	TUSHAR SECURITIES PVT. LTD.
3996	U72202DL1995PTC068440	PREFERENCE SOFTWARES PVT. LTD.
3997	U99999DL1995PTC068457	LAST MINUTE TOURS PVT. LTD.
3998	U99999DL1995PTC068481	DEEP FILMS PVT. LTD.
3999	U29305DL1995PTC068504	SWEETY ELECTRICALS PVT. LTD.
4000	U51909DL1995PTC068509	NSC (INDIA) PVT. LTD.
4001	U99999DL1995PTC068510	B.K. PLACEMENT AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
4002	U99999DL1995PTC068540	STERLING TELEMATICS PVT. LTD.
4003	U67120DL1995PTC068548	ACHI PORTFOLIO PVT. LTD.
4004	U99999DL1995PTC068549	AVIONIC SAFETY AND SURVIVAL SYSTEMS PVT. LTD.
4005	U99999DL1995PTC068552	TRANSWORLD CARGO PVT. LTD.
4006	U99999DL1995PTC068621	NAM FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4007	U99999DL1995PTC068630	TWENTY FIRST CENTURY AIR CON PVT. LTD.
4008	U99999DL1995PTC068662	ACE INDUSTRIES PVT. LTD.
4009	U99999DL1995PTC068693	SIGMA METALIC PVT. LTD.
4010	U70101DL1995PTC068703	BARISURA ESTATES PVT. LTD.
4011	U70102DL1995PTC068731	CROSSLAND WATER GAMES PVT. LTD.
4012	U99999DL1995PTC068758	W.R. PORTFOLIO PVT. LTD.
4013	U32204DL1995PTC068833	DSS CELLULAR PVT. LTD.
4014	U17119DL1995PTC068840	SHREE BHARAT TEXTILES PVT. LTD.
4015	U32201DL1995PTC068856	DSS ATECHNOLOGIES PVT. LTD.
4016	U65192DL1995PTC068890	MANI FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4017	U99999DL1995PTC068896	GANESH COTTON MILLS PVT. LTD.
4018	U22110DL1995PTC068932	MEDIA SPECTRUM (INDIA) PVT. LTD.
4019	U99999DL1995PTC068941	B.A.K. AND CO PVT. LTD.
4020	U99999DL1995PTC068947	DUNDY CHEMICALS PVT. LTD.

4021	U34300DL1995PTC068982	V.C. AUTO PARTS PVT. LTD.
4022	U99999DL1995PTC068987	H AND H EXPORTS PVT. LTD.
4023	U99999DL1995PTC068992	ANALOGIC COMPUTER (INDIA) PVT. LTD.
4024	U19201DL1995PTC068997	ALWAR FOOT WEARS PVT. LTD.
4025	U64202DL1995PTC069009	ASIA ONLINE PVT. LTD.
4026	U26919DL1995PTC069010	CAPITAL CERAMICS PVT. LTD.
4027	U51420DL1995PTC069012	SWAMI IRON INDUSTRIES PVT. LTD.
4028	U29191DL1995PTC069021	HRD ENTERPRISES PVT. LTD.
4029	U45201DL1995PTC069056	TREHAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND EXPORTERS PVT. LTD.
4030	U70101DL1995PTC069074	POLAR-AGIO DEVELOPERS PVT. LTD.
4031	U99999DL1995PTC069096	MUKHOTA NATYA MANCH PVT. LTD.
4032	U99999DL1995PTC069109	FASHION NETWORK (INDIA) PVT. LTD.
4033	U99999DL1995PTC069113	MANIKRAJ (INDIA) PVT. LTD.
4034	U99999DL1995PTC069145	VIRMEE ENGINEERING PVT. LTD.
4035	U30007DL1995PTC069150	US ALLIANCES PRODUCTS PVT. LTD.
4036	U99999DL1995PTC069156	MARBROS TRADING COMPANY PVT. LTD.
4037	U99999DL1995PTC069158	LAS FOOD PVT. LTD.
4038	U99999DL1995PTC069183	GLOBAL ACCESS PVT. LTD.
4039	U99999DL1995PTC069184	KIMONO SYSTEMS PVT. LTD.
4040	U67120DL1995PTC069236	ARRAY CORPORATE SERVICES PVT. LTD.
4041	U99999DL1995PTC069254	SUMMIT PUSHPAK AVIATION PVT. LTD.
4042	U99999DL1995PTC069255	THAKUR APARTMENTS PVT. LTD.
4043	U99999DL1995PTC069265	HIMGIRI HERBALS PVT. LTD.
4044	U28932DL1995PTC069269	AARCHANA MOULD CAST PVT. LTD.
4045	U51909DL1995PTC069322	SEVAK OVERSEAS PVT. LTD.
4046	U99999DL1995PTC069336	DIMPLE ORGANICS PVT. LTD.
4047	U51909DL1995PTC069344	SBS ASSOCIATES PVT. LTD.
4048	U65929DL1995PTC069372	DSS HOLDINGS PVT. LTD.
4049	U99999DL1995PTC069373	GENESIS IMPEX PVT. LTD.
4050	U29219DL1995PTC069379	MANTAG LANDSCAPE AND IRRIGATION PVT. LTD.
4051	U30007DL1995PTC069389	KCS INFO-TECH PVT. LTD.
4052	U99999DL1995PTC069419	SONEX EXPORTS PVT. LTD.
4053	U99999DL1995PTC069434	MUNIM FASTNERS PVT. LTD.
4054	U70101DL1995PTC069447	VICTOR PROPERTIES PVT. LTD.
4055	U99999DL1995PTC069478	MANSHAS FOOD (INDIA) PVT. LTD.
4056	U51101DL1995PTC069484	TRINITY OVERSEAS PVT. LTD.
4057	U99999DL1995PTC069519	AMAN PLASTICS PVT. LTD.
4058	U99999DL1995PTC069524	SUNDAWN EXPORTS PVT. LTD.
4059	U99999DL1995PTC069527	A TO Z PROJECTS PVT. LTD.
4060	U99999DL1995PTC069554	REGAL PROJECTS PVT. LTD.
4061	U99999DL1995PTC069568	BLAZE CONTROL PVT. LTD.
4062	U99999DL1995PTC069573	VEDICRISHI PHARMA PVT. LTD.
4063	U99999DL1995PTC069620	SHIVAM EXPRESS PVT. LTD.
4064	U72109DL1995PTC069637	BRIJ ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
4065	U99999DL1995PTC069669	AGRO INDIA IMPEX PVT. LTD.
4066	U99999DL1995PTC069673	NIRMAL RESORTS PVT. LTD.
4067	U99999DL1995PTC069701	SHAHPURIA ENTERPRISES PVT. LTD.
4068	U67120DL1995PTC069707	VMG FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4069	U50300DL1995PTC069726	SEAL-TECH (INDIA) PVT. LTD.
4070	U99999DL1995PTC069791	NIDHI DAIRY FARMS PVT. LTD.
4071	U99999DL1995PTC069829	PYRAMID MANOR PVT. LTD.
4072	U51392DL1995PTC069845	PETEQUIP INDIA PVT. LTD.
4073	U99999DL1995PTC069847	GS TRADING AND MARKETING PVT. LTD.
4074	U55101DL1995PTC069848	MALIBU RESORTS PVT. LTD.

4075	U35921DL1995PTC069863	K.R. CYCLE PARTS PVT. LTD.
4076	U99999DL1995PTC069935	DATA MAX SYSTEMS PVT. LTD.
4077	U21014DL1995PTC069938	ONYX PACKS PVT. LTD.
4078	U99999DL1995PTC069942	KONI ENTERPRISES PVT. LTD.
4079	U99999DL1995PTC069964	BALSARI INTERNATIONAL PVT. LTD.
4080	U99999DL1995PTC069997	RAUNAQ CREATION PVT. LTD.
4081	U99999DL1995PTC069998	G.D. CARGO CARE PVT. LTD.
4082	U99999DL1995PTC070000	BAHUBALI COMPUGRAPHICS PVT. LTD.
4083	U50403DL1995PTC070006	CLASSIC CAR PVT. LTD.
4084	U99999DL1995PTC070029	LOCHAB AND ASSOCIATES PVT. LTD.
4085	U99999DL1995PTC070039	AVON WOOLLEN MILLS PVT. LTD.
4086	U99999DL1995PTC070097	BK SYSTEMS (INDIA) PVT. LTD.
4087	U99999DL1995PTC070115	VINTAGE HOLIDAY RESORTS PVT. LTD.
4088	U99999DL1995PTC070116	INTER PLANET AIR TRANSPORT PVT. LTD.
4089	U99999DL1995PTC070172	R.V. FILMS PVT. LTD.
4090	U99999DL1995PTC070180	SAISONS (INDIA) PVT. LTD.
4091	U99999DL1995PTC070188	A.K. SPINNERS PVT. LTD.
4092	U99999DL1995PTC070193	BLOOMING HOLIDAYS PVT. LTD.
4093	U99999DL1995PTC070195	ABBAY FOODS PVT. LTD.
4094	U99999DL1995PTC070226	EN TAB TECHNOLOGIES PVT. LTD.
4095	U99999DL1995PTC070255	DUO SYSTEMS PVT. LTD.
4096	U72200DL1995PTC070261	ITEK COMPUTER SYSTEMS (INDIA) PVT. LTD.
4097	U99999DL1995PTC070282	MAXPOW POLYCHEM PVT. LTD.
4098	U25199DL1995PTC070307	BEST RUBBER COMPONENTS PVT. LTD.
4099	U99999DL1995PTC070326	JOT NIRANJAN GARMENTS PVT. LTD.
4100	U45203DL1995PTC070339	DOVE BUILDERS PVT. LTD.
4101	U99999DL1995PTC070359	KOLPAK EQUIPMENTS PVT. LTD.
4102	U99999DL1995PTC070452	OPHTHALMOLOGIX INDIA PVT. LTD.
4103	U64120DL1995PTC070489	DOLPHIN EXPRESS SERVICES PVT. LTD.
4104	U01122DL1995PTC070496	SEMEX CRYOGENICS PVT. LTD.
4105	U99999DL1995PTC070521	PYRAMID CONCEPTS PVT. LTD.
4106	U67110DL1995PTC070529	SG MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
4107	U51102DL1995PTC070559	BABU LAL IMPEX PVT. LTD.
4108	U99999DL1995PTC070628	NEXUS MULTI MODE CARRIERS PVT. LTD.
4109	U99999DL1995PTC070632	RN DYECHAM PVT. LTD.
4110	U99999DL1995PTC070639	GAUTAM BUDDHA TRADE LINK PVT. LTD.
4111	U99999DL1995PTC070664	SUNRAC INDUSTRIAL ENTERPRISES PVT. LTD.
4112	U74210DL1995PTC070684	OSM MARITIME SERVICES PVT. LTD.
4113	U99999DL1995PTC070700	SPAN SYSTEMS PVT. LTD.
4114	U51909DL1995PTC070715	DVS OVERSEAS TRADE PVT. LTD.
4115	U64202DL1995PTC070745	PRIME EARTH (INDIA) PVT. LTD.
4116	U51909DL1995PTC070751	AMBASSADOR IMPEX PVT. LTD.
4117	U99999DL1995PTC070757	REDCARPET INDIA PVT. LTD.
4118	U99999DL1995PTC070771	MULTILEVEL MARKETING PVT. LTD.
4119	U99999DL1995PTC070798	ADEFFECTS ADVERTISING PVT. LTD.
4120	U99999DL1995PTC070810	CITIFONE INDIA PVT. LTD.
4121	U99999DL1995PTC070814	RICHIKA CONSULTANTS PVT. LTD.
4122	U63040DL1995PTC070816	P.C.S. TRAVELS PVT. LTD.
4123	U99999DL1995PTC070817	YOUTH MANIA ENTERTAINMENT PVT. LTD.
4124	U51909DL1995PTC070839	SUNSHINE AGENCIES PVT. LTD.
4125	U99999DL1995PTC070841	RAJESH SHARE SHOPPE PVT. LTD.
4126	U99999DL1995PTC070844	KLASSE EXPORTS PVT. LTD.
4127	U99999DL1995PTC070862	ANKUR ALLOYS PVT. LTD.
4128	U30007DL1995PTC070888	ITCOM TECHNOLOGIES PVT. LTD.
4129	U99999DL1995PTC070902	GOLD STAR BUILDCAP PVT. LTD.

4130	U60221DL1995PTC070906	SUNBEAM CARGO AND TRAVEL PVT. LTD.
4131	U99999DL1995PTC070940	AASAR ADVERTISING PVT. LTD.
4132	U45201DL1995PTC071010	ANTRIKSH ENGINEERS AND BUILDERS PVT. LTD.
4133	U99999DL1995PTC071024	ARCO GLOBAL PVT LTD
4134	U99999DL1995PTC071027	SRI KRISHAN OFFSET PRINTERS PVT LTD.
4135	U31200DL1995PTC071069	SUMICON ELECTRONICS PVT. LTD.
4136	U99999DL1995PTC071073	DURAIRAJ CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
4137	U99999DL1995PTC071116	COMMERCIAL INTERTECH (INDIA) PVT. LTD.
4138	U51311DL1995PTC071165	BLESSINGS FASHIONS PVT. LTD.
4139	U99999DL1995PTC071184	TRANSLAND EXPORTS PVT. LTD.
4140	U99999DL1995PTC071208	VANKUTH PROPERTIES PVT LTD.
4141	U99999DL1995PTC071213	GOLDEN GARDEN ESTATES PVT LTD.
4142	U92413DL1995PTC071232	WORLD CRICKET TOURNAMENTS PVT. LTD.
4143	U51102DL1995PTC071239	J.M.B.M. PETRO PVT. LTD.
4144	U72300DL1995PTC071256	FOCUS INFOTECH PVT. LTD.
4145	U99999DL1995PTC071258	USHA JYOTI PVT. LTD.
4146	U99999DL1995PTC071264	K.R. AGARICUS PVT. LTD.
4147	U99999DL1995PTC071266	CYBURMATICS ENGINEERING LABS PVT. LTD.
4148	U99999DL1995PTC071270	DURABLE RUBBERS PVT LTD.
4149	U99999DL1995PTC071309	AAR PEE ZED EXPORTS PVT. LTD.
4150	U63040DL1995PTC071336	CANON TRAVELS PVT LTD.
4151	U33111DL1995PTC071343	CUREX MEDICOS PVT. LTD.
4152	U99999DL1995PTC071376	S.G. STRIPS PVT. LTD.
4153	U17299DL1995PTC071378	SEAGULL FASHIONS PVT. LTD.
4154	U99999DL1995PTC071380	ASCENT ADVERTISOR AND PUBLISHERS PVT. LTD.
4155	U67120DL1995PTC071404	CONVENIENT FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4156	U99999DL1995PTC071409	BHASKARAS TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4157	U99999DL1995PTC071418	PORT BLAIR MANISH-A-TRADING CO. PVT. LTD.
4158	U99999DL1995PTC071450	ADMAR FIELD SERVICES PVT. LTD.
4159	U99999DL1995PTC071456	GOODLUCK CORPORATE SERVICES PVT. LTD.
4160	U99999DL1995PTC071480	REGAL MARKETING PVT. LTD.
4161	U99999DL1995PTC071483	DAYA PHARMACEUTICALS PVT LTD.
4162	U99999DL1995PTC071528	ANIL PARTAP SINGH AND ASSOCIATES PVT. LTD.
4163	U99999DL1995PTC071533	KALAKARS INTERNATIONAL PVT. LTD.
4164	U99999DL1995PTC071565	NAVYUG INDIA PVT. LTD.
4165	U27109DL1995PTC071635	VIDYA ALLOYS PVT. LTD.
4166	U70101DL1995PTC071651	PACIFIC COLONISERS PVT. LTD.
4167	U30007DL1995PTC071653	A.N. LOTUS COMPUTERS AND AUTOMATION PVT. LTD.
4168	U51909DL1995PTC071656	GURU EXPORTS PVT. LTD.
4169	U33112DL1995PTC071702	SCIEMED OVERSEAS PVT. LTD.
4170	U51909DL1995PTC071735	PRINCIPAL EXIM PVT. LTD.
4171	U13209DL1995PTC071747	VASUDHA MINERALS PVT LTD.
4172	U99999DL1995PTC071758	JONA RUBBER AND PLASTICS PVT LTD
4173	U99999DL1995PTC071802	SUKRITI STUDIOS PVT LTD.
4174	U99999DL1995PTC071814	SHRI AGARSEN ADVERTISER PVT. LTD.
4175	U51909DL1995PTC071830	RAWCHEMET PVT. LTD.
4176	U99999DL1995PTC071837	CAROLINE IMPEX PVT. LTD.
4177	U99999DL1995PTC071899	COMPUWEB INDIA PVT. LTD.
4178	U99999DL1995PTC071914	PERFECT GIFT AND GIFT PVT. LTD.
4179	U31103DL1995PTC071937	TECH TRACK EQUIPMENTS PVT. LTD.
4180	U99999DL1995PTC071966	AAREM ALLOYS PVT. LTD.
4181	U99999DL1995PTC071969	JAVINTA (INDIA) PVT LTD
4182	U99999DL1995PTC071993	VOYAGER DVERSEAS PVT. LTD.
4183	U99999DL1995PTC071998	VINICO MARKETING PVT. LTD.
4184	U99999DL1995PTC072003	REIL GLOBAL PVT LTD.

4185	U99999DL1995PTC072030	ANKUR GREEN FEILDS PVT. LTD.
4186	U17115DL1995PTC072037	PREMIER FABTEX PVT. LTD.
4187	U99999DL1995PTC072040	LINKER POLYWRAPS PVT. LTD.
4188	U99999DL1995PTC072092	SALIL MARKETING (P) LTD.
4189	U99999DL1995PTC072105	SMILING STONES INDIA PVT. LTD.
4190	U99999DL1995PTC072107	MOMENTO CARGO AND TRAVELS PVT. LTD.
4191	U45201DL1995PTC072114	SAI BUILDTECH PVT. LTD.
4192	U99999DL1995PTC072116	Q C S. TRAVELS CO. PVT. LTD.
4193	U99999DL1995PTC072130	WITMANS LUBE-SPECIALITIES PVT. LTD.
4194	U73100DL1995PTC072169	CYBORG RESEARCH PVT. LTD.
4195	U99999DL1995PTC072182	HB MINES AND MINERALS PVT. LTD.
4196	U99999DL1995PTC072188	SCOPE'S INFOTECH PVT. LTD.
4197	U99999DL1995PTC072195	BUSINEX (INDIA) PVT. LTD.
4198	U36999DL1995PTC072208	SUBROS-ASEC (INDIA) PVT. LTD.
4199	U99999DL1995PTC072209	DAFFODIL EXPORTS PVT. LTD.
4200	U99999DL1995PTC072217	FAB CONCEPTS PVT. LTD.
4201	U74300DL1995PTC072223	VALTRAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4202	U99999DL1995PTC072266	JMD AGROTECH PVT. LTD.
4203	U27109DL1995PTC072293	M.M. STEEL BALLS PVT. LTD.
4204	U99999DL1995PTC072333	TMG CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
4205	U99999DL1995PTC072369	MAB EXPORTS PVT. LTD.
4206	U63040DL1995PTC072418	NAGINA TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4207	U99999DL1995PTC072461	NIBOJURO ARTIFICIAL ORGANS PVT. LTD.
4208	U99999DL1995PTC072486	KHERA TRAVELS PVT. LTD.
4209	U30007DL1995PTC072494	ADONIS INFOTECH PVT. LTD.
4210	U99999DL1995PTC072504	SHIKHA BUILDERS PVT LTD
4211	U99999DL1995PTC072532	D M OVERSEAS PVT. LTD.
4212	U99999DL1995PTC072542	KRAFT WOOD PACKAGING (INDIA) PVT. LTD.
4213	U99999DL1995PTC072560	M R S. GARMENTS PVT. LTD.
4214	U99999DL1995PTC072581	PARUL VEINGUARD PVT. LTD.
4215	U27201DL1995PTC072600	TARGET METALS PVT. LTD.
4216	U99999DL1995PTC072656	PRISMA EXIM PVT. LTD.
4217	U99999DL1995PTC072687	PADMINI MARINE PRODUCTS (P) LTD.
4218	U99999DL1995PTC072688	PADMINI HOUSING AND DEVELOPERS PVT. LTD.
4219	U99999DL1995PTC072694	PADMINI EXTRACTIONS PVT LTD.
4220	U99999DL1995PTC072696	PADMINI PHARMACEUTICALS (P) LTD.
4221	U99999DL1995PTC072697	PADMINI BEVERAGES (P) LTD.
4222	U85191DL1995PTC072704	ARIHANTA HERBAL TREATMENT CENTRE PVT LTD
4223	U99999DL1995PTC072713	PADMINI INTERNATIONAL PVT LTD.
4224	U99999DL1995PTC072716	TOUCHWOOD ADVERTISING AND MKTG. PVT LTD
4225	U51398DL1995PTC072731	PRAKASH JEWELLERY PVT LTD
4226	U99999DL1995PTC072732	HOLLY HOCK (INDIA) PVT. LTD.
4227	U99999DL1995PTC072780	SURINDER MALIK ASSOCIATES PVT. LTD.
4228	U70101DL1995PTC072786	PREFERRED PROPERTIES PVT. LTD.
4229	U99999DL1995PTC072788	B.R. DIVINE FASHIONS PVT. LTD.
4230	U99999DL1995PTC072792	METRO ADVERTISING PVT LTD
4231	U99999DL1995PTC072795	APALA FOOD INDUSTRIES PVT. LTD.
4232	U24923DL1995PTC072816	KALYANI AROMATICS PVT. LTD.
4233	U99999DL1995PTC072830	CAMPAIGN POSTERS (INDIA) PVT. LTD.
4234	U99999DL1995PTC072837	KARAN DEV FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4235	U99999DL1995PTC072840	CHARAN INTERNATIONAL INDIA PVT LTD.
4236	U99999DL1995PTC072841	PRATAP HYGENIC PRODUCTS PVT LTD.
4237	U99999DL1995PTC072846	MASTLANKA INDIA PVT LTD.
4238	U99999DL1995PTC072850	PLUS INTERIORS PVT. LTD.
4239	U99999DL1995PTC072859	KARAJ MARKETING PVT. LTD.

4240	U99999DL1995PTC072926	RACE APARTMENTS PVT. LTD.
4241	U99999DL1995PTC072948	BLOOMING HEALTH PVT. LTD.
4242	U99999DL1995PTC072952	VATS IRON AND STEEL CO. PVT. LTD.
4243	U99999DL1995PTC072958	NAPSON PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
4244	U99999DL1995PTC072961	LEGEND ENGINEERING PVT. LTD.
4245	U99999DL1995PTC072982	RGL LUBRICANTS PVT. LTD.
4246	U99999DL1995PTC072993	ELEVEN SEAS IMPEX PVT. LTD.
4247	U99999DL1995PTC073028	KAYTRON ELECTRONICS PVT. LTD.
4248	U99999DL1995PTC073044	WAHI EXPORTS (INDIA) PVT. LTD.
4249	U72300DL1995PTC073046	MIDAS TOUCH INFOSYS PVT. LTD.
4250	U99999DL1995PTC073086	JAI JAGDAMBE PETRO CHEMICALS PVT. LTD.
4251	U32204DL1995PTC073110	BLUEBERRY ENTERPRISES PVT. LTD.
4252	U99999DL1995PTC073111	SNEW TOURS AND TRAVELS INDIA PVT. LTD.
4253	U30007DL1995PTC073114	PROFESSIONAL BUSINESS SYSTEMS PVT LTD
4254	U99999DL1995PTC073136	CITO GARMENTS PVT. LTD.
4255	U99999DL1995PTC073165	SUPERWATT-MAX POWER STYSTEMS PVT LTD.
4256	U55101DL1995PTC073178	A.A.A. HOTELS PVT. LTD.
4257	U99999DL1995PTC073212	SITAPUR ENTERPRISE PVT. LTD.
4258	U99999DL1995PTC073215	REAL TECH BUILDERS AND PROPERTIES PVT. LTD.
4259	U32109DL1995PTC073227	MAHAJAN TELTRONICS PVT. LTD.
4260	U85199DL1995PTC073234	MOHAN MEDICAL CENTRE PVT. LTD.
4261	U51396DL1995PTC073236	TRISTAR FORMS PVT. LTD.
4262	U74140DL1995PTC073246	EGON ZEHNDER INTERNATIONAL PVT. LTD.
4263	U99999DL1995PTC073283	SHIV GANGA TRAVELS PVT LTD.
4264	U99999DL1995PTC073313	OBEROI GLOBAL COMMODITIES PVT. LTD.
4265	U51306DL1995PTC073356	ALINE DOTS PVT. LTD.
4266	U99999DL1995PTC073364	RUNWELL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
4267	U63040DL1995PTC073371	SYKES AND RAY EQUITIES (DELHI) PVT. LTD.
4268	U99999DL1995PTC073376	KALPTARU BUILD-CAP PVT LTD.
4269	U99999DL1995PTC073377	GOLDEN GATES HOTELS PVT. LTD.
4270	U99999DL1995PTC073391	UNITECH HVAC SYSTEMS PVT LTD
4271	U99999DL1995PTC073423	MAHADEV PAPER MILLS PVT. LTD.
4272	U99999DL1995PTC073429	ZETETIC PHARMA PVT. LTD.
4273	U99999DL1995PTC073451	CROSS COUNTRY SECURITIES PVT. LTD.
4274	U16009DL1995PTC073474	DAGA TOBACCO PRODUCT PVT LTD.
4275	U55101DL1995PTC073476	HRC DELHI PVT. LTD.
4276	U99999DL1995PTC073480	JAIVIN FOODS PVT. LTD.
4277	U33119DL1995PTC073483	C.K. DIAGNOSTICS PVT. LTD.
4278	U99999DL1995PTC073486	BODYCARE (INDIA) PVT. LTD.
4279	U99999DL1995PTC073519	SHREE NAROTTAM IMPORT AND EXPORT PVT LTD.
4280	U18101DL1995PTC073525	RAJNI EXIM PVT. LTD.
4281	U24219DL1995PTC073564	MYODELPHIA CHEMICALS COMPANY PVT. LTD.
4282	U24231DL1995PTC073566	XEBEC FORMULATIONS INDIA PVT. LTD.
4283	U51505DL1995PTC073568	SINGLA TRONICS (INDIA) PVT. LTD.
4284	U06420DL1995PTC073592	PARIVARTAN COMMUNICATIONS PVT. LTD.
4285	U99999DL1995PTC073599	RAMS SERVICES PVT. LTD.
4286	U99999DL1995PTC073625	ZOOM LINE MULTIMEDIA PVT. LTD.
4287	U99999DL1995PTC073655	VISUNIKA ENGINEERS PVT. LTD.
4288	U99999DL1995PTC073686	AMAR PUSP AQUA PVT. LTD.
4289	U99999DL1995PTC073694	MOUNT ELECTRONICS PVT. LTD.
4290	U99999DL1995PTC073723	PARNIRMA AGRO PVT. LTD.
4291	U70101DL1995PTC073738	MIDHA CONSTRUCTION CO PVT LTD.
4292	U99999DL1995PTC073780	DOLFIN ICE CUBES PVT. LTD.
4293	U99999DL1995PTC073790	TRI-ESS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
4294	U99999DL1995PTC073800	GENESIS HOLIDAYS PVT. LTD.

4295	U99999DL1995PTC073805	PLS SOFTECH PVT. LTD.
4296	U99999DL1995PTC073824	MANSOORI IMPEX PVT. LTD.
4297	U99999DL1995PTC073864	C.P. MARKETICS (INDIA) PVT. LTD.
4298	U99999DL1995PTC073886	DREAMS INDIA PVT. LTD.
4299	U24245DL1995PTC073892	MESCH CASA COSMETICA PVT. LTD.
4300	U32109DL1995PTC073895	MUNGIPA ELECTRONICS PVT. LTD.
4301	U64203DL1995PTC073912	GRACE TELECOM PVT LTD
4302	U99999DL1995PTC073914	GANPATI ASSOCIATES PVT. LTD.
4303	U99999DL1995PTC073916	ANUJ SANITARY EXPORTS PVT. LTD.
4304	U99999DL1995PTC073919	STEFANY COMPUTER SYSTEMS PVT. LTD.
4305	U99999DL1995PTC073934	ATTITUDE EXPORTS PVT. LTD.
4306	U99999DL1995PTC073946	FACT COMMUNICATIONS PVT. LTD.
4307	U99999DL1995PTC073948	EISA COMPUTERS PVT. LTD.
4308	U99999DL1995PTC073974	JPI TRADING PVT. LTD.
4309	U99999DL1995PTC074007	UNIQUE GLASS PVT. LTD.
4310	U99999DL1995PTC074020	RESOURCE EXPORTS PVT. LTD.
4311	U99999DL1995PTC074061	INTERTEC MEDIQUIP PVT LTD.
4312	U99999DL1995PTC074062	MENTHOCHEM INDIA (P) LTD.
4313	U01131DL1995PTC074117	DIPTON INDIA PVT. LTD.
4314	U99999DL1995PTC074126	MASTER-PIECE CONSTRUCTION PVT. LTD.
4315	U99999DL1995PTC074127	RAJRATH EXIM AND TRADING PVT. LTD.
4316	U51109DL1995PTC074149	QUICK DIAGNOSTICS PVT LTD
4317	U99999DL1995PTC074161	GARDEN AIDS INDIA PVT. LTD.
4318	U99999DL1995PTC074162	GARUDA MERCHANTS PVT. LTD.
4319	U13209DL1995PTC074180	SATURN MINING AND MINERALS PVT. LTD.
4320	U22110DL1995PTC074193	CONCORD PUBLICATIONS PVT. LTD.
4321	U32202DL1995PTC074200	EQUINOX INDIA PVT LTD
4322	U17309DL1995PTC074203	PEAR CONNECTIONS OVERSEAS PVT. LTD.
4323	U70101DL1995PTC074206	RACE CONSTRUCTION PVT. LTD.
4324	U99999DL1995PTC074212	DESWAL CAREER BUILDER PVT LTD
4325	U99999DL1995PTC074225	GUARDWELL LOCKERS PVT. LTD.
4326	U33112DL1995PTC074276	INDER INTERNATIONAL PVT LTD
4327	U99999DL1995PTC074277	NITROCHEM TM CUSTOM PRODUCTS PVT. LTD.
4328	U99999DL1995PTC074282	ALBATROSS TRADING PVT. LTD.
4329	U99999DL1995PTC074332	PADMINI MUSIC PVT. LTD.
4330	U99999DL1995PTC074333	ASH-I-NOOR MULTI FARMS AND ECO RESORTS PVT. LTD.
4331	U51909DL1995PTC074407	GREAT INDIAN EXPORTS PVT. LTD.
4332	U17299DL1995PTC074413	PREET FABRICS PVT. LTD.
4333	U99999DL1995PTC074477	JUSHYA TOURS AND TRAVELS PVT LTD.
4334	U99999DL1995PTC074480	BARUA OVERSEAS PVT. LTD.
4335	U51505DL1995PTC074491	SRI TIRUPATI SALES PVT. LTD.
4336	U99999DL1995PTC074518	SARVODHYA IMPEX PVT. LTD.
4337	U99999DL1995PTC074525	DEVOTED EXPORTS PVT. LTD.
4338	U99999DL1995PTC074542	DOLLY INTERPORTERS PVT. LTD.
4339	U99999DL1995PTC074554	ENVO NUTECH PVT. LTD.
4340	U99999DL1995PTC074562	DHAWAN FURNITURES PVT LTD
4341	U60210DL1995PTC074570	VRINDA ROADLINES PVT. LTD.
4342	U99999DL1995PTC074586	KDR CASTING COMPANY PVT. LTD.
4343	U99999DL1995PTC074590	G.D. CARGO TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4344	U99999DL1995PTC074629	CAMELLIA TRAVELS PVT. LTD.
4345	U99999DL1995PTC074633	NOUVEL BEARINGS PVT. LTD.
4346	U99999DL1995PTC074647	SUMEET AIRCON INDUSTRIES PVT. LTD.
4347	U99999DL1995PTC074653	RSG FINANCIAL AND MANAGEMENT CONSULTANCY PVT. LTD.
4348	U99999DL1995PTC074656	RAJPAL SINGH RATHI AND SONS PVT. LTD.

4349	U67120DL1995PTC074658	SCANACHROME (INDIA) PVT. LTD.
4350	U63090DL1995PTC074663	FREQUENT FREIGHT SERVICES PVT. LTD.
4351	U99999DL1995PTC074676	POAA IMPEX PVT. LTD.
4352	U63040DL1995PTC074696	ROYAL TRANSAIR PVT. LTD.
4353	U22121DL1995PTC074710	ADVAITA MEDIA PVT. LTD.
4354	U99999DL1995PTC074732	MASTERCRAFT CONSTRUCTION INDIA PVT. LTD.
4355	U99999DL1995PTC074753	SHIV TYAGI AND SHARMA PROPERTIES AND BUILDERS PVT. LTD.
4356	U15209DL1995PTC074771	TAURUS FOODS PVT. LTD.
4357	U99999DL1995PTC074778	BLUE HORSE ELECTRICALS PVT. LTD.
4358	U99999DL1995PTC074788	BT COMPU-GRAPHICS PVT LTD
4359	U51909DL1995PTC074799	PRAKASH SODA AND LEMDN MAKERS PVT LTD.
4360	U99999DL1995PTC074805	J.A.G. STEEL INDIA PVT. LTD.
4361	U99999DL1995PTC074810	BRAINRESERVE SERVICES CONSULTING PVT. LTD.
4362	U51909DL1995PTC074820	TRIDENT GLOBAL PVT. LTD.
4363	U99999DL1995PTC074821	B.G.N. HOTELS PVT LTD.
4364	U36101DL1995PTC074838	BOBBY FURNISHERS PVT. LTD.
4365	U99999DL1995PTC074862	AMULET MARKETING AND SERVICES PVT. LTD.
4366	U99999DL1995PTC074868	PRAHARI SECURITY PVT. LTD.
4367	U99999DL1995PTC074873	AZAD SONS PVT. LTD.
4368	U31909DL1995PTC074889	VIGNESH SOLID STATE DEVICE PVT. LTD.
4369	U99999DL1995PTC074902	TUSAL AGRO PVT. LTD.
4370	U99999DL1995PTC074924	GENTRON POWER PACK PVT LTD.
4371	U99999DL1995PTC074955	LA-PERLEN EXPORTS PVT. LTD.
4372	U99999DL1995PTC074998	KUDOS (ELECTRICALS) PVT. LTD.
4373	U99999DL1996PTC075117	ANGEL AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION WORKS PVT LTD.
4374	U99999DL1996PTC075149	DEROSE CHINAWARE AND POTTERIES PVT LTD.
4375	U99999DL1996PTC075152	BONUS EXIM PVT. LTD.
4376	U99999DL1996PTC075171	MATSU MARKETING PVT. LTD.
4377	U99999DL1996PTC075213	BALAJI EDIT PVT. LTD.
4378	U99999DL1996PTC075214	RAJPUROHIT PACKAGING PVT. LTD.
4379	U99999DL1996PTC075218	SONALI SHIPPING AGENCY PVT. LTD.
4380	U99999DL1996PTC075219	SHREE BULK HANDLING PVT LTD.
4381	U99999DL1996PTC075270	COSMIC INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
4382	U99999DL1996PTC075271	DUNMAG CONTROLS PVT. LTD.
4383	U99999DL1996PTC075279	SURYA COURIERS PVT. LTD.
4384	U99999DL1996PTC075308	AMOTEC INDIA PVT LTD
4385	U99999DL1996PTC075323	AANCHAL AGENCIES PVT. LTD.
4386	U99999DL1996PTC075391	LALSONS CREATION PVT LTD
4387	U99999DL1996PTC075418	PLASTIC WAVES (INDIA) PVT. LTD.
4388	U99999DL1996PTC075443	RITHIKA GRAPHICS PVT. LTD.
4389	U99999DL1996PTC075464	MATRA TRADING CO. PVT. LTD.
4390	U99999DL1996PTC075497	YAMNACK COMPUTER SYSTEMS PVT. LTD.
4391	U99999DL1996PTC075504	QOMEX SYSTEMS PVT LTD.
4392	U99999DL1996PTC075516	ICT AUTOMATION PVT. LTD.
4393	U99999DL1996PTC075525	GOODEARTH GARDEN PVT. LTD.
4394	U99999DL1996PTC075550	TRIKONE FILMS (P) LTD.
4395	U99999DL1996PTC075556	CAMPANILE TRADING PVT. LTD.
4396	U99999DL1996PTC075570	ERICA ESTATES PVT. LTD.
4397	U99999DL1996PTC075595	LOK BHARTI PATRIKA PVT. LTD.
4398	U99999DL1996PTC075622	CROSS-COUNTRY EXPORTS PVT. LTD.
4399	U99999DL1996PTC075645	HIMANSHU ROSHINI PVT. LTD.
4400	U99999DL1996PTC075680	LAXSDN ELECTROMATIC PVT LTD
4401	U99999DL1996PTC075691	TURRA COMMUNICATIONS AND SERVICES PVT. LTD.

4402	U99999DL1996PTC075701	NET COM TECHNOLOGIES (P) LTD.
4403	U99999DL1996PTC075709	NITIN MARKETING PVT. LTD.
4404	U99999DL1996PTC075723	AMAZE MOVIES PVT. LTD.
4405	U99999DL1996PTC075739	HERITAGE CONSTRUCTION PVT. LTD.
4406	U99999DL1996PTC075754	SERIES MOULDERS INDIA PVT. LTD.
4407	U99999DL1996PTC075764	GPSSR INDIA PVT. LTD.
4408	U99999DL1996PTC075780	CHILI PEPPER RESTAURANT PVT. LTD.
4409	U99999DL1996PTC075792	ELLENABAD FINANCIAL SERVICE PVT. LTD.
4410	U99999DL1996PTC075805	KCC OVERSEAS INDIA PVT LTD
4411	U99999DL1996PTC075814	BENIRAM BABURAM CARGO MOVERS PVT. LTD.
4412	U99999DL1996PTC075826	ECO-FRIENDLY CREATIONS INDIA PVT. LTD.
4413	U99999DL1996PTC075827	WESTECH INDIA MACHINES AND DIAMOND TOOLS PVT. LTD.
4414	U99999DL1996PTC075893	REAL TOUCH EXPORTS PVT. LTD.
4415	U99999DL1996PTC075895	BHUMIKA MERCANTILE PVT LTD
4416	U99999DL1996PTC075903	GAUTAM RUBBERS PVT. LTD.
4417	U99999DL1996PTC075911	QUALITAS PAINTS PVT. LTD.
4418	U99999DL1996PTC075948	S.M.G. INNOVATIVE TECHNOLOGIES PVT. LTD.
4419	U99999DL1996PTC075949	CROSS COUNTRY JM HOTELS PVT. LTD.
4420	U99999DL1996PTC075962	CHETAK EXPORTS PVT. LTD.
4421	U99999DL1996PTC075971	JAIN MARUNOUCHI GALLERY PVT LTD.
4422	U99999DL1996PTC075982	AADITYA CREATIONS PVT LTD.
4423	U99999DL1996PTC076014	PARNIT GEM AND JEWELS PVT. LTD.
4424	U99999DL1996PTC076019	DPL COURIERS PVT LTD.
4425	U99999DL1996PTC076041	SDS CONSULTANT PVT. LTD.
4426	U99999DL1996PTC076085	NOVEL INFO SERVICES PVT. LTD.
4427	U99999DL1996PTC076114	SOUHIT METAL PVT. LTD.
4428	U99999DL1996PTC076124	GEE AAY TRAVELS AND CARGO PVT LTD
4429	U99999DL1996PTC076146	MEHERA ENGINEERING AND PACKAGING PVT. LTD.
4430	U99999DL1996PTC076191	FORBES FOODS PVT. LTD.
4431	U99999DL1996PTC076220	ALFA PROCESS VESSELS PVT. LTD.
4432	U99999DL1996PTC076300	DHANUKA TRADING CO. PVT. LTD.
4433	U99999DL1996PTC076337	CAPSALL MANUFACTURING PVT. LTD.
4434	U99999DL1996PTC076343	ANSHUMAN MARKETING PVT. LTD.
4435	U99999DL1996PTC076358	WONDER FURNISHINGS PVT. LTD.
4436	U99999DL1996PTC076360	SILVER ARROW ENTERTAINMENT PVT. LTD.
4437	U99999DL1996PTC076366	MALVIKA MARKETING PVT. LTD.
4438	U99999DL1996PTC076374	SYNO ENERGY (INDIA) PVT. LTD.
4439	U99999DL1996PTC076376	BRJ EXPORTS PVT LTD.
4440	U99999DL1996PTC076408	PP OVERSEAS PVT LTD
4441	U99999DL1996PTC076438	CROSS ROAD BOOKS PVT LTD
4442	U99999DL1996PTC076444	TWENTY FIRST CENTURY TEXTILES PVT. LTD.
4443	U99999DL1996PTC076466	ARIA PRODUCTIONS PVT. LTD.
4444	U99999DL1996PTC076499	DURABLE PRINTPACK (INDIA) PVT. LTD.
4445	U99999DL1996PTC076508	ANSHULA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4446	U99999DL1996PTC076613	HOTEL PROPERTIES (INDIA) PVT. LTD.
4447	U99999DL1996PTC076619	VISHWAMALA OFFSET PRINTERS PVT LTD.
4448	U99999DL1996PTC076622	SUNBEAM HOLDINGS PVT. LTD.
4449	U99999DL1996PTC076629	ANAND LUGGAGE PVT. LTD.
4450	U99999DL1996PTC076660	K.S.N. CEMENTS PVT. LTD.
4451	U99999DL1996PTC076679	DAPHU AUTO PVT. LTD.
4452	U99999DL1996PTC076690	BHAVNA IMPEX PVT. LTD.
4453	U99999DL1996PTC076693	BIG BYTE NETWORK PVT. LTD.
4454	U99999DL1996PTC076745	JAI JAGDAMBA AUTO GEARS PVT. LTD.
4455	U99999DL1996PTC076817	SKYLARK RESTAURENTS PVT. LTD.
4456	U99999DL1996PTC076863	SINGHS AUDIO ARCADE PVT LTD.

4457	U99999DL1996PTC076880	ARABESQUE (INDIA) PVT. LTD.
4458	U99999DL1996PTC076896	MODAK SYSTEMS PVT. LTD.
4459	U99999DL1996PTC076914	ANUBHAV ENTERPRISES PVT. LTD.
4460	U99999DL1996PTC076930	DICK CHIK FARM PRODUCTS PVT. LTD.
4461	U99999DL1996PTC076968	PADAM PUBLICATION AND MARKETING PVT. LTD.
4462	U99999DL1996PTC076979	JIGSAW IMPEX PVT. LTD.
4463	U99999DL1996PTC077036	PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL RESEARCH (INDIA) PVT. LTD.
4464	U99999DL1996PTC077062	NIRMAL MARKETING PVT. LTD.
4465	U99999DL1996PTC077116	AGRAGAMI SECURITIES PVT. LTD.
4466	U99999DL1996PTC077158	SARANJANA ELECTRONICS PVT. LTD.
4467	U99999DL1996PTC077183	SANJEEV METALS PVT. LTD.
4468	U99999DL1996PTC077187	A.S. GLASS PVT. LTD.
4469	U99999DL1996PTC077191	SOOD AND SALUJA ESTATES PVT. LTD.
4470	U99999DL1996PTC077192	ORCHARD TRAVEL SERVICES PVT. LTD.
4471	U99999DL1996PTC077256	AZURE CONSULTANTS PVT. LTD.
4472	U99999DL1996PTC077300	APEX TAX MANAGERS PVT. LTD.
4473	U99999DL1996PTC077332	DORAL HOTELS AND RESORTS PVT. LTD.
4474	U99999DL1996PTC077334	ROSAMYSTICA INDIA PVT. LTD.
4475	U99999DL1996PTC077367	VICTOR TRADING AND AGENCIES PVT. LTD.
4476	U99999DL1996PTC077380	PANDOI COLD STORAGE PVT. LTD.
4477	U99999DL1996PTC077381	PRINCIPAL REALTORS PVT. LTD.
4478	U99999DL1996PTC077454	GOP GOPI MARRIAGE BUREAU PVT. LTD.
4479	U99999DL1996PTC077558	HYTECH GRAPHICS PVT. LTD.
4480	U99999DL1996PTC077567	FIFTH GENERATION INFOTECH PVT. LTD.
4481	U99999DL1996PTC077622	NIMBUS IMPEX PVT. LTD.
4482	U99999DL1996PTC077632	LEAD PROPERTIES PVT. LTD.
4483	U99999DL1996PTC077643	GUPTAJEE TOURIST PVT. LTD.
4484	U99999DL1996PTC077673	YU-MEN TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4485	U99999DL1996PTC077691	PARAGON INFOTECH PVT. LTD.
4486	U99999DL1996PTC077699	SHANKER MENS WEAR PVT. LTD.
4487	U99999DL1996PTC077715	SUNPARI COMMERCIAL SERVICES PVT. LTD.
4488	U99999DL1996PTC077722	KONBEL EXPORTS PVT. LTD.
4489	U99999DL1996PTC077763	UNIVERSAL ASIATIC EXIM PVT. LTD.
4490	U99999DL1996PTC077785	AXIS DIGITAL PVT. LTD.
4491	U99999DL1996PTC077801	S.R. MISHRA AND SONS PVT. LTD.
4492	U99999DL1996PTC077810	DOT EXPRESS PVT. LTD.
4493	U99999DL1996PTC077834	HONEY STRIPS PVT. LTD.
4494	U99999DL1996PTC077836	LUCKY CARGO MOVERS PVT. LTD.
4495	U99999DL1996PTC077858	PAT POWER AND PROJECTS PVT. LTD.
4496	U99999DL1996PTC077882	VENUS PRODUCTS PVT. LTD.
4497	U99999DL1996PTC077936	SKI ESPRIT TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4498	U99999DL1996PTC078002	AL-AHAD EXPORTS PVT. LTD.
4499	U99999DL1996PTC078006	INLAND ACCESS (INDIA) PVT. LTD.
4500	U99999DL1996PTC078031	FOCAL POINT TELEVISION PVT. LTD.
4501	U99999DL1996PTC078078	KSHITIJ CORPORATE SERVICES PVT. LTD.
4502	U99999DL1996PTC078103	ZEAL INFIN PVT. LTD.
4503	U99999DL1996PTC078105	TRIDENT HOLIDAY RESORTS PVT. LTD.
4504	U99999DL1996PTC078114	SIKANDER SONS PVT. LTD.
4505	U99999DL1996PTC078139	PARADISE EXIM PVT. LTD.
4506	U99999DL1996PTC078149	FLORIDA HOTELS, RESORTS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
4507	U99999DL1996PTC078155	SHREE PARASNATH MARKETING PVT. LTD.
4508	U99999DL1996PTC078162	KANS MARKETING PVT. LTD.
4509	U99999DL1996PTC078165	A.K.S. PRESTIGE GARMENTS PVT. LTD.
4510	U99999DL1996PTC078179	FARMATECH OVERSEAS CONSULTANTS (INDIA) PVT. LTD.

81-3692/08

4511	U99999DL1996PTC078183	SAT KARTAR FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
4512	U99999DL1996PTC078235	PROMPT FARMS AND HOUSING PVT. LTD.
4513	U99999DL1996PTC078238	PLUS ATTITUDE MARKETING PVT. LTD.
4514	U99999DL1996PTC078251	ANUBHUTI BUILDERS PVT. LTD.
4515	U99999DL1996PTC078257	INVOGUE CONCEPTS MARKETING PVT. LTD.
4516	U99999DL1996PTC078277	ADMAR (INDIA) PVT. LTD.
4517	U99999DL1996PTC078281	INDOTECH ENGINEERS PVT. LTD.
4518	U99999DL1996PTC078295	NAMASKAR TRADING CO. PVT. LTD.
4519	U99999DL1996PTC078301	JUTE FAB (INDIA) PVT. LTD.
4520	U99999DL1996PTC078331	HERBLINE HEALTH FOODS PVT. LTD.
4521	U99999DL1996PTC078342	GRACIAS ESTATE PVT. LTD.
4522	U99999DL1996PTC078345	APS AUTO PVT. LTD.
4523	U99999DL1996PTC078396	GOMATI PAPERS AND PUBLISHERS PVT. LTD.
4524	U99999DL1996PTC078408	MENTHOLYPTUS INDIA PVT. LTD.
4525	U99999DL1996PTC078422	B.R. SHARMA ASSOCIATES PVT. LTD.
4526	U99999DL1996PTC078467	SOLITAIRE FARMS PVT. LTD.
4527	U99999DL1996PTC078469	BAAQI ENTERPRISES PVT. LTD.
4528	U99999DL1996PTC078497	CRYSTAL MARCON PVT. LTD.
4529	U99999DL1996PTC078522	KHANIJ COMBINE (INDIA) PVT. LTD.
4530	U99999DL1996PTC078564	SHAILESH AGROCHEM PVT. LTD.
4531	U99999DL1996PTC078574	SYAL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
4532	U99999DL1996PTC078586	ONKAR AIR TRAVEL SERVICES PVT. LTD.
4533	U99999DL1996PTC078587	INDIAN PREFAB PVT. LTD.
4534	U99999DL1996PTC078590	PC MATE INFOTECH PVT. LTD.
4535	U99999DL1996PTC078593	DURGA WIRES AND FILAMENTS PVT. LTD.
4536	U99999DL1996PTC078608	SURESH JINDAL EXPORTS PVT. LTD.
4537	U99999DL1996PTC078638	LORD TIPS PVT. LTD.
4538	U99999DL1996PTC078657	INET INDIA SOLUTIONS PVT. LTD.
4539	U99999DL1996PTC078660	PRUDENTIAL OVERSEAS PVT. LTD.
4540	U99999DL1996PTC078664	MUDRA MANAGEMENT AND MERCHANDISE (INDIA) PVT. LTD.
4541	U99999DL1996PTC078749	BLUEFLAME MARKETING PVT. LTD.
4542	U99999DL1996PTC078750	SHAGUN AIR PVT. LTD.
4543	U99999DL1996PTC078761	GROWLINK ESTATES PVT. LTD.
4544	U99999DL1996PTC078786	WAS (INDIA) PVT. LTD.
4545	U99999DL1996PTC078816	WAXON AGRO CHEMICALS PVT. LTD.
4546	U99999DL1996PTC078834	JASME HOLDINGS PVT. LTD.
4547	U99999DL1996PTC078924	BUSINESS MARKETING (INDIA) PVT. LTD.
4548	U99999DL1996PTC078950	ELITE IMPEX PVT. LTD.
4549	U99999DL1996PTC078968	FLYKING AIR SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
4550	U99999DL1996PTC078989	WHIZKIDS INFOTECH PVT. LTD.
4551	U99999DL1996PTC079011	NARULA GULPHER TRADING PVT. LTD.
4552	U99999DL1996PTC079022	LAVANYA OVERSEAS PVT. LTD.
4553	U99999DL1996PTC079024	S.P.D. REALTORS PVT. LTD.
4554	U99999DL1996PTC079045	REPELLO PRODUCTS (INDIA) PVT. LTD.
4555	U99999DL1996PTC079052	M.A. HANNA PLASTICS INDIA PVT. LTD.
4556	U99999DL1996PTC079063	D.D. GAGAN (INDIA) PVT. LTD.
4557	U99999DL1996PTC079088	P.S.R. SECURITIES PVT. LTD.
4558	U99999DL1996PTC079092	OPULENT ORE AND MINERALS PVT. LTD.
4559	U99999DL1996PTC079116	MATCHLESS SURAKSHA PVT. LTD.
4560	U99999DL1996PTC079140	HERON TRADING PVT. LTD.
4561	U99999DL1996PTC079144	EXCEL THERMAMED PVT. LTD.
4562	U99999DL1996PTC079148	FRT COURIER SERVICES PVT. LTD.
4563	U99999DL1996PTC079168	GRAND APPARELS PVT. LTD.
4564	U99999DL1996PTC079179	VVK CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
4565	U99999DL1996PTC079191	BHUMIKA IMPEX PVT. LTD.

4566	U99999DL1996PTC079201	J. KHARI TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4567	U99999DL1996PTC079220	KIDDIES TOYS INDIA PVT. LTD.
4568	U99999DL1996PTC079228	GENESIS MEDIEQUIP PVT. LTD.
4569	U99999DL1996PTC079233	KUSHAL VIDEOTECH PVT. LTD.
4570	U99999DL1996PTC079301	A.K.S. IMPEX PVT. LTD.
4571	U99999DL1996PTC079347	P. MAINI CONSULTANTS PVT. LTD.
4572	U99999DL1996PTC079368	A.P.S. OVERSEAS PVT. LTD.
4573	U99999DL1996PTC079376	TANYA TIN CONTAINERS PVT. LTD.
4574	U99999DL1996PTC079404	TEMPTING FOODS AND FLAVOURS PVT. LTD.
4575	U99999DL1996PTC079412	SANJEEV BUILDCON PVT. LTD.
4576	U99999DL1996PTC079433	EUROPEAN TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4577	U99999DL1996PTC079436	SATURN CONSULTANTS PVT. LTD.
4578	U99999DL1996PTC079438	PATH PARDARSHAK AUTO SYSTEMS PVT. LTD.
4579	U99999DL1996PTC079451	RIMPY TRAVELS PVT. LTD.
4580	U99999DL1996PTC079464	AAKRITI PACKAGING PVT. LTD.
4581	U99999DL1996PTC079481	NEELSOFT CONSULTING PVT. LTD.
4582	U99999DL1996PTC079500	DELCON DRINKS INDIA PVT. LTD.
4583	U99999DL1996PTC079528	POPULAR DIESELS INDUSTRIES PVT. LTD.
4584	U99999DL1996PTC079555	AKHDAR IMPEX PVT. LTD.
4585	U99999DL1996PTC079576	ASHDEEP IMPEX PVT. LTD.
4586	U99999DL1996PTC079577	KANDWAL SOFTWARE CONSULTANCY PVT. LTD.
4587	U99999DL1996PTC079589	GENESIS ADVENTURES PVT. LTD.
4588	U99999DL1996PTC079591	SWARUP APARTMENTS PVT. LTD.
4589	U99999DL1996PTC079611	FIRDOSE HOME APPLIANCES PVT. LTD.
4590	U99999DL1996PTC079621	PLANET TOURS AND TRAVELS COMPANY PVT. LTD.
4591	U99999DL1996PTC079622	MILKIWAY ADVERTISING AND COMMUNICATIONS COMPANY PVT. LTD.
4592	U99999DL1996PTC079628	VIRENDRA MAHENDRA CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
4593	U99999DL1996PTC079634	PREMIER MOULDINGS PVT. LTD.
4594	U99999DL1996PTC079663	EMERY INTERNATIONAL PVT. LTD.
4595	U99999DL1996PTC079666	DOOR TO DOOR MARKETING PVT. LTD.
4596	U99999DL1996PTC079725	EURO INDIA POWER MUNDAKKAYAM PVT. LTD.
4597	U99999DL1996PTC079727	EURO INDIA POWER PERITHALMANNA PVT. LTD.
4598	U99999DL1996PTC079734	DELTA HYDRAULICS COMPONENTS PVT. LTD.
4599	U99999DL1996PTC079802	SMILING MARBLE AND GRANITE PVT. LTD.
4600	U99999DL1996PTC079805	DEAR SECURITIES PVT. LTD.
4601	U99999DL1996PTC079827	BHIM HANDICRAFTS PVT. LTD.
4602	U99999DL1996PTC079846	WATER AIDS INDIA PVT. LTD.
4603	U99999DL1996PTC079858	STUD SECURITY AND PLACEMENT SERVICES PVT. LTD.
4604	U99999DL1996PTC079865	SPARTON SECURITY SERVICES PVT. LTD.
4605	U99999DL1996PTC079882	NORTHERN EQUIPMENTS AND VESSELS PVT. LTD.
4606	U99999DL1996PTC079924	AYU-SEARCH REMEDIES PVT. LTD.
4607	U99999DL1996PTC079943	UZMA CONSULTANTS PVT. LTD.
4608	U99999DL1996PTC079947	SPLENDID COTEX PVT. LTD.
4609	U99999DL1996PTC079948	PORTRIDGE ELECTRICALS AND ELECTRONICS PVT. LTD.
4610	U99999DL1996PTC079978	TETRA TRADING PVT. LTD.
4611	U99999DL1996PTC079983	APEL KOELSCH INDIA PVT. LTD.
4612	U99999DL1996PTC079995	HUZZA IMPEX PVT. LTD.
4613	U99999DL1996PTC080026	ROMAN HOLIDAYS TOURS (INDIA) PVT. LTD.
4614	U99999DL1996PTC080049	DAISY STEEL AND ALLOYS PVT. LTD.
4615	U99999DL1996PTC080065	SAINGER STEELS PVT. LTD.
4616	U99999DL1996PTC080088	AKARSHAK CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.
4617	U99999DL1996PTC080118	MAGIC VISION PVT. LTD.
4618	U99999DL1996PTC080165	SAGAR OKARA TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
4619	U99999DL1996PTC080170	MARS LABORATORIES PVT. LTD.

4620	U99999DL1996PTC080180	BOLNI STEEL AND ALLOYS PVT LTD
4621	U99999DL1996PTC080229	ENDLESS VACATION PVT LTD
4622	U99999DL1996PTC080230	APRADIM PRINTING AND ADVERTISING PVT. LTD.
4623	U99999DL1996PTC080340	AMAZON TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4624	U99999DL1996PTC080356	AHUJA DISTRIBUTORS PVT. LTD.
4625	U99999DL1996PTC080360	KHYA ESTATE PARK PVT. LTD.
4626	U99999DL1996PTC080361	MAYFLOWER PUBLISHERS INDIA PVT. LTD.
4627	U99999DL1996PTC080405	MNS CONTAINER AGENCY NEW DELHI PVT LTD
4628	U99999DL1996PTC080456	GORGEOUS APPARELS (INDIA) PVT LTD
4629	U99999DL1996PTC080461	VEE AAR PHARMACUETICALS PVT LTD
4630	U99999DL1996PTC080493	BRASM TOOLS AND DIES PVT. LTD.
4631	U99999DL1996PTC080504	MAGNUM AIRLINKS PVT. LTD.
4632	U99999DL1996PTC080508	NEERU ART PRINTERS PVT. LTD.
4633	U99999DL1996PTC080518	LIBRA COROMANDEL EXIM (INDIA) PVT. LTD.
4634	U99999DL1996PTC080523	ADVANCED COMPUTERS AND SOFTWARES PVT. LTD.
4635	U99999DL1996PTC080539	SHAMUNI PHARMA PVT. LTD.
4636	U99999DL1996PTC080545	SEAKAY PROPERTIES AND PORTFOLIO PVT LTD
4637	U99999DL1996PTC080580	SEVEN AND SEVEN STORES PVT. LTD.
4638	U99999DL1996PTC080598	ALISHA COMPUTERS PVT.LTD.
4639	U99999DL1996PTC080599	GOLDCHIP FINANCIAL CONSULTANTS PVT. LTD.
4640	U99999DL1996PTC080603	PEARL ROTO PVT. LTD.
4641	U99999DL1996PTC080626	PANNALAL MUSHROOMS PVT LTD
4642	U99999DL1996PTC080639	SUSHIL KUMAR AND CO. (CONTRACTORS) PVT LTD
4643	U99999DL1996PTC080641	PUREWELL PHARMA PVT. LTD.
4644	U99999DL1996PTC080671	STYLE-WAY HOTELS AND RESORTS PVT LTD
4645	U99999DL1996PTC080685	BEST PRECISION MACHINE PVT LTD
4646	U99999DL1996PTC080702	ANISH TELECOMMUNICATIONS PVT. LTD.
4647	U99999DL1996PTC080716	HIMALAYAN EXPLORERS AND CLIMBERS PVT LTD
4648	U99999DL1996PTC080730	AVON ERECTORS PVT LTD.
4649	U99999DL1996PTC080747	PUNJ EXIM PVT. LTD.
4650	U99999DL1996PTC080826	SURYA NETWORK PVT. LTD.
4651	U99999DL1996PTC080842	KANSALRA DATABASE AND MARKETING PVT. LTD.
4652	U99999DL1996PTC080850	PLANET BOLLYWOOD ENTERTAINERS PVT.LTD.
4653	U99999DL1996PTC080860	ADS HOUSE KEEPING PVT. LTD.
4654	U99999DL1996PTC080873	ASCENT APPERALS PVT. LTD.
4655	U99999DL1996PTC080943	ZIGMA PHARMACEUTICALS PVT LTD
4656	U99999DL1996PTC080968	LEGEND PORTFOLIO PVT. LTD.
4657	U99999DL1996PTC080975	PUNGHAL CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
4658	U99999DL1996PTC080997	OUTMON ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD.
4659	U99999DL1996PTC081001	VINTAGE METAL AND ALLOYS PVT. LTD.
4660	U99999DL1996PTC081019	GULLAH ESTATES AND BUILDERS PVT. LTD.
4661	U99999DL1996PTC081026	NATRAJ CINE VISION PVT LTD
4662	U99999DL1996PTC081032	SADHVI PROPERTIES PVT LTD
4663	U99999DL1996PTC081042	SARITA MARKETING PVT LTD
4664	U99999DL1996PTC081048	CAPTAINS TRAVELS PVT LTD.
4665	U99999DL1996PTC081053	SETIA FOOTWEAR PVT LTD
4666	U99999DL1996PTC081072	FACTOR PACE EXPORTS PVT. LTD.
4667	U99999DL1996PTC081087	ENSOL INDIA PVT LTD
4668	U99999DL1996PTC081091	ZAPP OVERSEAS PVT. LTD.
4669	U99999DL1996PTC081123	ROSE PETRO-CHEMICALS PVT LTD
4670	U99999DL1996PTC081156	VASUDHA ASSOCIATES PVT LTD
4671	U99999DL1996PTC081182	PROMPT DEVELOPERS PVT. LTD.
4672	U99999DL1996PTC081193	RS TINPLATE (INDIA) PVT LTD
4673	U99999DL1996PTC081200	MOHINDERA EXPORTS PVT LTD
4674	U99999DL1996PTC081220	CHAMUNDA BUILDERS PVT LTD

4675	U99999DL1996PTC081246	VARDHMAN IMPEX PVT. LTD.
4676	U99999DL1996PTC081249	COSMIC VILLAGE PVT. LTD.
4677	U99999DL1996PTC081257	WILD IMPEX PVT LTD
4678	U99999DL1996PTC081293	JANNAT EXPORTS PVT LTD
4679	U99999DL1996PTC081311	SHRIRAJ OVERSEAS PVT LTD
4680	U99999DL1996PTC081335	DAFFODIL OVERSEAS PVT. LTD.
4681	U99999DL1996PTC081357	INTERSTYLES EXPORTS PVT. LTD.
4682	U99999DL1996PTC081363	AMPRESS SHEET METAL PVT LTD
4683	U99999DL1996PTC081385	VIVTECH APPARELS PVT.LTD.
4684	U99999DL1996PTC081392	HARMAIL MODERN DANCING AND VIDEO CASSETTES PVT. LTD.
4685	U99999DL1996PTC081393	SARTHAK PRODUCTS PVT. LTD.
4686	U99999DL1996PTC081402	S.K. AUTOMATION PVT LTD
4687	U99999DL1996PTC081403	NAMDHARI EXPORTS PVT. LTD.
4688	U99999DL1996PTC081434	SHUBHAM MOVERS PVT LTD
4689	U99999DL1996PTC081436	METAL WORLD (INDIA) PVT LTD
4690	U99999DL1996PTC081449	TEJASVI EXPORTS PVT LTD
4691	U99999DL1996PTC081459	RASE AGRO PVT. LTD.
4692	U99999DL1996PTC081500	SWADESHI FRUITS AND FOOD PVT. LTD.
4693	U99999DL1996PTC081502	SWAYAMBHU INTERNATIONAL PVT LTD
4694	U99999DL1996PTC081513	SAYA TRADERS PVT LTD
4695	U99999DL1996PTC081518	HARDEV FILMS PVT. LTD.
4696	U99999DL1996PTC081525	ASIATIC INTERNATIONAL GROUP PVT. LTD.
4697	U99999DL1996PTC081538	WAYMARKERS TRAVELS AND TOURS PVT LTD
4698	U99999DL1996PTC081541	NDJ EXPORTS PVT LTD
4699	U99999DL1996PTC081554	NIKO BUILDING SYSTEMS INDIA PVT LTD
4700	U99999DL1996PTC081569	BEWARE SECURITY PVT LTD
4701	U99999DL1996PTC081580	GUARDIANA SECURITY PVT LTD
4702	U99999DL1996PTC081628	RIPS IMPEX PVT LTD
4703	U99999DL1996PTC081654	NORTHLAND IMPEX PVT LTD
4704	U99999DL1996PTC081677	SKYHIGH HOLIDAYS PVT LTD
4705	U99999DL1996PTC081679	MAYUR ADHESIVE PVT. LTD.
4706	U99999DL1996PTC081702	FIVE STAR SYSTEMS PVT. LTD.
4707	U99999DL1996PTC081715	BLUE DIAMOND (INDIA) PVT. LTD.
4708	U99999DL1996PTC081753	TONNAGE GASES PVT LTD
4709	U99999DL1996PTC081763	KENNITH PARKERS FASHION PVT LTD
4710	U99999DL1996PTC081769	HI-TECH POWER SYSTEM PVT LTD
4711	U99999DL1996PTC081776	HARDCHORE IMPEX PVT LTD
4712	U99999DL1996PTC081780	AKG AGENCIES PVT. LTD.
4713	U99999DL1996PTC081799	BRIJ RETREATS AND SERVICES PVT LTD
4714	U99999DL1996PTC081821	CAT POWER PVT. LTD.
4715	U99999DL1996PTC081834	SANBRO INFOTECH PVT LTD
4716	U99999DL1996PTC081897	ARTEL SYSTEMS PVT LTD
4717	U99999DL1996PTC081912	CRIMSON ASSOCIATES PVT. LTD.
4718	U99999DL1996PTC081940	DIVYA HERBALS PVT. LTD.
4719	U99999DL1996PTC081967	MENKA CASTINGS PVT LTD
4720	U99999DL1996PTC082007	GANPATI ALUMINIUM PVT LTD
4721	U99999DL1996PTC082013	DIALOGUE PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE CONSULTANTS PVT LTD
4722	U99999DL1996PTC082014	CRI MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
4723	U99999DL1996PTC082072	CHINGS WEAR PVT LTD
4724	U99999DL1996PTC082097	ROOPAK ELECTRONICS PVT LTD
4725	U99999DL1996PTC082119	PRICELESS REALTORS PVT. LTD.
4726	U99999DL1996PTC082120	CHOICE REALTORS PVT. LTD.
4727	U99999DL1996PTC082123	ISHRAT EXPORTS (INDIA) PVT.LTD.

52-3662/08

4728	U99999DL1996PTC082133	SAINI ARCHITECTS CONSORTIUM PVT. LTD.
4729	U99999DL1996PTC082134	MOULDINGS INDIA PVT LTD
4730	U99999DL1996PTC082181	DEVELOPMENT ACTION INDIA PVT LTD
4731	U99999DL1996PTC082202	AUDICA OVERSEAS (INDIA) PVT LTD
4732	U99999DL1996PTC082206	NODE BUILDERS PVT. LTD.
4733	U99999DL1996PTC082217	RUBY SEVEN SEAS TRAVELS (INDIA) PVT LTD
4734	U99999DL1996PTC082240	SILHOUETTE VISION PVT LTD
4735	U99999DL1996PTC082241	BLUE BEEL TRAVELS PVT LTD
4736	U99999DL1996PTC082260	HIMAN RESORTS PVT LTD
4737	U99999DL1996PTC082327	UI HIMALAYA HEALTH RESORTS PVT LTD
4738	U99999DL1996PTC082332	VIKHYAT MANUFACTURING CO. PVT LTD
4739	U99999DL1996PTC082347	RAJESH COMFORTS PVT LTD
4740	U99999DL1996PTC082362	ABHISHEK FERROUS AND LOHA PVT. LTD.
4741	U99999DL1996PTC082394	B S AIRCON (INDIA) PVT LTD
4742	U99999DL1996PTC082399	CONNEX INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT LTD
4743	U99999DL1996PTC082406	TIME SLOT ADVERTISING AND MARKETING PVT LTD
4744	U99999DL1996PTC082435	PKJ CHEMICALS PVT LTD
4745	U99999DL1996PTC082437	TRINETAR PROPERTIES PVT LTD
4746	U99999DL1996PTC082453	DOMETECH MERCHANDISING SERVICES PVT LTD
4747	U99999DL1996PTC082466	RESHU ENTERPRISES PVT. LTD
4748	U99999DL1996PTC082471	VINYVISION ADVERTISING PVT LTD
4749	U99999DL1996PTC082489	INTRACITY EXPRESS PVT. LTD.
4750	U99999DL1996PTC082499	PANKHURI TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
4751	U99999DL1996PTC082527	BGN BUILDERS AND ESTATE DEVELOPERS PVT LTD
4752	U99999DL1996PTC082528	A.P.S. IMPEX PVT LTD
4753	U99999DL1996PTC082545	BLODWEN GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD
4754	U99999DL1996PTC082588	UMAPATI CONSTRUCTIONS PVT LTD
4755	U99999DL1996PTC082589	SOBHAGYA CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
4756	U99999DL1996PTC082604	UNIQUE CABLES PVT. LTD.
4757	U99999DL1996PTC082680	TRYST ELECTRONICS PVT. LTD.
4758	U99999DL1996PTC082696	AZALEA CHEMICALS PVT. LTD.
4759	U99999DL1996PTC082711	TRINITY METALS PVT LTD
4760	U99999DL1996PTC082719	CHOICEST PASTURES PVT LTD
4761	U99999DL1996PTC082731	EQUICORP RESEARCH PVT LTD
4762	U99999DL1996PTC082740	GE SYSTEMS PVT LTD
4763	U99999DL1996PTC082759	GOD LINE EDUCATIONAL FOUNDATION PVT LTD
4764	U99999DL1996PTC082770	RADHEY INFOTECH PVT. LTD.
4765	U99999DL1996PTC082773	ANTRIKSH EXPORTS PVT. LTD.
4766	U99999DL1996PTC082804	GLITTERING APPARELS PVT. LTD.
4767	U99999DL1996PTC082809	TANDON MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES PVT LTD
4768	U99999DL1996PTC082815	S.O.S. STEEL BALLS PVT LTD
4769	U99999DL1996PTC082822	TRINITY MEDICAMENTS PVT LTD
4770	U99999DL1996PTC082832	DRUTI IMPEX AND TRADERS PVT. LTD.
4771	U99999DL1996PTC082849	WOODHARD TRADING (I) PVT. LTD.
4772	U99999DL1996PTC082850	D.N. POLYMERS PVT LTD
4773	U99999DL1996PTC082863	INNOVATIVE TRADERS AND ENGINEERS PVT LTD
4774	U99999DL1996PTC082870	OPUS OVERSEAS PVT LTD
4775	U99999DL1996PTC082881	BLACK STAR EXPORTS PVT. LTD.
4776	U99999DL1996PTC082904	S.S. MANISHA EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
4777	U99999DL1996PTC082925	KARAN PRAKASH LABORATORIES PVT. LTD.
4778	U99999DL1996PTC082931	UMRAC TRADERS PVT LTD
4779	U99999DL1996PTC082992	FORTUNE TRADING AND SERVICES PVT LTD
4780	U99999DL1996PTC082996	WEAVERS PREMIUM COLLECTION (I) PVT LTD
4781	U99999DL1996PTC082999	MASTER DETECTIVE AND ALLIED SERVICES PVT. LTD.

4782	U99999DL1996PTC083016	MEDICARD HEALTHCARE SYSTEMS (P) LTD.
4783	U99999DL1996PTC083078	PCMAT INFOSYS PVT LTD
4784	U99999DL1996PTC083079	APLHA BAKER TRAVEL SERVICES PVT LTD
4785	U99999DL1996PTC083082	JAI AMBEY FOODS PVT LTD
4786	U99999DL1996PTC083114	SHRI MATA VAISHNO GIFT PVT LTD
4787	U99999DL1996PTC083120	KOHLI TRAVELS PVT LTD
4788	U99999DL1996PTC083124	SOMA ADVERTISING PVT LTD
4789	U99999DL1996PTC083152	RELIC FABRICATORS PVT. LTD.
4790	U99999DL1996PTC083153	SRUSTHI STEEL PVT. LTD.
4791	U99999DL1996PTC083170	ORISSA TELECOM PVT. LTD.
4792	U99999DL1996PTC083203	ARSHI COOLING SYSTEM PVT LTD
4793	U99999DL1996PTC083280	TRU-TEK ENGINEERING PVT LTD
4794	U99999DL1996PTC083285	PALLAVI OVERSEAS PVT. LTD.
4795	U99999DL1996PTC083288	PRIME FASHIONS PVT. LTD.
4796	U99999DL1996PTC083313	SHRI-TECH MARKETING PVT LTD
4797	U99999DL1996PTC083324	TAS IMPEX PVT. LTD.
4798	U99999DL1996PTC083336	TRIDENT DETECTIVES PVT LTD
4799	U99999DL1996PTC083340	ZEN SHOES PVT. LTD.
4800	U99999DL1996PTC083342	EDUTAINMENT INDIA PVT LTD
4801	U99999DL1996PTC083346	RANCO PAINTS PVT. LTD.
4802	U99999DL1996PTC083350	SHARP TELE SHOPPE PVT LTD
4803	U99999DL1996PTC083355	ALCHEMY SOFTWARE PVT LTD
4804	U99999DL1996PTC083358	SILKY IMPEX (INDIA) PVT LTD
4805	U99999DL1996PTC083365	SPAG LABORATORIES PVT. LTD.
4806	U99999DL1996PTC083374	ATLANTIS OVERSEAS PVT LTD.
4807	U99999DL1996PTC083385	NEW DELHI CONSULTING GROUP PVT. LTD.
4808	U99999DL1996PTC083386	SHRI GANGA HOUSING PVT LTD
4809	U99999DL1996PTC083422	CGM MARKETING PVT. LTD
4810	U99999DL1996PTC083432	INTERCALATE INTERACTIONS PVT LTD
4811	U99999DL1996PTC083436	ENTANNEL PRODUCTIONS PVT. LTD.
4812	U99999DL1996PTC083454	SEVEN SEAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
4813	U99999DL1996PTC083459	SHRESTHA HOLIDAYS PVT LTD.
4814	U99999DL1996PTC083470	CRO ENTERPRISES PVT. LTD.
4815	U99999DL1996PTC083490	RDJ ELEVATORS PVT. LTD.
4816	U99999DL1996PTC083494	HARROW DEVELOPMENTS PVT LTD
4817	U99999DL1996PTC083519	APOLLO TOWERS PVT. LTD.
4818	U99999DL1996PTC083521	BLACK METALS PVT. LTD.
4819	U99999DL1996PTC083643	CANDELA ELECTRIC PVT LTD
4820	U99999DL1996PTC083649	MAYUR SERVICES PVT. LTD.
4821	U99999DL1996PTC083661	VINDHYA EXIM PVT. LTD.
4822	U99999DL1996PTC083680	SIVYANA DRUGS PVT. LTD.
4823	U99999DL1996PTC083702	SARNAC EXPORTS PVT LTD
4824	U99999DL1996PTC083743	A.G. TRADE LINKS PVT. LTD.
4825	U99999DL1996PTC083769	APEX FRUIT PROCECCING PVT. LTD.
4826	U99999DL1996PTC083791	AEON HEALTH CARE PRODUCTS PVT LTD
4827	U99999DL1996PTC083794	JAWAHAR SECURITY SERVICES PVT LTD
4828	U99999DL1996PTC083813	VISUAL SOFTWARE VISUALISER PVT LTD
4829	U99999DL1996PTC083829	HTAI HITECH AGRO PVT LTD
4830	U99999DL1996PTC083934	DUSONS AUTOMOTIVES PVT. LTD.
4831	U99999DL1996PTC083948	VEERA GARMENTS PVT LTD
4832	U99999DL1996PTC083949	EXPERT EYE DETECTION AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
4833	U99999DL1996PTC083963	CHIME COMMUNICATIONS PVT LTD
4834	U99999DL1996PTC083970	BITNET CONCEPTS AND COMMUNICATIONS PVT. LTD.
4835	U99999DL1996PTC083986	APAR TRADING PVT. LTD.

4836	U99999DL1996PTC083988	MAHALAXMI APPLIANCES PVT LTD
4837	U99999DL1996PTC084023	AVANI SYSTEMS PVT LTD
4838	U99999DL1996PTC084024	GENESIS COMPUTER AND NETWORKING ASSOCIATES PVT. LTD.
4839	U99999DL1996PTC084059	JAI DURGA COURIER SERVICE PVT LTD
4840	U99999DL1996PTC084060	EAST-WEST REALTORS AND EXPORTERS PVT LTD
4841	U99999DL1996PTC084108	ARIRANG RESORTS PVT LTD
4842	U99999DL1996PTC084109	MOUNTAINEERING EXPEDITION PVT LTD
4843	U99999DL1996PTC084111	CHAUBE FREIGHTERS PVT LTD
4844	U99999DL1996PTC084135	SAMSON AIR CONDITIONERS PVT. LTD
4845	U99999DL1997PTC084171	UNISEF CABLES PVT LTD
4846	U99999DL1997PTC084200	DASHRATH RAM FABRICS HOUSE PVT LTD
4847	U99999DL1997PTC084228	SHILPA PAINT AND CHEMICALS PVT LTD
4848	U99999DL1997PTC084323	GLT INTERNATIONAL PVT. LTD.
4849	U99999DL1997PTC084332	JUST NIGHT WEAR EXCLUSIVE PVT LTD
4850	U99999DL1997PTC084336	L.K. TOURS AND TRAVELS PVT. LTD
4851	U99999DL1997PTC084346	INTERNATIONAL PROFESSIONAL TRAINING CO. PVT. LTD
4852	U99999DL1997PTC084356	ABRAHAM ASSOCIATES PVT LTD
4853	U99999DL1997PTC084397	TOUCH STONE AUTO COMPONENTS PVT LTD
4854	U99999DL1997PTC084403	NAVAKRITI PROPERTIES PVT. LTD.
4855	U99999DL1997PTC084416	NEWTECH PROJECTS INDIA PVT. LTD.
4856	U99999DL1997PTC084446	WYNTECX DIAGNOSTICS PVT. LTD.
4857	U99999DL1997PTC084447	BLUEBELL (INDIA) PVT. LTD
4858	U99999DL1997PTC084508	MKS TRADERS PVT LTD
4859	U99999DL1997PTC084520	SELECTRON ELECTRONICS PVT LTD
4860	U99999DL1997PTC084557	COSMO AGRO PVT LTD
4861	U99999DL1997PTC084575	SERVEL TECHNOLOGY SYSTEM PVT. LTD.
4862	U99999DL1997PTC084594	PLASMA STEEL SERVICES PVT LTD
4863	U99999DL1997PTC084604	MANU TOURS AND TRAVELS PVT LTD
4864	U99999DL1997PTC084612	TRANSNATIONAL CARGO PVT LTD
4865	U99999DL1997PTC084623	RICHIE IMPEX PVT LTD
4866	U99999DL1997PTC084634	SEE INDIA TRAVELS PVT. LTD.
4867	U99999DL1997PTC084668	SPARK AUDIO VISUALS PVT. LTD.
4868	U99999DL1997PTC084674	PLUS ELECTROMATION PVT LTD
4869	U99999DL1997PTC084690	GURU KIRPA OVERSEAS PVT. LTD.
4870	U99999DL1997PTC084697	DELICIOUS CATERERS (INDIA) PVT LTD
4871	U99999DL1997PTC084707	M K S BUILDERS AND PROMOTERS (P) LTD.
4872	U99999DL1997PTC084763	EKTA SHOES PVT LTD
4873	U99999DL1997PTC084783	YASH NIDHI ESTATES PVT. LTD.
4874	U99999DL1997PTC084790	CHIRAG PROPERTIES PVT LTD
4875	U99999DL1997PTC084825	AARSUN OVERSEAS PVT. LTD.
4876	U99999DL1997PTC084832	KUMAON DAIRY PVT. LTD.
4877	U99999DL1997PTC084841	N.G. DISTRIBUTORS PVT LTD
4878	U99999DL1997PTC084842	SANURA INDIA PVT LTD
4879	U99999DL1997PTC084878	AGES CREATIONS PVT LTD
4880	U99999DL1997PTC084881	PORTRIAT COMMUNICATION PVT LTD
4881	U99999DL1997PTC084894	GODSPEED COURIER SERVICE (P) LTD.
4882	U99999DL1997PTC084895	B.M. INDIA PVT LIMITED
4883	U99999DL1997PTC084918	SURESH JINDAL AGRO PVT. LTD.
4884	U99999DL1997PTC084934	S.J.M. PUBLICATION PVT. LTD.
4885	U99999DL1997PTC084952	JOST TRAVEL SERVICES PVT LTD
4886	U99999DL1997PTC085001	MAESTRO INDIA PVT. LTD.
4887	U99999DL1997PTC085016	M.M. CINEARENA (P) LIMITED
4888	U99999DL1997PTC085056	RAINBOW PRINTOGRAPHICS PVT. LTD.
4889	U99999DL1997PTC085082	PATH VENTURES PVT. LTD.

4890	U99999DL1997PTC085117	NATRAJ INSECTICIDES PVT.LTD.
4891	U99999DL1997PTC085137	KAMENG TRADING COMPANY PVT.LTD.
4892	U99999DL1997PTC085140	ALLVELL EXPORTS PVT LTD
4893	U99999DL1997PTC085144	BRISK TRANSPORT PVT LTD
4894	U99999DL1997PTC085147	A AND S AUTOMOBILES PVT.LTD.
4895	U99999DL1997PTC085175	G.N.D. MARKETING PVT.LTD.
4896	U99999DL1997PTC085186	MASCOT ENTERPRISES PVT.LTD.
4897	U99999DL1997PTC085191	TELLABS COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
4898	U99999DL1997PTC085200	UTKAL ADVERTISEING PVT.LTD.
4899	U99999DL1997PTC085202	ARSH EXIM PVT LTD
4900	U99999DL1997PTC085205	AVON INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
4901	U99999DL1997PTC085206	HARI SINGH MARBLES PVT.LTD.
4902	U99999DL1997PTC085233	BOLDWIN DEVELOPERS PVT. LTD.
4903	U99999DL1997PTC085256	HEALTHY FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
4904	U99999DL1997PTC085291	DELHI FERROMETALS PRIVATE LIMITED
4905	U99999DL1997PTC085292	RAINBOW INFORMATIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4906	U99999DL1997PTC085297	SHRADDHA FILMS ANDTELEVISION NETWORK PVT.LTD.
4907	U99999DL1997PTC085307	LIBERTY MARKETING PVT. LTD.
4908	U99999DL1997PTC085319	GUARDIAN PLACEMENT AND SECURITY SERVICES PVT LTD
4909	U99999DL1997PTC085323	RAMESH CHAND PROPERTIES PVT. LTD.
4910	U99999DL1997PTC085347	PUNCHTATVA PACKAGING AND PUBLICITY PVT LTD
4911	U99999DL1997PTC085364	CHIRMAI TRADERS PVT LTD
4912	U99999DL1997PTC085366	LAURENTIDE INDUSTRIES PVT. LTD.
4913	U99999DL1997PTC085380	TARUN FINANCIAL GROWERS VPT LTD
4914	U99999DL1997PTC085384	SAGAR REALTORS PVT. LTD.
4915	U99999DL1997PTC085397	PRAVEEN SETHI PROPERTIES AND INTERIORS PVT LTD
4916	U99999DL1997PTC085400	TOSHY TELECOMMUNICATIONS PVT LTD
4917	U99999DL1997PTC085410	FORTUNE MERCANTILE (PVT.) LTD.
4918	U99999DL1997PTC085424	SEVEN SEAS COMMUNICATION PVT. LTD.
4919	U99999DL1997PTC085438	ASHKEY HEALTH CARE PVT LTD
4920	U99999DL1997PTC085464	SALUBRIOUS SERVICES PVT. LTD.
4921	U99999DL1997PTC085469	KRISHNA SOFTECH SERVICES PVT.LTD.
4922	U99999DL1997PTC085476	DECON DIAGNOSTICS PVT LTD
4923	U99999DL1997PTC085502	GEETANJALI MARKETING CO. PVT LTD
4924	U99999DL1997PTC085505	ESHA ESTATE CONSTRUCTION PVT. LTD.
4925	U99999DL1997PTC085513	WILD TEMPTATION PVT LTD
4926	U99999DL1997PTC085530	PARAS INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
4927	U99999DL1997PTC085531	GOOD PROFILE INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
4928	U99999DL1997PTC085565	S.S. ELECTRODS (I) PVT.LTD.
4929	U99999DL1997PTC085568	SAN SOM HERBALS PVT LTD
4930	U99999DL1997PTC085585	SATYA TECHNOBUILD PVT. LTD.
4931	U99999DL1997PTC085598	NEO TULIP SOLUTIONS PVT.LTD.
4932	U99999DL1997PTC085601	REGENCY FACTORING SERVICES PVT. LTD.
4933	U99999DL1997PTC085603	IDEAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
4934	U99999DL1997PTC085604	PARKASH BROTHERS PVT. LTD.
4935	U99999DL1997PTC085608	NOIDA AGENCIES PVT. LTD.
4936	U99999DL1997PTC085611	R.S. HARD METALS PVT.LTD.
4937	U99999DL1997PTC085646	ARAVALI MINES AND METALS PVT LTD
4938	U99999DL1997PTC085675	CHARANYAA (I) PVT. LTD.
4939	U99999DL1997PTC085675	CHARANYAA (I) PVT. LTD.
4940	U99999DL1997PTC085686	YOAHF BUSINESS CENTRE PVT. LTD.
4941	U99999DL1997PTC085701	ALOK RICE MILLS PVT.LTD.
4942	U99999DL1997PTC085709	COUNTRYWIDE SECURITY PVT. LTD.
4943	U99999DL1997PTC085723	GOLDEN SHORE TELECOM AND MARKETING PVT. LTD.
4944	U99999DL1997PTC085750	AEGIS PROPERTIES PVT LTD

4945	U99999DL1997PTC085821	MAPLE REALSTATES PVT LTD
4946	U99999DL1997PTC085826	IVANIA STARS (INDIA) PVT.LTD.
4947	U99999DL1997PTC085836	VISUAL WORKSHOP PVT LTD
4948	U99999DL1997PTC085842	VESTA ROSE TRAVELS AND SERVICES PVT LTD
4949	U99999DL1997PTC085846	BINGO ELECTRONICS PVT. LTD.
4950	U99999DL1997PTC085865	VOC (INDIA) PVT. LTD.
4951	U99999DL1997PTC085912	AKANKSHA POULTRIES (P) LTD.
4952	U99999DL1997PTC085924	EVERLIGHT EQUIPMENTS PVT.LTD.
4953	U99999DL1997PTC085937	GENESIS ESTATES PVT. LTD.
4954	U99999DL1997PTC085990	SANDEEP CARGO MOVERS PVT. LTD.
4955	U99999DL1997PTC086034	A ONE SHOES PVT.LTD.
4956	U99999DL1997PTC086039	AAKRITI DUROBUILD PVT. LTD.
4957	U99999DL1997PTC086046	DILEEP ASSOCIATES PVT LTD
4958	U99999DL1997PTC086056	P.R. LINKERS (P) LTD.
4959	U99999DL1997PTC086087	VIJNARS EPXORTS PVT LTD
4960	U99999DL1997PTC086102	KAMAL FURNISHINGS PVT LTD
4961	U99999DL1997PTC086121	DYNAMIC CARRIERS PVT LTD
4962	U99999DL1997PTC086125	MAGIC METALS AND CHEMICALS PVT.LTD.
4963	U99999DL1997PTC086131	AAKASH EXIM PVT LTD
4964	U99999DL1997PTC086161	KARVY TRADEBUILT PVT LTD
4965	U99999DL1997PTC086182	EMT CONSULTANCY SERVICES PVT.LTD.
4966	U99999DL1997PTC086183	AKRO AGRO PRODUCTS EXPORTS PVT.LTD.
4967	U99999DL1997PTC086196	GROWMORE TECHNOLOGY SYSTEM AND TRADING PVT LTD
4968	U99999DL1997PTC086206	MAPSOFT INFO SYSTEMS PVT LTD
4969	U99999DL1997PTC086218	SELDOM MARKETING PVT LTD
4970	U99999DL1997PTC086226	PRABHAT CONTRADE PVT LTD
4971	U99999DL1997PTC086244	GOOD FAITH TRADECON AND CONSULTANTS PVT LTD
4972	U99999DL1997PTC086250	DATAMATICS (INDIA) PVT LTD
4973	U99999DL1997PTC086281	GOLDENHILL AUTOMOBILES AND MARKETING PVT LTD
4974	U99999DL1997PTC086295	HIGH-CHOICE ELECTROS BUILD CAP PVT. LTD.
4975	U99999DL1997PTC086298	YANKEE MARKETING PVT LTD
4976	U99999DL1997PTC086304	SRI ADVAIT SWARUP HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD.
4977	U99999DL1997PTC086317	BRILLIANT COACHING CENTRE PVT. LTD.
4978	U99999DL1997PTC086328	MONTAGE INDIA CYBER MEDIA PVT LTD
4979	U99999DL1997PTC086343	NERA GLOBECOM (INDIA) PVT LTD
4980	U99999DL1997PTC086368	LOTUS EXPRESS SERVICES PVT LTD
4981	U99999DL1997PTC086369	VMC FORESTRY PVT.LTD.
4982	U99999DL1997PTC086375	S.M. TREXIM (INDIA) PVT LTD
4983	U99999DL1997PTC086384	AAR PEES SECURITY AND SERVICES PVT LTD
4984	U99999DL1997PTC086388	TECHNICAL SUPPORT SERVICES PVT.LTD.
4985	U99999DL1997PTC086416	PEE JAY SPEANING AND WEAVING PVT LTD
4986	U99999DL1997PTC086430	JDK FOODS PVT LTD
4987	U99999DL1997PTC086446	OMNI TOOLS AND FORGINGS PVT LTD
4988	U99999DL1997PTC086452	NILGIRI NEST HOTELS PVT LTD
4989	U99999DL1997PTC086460	BLUESTAR EXPRESS PVT LTD
4990	U99999DL1997PTC086508	AZOV MASH (INDIA) PVT LTD
4991	U99999DL1997PTC086522	CANAN CARGO PVT LTD
4992	U99999DL1997PTC086527	APOORVA AND ASSOCIATES PVT LTD
4993	U99999DL1997PTC086528	ALPINE PRODUCTS PVT. LTD.
4994	U99999DL1997PTC086560	I-GEN PROJECTS PVT.LTD.
4995	U99999DL1997PTC086573	TAPOBHUMI TUTORS PVT.LTD.
4996	U99999DL1997PTC086581	ESS ELL DEVELOPMENT COMPANY PVT. LTD.
4997	U99999DL1997PTC086634	SINCON IMPEX PVT LTD
4998	U99999DL1997PTC086680	RENAISSANCE SHARPLINE AD COM PVT. LTD.

4999	U99999DL1997PTC086749	IMAGE TRADE DEVELOPMENT CENTRE PVT. LTD.
5000	U99999DL1997PTC086796	PST CONSTRUCTIONS AND PROMOTERS (P) LTD.
5001	U99999DL1997PTC086798	KARKA PHARMACEUTICALS PVT LTD
5002	U99999DL1997PTC086809	DEVIKA ELECTRICAL PVT LTD
5003	U99999DL1997PTC086850	SAI DURGA AQUA MINERAL PVT LTD
5004	U99999DL1997PTC086862	ZOLADEL EXIM PVT LTD
5005	U99999DL1997PTC086874	SHIV SHAKTI MEDICAL ENTERPRISES PVT LTD
5006	U99999DL1997PTC086879	KARNAVATI PLASTICS PVT LTD
5007	U99999DL1997PTC086906	RUBBERMAID INDIA PVT LTD
5008	U99999DL1997PTC086924	TELEVISION NETWORK MEDIA PVT LTD
5009	U99999DL1997PTC086934	ACADEMY FOR INTEGRATED MANAGEMENT PVT LTD
5010	U99999DL1997PTC086939	FOTO FREELANCE PVT LTD
5011	U99999DL1997PTC086944	METTLESOME SECURITY SERVICES PVT LTD.
5012	U99999DL1997PTC086990	NIRVANA AKRITI AUTOMOBILES PVT. LTD.
5013	U99999DL1997PTC087016	TRI VIKRMA COMPUTERS AND COMMUNICATIONS PVT LTD
5014	U99999DL1997PTC087021	TUDOR GRANGE HOLIDAYS INDIA PVT LTD
5015	U99999DL1997PTC087025	CENTURY PUBLIC SCHOOL PVT ULTD
5016	U99999DL1997PTC087060	KPTRON ELECTRONICS PVT LTD
5017	U99999DL1997PTC087071	SOLO PHARMA PVT LTD
5018	U99999DL1997PTC087128	WEBNICHE COMPUTECH PVT LTD
5019	U99999DL1997PTC087129	VISIONSOFT INDIA PVT. LTD.
5020	U99999DL1997PTC087137	TORCHLIGHT PUBLISHING PVT. LTD.
5021	U99999DL1997PTC087222	ELECTRA AIRCON INDIA PVT LTD
5022	U99999DL1997PTC087301	SRIGURU MEDIA PVT LTD
5023	U99999DL1997PTC087320	FEMS WORLDLINKS PVT LTD
5024	U99999DL1997PTC087321	LUMINOUS PROPERTIES (P) LTD.
5025	U99999DL1997PTC087333	SUMIT SECURITY AND DETECTIVES PVT. LTD.
5026	U99999DL1997PTC087387	GROVER ENTERPRISES PVT LTD
5027	U99999DL1997PTC087413	RAVI KANT AQUA MINERALS PVT LTD
5028	U99999DL1997PTC087414	CROSSWIRE INDIA PVT LTD
5029	U99999DL1997PTC087432	R.K. AND T.R. SECURITY SERVICES PVT LTD
5030	U99999DL1997PTC087456	JWALA TEXTFAB PVT. LTD.
5031	U99999DL1997PTC087481	ADM SECURITIES (FORCE TEN) PVT LTD
5032	U99999DL1997PTC087500	NAKODA JEWELLERS PVT LTD
5033	U99999DL1997PTC087526	PADDYS TREKS AND TOURS PVT LTD
5034	U99999DL1997PTC087561	STUDENTS GLOBAL TRAVELS PVT LTD
5035	U99999DL1997PTC087630	MALSONS IMPEX PVT. LTD.
5036	U99999DL1997PTC087688	SHUBH HI-TECH PVT. LTD.
5037	U99999DL1997PTC087704	DOT COURIERS PVT. LTD
5038	U99999DL1997PTC087709	PREMIUM RADIATORS PVT LTD
5039	U99999DL1997PTC087719	AMCHI SAFARI TOURS PVT LTD
5040	U99999DL1997PTC087746	FORWORD COURIER AND TRAVELS PVT LTD
5041	U99999DL1997PTC087759	AARZOO CREATIONS PVT. LTD.
5042	U99999DL1997PTC087779	NARANG ASSOCIATES PVT LTD
5043	U99999DL1997PTC087781	HEADSTART COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5044	U99999DL1997PTC087819	SUNSHINE KNITWEARS PVT LTD
5045	U99999DL1997PTC087824	ROSHAN ADVERTISERS PVT LTD
5046	U99999DL1997PTC087835	FAMAY MARKETING SERVICES PVT. LTD.
5047	U99999DL1997PTC087855	A.V. INFOCOMM PVT LTD
5048	U99999DL1997PTC087897	AASRA PROPERTIES PVT. LTD.
5049	U99999DL1997PTC087929	NEO MARKBUILD PVT. LTD.
5050	U99999DL1997PTC087937	SMART TRADELINKS PVT LTD
5051	U99999DL1997PTC087992	EXCEL GUARDING SERVICES PVT. LTD.
5052	U99999DL1997PTC088002	DLB COURIER PVT LTD
5053	U99999DL1997PTC088038	INDIGO MACHINES TRADING CO. PVT. LTD.

5054	U99999DL1997PTC088056	SHRI RANGANATHA ROADLINES PVT.LTD.
5055	U99999DL1997PTC088086	NORTEL NETWORKS INDIA TECHNOLOGY PVT.LTD.
5056	U99999DL1997PTC088097	CONARC CEMENT (INDIA) PVT. LTD.
5057	U99999DL1997PTC088119	RIMEX MARKETING AND EXPORTS PVT LTD
5058	U99999DL1997PTC088152	SGM TOURS AND TRAVELS PVT.LTD
5059	U99999DL1997PTC088163	FAST SERV (INDIA) PVT LTD
5060	U99999DL1997PTC088179	KISLAY MARKETING CO PVT LTD
5061	U99999DL1997PTC088266	KHAIL DAS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
5062	U99999DL1997PTC088284	FMG CORPORATE CONSULTANTS PVT LTD
5063	U99999DL1997PTC088297	SHERIDHUN ASSOCIATES PVT LTD
5064	U99999DL1997PTC088301	MAINA CHEMICALS PVT LTD
5065	U99999DL1997PTC088305	JAY DEE MERCANTILE PVT.LTD
5066	U99999DL1997PTC088326	EXPLOROCK GEOTECH SERVICES (P) LTD.
5067	U99999DL1997PTC088364	MAINFRAME TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD
5068	U99999DL1997PTC088368	RAGHUVANSH ENGINEERS AND TRADERS PVT TLD
5069	U99999DL1997PTC088374	DEEPIKA BUILDCON PVT LTD
5070	U99999DL1997PTC088383	LARGO AGROTECH PVT LTD
5071	U99999DL1997PTC088437	BLUE WHALE APPARELS PVT.LTD
5072	U99999DL1997PTC088443	SOLARNET INDIA PVT. LTD.
5073	U99999DL1997PTC088479	ALPHA APOTHEKE (P) LTD.
5074	U99999DL1997PTC088515	LAHRI CHEMICALS PVT LTD
5075	U99999DL1997PTC088527	RADHIKA ZIPPERS (P) LTD.
5076	U99999DL1997PTC088533	ECOFRENDY AIRCON PVT LTD
5077	U99999DL1997PTC088582	PANGORIYA TEXTILES PVT. LTD.
5078	U99999DL1997PTC088583	KAALI MAA ELECTRONICS PVT LTD
5079	U99999DL1997PTC088627	MPC METALS (P) LTD.
5080	U99999DL1997PTC088664	GURUKRIPA TOURS AND TRAVELS (P) LTD.
5081	U99999DL1997PTC088665	BATRA MOTEL PVT.LTD.
5082	U99999DL1997PTC088669	SMC COMPUTECH PVT LTD
5083	U99999DL1997PTC088682	M.S. OILS AND CHEMICALS (P) LTD.
5084	U99999DL1997PTC088684	EVERSHINE FURNITURE SYSTEM (P) LTD.
5085	U99999DL1997PTC088691	CAMARADERIE ADVERTISING PVT. LTD.
5086	U99999DL1997PTC088699	CMC EXIM PVT LTD
5087	U99999DL1997PTC088742	VISHWAKARMA REALTORS PVT. LTD.
5088	U99999DL1997PTC088816	DUARAH DAS AND BORKOTOKY EXPORTS PVT. LTD.
5089	U99999DL1997PTC088822	PEARL OVERSEAS PVT LTD
5090	U99999DL1997PTC088889	WONDER WEB EXHIBITIONS AND EXPOSITIONS PVT LTD
5091	U99999DL1997PTC088907	AAR MEDIX INDIA PVT. LTD.
5092	U99999DL1997PTC088918	IDEAL SOCKETS INDUSTRIES PVT.LTD
5093	U99999DL1997PTC088929	GOLDMINE GREENGOLD PVT. LTD.
5094	U99999DL1997PTC088960	MUSCLE BEACH HEALTH CLUB PVT. LTD.
5095	U99999DL1997PTC088967	PRIMEROSE PERFUMERIE PVT. LTD.
5096	U99999DL1997PTC088972	DEVIKA MARKETING PVT LTD
5097	U99999DL1997PTC088979	DURGA DUKSH DIAGNOSTICS (P) LTD
5098	U99999DL1997PTC089010	ARVIN SCIENTIFIC EQUIPMENTS PVT LTD
5099	U99999DL1997PTC089014	SWARANJEET AUTO INDUSTRIES PVT LTD
5100	U99999DL1997PTC089054	JASMEET EXPORTS (P) LTD.
5101	U99999DL1997PTC089069	H.M. TUBES AND CONTAINERS PVT LTD
5102	U99999DL1997PTC089148	RAINBOW AUTOMOBILES PRIVATE LTD.
5103	U99999DL1997PTC089178	COSMOS AIR SERVICES PVT LTD.
5104	U99999DL1997PTC089192	CORPORATE OVERSEAS PROJECTS PVT LTD
5105	U99999DL1997PTC089248	MANSUB DISTRIBUTORS PVT. LTD.
5106	U99999DL1997PTC089262	ACHIEVE OVERSEAS PVT LTD
5107	U99999DL1997PTC089287	DEVI RAM AND COMPANY PVT LTD
5108	U99999DL1997PTC089303	ASHOKA CARBONS PVT LTD

5109	U99999DL1997PTC089337	PORTFOLIO MULTIPLIERS (INDIA) PVT. LTD.
5110	U99999DL1997PTC089345	SHRI AGRAWAL DYECHEM PVT. LTD.
5111	U99999DL1997PTC089368	OPAL HEALTHCARE PVT. LTD.
5112	U99999DL1997PTC089391	KCP TRADERS AND SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
5113	U99999DL1997PTC089437	SHINESTAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
5114	U99999DL1997PTC089478	BALAJI INSECTICIDES PVT. LTD.
5115	U99999DL1997PTC089485	ROCK GUARD RUBCHEM PVT. LTD.
5116	U99999DL1997PTC089502	KUHLEX PROPERTEIS PVT. LTD.
5117	U99999DL1997PTC089505	SPS MANUFACTURERS PVT. LTD.
5118	U99999DL1997PTC089513	KAVITA ENTERPRISES (INDIA) PVT. LTD.
5119	U99999DL1997PTC089523	INTERLINK SOLUTIONS PVT LTD
5120	U99999DL1997PTC089547	T P G INDIA PVT. LTD.
5121	U99999DL1997PTC089550	SARIKA MARKETINGS PVT LTD
5122	U99999DL1997PTC089585	SHARP COMNET (INDIA) PVT. LTD.
5123	U99999DL1997PTC089600	BOBSUN MARKETING PVT LTD
5124	U99999DL1997PTC089609	BAHETY COMMERCIAL PVT LTD
5125	U99999DL1997PTC089702	JPG TRADING PVT LTD
5126	U99999DL1997PTC089704	MEDISTORM PHARMACEUTICALS (INDIA) PRIVATE LTD.
5127	U99999DL1997PTC089708	D.R. TRAVELS PVT. LTD.
5128	U99999DL1997PTC089724	NOIDA SCIENCE AND TECHNOLOGY PROMOTION PVT LTD
5129	U99999DL1997PTC089732	INVITATION TOURS AND TRAVELS VPT LTD
5130	U99999DL1997PTC089736	NAVYUG FOOTWEARS PVT. LTD.
5131	U99999DL1997PTC089737	CHAUHANSONS JEWELLERS PVT LTD
5132	U99999DL1997PTC089750	ROCKLAY IMPEX PVT. LTD.
5133	U99999DL1997PTC089784	BHEROR AGRO (P) LTD.
5134	U99999DL1997PTC089795	RKS INTERNATIONAL PVT. LTD.
5135	U99999DL1997PTC089809	APOORV MANPOWER SERVICES PVT. LTD.
5136	U99999DL1997PTC089822	SARR EXPRESS COURIER AND CARGO (P) LTD.
5137	U99999DL1997PTC089855	NAM COTEX PVT. LTD.
5138	U99999DL1997PTC089866	SUHAGNAGAR BUILDCON PVT LTD
5139	U99999DL1997PTC089869	BEHROR FARMS PVT. LTD.
5140	U99999DL1997PTC089897	HIRANYADAA (INDIA) PVT. LTD.
5141	U99999DL1997PTC089914	SILVERLINES COURIERS AND ALLIED SERVICES (P) LTD.
5142	U99999DL1997PTC089919	WYETH PHARMA PVT. LTD.
5143	U99999DL1997PTC089920	POWER TECHNOLOGIES SOUTH ASIA PRIVATE LIMITED
5144	U99999DL1997PTC089931	MOHAN BHAI JEWELLERS PVT LTD
5145	U99999DL1997PTC090039	SAR AROMATICS (P) LTD.
5146	U99999DL1997PTC090065	MAGNETICS ASSOCIATES (P) LTD.
5147	U99999DL1997PTC090076	ELSIE IMPEX PVT. LTD.
5148	U99999DL1997PTC090077	S.V.R. BOARDS PVT. LTD.
5149	U99999DL1997PTC090088	ALLIANCE SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5150	U99999DL1997PTC090095	NANAK AUTOMOBILES PVT LTD
5151	U99999DL1997PTC090161	DAT MATERIAL HANDLING PRIVATE LIMITED
5152	U99999DL1997PTC090207	GMD GLASS FABRICS PRIVATE LIMITED
5153	U99999DL1997PTC090218	ARROW EXPRESS COURIER (P) LTD.
5154	U99999DL1997PTC090270	ESQUIRE APPLIANCES PRIVATE LIMITED
5155	U99999DL1997PTC090286	VIMPEX INDUSTRIES PVT. LTD.
5156	U99999DL1997PTC090287	TYAGI TOURS AND TRAVELS (P) LTD.
5157	U99999DL1997PTC090308	ABHAY RAM HOTELS (P) LTD.
5158	U99999DL1997PTC090317	GTAC MARKETING PVT. LTD.
5159	U99999DL1997PTC090323	DEE KAY COLONISERS PVT. LTD.
5160	U99999DL1997PTC090341	CYCLE STAR INDIA PVT. LTD.
5161	U99999DL1997PTC090358	S.R. QUARRY PRIVATE LIMITED
5162	U99999DL1997PTC090369	CHANDER KANTA STEEL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
5163	U99999DL1997PTC090373	ABN SECURICARE PRIVATE LIMITED

5164	U99999DL1997PTC090378	RAVIN CHAUDHARY PROPERTIES (P) LTD.
5165	U99999DL1997PTC090396	VARUN ENGINEERS AND TRADERS PVT. LTD.
5166	U99999DL1997PTC090397	BLUES COMPUTERS PVT. LTD.
5167	U99999DL1997PTC090422	SHARUN INTERIORS AND DESIGNS (P) LTD.
5168	U99999DL1997PTC090447	OPEL TRAVELS PVT. LTD.
5169	U99999DL1997PTC090452	HVT AGRO FOODS PVT. LTD.
5170	U99999DL1997PTC090462	EXECUTIVE RENT-A-CAR (P) LTD.
5171	U99999DL1997PTC090481	ADITI MART PVT. LTD.
5172	U99999DL1997PTC090485	SOM STEEL TUBES PVT. LTD.
5173	U99999DL1997PTC090491	CHURUWALA EXPORTS PVT. LTD.
5174	U99999DL1997PTC090506	SUKHMAYE TOURS AND TRAVELS (P) LTD.
5175	U99999DL1997PTC090511	SARVESH PROPERTIES PVT. LTD.
5176	U99999DL1997PTC090530	MUSICAIDS MAGNETICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5177	U99999DL1997PTC090547	CRYSTAL-LINE HEALTH PRODUCTS PVT. LTD.
5178	U99999DL1997PTC090550	SPARK MINING PVT. LTD.
5179	U99999DL1997PTC090585	UNOW ELECTRONICS (INDIA) PVT. LTD.
5180	U99999DL1997PTC090617	RISING STAR TOURS PVT. LTD.
5181	U99999DL1997PTC090671	PNG DAIRIES AND FOODS PRIVATE LIMITED
5182	U99999DL1997PTC090672	OEDI ROADWAYS PRIVATE LIMITED
5183	U99999DL1997PTC090685	ABHA OVERSEAS PVT. LTD.
5184	U99999DL1997PTC090725	VEGIECANA INDIA PVT. LTD.
5185	U99999DL1997PTC090728	PINE VALLEY RESORTS PVT. LTD.
5186	U99999DL1997PTC090739	VEGA COMMUNICATION (P) LTD.
5187	U99999DL1997PTC090751	PROBE MARKET RESEARCH AND CONSULTANCY (INDIA) PVT LTD
5188	U99999DL1997PTC090796	API CONSULTANTS PVT. LTD.
5189	U99999DL1997PTC090816	AJ DESIGN SCHOOL PVT. LTD.
5190	U99999DL1997PTC090818	MARS COMTEL PVT. LTD.
5191	U99999DL1997PTC090838	GOLD GROW FINANCIAL CONSULTANTS (P) LTD.
5192	U99999DL1997PTC090841	G S A AEROMATICS PVT. LTD.
5193	U99999DL1997PTC090853	MOEBIUS PERIPHERALS PVT. LTD.
5194	U99999DL1997PTC090856	ASHWAMEGH MANAGEMENT SERVICE PVT LTD
5195	U99999DL1997PTC090859	APEX OVERSEAS PVT LTD
5196	U99999DL1997PTC090860	RAJAT CHEMFOOD PRIVATE LIMITED
5197	U99999DL1997PTC090932	SHYAM TRACK PROJECTS PRIVATE LIMITED
5198	U99999DL1997PTC090940	HOLPEN VETCARE PRIVATE LIMITED
5199	U99999DL1997PTC090953	NIDUSHA EXIM PVT. LTD.
5200	U99999DL1997PTC090955	SN IMPEX PVT. LTD.
5201	U99999DL1997PTC090961	MILLENNIUM WORLDWIDE LINK PVT LTD
5202	U99999DL1997PTC090972	ELEGANT POWER SYSTEM PVT. LTD.
5203	U99999DL1997PTC091042	DSI IMPEX PVT. LTD.
5204	U99999DL1997PTC091068	TIMES PROMOTERS PRIVATE LIMITED
5205	U99999DL1997PTC091104	JAY GEE HANDLOOM EMPORIUM (P) LTD.
5206	U99999DL1997PTC091165	SAHNI AGRO PVT LTD
5207	U99999DL1997PTC091200	WEBMERCHANT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5208	U99999DL1997PTC091205	AGRANI TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5209	U99999DL1997PTC091211	AARKS HATCHERIES PVT LTD
5210	U99999DL1997PTC091235	DIGICOM INFRES PVT. LTD.
5211	U99999DL1997PTC091255	EXPOLINKS (P) LIMITED
5212	U99999DL1997PTC091286	GAHLOT COLONISERS PVT. LTD.
5213	U99999DL1997PTC091301	FOUR SEASONS VOYAGES (INDIA) PVT. LTD.
5214	U99999DL1997PTC091334	ACMETECH ENGINEERS (P) LTD.
5215	U99999DL1997PTC091362	PANURGY SERVICES (P) LTD.
5216	U99999DL1997PTC091396	MAHALAXMI INDUSTRIES (P) LTD.
5217	U99999DL1997PTC091403	BITEK ACQUA-FIT PVT LTD.

5218	U99999DL1997PTC091404	BITEK BATTERIES PVT. LTD.
5219	U99999DL1997PTC091413	PROMIT IRRIGATION PVT. LTD.
5220	U99999DL1998PTC091460	SKYBIRD ASSOCIATED ROAD CARRIER PRIVATE LIMITED
5221	U99999DL1998PTC091487	BLUE JAY LABORATORIES (P) LTD.
5222	U99999DL1998PTC091493	ADVANTAGE INFOTECH PVT. LTD.
5223	U99999DL1998PTC091507	WIZARDS EXPRESS (P) LTD.
5224	U99999DL1998PTC091514	ANKRON PACKAGING INDUSTRIES PVT. LTD.
5225	U99999DL1998PTC091518	LIFESCIENCE MEDIA PVT. LTD.
5226	U99999DL1998PTC091532	PRITAM COMPUTERS (P) LTD.
5227	U99999DL1998PTC091539	COSMIC ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
5228	U99999DL1998PTC091567	BANSAL WOOD PRODUCT PVT. LTD.
5229	U99999DL1998PTC091580	TOPCOAT COATINGS AND CHEMICALS PVT. LTD.
5230	U99999DL1998PTC091645	GREENWAYS MEDICARE INDUSTRIES PVT. LTD.
5231	U99999DL1998PTC091649	SAPAN HOTELS AND PROPERTIES (P) LTD.
5232	U99999DL1998PTC091651	SEA CROSS OVERSEAS PVT. LTD.
5233	U99999DL1998PTC091655	D.C. MEMORIAL AGRO AND TRADING CO. PRIVATE LTD.
5234	U99999DL1998PTC091657	RAHI PROPERTIES (P) LTD.
5235	U99999DL1998PTC091673	UNIVGRD FARMS PVT. LTD.
5236	U99999DL1998PTC091683	JAI DURGE MAA AUDIO-VIDEO AND FILMS PVT. LTD.
5237	U99999DL1998PTC091687	IMPETUS TECHNOLOGY PVT. LTD.
5238	U99999DL1998PTC091696	SAKURA ENTERPRISES PVT. LTD.
5239	U99999DL1998PTC091735	LEGENDARY MARKETING PVT. LTD.
5240	U99999DL1998PTC091744	TIGER TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5241	U99999DL1998PTC091748	AFNI FOOD PRODUCTS (P) LTD.
5242	U99999DL1998PTC091766	JAIN KATHA INDUSTRY PVT. LTD.
5243	U99999DL1998PTC091767	SHRE RECREATIONAL SPORTS (P) LTD.
5244	U99999DL1998PTC091777	BHIWADI FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
5245	U99999DL1998PTC091782	SUPER KINETIC COURIER PVT. LTD.
5246	U99999DL1998PTC091810	MANN AND ASSOCIATES PVT. LTD.
5247	U99999DL1998PTC091815	POTENT METALS AND MARKETING (P) LTD.
5248	U99999DL1998PTC091832	IN TOUCH COMMUNICATIONS (INDIA) PVT. LTD.
5249	U99999DL1998PTC091844	SAHNI COLOUR LABS PRIVATE LIMITED
5250	U99999DL1998PTC091860	IDA INDIA PRIVATE LIMITED
5251	U99999DL1998PTC091868	GOLDCREST EXIM (P) LTD.
5252	U99999DL1998PTC091876	SAPNA COURIERS (P) LTD.
5253	U99999DL1998PTC091886	AIMS PLYWOOD INDIA PVT. LTD.
5254	U99999DL1998PTC091898	RTD FLOUR AND FOODS PRIVATE LIMITED
5255	U99999DL1998PTC091910	GREEN HOUSE CHEMICALS AND FERTILIZERS PVT. LTD.
5256	U99999DL1998PTC091911	MEWAR PRECISION METERS AND ELECTRONICS PVT. LTD.
5257	U99999DL1998PTC091913	DELHI SHELTER CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
5258	U99999DL1998PTC091920	PRIYA FRAGRANCE PRIVATE LIMITED
5259	U99999DL1998PTC091921	ASMA TEXTILES PVT. LTD.
5260	U99999DL1998PTC091930	PEE ENN EXIM (P) LTD.
5261	U99999DL1998PTC091932	PVN FOODS PRIVATE LIMITED
5262	U99999DL1998PTC091952	AASHRITA HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
5263	U99999DL1998PTC091957	NEBULA PLUS PRIVATE LIMITED
5264	U99999DL1998PTC091958	S. ORIAN AGROTECH PRIVATE LIMITED
5265	U99999DL1998PTC091976	KANHA REALTORS PVT. LTD.
5266	U99999DL1998PTC091978	AQUA SHIELDS WATER PROOFING CO. (P) LTD.
5267	U99999DL1998PTC091994	ALFASTONE TRADING CO. PVT. LTD.
5268	U99999DL1998PTC092011	ANNA ESTATE (P) LTD.
5269	U99999DL1998PTC092023	SHIVAM MOTELS (P) LTD.
5270	U99999DL1998PTC092026	PROMEDIA SYSTEMS (P) LTD.
5271	U99999DL1998PTC092032	S.S. LASER IMPRESSIONS PVT. LTD.
5272	U99999DL1998PTC092035	BNB SYSTEMS PVT. LTD.

5273	U99999DL1998PTC092047	MAC-WIN SDFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
5274	U99999DL1998PTC092105	SAI BABA IMPEX PVT. LTD.
5275	U99999DL1998PTC092126	VERSAI CREATIONS PVT. LTD.
5276	U99999DL1998PTC092140	UNICENT SYSTEMS PVT LTD
5277	U99999DL1998PTC092242	ANCHDR IMPEX PVT LTD
5278	U99999DL1998PTC092271	TRILOK APPARELS (P) LTD.
5279	U99999DL1998PTC092275	VILA PLAST (P) LTD.
5280	U99999DL1998PTC092281	YASH AUTDVEHICLES PVT. LTD.
5281	U99999DL1998PTC092308	ENVIRDNMNT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5282	U99999DL1998PTC092328	KATYANI FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
5283	U99999DL1998PTC092334	A.B. INFDSYSTEMS PVT. LTD.
5284	U99999DL1998PTC092341	ALIB ATELIERS PVT. LTD.
5285	U99999DL1998PTC092351	INFDRMATIDN GATEWAYS (INDIA) PRIVATE LTD.
5286	U99999DL1998PTC092357	NEW HOPE REMEDIES PRIVATE LIMITED
5287	U99999DL1998PTC092383	GUARDSMAN (INDIA) PRIVATE LIMITED
5288	U99999DL1998PTC092390	ARCAID TECHNDLDGIES PVT. LTD.
5289	U99999DL1998PTC092396	ANNAPURNA AHAAR (P) LTD.
5290	U99999DL1998PTC092397	BED-ON (INDIA) PRIVATE LIMITED
5291	U99999DL1998PTC092403	NULIFE INTERNATIDNAL PRIVATE LIMITED
5292	U99999DL1998PTC092406	GOODWILL AUTOMOTIVE PVT. LTD.
5293	U99999DL1998PTC092427	SWATI INSTRUMENTS PVT. LTD.
5294	U99999DL1998PTC092460	HELLD INDIA TRAVEL SERVICE PVT. LTD.
5295	U99999DL1998PTC092464	BLUE SAVANA MARKETING SERVICES PVT LTD
5296	U99999DL1998PTC092487	BASANT TDWERS PVT. LTD.
5297	U99999DL1998PTC092493	VILLAGE CABLE NETWDRK PRIVATE LIMITED
5298	U99999DL1998PTC092496	LAINIDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
5299	U99999DL1998PTC092526	SPLENDUR SPACE MANAGEMENT PVT. LTD.
5300	U99999DL1998PTC092527	CRYSTIC POLYESTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5301	U99999DL1998PTC092529	STAR GRAN-O-DECDR (P) LTD.
5302	U99999DL1998PTC092539	A.B. EDUCATIDNAL CDNSULTANTS PVT. LTD.
5303	U99999DL1998PTC092548	SYNERGY TRAVEL SERVICES PVT. LTD.
5304	U99999DL1998PTC092551	CYBERSDFT INTERNET SDLUTIDNS (P) LTD.
5305	U99999DL1998PTC092581	BROTHER IMPORTS (P) LTD.
5306	U99999DL1998PTC092582	LANCERS INFOTECH PVT. LTD.
5307	U99999DL1998PTC092600	CRESCENT APPLIANCES PRIVATE LIMITED
5308	U99999DL1998PTC092618	BANGALDRE LDW VDLTAGE EQUIPMENT.PVT. LTD.
5309	U99999DL1998PTC092625	PEARL IMPEX PRIVATE LIMITED
5310	U99999DL1998PTC092651	VISIENT SDFTWARE INDIA PVT. LTD.
5311	U99999DL1998PTC092672	S.M. MANDJ SYSTEMS PVT. LTD.
5312	U99999DL1998PTC092673	FEDDERS AIRCDN PVT. LTD.
5313	U99999DL1998PTC092693	HANDI TEX EXPDRTS PRIVATE LIMITED
5314	U99999DL1998PTC092695	KATYANI HDTLS AND RESDRTS PVT LTD
5315	U99999DL1998PTC092728	CANINE CARE PVT. LTD.
5316	U99999DL1998PTC092734	CLASSIC PETRDLEUM (P) LTD.
5317	U99999DL1998PTC092749	MAHENDRA SECURITY (INDIA) PVT. LTD.
5318	U99999DL1998PTC092750	HDNEST DVERSEAS PRIVATE LIMITED
5319	U99999DL1998PTC092762	LUCKY STAR EXPDRTS PRIVATE LIMITED
5320	U99999DL1998PTC092789	DEE PEE RESTAURANT (P) LTD.
5321	U99999DL1998PTC092790	BAHARI GEE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
5322	U99999DL1998PTC092795	NORTH END ESTATES PVT. LTD.
5323	U99999DL1998PTC092796	TASHKA INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
5324	U99999DL1998PTC092812	M.N. FRUIT (INDIA) PVT. LTD.
5325	U99999DL1998PTC092817	ANUKRATI CREATIONS (P) LTD.
5326	U99999DL1998PTC092825	VEER PRDMDTERS PVT LTD
5327	U99999DL1998PTC092844	A.O.L. (INDIA) PRIVATE LIMITED

5328	U99999DL1998PTC092845	FONEMED (INDIA) PRIVATE LTD.
5329	U99999DL1998PTC092853	SAICON INFOTECH PRIVATE LIMITED
5330	U99999DL1998PTC092857	N.C.C.S. CONSULTANTS PVT. LTD.
5331	U99999DL1998PTC092863	AVANTAGE IMPEX PRIVATE LIMITED
5332	U99999DL1998PTC092872	SHREE RAM VANIJYA POLYTEX PRIVATE LIMITED
5333	U99999DL1998PTC092873	DES RAJ AMIT KUMAR AND CO. PVT LTD
5334	U99999DL1998PTC092909	NEW ROYAL (INDIA) CONTRACTORS (P) LTD.
5335	U99999DL1998PTC092918	MCNAVIN INTERNATIONAL PVT. LTD.
5336	U99999DL1998PTC092920	JIMMY TOUR AND TRAVEL PRIVATE LIMITED
5337	U99999DL1998PTC092950	AMIALE ENGINEERING AND MARKETING PVT. LTD.
5338	U99999DL1998PTC092953	IQRA MARKETING NETWORK PRIVATE LIMITED
5339	U99999DL1998PTC092965	CBS PHARMACEUTICALS PVT LTD
5340	U99999DL1998PTC092974	NANO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
5341	U99999DL1998PTC092985	MPT EXPO-IMPEX PRIVATE LIMITED
5342	U99999DL1998PTC092998	AMARSONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5343	U99999DL1998PTC093008	RASOI KI SHAN PRODUCTS PVT LTD
5344	U99999DL1998PTC093016	BLODWIN MARKETING AND ADVERTISING PVT. LTD.
5345	U99999DL1998PTC093017	VINFRA RAPIDTRAK PRIVATE LIMITED
5346	U99999DL1998PTC093046	UNIQUE BREADS PVT. LTD.
5347	U99999DL1998PTC093049	PARIDHI IMPEX LINES PVT. LTD.
5348	U99999DL1998PTC093082	M.S. REMEDIES PVT. LTD.
5349	U99999DL1998PTC093091	AVIL MARKEKTING PVT. LTD.
5350	U99999DL1998PTC093136	JANNAT SPICES (INDIA) PVT. LTD.
5351	U99999DL1998PTC093148	VEE EH ROADLINES PRIVATE LIMITED
5352	U99999DL1998PTC093187	ASTHA IMPORT-EXPORT (P) LTD.
5353	U99999DL1998PTC093209	KAY PEE ESS (INDIA) PVT. LTD.
5354	U99999DL1998PTC093214	VISHUDH METALS PRIVATE LIMITED
5355	U99999DL1998PTC093224	NANDNI EDIBLES (P) LTD.
5356	U99999DL1998PTC093258	VISIONMATRIX SOLUTIONS PVT. LTD.
5357	U99999DL1998PTC093288	PGR PEOPLE AND CONSULTANTS PVT LTD
5358	U99999DL1998PTC093293	INDOVET PRIVATE LIMITED
5359	U99999DL1998PTC093323	MEDICAL PROFESSIONAL SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
5360	U99999DL1998PTC093335	GOLDEN ERA PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
5361	U99999DL1998PTC093338	SAVE BIO TECH INDIA PRIVATE LIMITED
5362	U99999DL1998PTC093345	AIR PLUS AVIATION SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
5363	U99999DL1998PTC093370	CONGLOMERATE CONSULTANTS (P) LTD.
5364	U99999DL1998PTC093377	UPENDRA PACKAGING PRIVATE LIMITED
5365	U99999DL1998PTC093383	DROSE TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5366	U99999DL1998PTC093392	ORIENTAL EATING JOINTS PRIVATE LIMITED
5367	U99999DL1998PTC093399	SUPERNAL PAINTS AND CHEMICALS PVT. LTD.
5368	U99999DL1998PTC093421	SIMTAC MEDICAL SERVICES PVT. LTD.
5369	U99999DL1998PTC093435	ESQUIRE INFOSYS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5370	U99999DL1998PTC093462	NIMBLE CREANTS INTERNET ADVERTISING (PVT) LTD.
5371	U99999DL1998PTC093475	AKANKSHA POLYMERS (P) LTD.
5372	U99999DL1998PTC093486	P. PEYTON NETWORK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
5373	U99999DL1998PTC093500	LEIGHTON DISTRIBUTORS PVT. LTD.
5374	U99999DL1998PTC093507	MCGRAW DISTRIBUTION PVT. LTD.
5375	U99999DL1998PTC093518	SWASTIK EQUIPMENT SERVICES (P) LTD.
5376	U99999DL1998PTC093525	ALUMINIUM DOORS INDIA PRIVATE LIMITED
5377	U99999DL1998PTC093529	SATISFACTION INFOTECH PVT. LTD.
5378	U99999DL1998PTC093531	SIGNET TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5379	U99999DL1998PTC093578	LUCAS NETWORK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
5380	U99999DL1998PTC093586	COMPUATION INDIA PVT. LTD.
5381	U99999DL1998PTC093593	KINGSTON TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.
5382	U99999DL1998PTC093612	DAND L DISTRIBUTION SYSTEMS PVT. LTD.

5383	U99999DL1998PTC093660	SAI BABA TRAVELS PVT. LTD.
5384	U99999DL1998PTC093662	PHOOL SINGH YADAV AND CO. PVT. LTD.
5385	U99999DL1998PTC093666	EXCELLENT CARRYING AND FORWARDING AGENCIES PRIVATE LIMITED
5386	U99999DL1998PTC093686	J.R.S. (EXPORTS) OVERSEAS PVT. LTD.
5387	U99999DL1998PTC093700	LENO MARKETING PRIVATE LIMITED
5388	U99999DL1998PTC093710	LEDBETTER MARKETING PRIVATE LIMITED
5389	U99999DL1998PTC093725	DAVIS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
5390	U99999DL1998PTC093735	OUR WAY DISTRIBUTION (P) LTD.
5391	U99999DL1998PTC093739	ACUMEN MEDIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5392	U99999DL1998PTC093745	TENEROVICH MARKETING PVT. LTD.
5393	U99999DL1998PTC093748	PAGLIA MARKETING PVT. LTD.
5394	U99999DL1998PTC093775	ZODIAC ADVERTISING PVT. LTD.
5395	U99999DL1998PTC093788	J.S.G. AGRO PVT. LTD.
5396	U99999DL1998PTC093804	HEMANG RUBBER PVT. LTD.
5397	U99999DL1998PTC093819	POOJA HOMES PVT. LTD.
5398	U99999DL1998PTC093832	COPPER JEANS PVT. LTD.
5399	U99999DL1998PTC093870	T. PARASMANI MARKETING PVT. LTD.
5400	U99999DL1998PTC093877	PARAMOUNT ASSOCIATES PVT. LTD.
5401	U99999DL1998PTC093880	KULEENA PROMOTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
5402	U99999DL1998PTC093886	LUNDRIGAN MARKETING PRIVATE LIMITED
5403	U99999DL1998PTC093887	TIMOTHY BIRD MARKETING PRIVATE LIMITED
5404	U99999DL1998PTC093898	ARUSA (INDIA) PVT. LTD.
5405	U99999DL1998PTC093904	SEEMA CONFECTIONERY WORKS PVT. LTD.
5406	U99999DL1998PTC093908	SHANKERA SHEET METAL AND MACHINES (INDIA) PVT. LTD.
5407	U99999DL1998PTC093910	NAGIMAL MINING AND CONSTRUCTION PVT. LTD.
5408	U99999DL1998PTC093911	S AND S PAINTS PVT. LTD.
5409	U99999DL1998PTC093929	SAI SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5410	U99999DL1998PTC093931	SAMSAN EXPORTS (P) LTD.
5411	U99999DL1998PTC093964	DYNASTY TOURS PVT. LTD.
5412	U99999DL1998PTC093969	S
5413	U99999DL1998PTC093974	AMBIKA RE-ESTA PVT. LTD.
5414	U99999DL1998PTC094009	ASSURED APPLIANCES (P) LTD.
5415	U99999DL1998PTC094010	ACE EXIM INDIA PVT. LTD.
5416	U99999DL1998PTC094013	SHIVAM CREATIONS PVT. LTD.
5417	U99999DL1998PTC094016	GM PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5418	U99999DL1998PTC094047	INFO-EMOTION PVT. LTD.
5419	U99999DL1998PTC094061	ADOBE COMPUTERS PVT. LTD.
5420	U99999DL1998PTC094088	MEGA REMEDIES PVT. LTD.
5421	U99999DL1998PTC094116	PRA FABRICATORS (P) LTD.
5422	U99999DL1998PTC094125	CAREWELL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
5423	U99999DL1998PTC094133	PACIFIC NETWORKS (P) LTD.
5424	U99999DL1998PTC094146	SAFEX SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5425	U99999DL1998PTC094179	CHANDRA AND BURG MARKETING PVT. LTD.
5426	U99999DL1998PTC094180	HUMMEL MARKETING PRIVATE LIMITED
5427	U99999DL1998PTC094181	SHIVALIK GEM AND JEWELLERY EXPORTS PVT. LTD.
5428	U99999DL1998PTC094206	HYDROWORTH POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
5429	U99999DL1998PTC094217	MILLER AND CO. INDIA PVT. LTD.
5430	U99999DL1998PTC094225	SHANTLAM MARKETING PRIVATE LIMITED
5431	U99999DL1998PTC094228	CITY FAME DEVELOPERS PVT. LTD.
5432	U99999DL1998PTC094269	COASTAL WARE HOUSING PVT. LTD.
5433	U99999DL1998PTC094271	BHAGAT APPAREL AND ACCESSORIES INTERNATIONAL PVT. LTD.
5434	U99999DL1998PTC094274	OZINDIA TRADING COMPANY (P) LTD.

5435	U99999DL1998PTC094278	MCCLOUD MARKETING PRIVATE LIMITED
5436	U99999DL1998PTC094285	MALDAR CATAMARANS INDIA PRIVATE LTD.
5437	U99999DL1998PTC094310	HIMANI BOOKS PVT. LTD.
5438	U99999DL1998PTC094425	HARI OM SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5439	U99999DL1998PTC094471	BUILDTech MARKETING CONCEPTS PVT LTD
5440	U99999DL1998PTC094518	DWIJA COLOR LAB PRIVATE LIMITED
5441	U99999DL1998PTC094525	INTERNET CAFE PVT. LTD.
5442	U99999DL1998PTC094527	DAVID BELLAMY AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
5443	U99999DL1998PTC094534	ANU PLYWOOD PVT. LTD.
5444	U99999DL1998PTC094553	PAMS INFOTECH AND EDUCATION PVT. LTD.
5445	U99999DL1998PTC094561	GOLDCREST HOLIDAYS (P) LTD.
5446	U99999DL1998PTC094563	INTEGRIS SOFTWARE PVT. LTD.
5447	U99999DL1998PTC094570	S.K.S.B. MEDIA PRIVATE LIMITED
5448	U99999DL1998PTC094571	DALIP PUBLIC GOODS CARRIERS PRIVATE LIMITED
5449	U99999DL1998PTC094591	DASS EXIM (P) LTD.
5450	U99999DL1998PTC094597	XYPI MEDIANET PRIVATE LIMITED
5451	U99999DL1998PTC094603	TARGET TRAVELS PVT. LTD.
5452	U99999DL1998PTC094614	TAVISARIU MARKETING PVT.LTD.
5453	U99999DL1998PTC094615	DELLRIINO INFO SOLUTIONS PVT. LTD.
5454	U99999DL1998PTC094625	PRAGMATIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5455	U99999DL1998PTC094634	CONTOUR EXIM PVT. LTD.
5456	U99999DL1998PTC094641	FOX DEVELOPERS AND SYSTEMS (INDIA) PVT.LTD.
5457	U99999DL1998PTC094656	THREE AAR CARGO MOVERS PVT. LTD.
5458	U99999DL1998PTC094657	KAIRALI CARGO MOVERS PVT. LTD.
5459	U99999DL1998PTC094664	ADVANTAGE PRODUCTS (P) LTD.
5460	U99999DL1998PTC094704	PARAS OIL MILLS PVT. LTD.
5461	U99999DL1998PTC094718	ART OF CREATE FURNITURES PVT. LTD.
5462	U99999DL1998PTC094719	DENGXING TRADING INDIA PVT. LTD.
5463	U99999DL1998PTC094724	TIME CLOTHING PVT LTD
5464	U99999DL1998PTC094738	SPICE TECH MINERALS PRIVATE LIMITED
5465	U99999DL1998PTC094747	PENTA-INFOWAY PVT.LTD.
5466	U99999DL1998PTC094762	DANEE MARK PHARMACEUTICALS (P) LTD.
5467	U99999DL1998PTC094766	SHIVA AROMATICS (P) LTD.
5468	U99999DL1998PTC094770	BLUE BELL COURIERS PVT. LTD.
5469	U99999DL1998PTC094775	AAROGYA VARDHINI NUTRIENTS PVT. LTD.
5470	U99999DL1998PTC094786	VILLA SAVOY PVT. LTD.
5471	U99999DL1998PTC094787	KAMA PROPERTIES AND CONSTRUCTION (P) LTD.
5472	U99999DL1998PTC094793	PEMCON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5473	U99999DL1998PTC094828	DREAM SCAPES (INDIA) PVT. LTD.
5474	U99999DL1998PTC094829	EVENT AND ENTERTAINMENT INDIA PVT. LTD.
5475	U99999DL1998PTC094841	ASHRIKA IMEX (P) LTD.
5476	U99999DL1998PTC094849	STILLWOOD MARKETING PVT. LTD.
5477	U99999DL1998PTC094870	INTERMATRIX INDIA PVT. LTD.
5478	U99999DL1998PTC094910	R.L. CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
5479	U99999DL1998PTC094913	HARSTAD DISTRIBUTORS INDIA PRIVATE LIMITED
5480	U99999DL1998PTC094921	LOVEY KRISHI EXPORTS (P) LIMITED
5481	U99999DL1998PTC094942	HALL MARK INTERIORS AND GLAZINGS PVT. LTD.
5482	U99999DL1998PTC094952	NETWORK INFORMATION SYSTEMS (P) LTD
5483	U99999DL1998PTC094985	STEWART MARKETING PRIVATE LIMITED
5484	U99999DL1998PTC094987	RENASONIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
5485	U99999DL1998PTC095005	MAN TRADEX PVT. LTD.
5486	U99999DL1998PTC095069	CSN OVERSEAS PVT. LTD.
5487	U99999DL1998PTC095079	MODERN-CAREERS CONSULTANTS (P) LTD.
5488	U99999DL1998PTC095081	RAJAN IMEX PVT. LTD.
5489	U99999DL1998PTC095108	LIBRA PETROLEUM PVT. LTD.

5490	U99999DL1998PTC095122	TRIBE MEDIA PVT. LTD.
5491	U99999DL1998PTC095127	SANSUM BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
5492	U99999DL1998PTC095142	SUNFLAG ENGINEERS PVT. LTD.
5493	U99999DL1998PTC095146	EUROPEAN ECONOMIC COURIERS (INDIA) PVT. LTD.
5494	U99999DL1998PTC095158	FRESCO INDIA PVT. LTD.
5495	U99999DL1998PTC095174	KRUTI GEMS AND JEWELLARY PRIVATE LIMITED
5496	U99999DL1998PTC095188	CECIL MARKETING PRIVATE LIMITED
5497	U99999DL1998PTC095191	FRONT PAGE EXCLUSIVES PRIVATE LIMITED
5498	U99999DL1998PTC095198	REAS MARKETING PRIVATE LIMITED
5499	U99999DL1998PTC095252	AQUAVIVA MARKETING PRIVATE LIMITED
5500	U99999DL1998PTC095254	UTELL INDIA PVT. LTD.
5501	U99999DL1998PTC095272	DICHVA EXPORTS PRIVATE LIMITED
5502	U99999DL1998PTC095280	DAMINI CARGO AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
5503	U99999DL1998PTC095283	CDNCEPT NETWORKS PVT. LTD.
5504	U99999DL1998PTC095284	TEERATH IMPEX AND TRADERS PVT. LTD.
5505	U99999DL1998PTC095289	UNIQUE HAWK EYE PLACEMENT AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5506	U99999DL1998PTC095360	PATLOON APPARELS (P) LTD.
5507	U99999DL1998PTC095369	MASS SPLENDID INDIA PVT. LTD.
5508	U99999DL1998PTC095370	GLORIA MARKETING AND SERVICES (P) LTD.
5509	U99999DL1998PTC095380	MICRO (INDIA) PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
5510	U99999DL1998PTC095384	NISHANT TRAVELS PRIVATE LIMITED
5511	U99999DL1998PTC095396	YOGIRAJ PHARMA PVT. LTD.
5512	U99999DL1998PTC095406	RANDD SOFTWARE INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED
5513	U99999DL1998PTC095415	GAS VISION INDIA PVT. LTD.
5514	U99999DL1998PTC095418	VARIETY MARKETING PVT. LTD.
5515	U99999DL1998PTC095426	VEE ESS GRAPHIKS PVT. LTD.
5516	U99999DL1998PTC095439	PC LAND (INDIA) PVT. LTD.
5517	U99999DL1998PTC095469	SAGOTECH CONSULTS PVT. LTD.
5518	U99999DL1998PTC095476	CAPITAL OFFSET PRESS (P) LTD.
5519	U99999DL1998PTC095492	NAGAR SUGARS AND CHEMICALS PVT. LTD.
5520	U99999DL1998PTC095534	IRIS FILMS PVT. LTD.
5521	U99999DL1998PTC095540	JVM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
5522	U99999DL1998PTC095545	GUPTA CLOTH HOUSE PRIVATE LTD.
5523	U99999DL1998PTC095552	LORDS RESTAURENTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
5524	U99999DL1998PTC095570	JAINSON MUSIC CASSETTES PVT. LTD.
5525	U99999DL1998PTC095582	PANGBORN MARKETING PRIVATE LIMITED
5526	U99999DL1998PTC095635	SHARK AQUA PURE PRIVATE LIMITED
5527	U99999DL1998PTC095653	AAKRITI JEWELLERY PVT. LTD.
5528	U99999DL1998PTC095654	ANUBHUTI JEWELLERY PVT. LTD.
5529	U99999DL1998PTC095659	PARAS BHARTI FILMS PVT. LTD.
5530	U99999DL1998PTC095663	KUNAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
5531	U99999DL1998PTC095673	COMPOSITE COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5532	U99999DL1998PTC095674	IMAGE HOTSHOP COMMUNICATION PVT. LD.
5533	U99999DL1998PTC095686	HILTON INFORMATICS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5534	U99999DL1998PTC095696	B S. KALPNA REALTORS PVT. LTD.
5535	U99999DL1998PTC095707	R.B. SECURITY PRIVATE LIMITED
5536	U99999DL1998PTC095739	BUNDI STEEL ROLLING MILLS (P) LTD.
5537	U99999DL1998PTC095740	SHIVAY IMPEX AND TRADERS PVT. LTD.
5538	U99999DL1998PTC095762	C.A.F.T. CONSULTANT PVT. LTD.
5539	U99999DL1998PTC095773	KHAKHI EXPORTS (P) LTD.
5540	U99999DL1998PTC095810	TRADE PARTNERS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
5541	U99999DL1998PTC095824	M.G.S. FAB PVT. LTD.
5542	U99999DL1998PTC095825	INSTANT MAINTENANCE SERVICES PVT. LTD.
5543	U99999DL1998PTC095834	INCH HIGH MARKETING PRIVATE LIMITED

5544	U99999DL1998PTC095841	CONSORTIUM PRINTERS PVT. LTD.
5545	U99999DL1998PTC095842	PANWARIA REAL ESTATE MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5546	U99999DL1998PTC095862	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5547	U99999DL1998PTC095866	AMOLZ TECHNOLOGIES PVT. LTD.
5548	U99999DL1998PTC095908	INTERSPACE ESTATES (P) LTD.
5549	U99999DL1998PTC095952	ANURAG AGRO (P) LTD.
5550	U99999DL1998PTC096032	CHOW NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5551	U99999DL1998PTC096036	APH INDIA PRIVATE LIMITED
5552	U99999DL1998PTC096071	REMPEL NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5553	U99999DL1998PTC096073	SUTHERLAND NETVISION PVT. LTD.
5554	U99999DL1998PTC096075	BROXTON NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5555	U99999DL1998PTC096092	BENNETT NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5556	U99999DL1998PTC096101	C.C.T. COMPUTERS PRIVATE LIMITED
5557	U99999DL1998PTC096104	OM NUMME IMPEX AND TRADERS PVT. LTD.
5558	U99999DL1998PTC096111	XEBEC NETWORK SYSTEMS (P) LTD
5559	U99999DL1998PTC096146	KLAVER AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
5560	U99999DL1998PTC096155	JAHNWI MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
5561	U99999DL1998PTC096158	P S CLEAN CARE PVT. LTD.
5562	U99999DL1998PTC096178	GALAXY ENTERTAINMENTS (P) LTD.
5563	U99999DL1998PTC096198	HEATH NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5564	U99999DL1998PTC096216	ORIENT SECURITY AND ALLIED SERVICES PVT LTD
5565	U99999DL1998PTC096248	GREEN DOT TEA COMPANY PRIVATE LIMITED
5566	U99999DL1998PTC096252	NODIKA INTERIORS (P) LTD.
5567	U99999DL1998PTC096269	ELBE CONTRACTORS PVT. LTD.
5568	U99999DL1998PTC096271	ROSHNI PLASTO CHEM PRIVATE LIMITED
5569	U99999DL1998PTC096278	DD TECHNICAL SERVICES PVT. LTD.
5570	U99999DL1998PTC096285	KESHAV DAIRY PVT. LTD.
5571	U99999DL1998PTC096296	ASSONSONS POLYMACH (P) LTD.
5572	U99999DL1998PTC096302	SDP BUSINESS SOLUTIONS PVT.LTD.
5573	U99999DL1998PTC096310	CRYSTAL POLISH (P) LTD.
5574	U99999DL1998PTC096312	ANNA SOFTWARE PVT. LTD.
5575	U99999DL1998PTC096329	SRJ SOFTWARE (P) LTD.
5576	U99999DL1998PTC096341	AMAR DEEP SECURITY SERVICES (P) LTD.
5577	U99999DL1998PTC096351	IBRASA FOOD AND SPACE PRIVATE LIMITED
5578	U99999DL1998PTC096377	ARNOLD NETWORK DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
5579	U99999DL1998PTC096387	HOMEGAS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5580	U99999DL1998PTC096390	SPORTS AND LEISURE (INTERNATIONAL) PVT. LTD.
5581	U99999DL1998PTC096403	VENUS ASSOCIATES PVT. LTD.
5582	U99999DL1998PTC096446	NAMRATA DISTRIBUTOR PRIVATE LIMITED
5583	U99999DL1998PTC096448	SHRI SCAN PRIVATE LIMITED
5584	U99999DL1998PTC096455	CHINGMUI APPARELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5585	U99999DL1998PTC096458	RATHI SONS (P) LTD.
5586	U99999DL1998PTC096472	PJ TECHNOLOGIES PVT. LTD.
5587	U99999DL1998PTC096475	KEEP WELL REMEDIES PVT. LTD.
5588	U99999DL1998PTC096494	SAMKALEEN PUBLICATIONS (P) LTD.
5589	U99999DL1998PTC096523	VINAY KVS PRIVATE LIMITED
5590	U99999DL1998PTC096555	COMMANDOR MARINE AND TECHNICAL EXPORTS PVT. LTD.
5591	U99999DL1998PTC096556	BIOVEDA HERBS PRIVATE LIMITED
5592	U99999DL1998PTC096557	S.R. DATA SERVICES (P) LTD.
5593	U99999DL1998PTC096566	RAJ INFOTECH CONSULTING PRIVATE LIMITED
5594	U99999DL1998PTC096593	PHAGUNI IMPEX PRIVATE LIMITED
5595	U99999DL1998PTC096619	MEDIACORP (INDIA) PVT. LTD.
5596	U99999DL1998PTC096635	GIRIJA DYE CHEM PVT. LTD.

5597	U99999DL1998PTC096675	PERFECT TEKNIK PVT. LIMITED
5598	U99999DL1998PTC096706	SUPERLEX CABLES (INDIA) PRIVATE LIMITED
5599	U99999DL1998PTC096707	OCTANE INTEGRATED PERIPHERALS (PVT) LIMITED
5600	U99999DL1998PTC096727	SAMSO DINA PRIVATE LIMITED
5601	U99999DL1998PTC096739	Y.L. ENGG. WORKS PVT. LTD.
5602	U99999DL1998PTC096767	TROPICAL CUISINE PVT LTD
5603	U99999DL1998PTC096772	REICHEL HEALTH CARE INDIA PVT. LTD.
5604	U99999DL1998PTC096773	WSP INDIA PRIVATE LIMITED
5605	U99999DL1998PTC096777	R.K. FOREX PVT LTD
5606	U99999DL1998PTC096781	NEELMANI COMPUTERS (PVT) LTD.
5607	U99999DL1998PTC096783	AMBLE ENTERTAINMENT (PVT) LTD.
5608	U99999DL1998PTC096790	SHIV SHAKTI DETECTIVES PVT. LTD.
5609	U99999DL1998PTC096791	SNOW KNITWEAR PRIVATE LIMITED
5610	U99999DL1998PTC096795	TMT ENTERPRISES PVT. LTD.
5611	U99999DL1998PTC096796	NS TECHNO SYSTEMS PVT LTD
5612	U99999DL1998PTC096800	UTTARANCHAL TOURS AND TRAVLES PRIVATE LIMITED
5613	U99999DL1998PTC096827	SPEEDMARK CARGO MANAGEMENT PVT LTD
5614	U99999DL1998PTC096829	ANGEL PRINTECH PVT. LTD.
5615	U99999DL1998PTC096870	RAJUL EXPORTS PVT. LTD.
5616	U99999DL1998PTC096883	VIMCO IMPEX PVT. LTD.
5617	U99999DL1998PTC096902	INDIGO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
5618	U99999DL1998PTC096904	SKG OVERSEAS PRIVATE LIMITED
5619	U99999DL1998PTC096908	AAKRITI INTERNATIONAL CLOTHING CO. (P) LTD.
5620	U99999DL1998PTC096909	STAR GAZAR ADVERTISING AGENCY (P) LTD.
5621	U99999DL1998PTC096919	VICTOR SECURITY POINT PVT. LTD.
5622	U99999DL1998PTC096929	PLACEMENT ASSOCIATES PVT LTD
5623	U99999DL1998PTC096956	MADANAS AND ASSOCIATES PVT LTD
5624	U99999DL1998PTC096982	SMART EDUCATION AND OVERSEAS PLACEMENTS INDIA PVT. LTD
5625	U99999DL1998PTC097003	VATS AGROTECH PVT. LTD.
5626	U99999DL1998PTC097018	PETCHARAT NETWORK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
5627	U99999DL1998PTC097029	CSG SECURITY SERVICES SPRIVATE LIMITED
5628	U99999DL1998PTC097032	LAFAYETTE INDIA PVT. LTD.
5629	U99999DL1998PTC097040	TRAVANCORE TEA ESTATES PVT. LTD.
5630	U99999DL1998PTC097049	SATELITE OVERSEAS (P) LTD.
5631	U99999DL1998PTC097064	SHEETAL FERTILIZERS PVT. LTD.
5632	U99999DL1998PTC097065	PINKI ZIPS PRIVATE LIMITED
5633	U99999DL1998PTC097075	TOUCH IMPEX AND TRADERS PVT. LTD.
5634	U99999DL1998PTC097085	SUMIT FORGE PVT. LTD.
5635	U99999DL1998PTC097103	NOVEL INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
5636	U99999DL1998PTC097113	AAR ESS AGENCIES (P) LTD.
5637	U99999DL1998PTC097126	BAFFIN BAY INFOSYS PVT. LTD.
5638	U99999DL1998PTC097128	TOPPER SECURITY PVT. LTD.
5639	U99999DL1998PTC097140	SHREE SAI CINE PRODUCTION (P) LTD.
5640	U99999DL1998PTC097145	KAWAL PLAST PRIVATE LIMITED
5641	U99999DL1998PTC097146	IRIS IMPEX (P) LTD.
5642	U99999DL1998PTC097152	CAPITAL AIRCON (INDIA) PVT. LTD.
5643	U99999DL1998PTC097164	FAST CHAIN COURIERS PVT. LTD.
5644	U99999DL1998PTC097172	AROUND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
5645	U99999DL1998PTC097176	CONNECTION TELEMARKETING INDIA PVT. LTD.
5646	U99999DL1998PTC097204	GENEOUS SOFTWARE PVT. LTD.
5647	U99999DL1998PTC097232	M AND J GLASSWARES PVT. LTD.
5648	U99999DL1998PTC097245	J M D AQUA MINERALS PRIVATE LIMITED
5649	U99999DL1998PTC097256	LB AIR FREIGHT (P) LTD.
5650	U99999DL1998PTC097262	ANNA SMELTING CO. PRIVATE LIMITED

5651	U99999DL1998PTC097283	SAYALKOT PACKAGING PVT. LTD.
5652	U99999DL1998PTC097294	A L M FURNISHERS PVT. LTD.
5653	U99999DL1998PTC097303	GOHAR FOODS PVT. LTD.
5654	U99999DL1998PTC097317	JASCO POLYMERS PVT. LTD.
5655	U99999DL1998PTC097332	AMADEUS TRAVELS PVT. LTD.
5656	U99999DL1998PTC097336	HOLY FRIENDS IMPEX PVT. LTD.
5657	U99999DL1998PTC097366	BRAVO PRODUCTIONS PVT LTD
5658	U99999DL1998PTC097375	MULLHOLAND AND ASSOCIATES (INDIA) PRIVATE LIMITED
5659	U99999DL1998PTC097376	LEWIS AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
5660	U99999DL1998PTC097399	MANHATTAN INSTITUTE OF INFOTECH (P) LTD.
5661	U99999DL1998PTC097482	HEALTH MEDITRONICS (P) LTD.
5662	U99999DL1998PTC097495	RELEX SPORTS AND SWIMMING (P) LTD.
5663	U99999DL1998PTC097503	OYSTERS OVERSEAS PVT. LTD.
5664	U99999DL1998PTC097514	CROSSPORT ALLIANCES (INDIA) PVT. LTD.
5665	U99999DL1998PTC097527	A.S. DETECTIVES AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5666	U99999DL1998PTC097533	GURGAON INTERNET PVT. LTD.
5667	U99999DL1998PTC097534	V.K. EDUCATIONAL INSTITUTES PRIVATE LIMITED
5668	U99999DL1998PTC097542	FALCON INDIA PVT. LTD.
5669	U99999DL1998PTC097568	LUSH MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
5670	U99999DL1998PTC097582	HIIMLAND PROMOTERS AND BUILDERS PVT. LTD.
5671	U99999DL1998PTC097599	GURUDUTT CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
5672	U99999DL1998PTC097602	MOMENTS GREETINGS AND GIFTS COMPANY (P) LTD.
5673	U99999DL1998PTC097603	VRINDA IMPEX PRIVATE LIMITED
5674	U99999DL1998PTC097622	DARSHNA NEWS AND NETWORK PVT. LTD.
5675	U99999DL1998PTC097623	IPM LAMINATORS PVT. LTD.
5676	U99999DL1998PTC097624	UNIBRO FILMS (P) LTD.
5677	U99999DL1998PTC097633	HARKRISHAN WIRES PVT. LTD.
5678	U99999DL1998PTC097642	SUPER ALLMETAL INDIA PRIVATE LIMITED
5679	U99999DL1998PTC097672	ROSE APPARELS (P) LTD.
5680	U99999DL1998PTC097681	MAPPCO INDIA PVT. LTD.
5681	U99999DL1998PTC097688	SALASAR OVERSEAS PVT. LTD.
5682	U99999DL1998PTC097706	DYNAMIC BOXES CO. PVT. LTD.
5683	U99999DL1998PTC097717	TARA MEDIA PVT. LTD.
5684	U99999DL1999PTC097748	S.S. LIPRO INDIA PVT. LTD.
5685	U99999DL1999PTC097751	CREATIONS FRAGRANCE (INDIA) PVT. LTD.
5686	U99999DL1999PTC097783	FAITH CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
5687	U99999DL1999PTC097804	NOVA VENTURES PRIVATE LIMITED
5688	U99999DL1999PTC097847	CORNCHEM PLASTICIZERS PVT. LTD.
5689	U99999DL1999PTC097857	PRAKRITI DRUGS PVT. LTD.
5690	U99999DL1999PTC097858	INDIAN SHEPHERDS. CAMPS AND ADVENTURE PVT. LTD.
5691	U99999DL1999PTC097863	SJ INFOTECH PVT. LTD.
5692	U99999DL1999PTC097866	ANUBIS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
5693	U99999DL1999PTC097867	VOGUE IMPEX SYSTEMS (P) LTD.
5694	U99999DL1999PTC097887	TEAM - A SECURITY PVT. LTD.
5695	U99999DL1999PTC097924	MILK CITY INDIA PVT. LTD.
5696	U99999DL1999PTC097931	SRIHITI TELECOM AND NETWORK PVT. LTD.
5697	U99999DL1999PTC097958	PALKI TRAVELS PVT. LTD.
5698	U99999DL1999PTC097965	SAMYAK IMPEX PRIVATE LIMITED
5699	U99999DL1999PTC097987	ONS AIRPORT SERVICES PVT. LTD.
5700	U99999DL1999PTC098020	ABHINAV JEWELLERY PVT. LTD.
5701	U99999DL1999PTC098045	PAWAN INDIA TOURISM PVT. LTD.
5702	U99999DL1999PTC098070	PANNY CREATIONS PRIVATE LIMITED
5703	U99999DL1999PTC098073	GUPTA AIRWAYS PVT. LTD.
5704	U99999DL1999PTC098086	SIMRAN COURIER PRIVATE LIMITED
5705	U99999DL1999PTC098096	GLOW CREATIONS PVT. LTD.

5706	U99999DL1999PTC098116	HIGH PURITY GASES PRIVATE LIMITED
5707	U99999DL1999PTC098120	JAGRITI FRAGRANCES PVT LTD.
5708	U99999DL1999PTC098144	GEMGOLD BUILDERS CONSULTANTS PVT. LTD.
5709	U99999DL1999PTC098166	CERD INSTRUMENTS AND CONSULTANTS (INDIA) PVT. LTD.
5710	U99999DL1999PTC098173	NITYA EXIM AND TRADERS PVT. LTD.
5711	U99999DL1999PTC098178	ASHISH HATCHERIES PRIVATE LIMITED
5712	U99999DL1999PTC098186	MANAGEWISE SOFTWARE PVT. LTD.
5713	U99999DL1999PTC098187	ASTRONOMY TELESCOPE INDIA PRIVATE LIMITED
5714	U99999DL1999PTC098195	KLASH FOODS PVT. LTD.
5715	U99999DL1999PTC098197	R.R. MEDIA SYNERGY PVT. LTD.
5716	U99999DL1999PTC098220	ENDLESS HOLIDAYS PVT. LTD.
5717	U99999DL1999PTC098256	AJS RESTAURANT PVT. LTD.
5718	U99999DL1999PTC098270	GOODLUCK DECORATORS PVT. LTD.
5719	U99999DL1999PTC098292	MOTHER INDIA TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5720	U99999DL1999PTC098314	INFA PROJECT CONSULTANT PVT. LTD.
5721	U99999DL1999PTC098319	VICTORIA HOSPITALITY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5722	U99999DL1999PTC098329	JANAK LIFTERS PVT. LTD.
5723	U99999DL1999PTC098357	V-TECH SHOX PRIVATE LIMITED
5724	U99999DL1999PTC098364	NEW VENTURES INDIA EXIM PVT LTD
5725	U99999DL1999PTC098375	MODI INFOSYSEMS PVT. LTD.
5726	U99999DL1999PTC098378	HSG CONSULTANTS PVT. LTD.
5727	U99999DL1999PTC098385	ELYSIAN INFOTECH PVT. LTD.
5728	U99999DL1999PTC098388	SKYCOM INDIA PVT. LTD.
5729	U99999DL1999PTC098431	I T G SYSTEMS PVT. LTD.
5730	U99999DL1999PTC098447	V T SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED
5731	U99999DL1999PTC098464	TROIKA TOURS AND TRAVELS PVT. LTD.
5732	U99999DL1999PTC098465	TRYST PUBLISHING AND COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5733	U99999DL1999PTC098486	AKASH DEEP SECURITY SERVICES AND INVESTIGATOR PRIVATE LTD.
5734	U99999DL1999PTC098495	DESTINY SOFTWARE (P) LTD.
5735	U99999DL1999PTC098498	NEW BRIGHT INDIA EXIM PVT. LTD.
5736	U99999DL1999PTC098505	N.R. ENTERPRISES PVT LTD
5737	U99999DL1999PTC098509	NIKITASHA TRADING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
5738	U99999DL1999PTC098514	EXOSQUAD SECURITY NETWORK PVT. LTD.
5739	U99999DL1999PTC098515	GULBANSI EXPORTS PRIVATE LTD.
5740	U99999DL1999PTC098543	VAMA SERVICES PRIVATE LIMITED
5741	U99999DL1999PTC098550	PINNACLE EXIM PVT. LTD.
5742	U99999DL1999PTC098569	EMERGING INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
5743	U99999DL1999PTC098571	CHAWLA ORNAMENTS PRIVATE LIMITED
5744	U99999DL1999PTC098594	SUDHEER ASSOCIATES (P) LTD.
5745	U99999DL1999PTC098601	COMBINED ELECTRO DEVICES (PVT) LTD.
5746	U99999DL1999PTC098607	GEE BROS DISTRIBUTORS (PVT) LTD.
5747	U99999DL1999PTC098608	KHANNA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
5748	U99999DL1999PTC098621	VAV EXPORTS PRIVATE LIMITED
5749	U99999DL1999PTC098626	MIS CONSTRUCTION PVT. LTD.
5750	U99999DL1999PTC098635	ABHISHEK INFOSYS PVT. LTD.
5751	U99999DL1999PTC098636	MANU MAHARANI MANAGEMENT AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5752	U99999DL1999PTC098707	ASTRO SYSTEM SOLUTION (PVT) LTD.
5753	U99999DL1999PTC098761	ARTLAND CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
5754	U99999DL1999PTC098792	JVS FEED MILL PVT. LTD.
5755	U99999DL1999PTC098818	AAKRITI (INDIA) PVT. LTD.
5756	U99999DL1999PTC098828	HB HOME CONCEPTS INDIA PRIVATE LIMITED
5757	U99999DL1999PTC098835	I B SOLUTIONS AND PLACEMENT PVT. LTD.
5758	U99999DL1999PTC098837	UNISYS MARKETING PRIVATE LIMITED

5759	U99999DL1999PTC098849	SPEEDWAGON TRADERS PVT. LTD.
5760	U99999DL1999PTC098864	D.S. CRAFTS PVT. LTD.
5761	U99999DL1999PTC098880	TDPL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
5762	U99999DL1999PTC098881	INDENT MARKETING PRIVATE LIMITED
5763	U99999DL1999PTC098903	AUTHENTIC OPTICS PVT. LTD.
5764	U99999DL1999PTC098913	MELVIN IMPEX PRIVATE LIMITED
5765	U99999DL1999PTC098972	WATCHFUL SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5766	U99999DL1999PTC099006	B AND B CONTRACTORS PVT. LTD.
5767	U99999DL1999PTC099026	ALKA HOUSEKEEPING PRIVATE LIMITED
5768	U99999DL1999PTC099031	ORCHIDS FASHIONS PRIVATE LIMITED
5769	U99999DL1999PTC099045	STANDARD RECREATION AND RESORTS PRIVATE LIMITED
5770	U99999DL1999PTC099059	ANJALI WHOLESALERS AND AGENTS PVT. LTD.
5771	U99999DL1999PTC099112	AMBA INDUSTRIES (P) LTD.
5772	U99999DL1999PTC099134	TECHNOSPARK COMPUTERS PVT. LTD.
5773	U99999DL1999PTC099138	STARCOL ADHESIVE AND CHEMICALS (PVT) LTD.
5774	U99999DL1999PTC099151	CHATTISHGARH FOOD AND MARKETING (P) LTD.
5775	U99999DL1999PTC099170	VARSHA OVERSEAS PVT. LIMITED
5776	U99999DL1999PTC099173	REVIN AIRWAYS PRIVATE LIMITED
5777	U99999DL1999PTC099216	SERENE PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
5778	U99999DL1999PTC099234	EZY TECHNOLOGIES PVT. LTD.
5779	U99999DL1999PTC099258	GOLD INFOTECH PVT. LTD.
5780	U99999DL1999PTC099273	M.K. GEMS PRIVATE LIMITED
5781	U99999DL1999PTC099283	FAIRDEAL CORRU PRINT PVT. LTD.
5782	U99999DL1999PTC099289	INFOBYTE TECHNOLOGIES PVT. LTD.
5783	U99999DL1999PTC099308	HORIZON IMMIGRATIONS PVT. LTD.
5784	U99999DL1999PTC099337	MIRACLE COMPUTERS DELHI PRIVATE LIMITED
5785	U99999DL1999PTC099388	KOTHARI PACKAGING PVT. LTD.
5786	U99999DL1999PTC099394	CHOUDHARY CLUB PVT. LTD.
5787	U99999DL1999PTC099398	S.P. INFOSYS PVT. LTD.
5788	U99999DL1999PTC099399	SATI MARKETING PRIVATE LTD.
5789	U99999DL1999PTC099417	RH SOFT-CON PRIVATE LIMITED
5790	U99999DL1999PTC099457	A.G. PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
5791	U99999DL1999PTC099472	OUTER BOUND EXPEDITIONS PVT. LTD.
5792	U99999DL1999PTC099510	K.C. TUBEWELLS PVT. LTD.
5793	U99999DL1999PTC099522	ULTRA HELVET TECHNOLOGIES PVT. LTD.
5794	U99999DL1999PTC099527	RISHI TEXTILES PRIVATE LIMITED
5795	U99999DL1999PTC099551	M.S. ENCON PVT. LTD.
5796	U99999DL1999PTC099557	VARDHMAN ALUMINIUM AND COOKWARE CO. (PVT) LTD.
5797	U99999DL1999PTC099563	CALYPSO PLASTICS PRIVATE LIMITED
5798	U99999DL1999PTC099577	PYSON PRINTWAYS PVT. LTD.
5799	U99999DL1999PTC099605	LINKTEC INDIA PRIVATE LIMITED
5800	U99999DL1999PTC099614	ALAARA HOTEL AND RESORTS PRIVATE LIMITED
5801	U99999DL1999PTC099619	ORANGE WEB (INDIA) PVT. LTD.
5802	U99999DL1999PTC099633	DEN DETECTION AND SECURITY SERVICES PVT. LTD.
5803	U99999DL1999PTC099650	SANAR ELECTRICALS PVT. LTD.
5804	U99999DL1999PTC099651	EXCLUSIVELY EXIM PVT. LTD.
5805	U99999DL1999PTC099662	GIFT MASTERS INDIA PVT. LTD.
5806	U99999DL1999PTC099670	HARI OM ICE AND COLD STORAGE PVT. LTD.
5807	U99999DL1999PTC099678	MOVERS AND SAFERS (INDIA) PVT. LTD.
5808	U99999DL1999PTC099679	SAPRA FOREX PVT. LTD.
5809	U99999DL1999PTC099685	LLOYD KOLDAIRE PRIVATE LIMITED
5810	U99999DL1999PTC099690	SPN HI-TECH SOLUTIONS PVT. LTD.
5811	U99999DL1999PTC099738	WEB INSTITUTE OF COMPUTER TECHNOLOGY PVT. LTD.
5812	U99999DL1999PTC099749	S K N ENVIRO SYSTEMS PVT. LTD.
5813	U99999DL1999PTC099751	SINGHAL ESTATE AND CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

5814	U99999DL1999PTC099760	SKET INDIA PRIVATE LIMITED
5815	U99999DL1999PTC099773	COROLES SDFTWARE PVT. LTD.
5816	U99999DL1999PTC099811	MEEZAH INDIA PVT. LTD.
5817	U99999DL1999PTC099817	AREMISSOFT TECHNDLDGIES PRIVATE LIMITED
5818	U99999DL1999PTC099840	TRICUT HERBBS PVT. LTD.
5819	U99999DL1999PTC099999	A-TECH CDMPUTER (PVT) LTD.
5820	U51505DL1999PTC100041	D.D. ELECTRONICS PVT. LTD.
5821	U25209DL1999PTC100058	KVM PLASTIC PACKAGING PVT. LTD.
5822	U37200DL1999PTC100167	KAMANI NATURE AND WASTE MANAGEMENT PVT. LTD.
5823	U74999DL1999PTC100279	ZEB SECURITY AND DETECTIVES PVT. LTD.
5824	U24246DL1999PTC100347	CALTECH LABDRATDRIES PVT. LTD.
5825	U80221DL1999PTC100371	AMBIENCE EDUCATION PRIVATE LIMITED
5826	U01121DL1999PTC100400	MULTIFRESH AGREXPD PVT. LTD.
5827	U55101DL1999PTC100401	ANGAN ENTERPRISES PVT. LTD.
5828	U72900DL1999PTC100417	TDS ULTIMATE SOLUTIONS (PVT) LTD.
5829	U63040DL1999PTC100419	KRUGER TRAVEL SERVICES PVT. LTD.
5830	U24231DL1999PTC100432	MISPA PHARMACEUTICALS PVT LTD
5831	U99999DL1999PTC100462	AGRASEN PRDMDTERS PRIVATE LIMITED
5832	U33301DL1999PTC100540	PDLAR WATCH CASES PVT. LTD.
5833	U72900DL1999PTC100565	DELTA VISUAL COMPUTING PVT. LTD.
5834	U74999DL1999PTC100574	NDDRJEHAN BEAUTY PARLDUR PVT. LTD.
5835	U28997DL1999PTC100638	BHARTI HDME APPLIANCES (INDIA) PVT. LTD.
5836	U92114DL1999PTC100645	INDRADHANUSH COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5837	U52334DL1999PTC100647	MICRDMIND ELECTRONICS PVT. LTD.
5838	U74999DL1999PTC100650	CHEITNA PUBLICATION PVT. LTD.
5839	U92132DL1999PTC100670	SIBAGD CREATIONS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
5840	U29120DL1999PTC100671	LEADER PUMPS PVT LTD.
5841	U63013DL1999PTC100672	RAMAIR TRAVELS AND CARGO SERVICES (PVT) LTD.
5842	U74300DL1999PTC100703	ADBLIFF COMMUNICATIONS PVT. LTD.
5843	U31909DL1999PTC100721	S. SERIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
5844	U70101DL1999PTC100728	DHANPATI BUILDCON PRIVATE LIMITED
5845	U51505DL1999PTC100732	SHATAKSHI TRADING PVT. LTD.
5846	U72200DL1999PTC100742	YUKTI INFOTECH PVT. LTD.
5847	U74140DL1999PTC100839	ACTIVE SOLUTIONS (PVT) LTD.
5848	U29224DL1999PTC100849	MAGNDTECH (INDIA) PVT. LTD.
5849	U72200DL1999PTC100920	RESPDNSE INFOTECH PVT. LTD.
5850	U52392DL1999PTC100929	JDS INFDSYS PRIVATE LIMITED
5851	U99999DL1999PTC100938	BLUE MAX TRAVELS PVT. LTD.
5852	U99999DL1999PTC100939	DREAMTECH PRESS (INDIA) PVT. LTD.
5853	U74270DL1999PTC100952	VIZAG OPERATIONS AND MAINTENANCE PVT. LTD.
5854	U72501DL1999PTC100964	SINCD INFDSYS PVT. LTD.
5855	U13206DL1999PTC100981	M AND Q MINERALS EAST INDIA PVT. LTD.
5856	U72900DL1999PTC101019	INFDSOLUTION SERVICES (INDIA) PVT. LTD.
5857	U51909DL1999PTC101031	THOPPIL MARKETING PVT. LTD.
5858	U24232DL1999PTC101034	NDVA GALENICALS PVT. LTD.
5859	U63022DL1999PTC101043	SAHARA COLD STDRAGE PRIVATE LIMITED
5860	U72900DL1999PTC101050	INFDEL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
5861	U74140DL1999PTC101056	ASHWIN LIFE CONCEPTS VENTURE CONSULTANCY (PVT) LTD.
5862	U24239DL1999PTC101071	CYRENE OVERSEAS PRIVATE LIMITED
5863	U18101DL1999PTC101073	FATT EXPDRTS PVT. LTD.
5864	U36911DL1999PTC101080	PREMSDMS JEWELLERS PVT. LTD.
5865	U79300DL1999PTC101081	ASHIRWAD ADVERTISING (PVT) LTD.
5866	U35301DL1999PTC101160	SPARKLAR MEDIA PVT. LTD.
5867	U18101DL1999PTC101168	DIASHONIN APPARELS PVT. LTD.

5868	U74999DL1999PTC101180	ITALICA MARBLES (PVT) LTD.
5869	U99999DL1999PTC101222	LINK CONSUMER CARE PVT. LTD.
5870	U74950DL1999PTC101224	SHIV SHAKTI FLEX PACK PRIVATE LIMITED
5871	U29199DL1999PTC101238	ARSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
5872	U45201DL1999PTC101274	AKSA HOSPITAL CONSULTANTS PVT. LTD.
5873	U72900DL1999PTC101288	SHOW BIZZARE ARTS PVT. LTD.
5874	U74920DL1999PTC101332	POLESTAR DETECTIVE AND SECURITY PVT.LTD.
5875	U28998DL1999PTC101340	NEGI METAL PROCESSORS PVT. LTD.
5876	U15139DL1999PTC101384	OM SHREE ICE FACTORY PVT. LTD.
5877	U51909DL1999PTC101394	ALL BROTHERS EXPORTS PVT. LTD.
5878	U45201DL1999PTC101413	VYOM ENGINEERING INDIA (P) LTD.
5879	U01122DL1999PTC101417	M.V. FLOWRA HUTS PVT. LTD.
5880	U74140DL1999PTC101424	ABACUS DESIGN LABS PVT. LTD.
5881	U27109DL1999PTC101449	APPOLLO FASTNER (PVT) LTD.
5882	U74140DL1999PTC101452	PROBITY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5883	U74140DL1999PTC101493	MERIDIAN VAT RECLAIM(INIDIA)PVT.LTD.
5884	U24239DL1999PTC101494	HIGH RETURNS INTERNATIONAL PVT. LTD.
5885	U10102DL1999PTC101505	BHAGAT COAL SALES PVT. LTD.
5886	U24222DL1999PTC101513	DURGA PAINTS AND CHEMICALS PVT. LTD.
5887	U45201DL1999PTC101528	N.P.ESTATE AND BUILDING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
5888	U80903DL1999PTC101541	DAS TUTORIALS PVT.LTD.
5889	U67120DL1999PTC101613	IMPERIAL GUARDS PRIVATE LIMITED
5890	U25209DL1999PTC101620	PARTH POLY-CHEM PVT. LTD.
5891	U18101DL1999PTC101629	MARKUS DESIGNS PRIVATE LIMITED
5892	U18100DL1999PTC101646	STATUS EXIM AND SERVICES PRIVATE LIMITED
5893	U99999DL1999PTC101652	PLS MOTORS PRIVATE LIMITED
5894	U01111DL1999PTC101656	JHAWAR OVERSEAS PRIVATE LIMITED
5895	U01111DL1999PTC101657	J.T. COMMODITIES PRIVATE LIMITED
5896	U72200DL1999PTC101678	BDK CYBERTONICS PRIVATE LIMITED
5897	U63040DL1999PTC101688	KANTAN TOURS PRIVATE LIMITED
5898	U74300DL1999PTC101694	PRAYAS COMMUNICATION (P) LTD.
5899	U51109DL1999PTC101716	ESSENTIALS MARKETING (PVT) LTD.
5900	U36939DL1999PTC101720	CHAHAT GAMES PRIVATE LIMITED
5901	U63013DL1999PTC101762	AXIS LOGFRET PRIVATE LIMITED
5902	U72200DL1999PTC101763	FUTURISTIC EDUCATION P.LTD.
5903	U45201DL1999PTC101792	ANAB CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
5904	U09211DL1999PTC101810	CARTE ROYALE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
5905	U32109DL1999PTC101833	SHAH SAHIB ELECTRONICS PVT. LTD.
5906	U63013DL1999PTC101835	PANWAR SALES PRIVATE LIMITED
5907	U99999DL1999PTC101868	SYNDICATE TRANSPORT (PVT) LTD.
5908	U99999DL1999PTC101870	TECOM CHEMICALS PVT. LTD.
5909	U09211DL1999PTC101876	RAW MUSIC COMPANY PRIVATE LIMITED
5910	U72900DL1999PTC101907	METRO BAZAR ONLINE PRIVATE LIMITED
5911	U72100DL1999PTC102005	SILICON NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED
5912	U67120DL1999PTC102038	SHAKTI SERVICES PRIVATE LIMITED
5913	U01111DL1999PTC102057	WINSUN OVERSEAS PRIVATE LIMITED
5914	U99999DL1999PTC102165	CREST MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
5915	U27109DL1999PTC102241	HIEMENS STEELS PVT. LTD.
5916	U74140DL1999PTC102260	DSP MEHRA INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5917	U24119DL1999PTC102268	J.K. ADHESIVE CO. PRIVATE LIMITED
5918	U72100DL1999PTC102283	ANS INFOSYS PVT.LTD.
5919	U72200DL1999PTC102309	OMETRA SOFTWARE SOLUTION PVT.LTD.
5920	U18101DL1999PTC102345	AJANTA CRAFTS PRIVATE LIMITED

5921	U64120DL1999PTC102455	CSS SATCOM SERVICES PVT. LTD.
5922	U51109DL1999PTC102468	CASWELL AND SURITA TOURS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5923	U74140DL1999PTC102564	NOBLE TECHNOLOGIES SERVICES PRIVATE LIMITED
5924	U51491DL1999PTC102565	AMS IMPEX PRIVATE LIMITED
5925	U74999DL1999PTC102598	VASHISHT AIR-CON PRIVATE LIMITED
5926	U29309DL1999PTC102625	PHOTOGENIC INDIA PRIVATE LIMITED
5927	U45202DL1999PTC102635	JENENDRA BUILDCON PVT. LTD.
5928	U18109DL1999PTC102651	MOD VASTRA KNITS PRIVATE LIMITED
5929	U92490DL1999PTC102690	ENTER N FUN SERVICE CARD PRIVATE LIMITED
5930	U52190DL1999PTC102738	AL-RABEYA IMPEX PRIVATE LIMITED
5931	U74999DL1999PTC102866	LIFE STYLE DREAM CARD PRIVATE LIMITED
5932	U25209DL2000PTC103244	KRISHNA GLOBAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
5933	U85110DL2000PTC103408	REHANA NURSING HOME PRIVATE LIMITED
5934	U72100DL2000PTC103417	BINARY SYSTECH PRIVATE LIMITED
5935	U72900DL2000PTC103730	SYBER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
5936	U99999DL2000PTC103842	RAINBOW REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
5937	U72200DL2000PTC104037	TELNET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5938	U99999DL2000PTC104084	NEW DELHI WOMEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
5939	U18101DL2000PTC104132	HAWKSHEAD CLOTHING (INDIA) PRIVATE LIMITED
5940	U72900DL2000PTC104208	APEX EDUCATIONAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
5941	U74999DL2000PTC104370	EVER INDIA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
5942	U80903DL2000PTC104422	HV CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5943	U74999DL2000PTC104530	ORHANS IMPEX PRIVATE LIMITED
5944	U72900DL2000PTC104640	DV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5945	U51109DL2000PTC104875	D.K. EXIM AND TRADERS PRIVATE LIMITED
5946	U72900DL2000PTC104969	SUNTOP COMPUTER INSTITUTE PRIVATE LIMITED
5947	U72900DL2000PTC105031	RAJA E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
5948	U18100DL2000PTC105059	RAZA COUTURE PRIVATE LIMITED
5949	U72900DL2000PTC105068	VIKAS SOFTECH PRIVATE LIMITED
5950	U32109DL2000PTC105173	SARAVJEET OVERSEAS PRIVATE LIMITED
5951	U32109DL2000PTC105273	GAYATRI COMMUNICATION AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
5952	U32109DL2000PTC105278	SENSOTRONIX INDIA PRIVATE LIMITED
5953	U70101DL2000PTC105280	GREEN GRAM BUILDCON PRIVATE LIMITED
5954	U72900DL2000PTC105479	KASHMIR UPDATE DOT COM PRIVATE LIMITED
5955	U72900DL2000PTC105482	SHRINK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5956	U67120DL2000PTC105546	BHAVNA TECH-SERVICES PRIVATE LIMITED
5957	U99999DL2000PTC105641	MINDTRAC.COM (INDIA) PRIVATE LIMITED
5958	U72900DL2000PTC105643	E STEPS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5959	U80903DL2000PTC105653	ASTRA NETCOM PRIVATE LIMITED
5960	U99999DL2000PTC105772	AMBUSH APPARELS PRIVATE LIMITED
5961	U72100DL2000PTC105802	PORTAL CREATIONS PRIVATE LIMITED
5962	U72200DL2000PTC106046	REMEMBERING YOU SOFTWARE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
5963	U72900DL2000PTC106522	SE-CLUDE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
5964	U51109DL2000PTC106588	DREAMZ EXPORTS PRIVATE LIMITED
5965	U74210DL2000PTC106676	BUDHA SERVICES PRIVATE LIMITED
5966	U99999DL2000PTC106857	GURGAON COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
5967	U99999DL2000PTC106873	ASTRAL LIAISONS INFORMATICS CYBERDESIGN AND E-COMMERCE LIMITED
5968	U80101DL2000PTC106878	USHA EDUCATION PRIVATE LIMITED
5969	U51109DL2000PTC106884	AZURE WELKIN FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
5970	U72900DL2000PTC106944	QUALIRITE E' SERVICES PRIVATE LIMITED
5971	U93020DL2000PTC106954	VEE ESS SLIMMING AND BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED

5972	U72900DL2000PTC106968	STEPSTONE INDIA PRIVATE LIMITED
5973	U34300DL2000PTC107107	ONS AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
5974	U51109DL2000PTC107134	SURBHI MULTIPLE HORIZONS IMPEX PVT LTD
5975	U63013DL2000PTC107143	GRAPHICS COURIER AND CARGO PRIVATE LIMITED
5976	U72200DL2000PTC107395	MARATHON LABS PRIVATE LIMITED
5977	U32109DL2000PTC107412	KARANTIKA ENTERPRISES CONCEPTS PRIVATE LIMITED
5978	U72200DL2000PTC107421	WEBCOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5979	U33119DL2000PTC107440	BROTHERS COMBINE PRIVATE LIMITED
5980	U51311DL2000PTC107687	OSIRIS EXPORTS PRIVATE LIMITED
5981	U24239DL2000PTC107688	SHAHNIYA REMEDIES PRIVATE LIMITED
5982	U72200DL2000PTC107701	ISHI SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
5983	U72900DL2000PTC107704	ACCORD INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5984	U99999DL2000PTC107723	GOLDER ASSOCIATES INDIA LIMITED
5985	U26913DL2000PTC107729	INNOVATIVE ENDEAVOURS PRIVATE LIMITED
5986	U70101DL2000PTC107907	SUPPORT IT PRIVATE LIMITED
5987	U54201DL2000PTC107950	CHATUR BHUJ BUILDERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5988	U72900DL2000PTC107951	CENTRUM TRAVELS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
5989	U15549DL2000PTC107993	DIAMOND DRINK PRIVATE LIMITED
5990	U74140DL2000PTC108005	CRECORP CONSULTING AND STRATEGIES PRIVATE LIMITED
5991	U51398DL2000PTC108075	HAMMERS AND NAILS INDIA PRIVATE LIMITED
5992	U29199DL2000PTC108183	RAIL TECHNOLOGIES AND PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
5993	U72200DL2000PTC108236	ENFO SOFTSYS PRIVATE LIMITED
5994	U55101DL2000PTC108258	BEAUTE AND FARINE CLUB (INDIA) PRIVATE LIMITED
5995	U74210DL2000PTC108271	TECHMAKER.COM PRIVATE LIMITED
5996	U18101DL2000PTC108280	SAINI GARMENTS PRIVATE LIMITED
5997	U70101DL2000PTC108289	LABH REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
5998	U92199DL2000PTC108455	AURA MOVIE PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
5999	U45201DL2000PTC108602	SUPER TECHNOCRATES AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
6000	U00000DL2000PTC108650	GENERAL GOODS MARKETING PRIVATE LIMITED
6001	U32109DL2000PTC108669	PROGUARD ELECTRONIC DEVICES PRIVATE LIMITED
6002	U00000DL2000PTC108826	SASAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
6003	U72200DL2000PTC108882	NEONATE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

T. P. SHAMI
Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Jalandhar City-144001, the 11th April 2008

No. SES-2005/560/27—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company shall be dissolved :—

Sl No.	Company number	Name of the Companies
1.	25840	M/s. Tgg Global Private Limited.
2.	10269	M/s. Kailash Paper Mills Private Limited.
3.	24793	M/s. Novachem Health Care Private Limited.
4.	14255	M/s. Dada Auto Limited.
5.	17090	M/s. Ultra Dental Lab Private Limited.
6.	27994	M/s. Sharma Websites Private Limited.
7.	28719	M/s. Nijjer Trading Co. Private Limited.

K. C. MEENA
Asstt. Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Patna-800001, the 4th March 2008

No. ROC/PAT/560 (3)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof the name of the following companies, unless cause is shown to contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl No.	Regd. No	Name of the Companies
1.	4392	M/s. Caput Savings & Finance India Private Limited.
2.	9958	M/s. Ambrosia Healthcare Private Limited.

K. PRASAD
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kota Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00259.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kota Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Vengamamba Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00300.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vengamamba Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Vunnam Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00292.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vunnam Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Gummadi Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00284.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gummadi Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maram Reddy Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00316.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maram Reddy Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Welworth Farming Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00310.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Welworth Farming Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bellamkonda Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00265.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bellamkonda Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Symbiosis Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00442.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Symbiosis Consultants Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saraya Capital Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00502.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saraya Capital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rina Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00454.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rina Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cher-Rub Holdings Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00548.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cher-Rub Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dorma Door Controls India Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00409.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dorma Door Controls India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shail Foods and Packaging Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00540.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shail Foods and Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pranav Plastic Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00549.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pranav Plastic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Quality Cans Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00487.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quality Cans Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aroma Leafin Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00491.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aroma Leafin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayyappa Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00755.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ayyappa Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eloquent Syscon Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00850.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eloquent Syscon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yasu Tradeinvest Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00719.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yasu Tradeinvest Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. S. Masurkar Infraprojects Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00729.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. S. Masurkar Infraprojects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patca Leasing Company Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00505.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patca Leasing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prem Impex Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00478.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prem Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kode Chemicals Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00117.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kode Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivaashish Leafin Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00491.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivaashish Leafin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. K. Realty and Construction Company Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00499.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. K. Realty and Construction Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidham Trade and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00436.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sidham Trade and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Earnest Fintrade and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00515.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Earnest Fintrade and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanse Marketing and Management Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00511.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hanse Marketing and Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ideal Print Trends Private Limited

Mumbai-400002, the 4th Deccmber 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00518.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ideal Print Trends Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Figurehead Finance Supermarket Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00432.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Figurehead Finance Supermarket Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Infa Communication Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00551.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Infa Communication Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indian Cookery.Com Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00642.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indian Cookery.Com Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cwinz Engineering and Software Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00623.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cwinz Engineering and Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Vihar Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00613.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganga Vihar Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aaref Just Visuals Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00021.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aaref Just Visuals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devineni Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00256.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Devineni Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pulichearla Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00305.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pulichearla Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vemulapalli Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00281.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vemulapalli Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rayanna Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00274.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rayanna Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramchandra Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00271.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramchandra Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Audishesha Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00268.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Audishesha Poultry Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagamani Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00262.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nagamani Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ATM Technologies Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00653.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ATM Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Altech Technologies Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00590.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Altech Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Earn Ezee Marketing (Mumbai) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00566.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Earn Ezee Marketing (Mumbai) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Primetechno Electricals (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00195.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Primetechno Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vardhman Metal Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00930.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vardhman Metal Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Win Vision Application Solutions Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00785.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Win Vision Application Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyanka Vyapaar Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00208.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyanka Vyapaar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eshita Investments and Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00202.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eshita Investments and Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shregram Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00194.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shregram Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jac Promark Services Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00233.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jac Promark Services Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Myriad Real Estate Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00360.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Myriad Real Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Volcano Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00351.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Volcano Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaiswal Arts and Intertainment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00340.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaiswal Arts and Entertainment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. S. Flour Mills (Khopoli) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00337.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. S. Flour Mills (Khopoli) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prathamesh Securities Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00329.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prathamesh Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Filmatix Entertainment Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00322.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Filmatix Entertainment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Splendid Corporate Services Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00314.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Splendid Corporate Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malladi Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00307.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malladi Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khyati Rubber Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00299.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khyati Rubber Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxima Inovet Pharma Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00277.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maxima Inovet Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Nests Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00224.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golden Nest Developers Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swayambhoo Marketing Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00214.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swayambhoo Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anumalasetty Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00185.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anumalasetty Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Korrapati Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00253.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Korrapati Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Umri Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00205.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Umri Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jyoti Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00188.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jyoti Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ravikumar Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00182.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ravikumar Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Simhapuri Poultry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00197.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Simhapuri Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gottipati Malyadri Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00179.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gottipati Malyadri Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amber Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00839.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amber Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Triton Data Systems Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00957.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Triton Data Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. News Asia Network Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00918.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. News Asia Network Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lomino Finance and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00843.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lomino Finance and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E-Tel Solutions Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00785.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. E-Tel Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Planet Network Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00926.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Planet Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dashmesh Engineering Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00549.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dashmesh Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lissome Financial Services Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00849.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lissome Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Dhan Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00583.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Dhan Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Admiral Steel Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00594.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Admiral Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Krishna Construction Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00608.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gopal Krishna Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aerosol Properties Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00759.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aerosol Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Om Gurudatta Manpower and Security Services Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00697.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Om Gurudatta Manpower and Security Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. S. Homes Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00668.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. S. Homes Private Limited unless cause is shown to

the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. V. Brothers Coconut Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00656.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. V. Brothers Coconut Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Metro Link Exports Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00641.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Metro Link Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indrayani General Trading Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00275.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indrayani General Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansi Synthetics Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00280.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mansi Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bluevalley Leasing Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00283.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bluevalley Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samarpan Holdings Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00287.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samarpan Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Krisn Exports Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00301.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Krisn Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanil Tours and Travels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00308.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanil Tours and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Milks Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00315.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bombay Milks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahas Shares and Stocks Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00318.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahas Shares and Stocks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranij Savings and Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00325.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ranij Savings and Marketing Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Magnetic Assembly (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00331.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Magnetic Assembly (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyadri Aqua Min. Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00357.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahyadri Aqua Min. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fawn Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00371.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fawn Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. G. Iron and Steels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00468.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. G. Iron and Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zen Packaging Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00471.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zen Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MGL Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00475.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. MGL Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karimalai Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00479.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Karimalai Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vazir Mercantile Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00482.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vazir Mercantile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nivita Capital Holdings and Finvest Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00485.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nivita Capital Holdings and Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devasahayam Engineering Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00490.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Devasahayam Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00500.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SSA India Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00507.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SSA India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Peppercom Fashions Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00514.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Peppercom Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Northern Computers Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00519.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Northern Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santuka Infin and Leasing Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00531.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Santuka Infin and Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meridian Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00538.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meridian Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Chakra Fincap and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00352.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Surya Chakra Fincap and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krushak Oleoresins Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00460.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krushak Oleoresins Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhivinayak Agro Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00424.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sidhivinayak Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxyield Plantations Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00119.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maxyield Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adana Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00714.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adana Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B and P Agro Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00333.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B and P Agro Industries Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramtek Agro Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00342.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramtek Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Evermore
Savings Investments and Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00325.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Evermore Savings Investments and Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radian Agro-Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00316.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radian Agro-Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bafna Marketing and Management Services Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00306.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Bafna Marketing and Management Services Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marathwada Krishi Udyog Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00296.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Marathwada Krishi Udyog Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the Register and
the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaha's Frozen Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00705.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Shaha's Frozen Foods Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the Register and
the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Gold Biotech (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00487.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Green Gold Biotech (India) Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the Register and
the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvin Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00072.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Sarvin Industries Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the Register and the said
company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Biosense Crop Protection (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00498.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Biosense Crop Protection (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the Register
and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glendale Plantations Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00076.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Glendale Plantations Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the Register and
the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adventure Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00026.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adventure Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khosla Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00111.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khosla Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Red Apple Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00102.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Red Apple Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Garden Fresh Agro Produce Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00093.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Garden Fresh Agro Produce Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gokul Agro Inputs Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00087.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gokul Agro Inputs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Highlands Agro Development Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00084.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Highlands Agro Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kala Agro Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00014.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kala Agro Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harshgiri Agro Development Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00020.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Harshgiri Agro Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Kesh Poultry Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00023.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Kesh Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganpati Live Stock and Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00004.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganpati Live Stock and Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dee Bee Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00007.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dee Bee Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Printype Service Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00566.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Printype Service Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technisales Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00576.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Technisales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Ooni Kendra Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00584.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bombay Ooni Kendra Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanuman Cottonseed Products Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00686.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hanuman Cottonseed Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Export Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00672.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bombay Export Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wadi Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00658.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wadi Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanashri Investments Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00644.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhanashri Investments Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhadrapad Investments Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00590.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhadrapad Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nepathya Investments Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00587.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nepathya Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ellamas Exports Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00557.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ellamas Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hatar Sodium Silicate Industry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00546.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hatar Sodium Silicate Industry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chennai Bottling Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00534.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chennai Bottling Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gunjan Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00527.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gunjan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. N. Mehta Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00513.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. N. Mehta Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hadeny Laboratories (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00696.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hadeny Laboratories (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagyalaxmi Metals Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00285.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagyalaxmi Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ishu Super Steel Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00282.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ishu Super Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kshipra Ispat Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00278.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kshipra Ispat Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kumud Metal Foundry Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00273.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kumud Metal Foundry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mashreq Steel Industries Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00267.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mashreq Steel Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Shayam Forging Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00257.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Shayam Forging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eastern Strips Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00254.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eastern Strips Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uday Bright Bars Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00248.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Uday Bright Bars Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhuvika Apparels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00223.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhuvika Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jimmy Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00230.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jimmy Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sukhram Apparel Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00236.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sukhram Apparel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxima Sportswear Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00239.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maxima Sportswear Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gautam Clothing Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00249.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gautam Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Formor Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00260.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Formor Fabrics Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zen Designs Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00263.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zen Designs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bambi Clothing and Accessories Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00266.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bambi Clothing and Accessories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arc Socks Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00275.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arc Socks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sindhu Tailors Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00283.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sindhu Tailors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varma Mukherji Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00289.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Varma Mukherji Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Apparels Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00310.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aditya Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00010.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Injectors Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00478.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Perfect Injectors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deshpande Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00467.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deshpande Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balram Agri-Tech Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00447.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Balram Agri-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

N. CHINNACHAMY
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Banco Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00115.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Banco Exports Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shasai Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00029.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shasai Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beco Plant Vessel and Cranes Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00085.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Beco Plant Vessel and Cranes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jims Machines Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00101.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jims Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Choubay Enterprises Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00053.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Choubay Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navrang Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00425.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navrang Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00435.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunrise Poultry Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unnati Plantation Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00444.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Unnati Plantation Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandrama Farm House Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00462.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chandrama Farm House Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Govinda Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00479.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Govinda Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Enjay Financers Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00132.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Enjay Financers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hin Solechem Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00239.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hin Solechem Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. D. Patel and Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00252.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. D. Patel and Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. The Great Western Shipping Agencies Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00265.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. The Great Western Shipping Agencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaya Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00278.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Udaya Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Success Support System Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00198/189.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Success Support System Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Belco Dia Products (India) Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00194/186.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Belco Dia Products (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sisam Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00008.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sisam Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deccan Goat Farms (Nashik) Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00011.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deccan Goat Farms (Nashik) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Mayuresh Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00008.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Mayuresh Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreehari Enterprises Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/01164.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreehari Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kokan Infrastructural Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00444.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kokan Infrastructural Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daisy Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00091.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Daisy Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MEENA RAJENDER SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Signature Jewel Watch Private Limited
Mumbai-400002, the 4th December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec. 560/2007/00339.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Signature Jewel Watch Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Authorising Officer
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bergner India Private Limited
Mumbai-400002, the 19th March 2008

No. 560/11646—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bergner India Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Servitor Marketing and Exports Private Limited
Mumbai-400002, the 19th March 2008

No. 560/11647—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Servitor Marketing and Exports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies :
Pune-4, the 10th April 2008

No. ROCP/u/s. 560 (3) Suo-Motto/08/218—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved :—

Sl No.	Company Number	Name of the Companies
1.	016426	M/s. Gnat Exports Private Limited.
2.	016420	M/s. Mombasa Developers Private Limited.
3.	016466	M/s. Scribexpress Infotech Private Limited.
4.	016460	M/s. Gargie Icetech Private Limited.
5.	016360	M/s. Sanskruti Constructions Private Limited.
6.	016498	M/s. Samrat Namkin Private Limited.
7.	016488	M/s. Swatantray Network Marketing Private Limited.
8.	016475	M/s. P.S.B. Marketing Business Private Limited.
9.	016489	M/s. Vidhya Infotech Private Limited.
10.	016500	M/s. Classic Plaster and Agro Private Limited.
11.	016443	M/s. Brightstar Polymers (Pune) Private Limited.
12.	016481	M/s. Home Net Sales and Marketing Private Limited.
13.	016484	M/s. Hotel Laxman Private Limited.
14.	016478	M/s. Sterling Network Private Limited.
15.	016473	M/s. Gopesh Agrovet Private Limited.
16.	016467	M/s. Vans Impex Private Limited.
17.	016463	M/s. Compulogix India Private Limited.
18.	016461	M/s. Tanvi Infotech Private Limited.
19.	016459	M/s. Sai Multi-Link Marketing Business Services Private Limited.
20.	016454	M/s. Shilp-Vikas Constructions Private Limited.
21.	016446	M/s. Sameer Productions Private Limited.
22.	016445	M/s. Prithvi Shelters Private Limited.
23.	016440	M/s. Center for International Business India Private Limited.

24	U51909PN2001PTC016437	AAFREEN TRADING PRIVATE LIMITED
25	U85199PN2001PTC016436	KC LASER AND COSMETIC CLINICS PRIVATE LIMITED
26	U72200PN2001PTC016431	MEDIXONE. COM PRIVATE LIMITED
27	U72200PN2001PTC016428	SOFTBANK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	U52110PN2001PTC016424	KAGAL MARKETING AND TRAINING PRIVATE LIMITED
29	U72200PN2001PTC016415	INFOTEK CALL CENTER SERVICES PRIVATE LIMITED
30	U30007PN2001PTC016414	BMJ COMPUTERS PRIVATE LIMITED
31	U70101PN2001PTC016407	MHALASAKANT REALTY PRIVATE LIMITED
32	U74210PN2001PTC016411	PERSEUS ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
33	U31506PN2001PTC016403	MAXTECHNO (INDIA) PRIVATE LIMITED
34	U27109PN2001PTC016406	VISHWASHAKTI STEELS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
35	U22212PN2001PTC016409	KSB PRINTS PRIVATE LIMITED
36	U24222PN2001PTC016405	COLOUR SHINE SOLVENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
37	U29299PN2001PTC016404	TEAMWORK MULTICHANNEL PRIVATE LIMITED
38	U72200PN2001PTC016394	CYBEREM SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U72200PN2001PTC016393	VARAD INFORMATICS PRIVATE LIMITED
40	U72200PN2001PTC016254	VYUSTA DIGITAL PRIVATE LIMITED
41	U51395PN2001PTC016540	PUNE CUSTOMERS NETWORK PRIVATE LIMITED
42	U51909PN2001PTC016536	IVYNET ON-LINE NETWORK MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
43	U45202PN2001PTC016606	SAIBAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
44	U51909PN2001PTC016533	MOUNTMERU MARKETING PRIVATE LIMITED
45	U51909PN2001PTC016532	ABHINAV AGRITECH MARKETING PRIVATE LIMITED
46	U72200PN2001PTC016526	HI-Q INSTITUTE OF INFORMATION TECHKNOWLEDGY PRIVATE LIMITED
47	U01119PN2001PTC016527	VIKASRATNA AGRO PRIVATE LIMITED
48	U51494PN2001PTC016542	SHRI SWAMI SAMARTH SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
49	U72200PN2001PTC016522	NAKSHATRA INFORMATICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	U51909PN2001PTC016518	HOPKINS IMPEX PRIVATE LIMITED
51	U29299PN2001PTC016198	DYNA-AIR VENTILATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
52	U51909PN2001PTC016239	SILVERNET MARKETING PRIVATE LIMITED
53	U30067PN2001PTC016237	R N PILLAI INFOTECH PRIVATE LIMITED
54	U25202PN2001PTC016231	K D MANUFACTURING AND RESOURCES PRIVATE LIMITED
55	U51909PN2001PTC016243	YA-HO-KA AUTO TRACK MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
56	U15494PN2001PTC016227	SHREE MAHALAXMI TRADING AND AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED
57	U72200PN2001PTC016214	LAKSH SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
58	U51909PN2001PTC016209	SAMBHAJI NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
59	U51393PN2001PTC016208	STAR LINE FURNITURES NETWORK PRIVATE LIMITED
60	U24132PN2001PTC016195	CHEM FLUX PRIVATE LIMITED
61	U15134PN2001PTC016196	SANGHAR BAFNA FOODS PRIVATE LIMITED
62	U51399PN2001PTC016190	DYNAMIC MULTI-LINK MARKETING PRIVATE LIMITED
63	U30009PN2001PTC016189	FONTASEY COOLTECH PRIVATE LIMITED
64	U29299PN2001PTC016183	WINDWELL ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
65	U74950PN2001PTC016185	PARASNATH PACKAGING PRIVATE LIMITED
66	U21015PN2001PTC016186	SAMARTH PACKAGING PRIVATE LIMITED
67	U72300PN2001PTC016180	S.D. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
68	U72200PN2001PTC016172	ALIMITS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
69	U72200PN2001PTC016163	VICITECH SOFTWARES PRIVATE LIMITED
70	U85110PN2001PTC016338	MASOOM CHILDREN HOSPITAL PRIVATE LIMITED
71	U31909MH1991PTC063776	PRAJAKTA ELECTRICALS AND ELECTRONICS PVT.LTD.

72	U51909PN2002PTC017042	NAV CHAITANYA VIKAS INSTITUTE PRIVATE LIMITED
73	U51505PN2002PTC017043	MAYURESH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
74	U30007PN2002PTC017041	PRATIBHA ONLINE COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
75	U72200PN2002PTC017034	INFOSEARCH COMPUTER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
76	U51909PN2002PTC017032	TAHRIQ MARKETING PRIVATE LIMITED
77	U15203PN2002PTC017028	RAVIS DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
78	U01122PN2002PTC017030	KAKADE PATIL AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
79	U51505PN2002PTC017026	Z NET EXPANSION TRADE SYSTEM PRIVATE LIMITED
80	U85110PN2002PTC017022	PAN HOSPICON AND HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
81	U74999PN2002PTC017018	MAYFAIR C AND F SERVICES PRIVATE LIMITED
82	U34300PN2002PTC017017	BHAVARTH AUTO PARTS PRIVATE LIMITED
83	U72200PN2002PTC017014	D.P. COMPUTER EDUCATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
84	U23201PN2002PTC017011	SHRI CHAKRADHAR PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
85	U21012PN2002PTC016773	SHEENA PAPER PRIVATE LIMITED
86	U01212PN2002PTC016772	RATHOD AGROTECH TECHNOLOGY AND RESEARCH CENTRE PVT LTD
87	U51909PN2002PTC016763	VAINATEYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
88	U74920PN2002PTC016759	TRIDAL SAFE SERVICES PRIVATE LIMITED
89	U51909PN2002PTC016761	PIER IMPORT-EXPORT PRIVATE LIMITED
90	U70101PN2002PTC016754	ABHYANKAR PHADTARE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
91	U45202PN2002PTC016749	MOON SCAPE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
92	U51909PN2002PTC016747	MOON SCAPE EXPORTS PRIVATE LIMITED
93	U72200PN2002PTC016742	KALSTAR TECH PRIVATE LIMITED
94	U45202PN2002PTC016729	YOGESH BUILDERS PRIVATE LIMITED
95	U51909PN2002PTC016727	ALIMATA MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
96	U51909PN2002PTC016725	SATAV EXPORTS PRIVATE LIMITED
97	U70102PN2002PTC016720	SANCHETI DEVELOPERS AND PRAMOTERS PRIVATE LIMITED
98	U29308PN2002PTC016722	ZYGOSYS MARKETING PRIVATE LIMITED
99	U92132PN2002PTC016715	SHRI VITTHAL CABLES PRIVATE LIMITED
100	U72200PN2002PTC016714	ZUEUS SOFTWARE AND CREDIT MONITORING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
101	U51909PN2002PTC016717	DALE NETWORKS PRIVATE LIMITED
102	U51909PN2002PTC016713	SWAYM MARKETING PRIVATE LIMITED
103	U92142PN2002PTC016703	ADAF ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
104	U72200PN2002PTC016708	SHIVSAI INFOSYS PRIVATE LIMITED
105	U34300PN2002PTC016699	DURO AUTO-ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
106	U74950PN2002PTC016690	AHILYA PACKERS PRIVATE LIMITED
107	U45202PN2002PTC016691	SHIVSHANTI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
108	U72200PN2002PTC016688	DIGITRIX INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
109	U01213PN2002PTC016683	CAPRINE AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
110	U31300PN2001PTC016166	SAMBHAV CABLES PRIVATE LIMITED
111	U64201PN2002PTC016769	QSERA TELENET PRIVATE LIMITED
112	U29309MH1995PTC094858	AKSHAY PRECISCON PRIVATE LIMITED
113	U36997MH1995PTC094875	RABBIT BRUSH MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
114	U74300MH1995PTC094927	STALWARTS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
115	U55101MH1995PTC094939	HOTEL ROSHAN PRIVATE LIMITED
116	U40101MH1996PTC096873	RUDRAM IMAGE PROCESSORS PRIVATE LIMITED
117	U55101MH1996PTC096508	D J R HOTEL PRIVATE LIMITED
118	U85110MH1996PTC096443	BODY MIND AND SOUL INTERNATIONAL HEALTH RESORT P LTD
119	U28939MH1996PTC096448	AMDALE TOOL ENGINEERING PRIVATE LIMITED

120	U51397MH1996PTC096385	ARSHIYA MEDI-MARK CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
121	U51909MH1996PTC095982	WELL TRACK SALES PRIVATE LIMITED
122	U72200MH1995PTC095397	JOINT RESEARCH SYSTEMS SERVICES PRIVATE LIMITED
123	U15412MH1995PTC095542	MODERN CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
124	U27109MH1995PTC095357	POONA PANCHGANGA STEEL REROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
125	U45201MH1995PTC095254	AV MOHITE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
126	U29309MH1995PTC095250	RAJDEEP BLOWERS PRIVATE LIMITED
127	U36103MH1996PTC096398	PLYMEC LAMINATES PRIVATE LIMITED
128	U29299MH1995PTC095712	NAM RATA PROJECTS PRIVATE LIMITED
129	U25202MH1996PTC096162	SAIFLON PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
130	U29294MH1995PTC095678	ROTARY PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
131	U01115MH1996PTC096603	SHRI LAXMI SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED
132	U51909MH1995PTC088787	URONICA MARKETING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
133	U72900MH1996PTC096845	BRUNEL BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
134	U25209MH1996PTC095907	V A PLASTICS PRIVATE LIMITED
135	U92132MH1995PTC095380	ABEE TELEVISIONS PRIVATE LIMITED
136	U72200MH1995PTC094932	FAIRSYS INFOTECH PRIVATE LIMITED
137	U24246MH1996PTC095821	DEO CHEMICALS AND COSMETICS PRIVATE LIMITED
138	U52909MH1996PTC095849	AGARWAL LOTTERY PRIVATE LIMITED
139	U29299MH1995PTC095135	KALELI-RAMTIRTH CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
140	U31909MH1995PTC094701	KRANLICON ENGINEERS PRIVATE LIMITED
141	U24239MH1995PTC094683	JOTIBA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
142	U15499MH1991PTC061065	DEOKULE FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
143	U15142MH1995PTC094883	SHRI MALKARSIDH OIL MILLS PRIVATE LIMITED
144	U17111MH1995PTC095055	TRIMURTI COTTON PROCESSORS PRIVATE LIMITED
145	U02005MH1995PTC094695	TIMBER AND PACKAGING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
146	U25209MH1989PTC054540	ELOQUENT POLYPON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
147	U24299MH1992PTC065406	CHINTAMANI FINE CHEMICALS PVT LTD
148	U74999MH1989PTC054571	SUJAN TURNKEY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
149	U29299MH1989PTC054811	WESTERN FORGE AND ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
150	U15136MH1990PTC055058	AHMEDNAGAR SPICES PRIVATE LIMITED
151	U24232MH1990PTC054823	WASON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
152	U31300MH1989PTC053059	NOVA WIRES AND ALLIED PRODUCTS PVT. LTD.
153	U15499MH1991PTC064670	GURUDATTA FOOD PROCESSING PVT LTD
154	U45201MH1992PTC064685	GRACE DEVELOPERS PVT LTD
155	U19201MH1991PTC064660	DELTA FOOT WEARS PVT LTD
156	U65993MH1990PTC055622	PERSEPOLIS CAPITAL AND ASSETS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
157	U85110MH1990PTC055649	SAI NURSING HOME PRIVATE LIMITED
158	U45201MH1991PTC064611	THORWAT HOUSING DEVELOPMENT AND CO OP PVT LTD
159	U24229MH1991PTC064524	PAPYRUS LIGNOCHEM PVT LTD
160	U01222MH1990PTC055876	SONKAR POULTRY PRIVATE LIMITED
161	U15491MH1991PTC064501	TACSS CLOTHIERS P.LTD.
162	U51501MH1991PTC064046	KALE MULTICHEMICAL INDUSTRIES P LTD
163	U74210PN2002PTC017544	AAKRUTI ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
164	U29212MH1992PTC064994	DIGANT ENGINEERING PVT LTD
165	U51909MH1992PTC064974	PIOMA MARKETING PVT LTD
166	U15134MH1991PTC064255	KISMIS FOODS PRIVATE LIMITED
167	U01122MH1989PTC053868	JARANDESHWAR AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
168	U01154MH1991PTC064513	SHIVASRUSHTI FALODDYAN P.LTD.
169	U51909MH1992PTC065068	PANAB MARKETING AND EXPORTS PVT LTD

170	U74999MH1989PTC054163	TRIDENT STORAGE EQUIPMENTS AND SYSTEMS P LTD
171	U14103MH1989PTC054278	META STONE PRIVATE LIMITED
172	U74140MH1992PTC065257	APTECH CONSULTANTS INDIA PVT LTD
173	U72909PN2000PTC015322	MEDICOTANTRA.COM PRIVATE LIMITED
174	U70101PN2000PTC015309	SANTORINI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
175	U26959PN2000PTC015305	RHINO ROOFINGS PRIVATE LIMITED
176	U72900PN2000PTC015284	EINSURE.COM PRIVATE LIMITED
177	U63022MH1989PTC053282	SHYAM THADANEY SONS PVT LTD
178	U72200PN2001PTC016560	VEEGEE COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
179	U72200PN1999PTC014131	INTERGRATIX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
180	U55101PN2001PTC016561	KHEDEKAR WATER PARK PRIVATE LIMITED
181	U16571PN2001PTC016571	ADESH POWER ALCOHOL PRIVATE LIMITED
182	U01222MH1988PTC048440	DHAVAL POULTRY FARMS PVT LTD
183	U72200PN1998PTC012999	GOLDEN EYE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
184	U72200PN2000PTC015328	RADIANCE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
185	U72300PN1998PTC012995	VIRSOL (INDIA) PRIVATE LIMITED
186	U26933MH1989PTC053928	MECCANO TILES AND ALLIED INDUSTRIES P LTD
187	U20221PN1998PTC012992	VYANKTESH BHAUSAHEB MAGDUM CHAVAN MAHARAJ WOODEN PROJECTS PRIVATE LTD
188	U85110MH1989PTC053779	CHAVAN HOSPITALS P LTD
189	U01111PN1998PTC012978	VEER SASWAD FARMS PRIVATE LIMITED
190	U92199PN1998PTC012980	GURU DEVS PARK-N-PLAY PRIVATE LIMITED
191	U74999PN1998PTC012979	UNITED INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
192	U72200PN2000PTC015298	MEDISCRIBE INFORMATICS PRIVATE LIMITED
193	U29305MH1989PTC054502	SUMA-NISHA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
194	U51909PN2001PTC016573	SHUBH DISTRIBUTORS NETWORK PRIVATE LIMITED
195	U21093MH1991PTC062927	OTARI BOARD MILLS PVT LTD
196	U85110MH1989PTC054516	MAYA HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
197	U24111PN2001PTC016583	ALEX GASES PRIVATE LIMITED
198	U01222MH1989PTC054527	EAST WEST FARMS PRIVATE LIMITED
199	U28910MH1989PTC054652	MARK FORGE PVT LTD
200	U24119MH1989PTC054739	AHMEDNAGAR LUBES AND CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
201	U51102PN2001PTC016585	NIKHIL MOTORS PRIVATE LIMITED
202	U51909PN2001PTC016584	SIRF TUM OMSAI MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
203	U45202MH1990PTC054899	AKSHAR PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
204	U45202PN2001PTC016590	G S LANDMARK PRIVATE LIMITED
205	U27310MH1990PTC055236	ASUR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
206	U74999PN2001PTC016607	YASHSHRI MANGAL KARYALAYA PRIVATE LIMITED
207	U51219PN2001PTC016613	MANASI MARKETING PRIVATE LIMITED
208	U01122MH1990PTC055111	ADARSH FARMS PRIVATE LIMITED
209	U31300MH1990PTC055100	TELECORD (INDIA) PRIVATE LIMITED
210	U45202MH1990PTC054913	VYAPI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
211	U51909PN2001PTC016616	VISHNUPADMA MARKETING PRIVATE LIMITED
212	U45202MH1990PTC054912	SHUCHI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
213	U72200PN2001PTC016615	HRISHIKESH INFOTECH PRIVATE LIMITED
214	U15520PN2001PTC016619	PURA BREWERIES WINERIES AND DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
215	U45202MH1990PTC054910	NAKSHATRA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
216	U29307MH1991PTC061632	SOLAR ILLUMINATORS PRIVATE LIMITED
217	U23209MH1991PTC061607	RIYAZ ENGINEERING PVT LTD
218	U29219MH1991PTC061556	SUJIT ENGINEERING PVT LTD
219	U29297MH1991PTC061637	EPITOME HOSPITAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED

220	U45201MH1991PTC061760	JIGAR BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
221	U45201MH1991PTC061729	VISHVACHAYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
222	U01409MH1991PTC061703	RAHURI AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
223	U24222MH1990PTC057958	BHUTA CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
224	U29195MH1991PTC061980	GAYATRI PACKAGING PVT LTD
225	U74140MH1991PTC061928	PROLINK CONSULTANCY PVT LTD
226	U31909MH1991PTC061870	KRISHNA MECHTRONIC INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
227	U15209MH1995PTC094696	JAGTAP DAIRY PRIVATE LIMITED
228	U22190MH1989PTC050672	REBEL PUBLISHING HOUSE PRIVATE LIMITED
229	U72200MH1988PTC048689	W B HITECK CENTRE PVT LTD
230	U02221MH1988PTC047862	MUDRA PRINTERS PVT LTD
231	U33126MH1989PTC050993	MACWEL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
232	U15142MH1991PTC061806	AMOL REFINERY PRIVATE LIMITED
233	U21012MH1990PTC056407	SUBHADRA PAPER AND BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
234	U17111MH1990PTC059229	VIDISHA TEXTILES PRIVATE LIMITED
235	U24114MH1990PTC056623	SHREE MAUNI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
236	U72200PN2000PTC014633	SHARP BRAIN WEBTECH PRIVATE LIMITED
237	U72200PN2000PTC014628	MARPRI.COM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
238	U72200PN2000PTC014626	ALPHA SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
239	U45201MH1988PTC049462	R D DIKE BUILDERS PRIVATE LIMITED
240	U63040MH1988PTC049147	A K TRAVELS PRIVATE LIMITED
241	U72200MH1988PTC049530	UNITECH MICRO COMPONENTS PVT LTD
242	U17111MH1991PTC061048	SHREERAM DYES INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
243	U29219MH1988PTC049016	POONA FARM EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
244	U45200DL2006PTC156249	YASHRAJ BUILDCON PRIVATE LIMITED
245	U72200PN2000PTC014622	SixtyDegrees.Com (India) PRIVATE LIMITED
246	U72200PN2000PTC014612	ASTRA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
247	U74140PN2000PTC014539	KARKE BROTHERS PACKAGING AND FETTLING PRIVATE LIMITED
248	U01134PN2000PTC014561	SHREE MAHALAXMI FOODS AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
249	U14556PN2000PTC014556	RELIABLE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
250	U45202PN2000PTC014571	KANCHAN EARTHMOVERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
251	U15136PN2000PTC014575	NITI GRIHA UDYOG PRIVATE LIMITED
252	U45202PN2000PTC014573	SAURABH PATIL BUILDERS PRIVATE LIMITED
253	U51909PN2000PTC014576	SELF (MARKETING) PRIVATE LIMITED
254	U40101PN2000PTC014584	MAHARASHTRA POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
255	U28111PN2000PTC014607	JANUSHRI EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
256	U60210PN2000PTC014610	ABHIJEET TRANSPORT (PUNE) PRIVATE LIMITED
257	U01122MH1989PTC054351	VYAPI FARMS PRIVATE LIMITED
258	U29299MH1989PTC054289	TREMIX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
259	U72200PN1999PTC013900	C'QUEST INDIA PRIVATE LIMITED
260	U24231PN1999PTC013680	ASHWINIKUMAR PHARMA WORKS PRIVATE LIMITED
261	U27107PN2002PTC016904	GUNJAL STEEL PRIVATE LIMITED
262	U26960MH1991PTC060216	RENOOKA GRANITES(INDIA) P LTD
263	U28939MH1990PTC059443	AJINKYA TOOLS PRIVATE LIMITED
264	U74999PN1999PTC013638	M J ORTHO (INDIA) PRIVATE LIMITED
265	U73100PN2000PTC014516	SMART AVIONICS COMPANY PRIVATE LIMITED
266	U74140PN2000PTC014520	IFESSEM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
267	U72200PN2000PTC014530	SVAR-SOFT PRIVATE LIMITED
268	U01122MH1989PTC054353	VASANT FARMS PRIVATE LIMITED
269	U11102MH1991PTC060504	ULTRAMAR LUBES MARKETING P LTD
270	U29299MH1989PTC054051	DESHPANDE MACHINE FABRICATORS PVT LTD
271	U17119MH1989PTC054190	SHEETAL GARMENTS PVT LTD

272	U40108PN2000PTC014577	CHALUKYANATH WIND POWER PRIVATE LIMITED
273	U24119MH1989PTC054180	ANILINO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
274	U55101MH1989PTC054245	AJINKYATARA HIGHWAY MOTELS PRIVATE LIMITED
275	U51909MH1989PTC054261	KAMDAR SALES PRIVATE LIMITED
276	U29305MH1991PTC060020	CONTRONIC INTERNATIONAL P LTD
277	U14102MH1991PTC060033	OPAL GRANITES PVT LTD
278	U72900PN1999PTC014295	DIGITAL SPICE STUDIOS PRIVATE LIMITED
279	U15203PN1999PTC013470	SHRI HANUMAN MILK AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
280	U25202PN1999PTC013459	SHRI MAHALAXMI COROGATED PRIVATE LIMITED
281	U85199PN2000PTC014833	VISIONCARE AND COSMETIC LASER CENTRE PRIVATE LIMITED
282	U72200PN1999PTC014260	EYESWISE INTERNET PRIVATE LIMITED
283	U29199PN2000PTC014861	CHEMIX INDIA PRIVATE LIMITED
284	U74140PN2000PTC014855	B ASSDCIATES CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
285	U14854PN2000PTC014854	CRM TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
286	U29263PN2000PTC014853	DIGITEK AUTOMATION PRIVATE LIMITED
287	U72200PN2000PTC014848	PRATHAM INFOTECH PRIVATE LIMITED
288	U24232PN2000PTC014847	SIDHAAI CHEMICALS AND HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
289	U17111PN2000PTC014849	POONA TEXTILE COMAPNY PRIVATE LIMITED
290	U64100PN2000PTC014814	KISHOR KANADE SKYWAYS PRIVATE LIMITED
291	U72200PN2000PTC014638	MEDIANET IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
292	U72200PN2000PTC014644	SPIDERTECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
293	U15311PN2000PTC014659	CHAKAN FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
294	U72200PN2000PTC014651	NEURON SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
295	U72200PN2000PTC014654	SHIVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
296	U52393PN1999PTC013650	WESTERN GOLDSMITH (INDIA) PRIVATE LIMITED
297	U15543PN1999PTC013665	SHRI VENKATESH BOTTLING COMPANY PRIVATE LIMITED
298	U74140PN1999PTC013676	JOGLEKAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
299	U51495PN2000PTC014470	DHANASHRI MARKETING PRIVATE LIMITED
300	U22211PN1999PTC013658	NAYANMANOHAR OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
301	U74999PN2000PTC014478	EFFLORESCENCE VOGUE INDIA PRIVATE LIMITED
302	U63022PN1999PTC013668	JITRAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
303	U72200PN2001PTC016390	SAMYAK MEDIA PRIVATE LIMITED
304	U72200PN2000PTC014491	MARKSHEET ONLINE PRIVATE LIMITED
305	U01122MH1989PTC052983	PALANA AGROFORESTRY DEVELOPMENT AND ALLIED INDUSTRIES P LTD
306	U45202MH1989PTC052960	LAKO CONSTRUCTIONS P LTD
307	U72200PN2001PTC016373	VOICESOFT TRANSCRIBERS PRIVATE LIMITED
308	U74994PN2001PTC016345	TEJ DECORS PRIVATE LIMITED
309	U72200PN2001PTC016382	INFOLOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
310	U45201MH1989PTC052441	BHIMANAND CONSTRUCTION PVT LTD
311	U61909PN2001PTC016374	DREAMWAY MARKETING PRIVATE LIMITED
312	U01122PN2001PTC016370	SHRI SANT YADAVBABA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
313	U29307PN2001PTC016369	SUNRISE ENERGY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
314	U24299MH1989PTC052869	KOLWAN GEL LABDRATORIES PRIVATE LIMITED
315	U51909MH1989PTC052948	OMKAR EXPORTS P LTD
316	U29299MH1989PTC052924	SPEM ENGINEERING P LTD
317	U22110PN2001PTC016351	SAPTAGIRI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
318	U72200PN2001PTC016363	OPAL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
319	U51909MH1989PTC052976	PESAK INDUSTRIAL PROJECTS PVT LTD
320	U45209MH1989PTC052958	SONI AUDITORIUMS P LTD
321	U51909MH1989PTC053006	POONA FARMS ENGINEERING P LTD

322	U01229MH1989PTC053031	POONA WOOL AND PELT PVT LTD
323	U52190MH1989PTC052447	JEEVAN MITRE VASTU BHANDAR P LTD
324	U24304MH1989PLC053634	ORTON SYNTHETICS AND REALTYS LIMITED
325	U15499MH1989PTC052522	MAYFAIR FOOD INDUSTRIES PVT LTD
326	U45202MH1989PTC053612	HARSHAL DEVELOPERS PVT LTD
327	U24239MH1989PTC052486	RUSHIKESH ENCHEM PVT LTD
328	U45201MH1988PTC048047	PHADKE CONSTRUCTIONS COMPANY PVT LTD
329	U31901PN2002PTC016949	BABA EQUALITE ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
330	U13100PN2002PTC016946	PANDITRAO MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
331	U34300PN2002PTC016953	AMIT AUTOLINES PRIVATE LIMITED
332	U31909PN2002PTC016948	UNIQUE ELECTROTECH PRIVATE LIMITED
333	U01122PN2002PTC016947	PRECISION ORGANIC AGRO PRIVATE LIMITED
334	U51909PN2002PTC016943	JAY LOKSHAKTI DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
335	U34300PN2002PTC016941	RAY-ONE AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
336	U51909PN2002PTC016931	JAS JOY NETWORK PRIVATE LIMITED
337	U15204PN2002PTC016928	NANDAN DAIRY PRIVATE LIMITED
338	U51399PN2002PTC016939	KALPANA GAS APPLIANCES MARKETING PRIVATE LIMITED
339	U51909PN2002PTC016934	SUNDER NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
340	U36991PN2002PTC016935	SHREE SAI COMPU-FORMS PRIVATE LIMITED
341	U72200PN2002PTC016929	M-GROWTH FX NET PRIVATE LIMITED
342	U26923PN2002PTC016926	SHIVKRUPA STONE WORKS PRIVATE LIMITED
343	U51909PN2002PTC016915	YOGESH SALES PRIVATE LIMITED
344	U70102PN2002PTC016907	CRYSTAL HABITAT PRIVATE LIMITED
345	U51505PN2002PTC016908	SINGBAL MARKETING PRIVATE LIMITED
346	U64201PN2002PTC017407	TELEPATHY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
347	U29299PN2002PTC017454	AKIYO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
348	U45202MH1990PTC054914	VASANT PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
349	U31200PN2001PTC015982	LOTUS CONTROLS PRIVATE LIMITED
350	U45201PN2001PTC015976	NIWAS BUILDERS AND LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
351	U74920PN2001PTC015963	COMMANDO SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED
352	U72200PN2001PTC015960	ACACIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
353	U72900PN2001PTC015952	NOMIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
354	U51909PN2001PTC015955	SANVINO MARKETING PRIVATE LIMITED
355	U45201PN2001PTC015954	GRANDEUR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
356	U31404PN2001PTC015953	ORION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
357	U72900PN2001PTC015950	MATRIX WEBTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
358	U55204PN2001PTC015951	GURUKRIPA CATERERS PRIVATE LIMITED
359	U72200PN2000PTC015654	VERSATILE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
360	U25209MH1989PTC053033	POONA PLASTO PACK PVT LTD
361	U15209MH1989PTC052334	GOKUL MILKS PRODUCTS PVT LTD
362	U40168PN2001PTC016187	SUFIAM WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
363	U72200PN2001PTC016557	CASTLE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
364	U51399PN2001PTC016552	YASHRAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
365	U51909PN2001PTC016550	SANDESH NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
366	U45202PN2001PTC016545	KGP CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
367	U22122MH1996PTC097302	SUSYAN COMPUTER PRINTERS PRIVATE LIMITED
368	U29120MH1983PTC031581	ECOLINE DEVELOPMENT ENGINEERS PVT LTD
369	U65999MH1996PTC096562	ROHIT FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED
370	U74999MH1996PTC096992	HEEND EXPORTS PRIVATE LIMITED
371	U18209MH1983PTC031357	PARVATI LEATHER AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
372	U25199MH1983PTC031454	UNIVERSAL ERASERS PVT LTD
373	U15421MH1984PTC032877	CHOKSEY SUGAR COMPANY PRIVATE LIMITED

374	U70109MH1996PTC096559	JILANI PROMOTORS PRIVATE LIMITED
375	U45201PN2000PTC014921	MEGHA LAND ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
376	U70102PN1999PTC014278	THORAT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
377	U74999PN2000PTC014603	RAJANI IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED
378	U24116PN2002PTC017296	INDUS KRISHI-ORGANICS AND PETROLEUM LIMITED
379	U72200PN2002PTC017182	ANTRIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
380	U51103PN2002PTC016844	ATCON AGRO-TECH IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED
381	U74999PN1999PTC013710	ALPHA SAPIENCE SERVICES PRIVATE LIMITED
382	U64201PN2000PTC015419	ALLIANCE TELESOFT PRIVATE LIMITED
383	U51497PN2000PTC015150	CIPPY FERTILISER MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
384	U28999MH1989PTC050636	VISHWAJEET ENGINEERS PVT LTD
385	U29299MH1989PTC053913	DATA-REPROGRAPHICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
386	U31909MH1990PTC057178	PRASANNA AIR CONTROLS PRIVATE LIMITED
387	U51909PN2002PTC017061	UNITY REFERRAL MARKETING PRIVATE LIMITED
388	U34300MH1990PTC056849	SAMASA AUTO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
389	U24129MH1990PTC057556	MANGALMURTI FLUIDS AND FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
390	U24119MH1990PTC056936	SCAAD ORGANOCEM PRIVATE LIMITED
391	U30007PN2002PTC017090	MULTIDIMENSIONAL INFORMATION COMPUTING SERVICES PRIVATE LIMITED
392	U31909MH1990PTC057065	CIRCUIT IMAGE CREATORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
393	U15549PN2002PTC017091	P AND G BOTTLING AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
394	U31909MH1989PTC053950	LABINDIA ENGINEER P LTD
395	U72200PN1999PTC013853	CLARION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
396	U24119MH1990PTC058080	PRARUGO CHEMIE PRIVATE LIMITED
397	U24299MH1995PTC094436	COLOROLL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
398	U51909MH1995PTC094375	ACME TRADE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
399	U11220MH1995PTC094364	VANRAI ORCHARDS PRIVATE LIMITED
400	U17119MH1995PTC094300	SAVI COTFABS PRIVATE LIMITED
401	U21029MH1990PTC057189	ANANKSHA PACKERS PRIVATE LIMITED
402	U99999MH1989PTC051460	PRASON FOODS PRIVATE LIMITED
403	U27105MH1990PTC057216	KARMA ENGINEERING AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
404	U24232MH1990PTC056917	MUANJ EXPORTES AND PHARMACEUTICALS MANUFACTURING PRIVATE LIM
405	U72200PN2000PTC015543	CARGO DOMAIN PRIVATE LIMITED
406	U72900PN2000PTC015526	GENIITEKS COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
407	U33112PN2002PTC016676	MAXWORTH SURGIMED PRIVATE LIMITED
408	U72200PN2002PTC016666	SAKON WIRELESS INTEGRATION INDIA PRIVATE LIMITED
409	U74999PN2002PTC016646	MATRIX INTELLIGENT SERVICES PRIVATE LIMITED
410	U55101PN2000PTC015565	SANAP HOTELS PRIVATE LIMITED
411	U29191PN2000PTC015596	S.D. MULTIPLE COLD STORAGE INDIA PRIVATE LIMITED
412	U72200PN2000PTC015604	MONTAGE SOFTWARE CREATIONS PRIVATE LIMITED
413	U72200PN2000PTC015608	TOTE INFOTECH PRIVATE LIMITED
414	U72900PN2000PTC015609	WHY NOT VIRTUAL.COM PRIVATE LIMITED
415	U72200PN2000PTC015611	CUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
416	U18109PN1999PTC013699	SOLFAB EXPORTS PRIVATE LIMITED
417	U24247PN1999PTC013711	VICCHE INDIA PRIVATE LIMITED
418	U27310MH1998PTC112822	SARATHI TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
419	U31909MH1998PTC112825	SAVOIR FAIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
420	U74999PN1998PTC012703	SOVITRO TRADING AND SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
421	U29197PN1999PTC013808	SAFE WATER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
422	U29297MH1989PTC054685	CHEMOTEC EQUIPMENTS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

423	U15311PN1999PTC013795	KAWAR APPLIANCES PRIVATE LIMITED
424	U15134PN2001PTC016348	MOTHER'S TOUCH PHARMACEUTICALS AND FOODS PRIVATE LIMITED
425	U51909PN1999PTC013780	ACE MOULDS AND DIES PRIVATE LIMITED
426	U55101MH1995PTC094254	DAZEL HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
427	U15201PN1999PTC013779	NUTRI FOODS PRIVATE LIMITED
428	U32104MH1989PTC052531	PENTA CIRCUITS PVT LTD
429	U28999MH1988PTC050089	OLIVIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
430	U55101MH1988PTC050170	SOORSAGAR HOTELS PRIVATE LIMITED
431	U29302MH1989PTC054520	BLUE FLAME EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
432	U24249MH1989PTC052680	SHIELD INSULATION PVT LTD.
433	U67120MH1992PTC065361	GLORIOUS SHARES AND STOCK PVT. LTD
434	U01409PN1998PTC012938	CHINOY FARMS PRIVATE LIMITED
435	U29299PN2000PTC015580	SARATECH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
436	U52110PN2000PTC015566	SAHASTRARJUN MARKETING PRIVATE LIMITED
437	U45202MH1990PTC055127	EDEN PROPERTIES AND ESTATES PRIVATE LIMITED
438	U72200PN2000PTC014836	MIRACLE SOFTWARE DESIGNS PRIVATE LIMITED
439	U28999PN2000PTC014838	S D S ENGINEERING PRIVATE LIMITED
440	U51500MH1991PTC061923	GRACEVEL ERECTORS PVT LTD
441	U72200PN2000PTC015585	DNYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
442	U92141PN2000PLC015331	HARMONEY CREATIONS LIMITED
443	U51909MH1991PTC061743	COOLEX RADIATORS PVT LTD
444	U15203PN1998PTC012942	BHIMA MILK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
445	U51909MH1988PTC048713	BARAR MARKETING PVT LTD
446	U74300MH1990PTC057229	PARSUADERS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
447	U33130MH1988PTC049732	AARES CONTROLS PRIVATE LIMITED
448	U24246MH1988PTC049039	SHREE MODHESHWARI NEOILS AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
449	U72900PN2000PTC015341	BANKTARAN.COM PRIVATE LIMITED
450	U74300PN2002PTC017092	ONKAR MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
451	U52110PN2002PTC017159	SAMRUDDHI WHOLESALER PRIVATE LIMITED
452	U55103PN2000PTC015391	HELIOS RESORTS PRIVATE LIMITED
453	U33112PN2000PTC015370	DHANVANTARI SURGICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
454	U29305PN2000PTC015377	CNI CONCEPT PRIVATE LIMITED
455	U92112PN2000PTC015364	SHRIRANG DISTRIBUTORS AND EXHIBITORS PRIVATE LIMITED
456	U72200PN2000PTC015365	PRIME INFOLUTIONS PRIVATE LIMITED
457	U28920PN2002PTC017285	MEPROTECH COATING (INDIA) PRIVATE LIMITED
458	U24239PN2002PTC017257	MRINMAYEE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
459	U45203PN2002PTC017235	AMCONZ INFRACON PRIVATE LIMITED
460	U24241PN2002PTC017213	SHRINIWAS DETERGENTS AND ALLIED CHEMICAL PRODUCTS PVT LTD
461	U51397PN2002PTC017193	VETERAN BIO-SECURITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
462	U40200MH1995PTC095209	SHUBH-LAXMI GASES PRIVATE LIMITED
463	U01122MH1995PTC095079	YASH FLORITECK PRIVATE LIMITED
464	U74999MH1996PTC096161	M-CON ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
465	U25209MH1996PTC096810	PREMIER EXTRUSION PRIVATE LIMITED
466	U55101MH1996PTC096743	BIRAMANES NATRAJ HOTEL PRIVATE LIMITED
467	U72900MH1996PTC096619	RADHA MOTELS PRIVATE LIMITED
468	U70101MH1996PTC097023	OMKAR ERECTORS PRIVATE LIMITED
469	U21012MH1996PTC097398	WARDEKAR PAPERS AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
470	U51909MH1996PTC097208	VISHWADEEP TRADING PRIVATE LIMITED
471	U51909PN1999PTC014075	SPARK AUTOMOTIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
472	U70101MH1990PTC058503	BABJI DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED

473	U29305MH1990PTC058421	TRECO HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
474	U45309MH1990PTC058391	CHWINK DHILLONS ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
475	U24232MH1990PTC058796	ELISA CHEMLAB PRIVATE LIMITED
476	U72200PN2002PTC017164	PROLATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
477	U14102MH1988PTC048190	MUDDESH GRANITES PVT LTD
478	U17119MH1988PTC048547	PHUNDIPALLE TEXTILE MILLS PVT LTD
479	U19202MH1988PTC049317	SHREYAS FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
480	U31200MH1988PTC049068	SATURN ELECTRICS PRIVATE LIMITED
481	U55101MH1991PTC061949	PAPILLAN HOTELS PVT LTD
482	U45201MH1991PTC061557	CITY DWELLINGS PVT. LTD.
483	U19116MH1990PTC057749	DILIJANT TANNERS PRIVATE LIMITED
484	U24231MH1988PTC048420	DRACON FLUID PRODUCTS PVT LTD
485	U14102MH1988PTC048189	KATHARE GRANITES PVT LTD
486	U74130MH1990PTC058592	CHADHA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
487	U74140MH1990PTC058362	ANTRA MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
488	U51909MH1990PTC058591	SILKEN FASHIONS PRIVATE LIMITED
489	U74999PN2001PTC016287	LORDS NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
490	U24139PN2001PTC016299	JDP LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
491	U51219PN2001PTC016297	GRAHAK MITRA SALES PRIVATE LIMITED
492	U72200PN2001PTC016316	TUTIX INFORMATIX PRIVATE LIMITED
493	U15499MH1990PTC058234	PRAVARA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
494	U28920MH1990PTC059330	BHUJBAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
495	U74920MH1990PTC059332	ULIX ADVERTISING AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
496	U29299MH1990PTC058795	BEAM EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
497	U45202MH1990PTC059127	FINE-WAYS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
498	U29119MH1990PTC059168	SHRADDHA ORGANICS PRIVATE LIMITED
499	U01222MH1990PTC059134	ROOPABHAVANI POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
500	U25209MH1990PTC059250	VIAL PACKAGING PRIVATE LIMITED
501	U15142MH1990PTC059286	BARAMATI SOLVENT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
502	U63090MH1990PTC058973	NAVRATNA ROADLINES PRIVATE LIMITED
503	U26104MH1990PTC058999	SOLANKI BOTTLES PRIVATE LIMITED
504	U28113MH1990PTC059045	PERFECT BUILDING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
505	U55101MH1990PTC059115	HOTEL PRABHAKAR PRIVATE LIMITED
506	U24119MH1990PTC059135	NEWMENS CHEMI PLAST PRIVATE LIMITED
507	U25202MH1990PTC059118	GULAB PACKAGING PRIVATE LIMITED
508	U28994MH1990PTC058646	DIPALI METALS PRIVATE LIMITED
509	U22219MH1990PTC058722	PACIFIC LABELLING AND PRINTING PRIVATE LIMITED
510	U51219MH1990PTC058778	PAR FARMS PRIVATE LIMITED
511	U25199MH1990PTC058275	MOTIJUG RUBBER PRIVATE LIMITED
512	U27104MH1990PTC058314	YOGESH ISPAT PRIVATE LIMITED
513	U51219PN2001PTC016298	MAYAKKA HOME PRODUCTS (I) PRIVATE LIMITED
514	U24249PN2001PTC016255	KEVERA HERBALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
515	U55101PN2001PTC016327	MAURYA HOSPITALITY MANAGEMENT'S LUCKNOWI CHAT PRIVATE LIMITED
516	U74999PN2001PTC016329	S AND S PATIL COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
517	U01122PN2001PTC016268	HIREMATH AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
518	U55101MH1990PTC058166	ASHWAMEDH HOTELS PRIVATE LIMITED
519	U72200PN2001PTC016280	WEBOPAC APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
520	U72200PN2001PTC016325	GLANZ' TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
521	U15499MH1984PTC032458	MAHARASHTRA FOOD INDUSTRIES PVT LTD
522	U31909MH1983PTC031563	WARNA ELECTRONICS PVT LTD
523	U24129MH1982PTC026719	RATNADEEP FERTILIZERS PVT LTD

524	U29211MH1982PTC027126	B I P AGRO IMPLEMENTS PVT LTO
525	U92120MH1984PTC034453	SERVO COMMUNICATIONS PVT LTD
526	U32109MH1984PTC033946	KOLHAPUR ELECTRONICS PRIVATE LIMITEO
527	U55101MH1982PTC027309	PANCHGANI RESORT HOTELS PVT LTO
528	U27207MH1982PTC028663	AVAOHOOT PLASTS ANO ENGINEERING WORKS PVT LTD
529	U21093MH1982PTC028516	MAOHURI PAPER ANO BOARO PVT LTO
530	U17121MH1982PTC026693	KARVEER SURGICALS PVT LTO
531	U55101MH1983PTC030863	DEVIS HOTEL INDUSTRIES PVT LTD
532	U45201MH1984PTC034945	SIDOHARTH CONTRACTORS ANO PROMOTORS PVT LTO
533	U24231MH1984PTC034290	EMINENT PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITEO
534	U55101MH1991PTC062731	PURANDAR MOTELS PVT LTO
535	U15142MH1991PTC062777	ZINGAOE OIL INDUSTRIES PVT LTO
536	U26102MH1991PTC062272	AMEYA METACOAT PVT LTO
537	U29195MH1991PTC062353	SOMAN PACKAGING AND TUBES PVT L
538	U45201MH1991PTC062351	POOJA ANKUR ASSOCIATES PROMOTERS ANO BUILOERS P LTO
539	U74140MH1991PTC062377	DESHKUL CONSULTANTS PVT LTO
540	U15133MH1991PTC062402	SINA AGRO PRODUCTS PVT LTD
541	U29213MH1991PTC062415	GANAPATI FORGE PVT LTO
542	U45201MH1991PTC062408	SHIBIN BUILDERS PVT LTD
543	U72200PN2001PTC016273	IT BRAIN BANK PRIVATE LIMITED
544	U74999PN2001PTC016272	PIPED GAS SERVICES PRIVATE LIMITED
545	U01114PN2001PTC016276	EARTH AROMATIC PRIVATE LIMITED
546	U51397PN2001PTC016281	LIFE CARE SALES PRIVATE LIMITEO
547	U55101PN2001PTC016285	PUSHPA HOTELS ANO RESORTS PRIVATE LIMITED
548	U67200PN2001PTC016283	ROBUST NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
549	U63040PN2001PTC016633	GAURI PARYATAN PRIVATE LIMITED
550	U17299MH1998PTC114579	RAMCHAND KNITTING PRIVATE LIMITED
551	U29299MH1998PTC114560	BRITE FINISHING SYSTEMS PRIVATE LIMITEO
552	U51109MH1998PTC114441	PANCHAVATI MARKETING PRIVATE LIMITED
553	U25209MH1998PTC114429	LUCKY STAR POLYMERS PRIVATE LIMITEO
554	U34102MH1998PTC114383	NATARAJ VEHICLES ANO AUTOMOBILES PRIVATE LIMITEO
555	U01214MH1998PTC114391	YESHWANT STUD AND AGRICULTURAL FARMS PVT LTO
556	U92141MH1998PTC114349	NIPA TRAINING PRIVATE LIMITED
557	U63040MH1998PTC114252	STARLINK TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITEO
558	U15412MH1998PTC114221	KLASSIC NUTRIENTS PRIVATE LIMITED
559	U01222MH1998PTC114208	HAPPY HOME BUILOCON PRIVATE LIMITEO
560	U63040MH1998PTC114128	VEOANT TOURS ANO TRAVELS PRIVATE LIMITEO
561	U55101MH1998PTC114112	SAIDWAR RESORTS PRIVATE LIMITEO
562	U15543MH1998PTC114050	SANJEEVAN MINERAL WATER COMPANY PRIVATE LIMITED
563	U51101PN2000PTC014930	GLOMARK PRIVATE LIMITEO
564	U72200PN2000PTC014908	AMC SOLUTIONS PRIVATE LIMITE
565	U51102PN2000PTC014903	ASSOCIATED MARKETING PRIVATE LIMITED
566	U72200PN2000PTC014893	SAPNABAZAR.COM PRIVATE LIMITEO
567	U63040PN2000PTC014883	INOOLINK TOURS ANO TRAVELS PRIVATE LIMITEO
568	U72200PN2000PTC014862	NIRMITEE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
569	U24231PN1999PTC014123	SUN-N-GOLD PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
570	U74999PN2001PTC016328	CITI SERVICE NETWORK PRIVATE LIMITEO
571	U15544MH1991PTC062444	NIRANJAN ICE INOUSTRIES ANO COLO STORAGE PVT LTD
572	U29219MH1991PTC062378	SANJAY TOOLS PVT LTD
573	U34201MH1991PTC062735	INDRADEEP COACH BUILOERS PVT LTO
574	U74140MH1991PTC062611	NANTUCKET MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES

		PVT LTD
575	U17219MH1991PTC062547	KRANTI TEXTILES PVT LTD
576	U65993PN1999PTC014192	APEX FINMARK PRIVATE LIMITED
577	U70101PN1999PTC014198	STAR REALTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
578	U15143PN1999PTC014201	DNYANESHWAR OIL MILL PRIVATE LIMITED
579	U72200PN1999PTC014207	KAVACH KUNDAL MARKETING AND INFORMATION SYSTEM PVT LTD
580	U22121PN1999PTC014196	MALAYALA SABDAM PRIVATE LIMITED
581	U85199PN1999PTC014158	AUSTIN HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
582	U74140PN1999PTC014156	RAGHUVANSH INDUSTRIAL AND TECHNICAL CONSULTANCY PVT LTD
583	U74999PN1999PTC014276	BEATIFIC COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
584	U74140PN2001PTC015872	NEO ELIXIR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
585	U72900PN2001PTC015827	VISIOTECH PRIVATE LIMITED
586	U51909PN2001PTC015819	KOHINOOR MERCANTILE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
587	U72900PN2001PTC015844	NARENDRA MEDI SCRIBE PRIVATE LIMITED
588	U74994PN2001PTC015843	SAMIHAN INTERIORS AND ARTS PRIVATE LIMITED
589	U51909PN2001PTC015856	HORIZON MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED
590	U72200PN2001PTC015830	KANDA INFOTECH PRIVATE LIMITED
591	U25199MH1991PTC062432	MALHAR RUBBER PRODUCTS PVT LTD
592	U74999MH1985PTC035342	SANJEEVAN SALES SERVICES PVT LTD
593	U52322MH1982PTC027159	RAJNEESH GARMENTS EXPORTS PVT LTD
594	U31102MH1982PTC028393	STANRO ENGINEERING CO PVT LTD
595	U70101MH1982PTC027265	SAKAR BUILDERS PVT LTD
596	U15421MH1984PTC033736	B U BHANDARI SUGAR COMPANY PRIVATE LIMITED
597	U51909MH1984PTC032810	JAMKHEDE TRADING CO PRIVATE LIMITED
598	U15135PN2001PTC015841	VARAD FODDS PRIVATE LIMITED
599	U51431PN2001PTC015840	MAHARASHTRA TIMBER TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
600	U27106PN2001PTC015846	MALHAAR METAL FINISHES PRIVATE LIMITED
601	U51395PN2001PTC015842	BEGAWALA TRADING PRIVATE LIMITED
602	U51909PN2001PTC015834	SHREE VENKATESH MARKETIERS PRIVATE LIMITED
603	U72200PN2001PTC015860	TRIVENTURE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
604	U72200PN2001PTC015927	KNOWWAYSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
605	U74999PN2001PTC015907	SPECTRUM EXPOSITIONS AND EVENTS PRIVATE LIMITED
606	U15424PN1999PTC014211	SRIMAULI SUGARS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
607	U01122MH1998PTC114634	KALE AGRO HIGHTECH PRIVATE LIMITED
608	U51909MH1998PTC114153	WINWAY SHOPPERS PRIVATE LIMITED
609	U29299MH1998PTC114084	AGATE SPECIALITY PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
610	U72200PN2000PTC015138	KPRD CONSULTANCY INDIA PRIVATE LIMITED
611	U72200PN2000PTC015234	NET VISION COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
612	U34300PN2000PTC015249	TECHNORAMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
613	U40109PN2000PTC015242	RUDRA ENERGY SAVERS PRIVATE LIMITED
614	U51909PN2000PTC015225	AADISHREE MARKETING AND RETAIL SALES COMPANY PVT LTD
615	U72200PN2000PTC015230	VISHWA INFOWAY PRIVATE LIMITED
616	U72200PN2000PTC015264	SOFTWARE SEAGULLS PRIVATE LIMITED
617	U45202PN2000PTC015168	NEHA CONTRACTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
618	U72200PN2000PTC015191	SUN-2000 ON LINE PRIVATE LIMITED
619	U70101PN2000PTC015197	SAPS REALTY AND TRADING PRIVATE LIMITED
620	U17214PN2000PTC015217	PUFTECH INDIA PRIVATE LIMITED
621	U74999PN2000PTC015226	SIGN O TIMES FASHIONS PRIVATE LIMITED
622	U24231PN2000PTC015224	DHANVANTARI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
623	U92141PN2000PTC015120	ENDUSMUSIC.COM PRIVATE LIMITED

624	U72200PN2000PTC015085	MEDISOFT TECHNOLOGTIES PRIVATE LIMITED
625	U72999PN2000PTC014999	SAI RAM INFOSYS NETWORK PRIVATE LIMITED
626	U72900PN2000PTC014996	ICAN SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
627	U63022PN2000PTC014989	CHINTAMANI INFRASTRUCTURE AND AGRO INDUSTRIES PVT LTD
628	U22122PN2000PTC014982	ADITYA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
629	U15203PN1998PTC012897	SHRI GURUDATTA MILK AND AGRO PRIVATE LIMITED
630	U28999MH1985PTC036102	ANTELOPE WELD-AID PRODUCTS PVT LTD
631	U29307MH1985PTC035532	SUN-DIP ENERGY EQUIPMENTS PVT LTD
632	U31101MH1982PTC026807	TENSUN DIESEL SERVICES PVT LTD
633	U74210MH1985PTC035946	DASP ELECTROPLATERS AND ENGINEERS PVT LTD
634	U29306MH1995PTC085974	LAKSHIT ICECON TECHNIQUES PRIVATE LIMITED
635	U55101PN2000PTC015076	THE LEISURE HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
636	U74999PN2001PTC015907	SPECTRUM EXPOSITIONS AND EVENTS PRIVATE LIMITED
637	U45202MH1985PTC035031	YOJANA CNSTRUCTION PVT LTD
638	U24134MH1978PTC020564	PUSHPANJALI POLYMER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
639	U63090MH1990PTC058973	NAVRATNA ROADLINES PRIVATE LIMITED
640	U70200MH1996PTC096812	LAMAISON REALTORS PRIVATE LIMITED
641	U70109MH1985PTC036415	SATARA STRUCTURALS PVT LTD
642	U28910MH1983PTC029095	KOTIBHASKAR FORGINGS AND PRESSINGS PVT LTD
643	U73100MH1985PTC035331	SARASWATI RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
644	U73100MH1985PTC035330	GANGA RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
645	U55101MH1983PTC030961	KALPAK HOTELS PVT LTD
646	U70701PN1998PTC012798	OM SHANTI DEVELOPERS AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
647	U25201PN1998PTC012792	NUMERO POLYMERS PRIVATE LIMITED
648	U15201PN1998PTC012766	DYANDA DAIRY PRIVATE LIMITED
649	U51909PN1999PTC013434	SUN-TECH MARKETING PRIVATE LIMITED
650	U29299MH1983PTC029863	CAMUS ENGINEERS PVT LTD
651	U29299MH1984PTC034454	SHIMA TEXT EQUIPMENT PVT LTD
652	U40109MH1983PTC030889	SIRPUR TRADING COMPANY PVT LTD
653	U45201MH1985PTC036522	PRASAD METAL FORMERS PVT LTD
654	U74210MH1985PTC036361	YOJANA ENGINEERS AND FABRICATORS PVT LTD
655	U31909MH1985PTC036922	RAJDEEP MAGNETICS PVT LTD
656	U63022PN1999PTC013381	MAHARASHTRA ICE INDUSTRIES AND COLD STORAGES PVT LTD
657	U74999MH1982PTC028325	KALPAK INTERIORS PVT LTD
658	U27320MH1982PTC028563	DIGVIJAY ALLOYS AND EXTRUSIONS PVT LTD
659	U27203MH1982PTC028099	SONA ALUMINIUM FINISHER PVT LTD
660	U45201MH1985PTC036412	RAVINDERA JOSHI CONSTRUCTIONS PVT LTD
661	U31909MH1985PTC037085	SHRONICS INSTRUMENT ENGINEERS PVT LTD
662	U29305MH1996PTC096173	ASEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
663	U01111MH1983PTC030606	VYAS AGRICULTURAL AND DAIRY PRODUCTS PVT LTD
664	U29299MH1983PTC031688	TIARA INDUSTRIAL PRESSING CO PVT LTD
665	U34101MH1984PTC031761	PRAVARA MOTORS PVT LTD
666	U19201MH1985PTC036542	SATHE DAMLE LEATHERS PVT LTD
667	U31909MH1984PTC032285	ANANDEL ELECTRO CHEM PVT LTD
668	U45202PN2000PTC015184	KAPIL TRADES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
669	U74210MH1985PTC036349	RACOR ENGINEERING PVT LTD
670	U51909PN1999PTC014019	WORTH IMPEX PRIVATE LIMITED
671	U91990MH1995PTC086035	POONA TANNERIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
672	U24232MH1984PTC033164	AKH NEEL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
673	U92411MH1990PTC059034	RETREAT REHABILITATION AND FITNESS CENTRE PVT LTD

674	U26912MH1985PTC036840	POONA FERROCRETE PRODUCTS PVT LTD
675	U74300MH1985PTC035885	AIMS ADVERTISING PVT LTD
676	U28939MH1985PTC036883	TRUE GRIT ENGINEERING PVT LTD
677	U74999MH1983PTC029742	JASVIN CONSULTANTS AND MARKETING PVT LTD
678	U70102PN2000PTC014396	VISHARAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
679	U45202PN2000PTC014403	SAIKRUPA CONSTRUCTION AND CONTRACTORS (RATNAGIRI) PVT LTD
680	U55101PN2000PTC014408	CELEBRITY HILLS RESORT PRIVATE LIMITED
681	U60210PN1999PTC013303	J K CARRIERS PRIVATE LIMITED
682	U74999PN2000PTC014439	ATR PACKAGING PRIVATE LIMITED
683	U72200PN1999PTC013302	HORIZON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
684	U45209PN2000PTC014418	ISHAN AGRO CONSTRUCTION (PUNE) PRIVATE LIMITED
685	U01211PN1999PTC013307	KAPILA CATTLE FEED PRIVATE LIMITED
686	U92113MH1985PTC035757	CONSOLIDATED VIDEO PVT LTD
687	U22190MH1998PTC114640	DAINIK PRITISANGAM PRINTERS AND PUBLICATION PVT LTD
688	U51909PN1999PTC013327	V R EXPORTS PRIVATE LIMITED
689	U92111PN1999PTC013358	SHRINATH CINE PRIVATE LIMITED
690	U25191PN1999PTC013455	D M P PIPES PRIVATE LIMITED
691	U45202PN1999PTC013368	ARCHIES BUILDING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
692	U72200PN1999PTC013379	UNIQUE CYBER PRIVATE LIMITED
693	U72200PN1999PTC013382	ARUN TECHNOCOM PRIVATE LIMITED
694	U15203PN1999PTC013391	SARASWATI DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
695	U24219PN1999PTC013373	GREEN GROWTH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
696	U74140PN1999PTC013393	DATAR TECHNICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
697	U91990PN1999PTC013427	LE CLUB LANDMARK PRIVATE LIMITED
698	U29299PN1999PTC013438	EMISSION CONTROLS SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
699	U31909PN1999PTC013437	Q' TEK TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
700	U51909PN1998PTC012802	EI FER MARKETING PRIVATE LIMITED
701	U15061PN2000PTC015061	WESTERN MAHARASHTRA BREWERIES PRIVATE LIMITED
702	U28992MH1985PTC034969	NUTAN PACK SAFE SYSTEMS PVT LTD
703	U73100MH1985PTC035333	OM RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
704	U63023MH1983PTC029158	OVHAI WAREHOUSING PVT LTD
705	U70200MH1982PTC026721	PREMCHAND REAL ESTATES PVT LTD
706	U26959MH1985PTC036163	MUDHOL CEMENTS PVT LTD
707	U24222MH1983PTC029116	BINA PAINTS PVT LTD
708	U24119MH1983PTC030950	CHEMTSU CHEMICALS PVT LTD
709	U25209MH1985PTC035783	EM GEE PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
710	U26921MH1983PTC031324	SURESH BRICKS AND CLAY PRODUCTS PVT LTD
711	U74140MH1985PTC035648	ARYA INDUSTRIAL AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
712	U74140MH1982PTC027266	PANCHVATI MINERAL DEVELOPMENT CONSULTANTS PVT LTD
713	U45204MH1984PTC033893	KANCHAN ERECTORS PVT LTD
714	U35310MH1985PTC035310	MATEX POLYPACK INDUSTRIES PVT LTD
715	U22222MH1982PTC028897	MAGNA PRINT PVT LTD
716	U73100MH1985PTC035329	YOGESHWAR RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
717	U50401PN2000PTC015006	UNIQUE HONDA TRADING PRIVATE LIMITED
718	U36912PN2000PTC015091	RATHI MOTIWALE PRIVATE LIMITED
719	U74300PN1998PTC012803	KAVISH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
720	U85320PN1998PTC012800	MARIGOLD RECREATION SERVICES PRIVATE LIMITED
721	U70102PN1998PTC012824	PAGARIYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
722	U72200PN1998PTC012843	RECIOUS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
723	U63040PN1998PTC012860	RAIL ROAD TRANSPORTS PRIVATE LIMITED

724	U15201PN1998PTC012861	YOGIRAJ DAIRIES PRIVATE LIMITED
725	U70109PN1998PTC012862	MAHARASHTRA RESORTS AND FARMS PRIVATE LIMITED
726	U01222PN1998PTC012898	MANOVIJAY POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
727	U20213PN1998PTC013187	TASHFEEN FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
728	U72200PN2000PTC014394	SYM-K ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
729	U51909PN2002PTC016956	UNITE SELLMARK PRIVATE LIMITED
730	U51909PN2002PTC016955	ESHWAR NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
731	U51909PN2002PTC016957	SAINET ONLINE BUSINESS (INDIA) PRIVATE LIMITED
732	U28999PN2002PTC016958	HARDELS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
733	U51909PN2002PTC016959	TRIKYA MARKETING PRIVATE LIMITED
734	U51909PN2002PTC016961	BAYS GOLD RUSH MARKETING AND RETAIL TRADE SERVICES PVT LTD
735	U74140PN2002PTC016967	ARTHYOG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
736	U74300PN2002PTC016963	PRANAM MEDIA SOLUTIONS AND NEWSMAKERS PRIVATE LTD
737	U51109PN2002PTC016968	SHIVMANI IMPEX PRIVATE LIMITED
738	U51909PN2002PTC016969	INNERVATE MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
739	U55101PN2002PTC016970	SHRI SIDDESHWAR HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
740	U70101PN2002PTC016976	LEX PEOPLE PRIVATE LIMITED
741	U51909PN2002PTC016978	PAWAR MARKETING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
742	U74210PN2002PTC016983	NAIRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
743	U74140PN2002PTC016987	SYNERGY MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
744	U36101MH1982PTC027703	PAINT-ALL INTERIORS PVT LTD
745	U01122MH1989PTC054354	GANGA FARMS PRIVATE LIMITED
746	U23201PN2002PTC017005	JAZIRA ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
747	U01122PN2002PTC017002	KEDAR AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
748	U01122PN2002PTC017000	SATISAR BLOSSOMS PRIVATE LIMITED
749	U22219MH1984PTC034283	MERCANTILE SECURITY PRINTERS PVT LTD
750	U33126MH1989PTC050319	WEATHER TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
751	U01111PN1998PTC013200	DINESH BIOTECH PRIVATE LIMITED
752	U17115PN1998PTC013188	ALFIYA TEXTILES PRIVATE LIMITED
753	U51909PN1999PTC014146	RAINBOW AGENCIES PRIVATE LIMITED
754	U51399PN1999PTC014213	PRATHAMESH MARKETING PRIVATE LIMITED
755	U52190PN1999PTC014161	PUNE GOLD PRIVATE LIMITED
756	U72900PN2001PTC015862	I NEWWAY PRIVATE LIMITED
757	U15139PN2000PTC015139	POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
758	U72200PN2000PTC015125	KUMAR KISAN.COM PRIVATE LIMITED
759	U24134PN2000PTC015257	SAIFLON POLYMERS PRIVATE LIMITED
760	U29299MH1983PTC029443	AJINKYA ENGINEERING PVT LTD
761	U45203PN2001PTC015851	KOLHAPUR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LTD
762	U17111PN1998PTC013190	ASRA FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
763	U24139PN1998PTC013182	PENTIUM POLYMERS PRIVATE LIMITED
764	U45202PN1998PTC013154	YASHSHRI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
765	U72200PN2000PTC014388	EMCHIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
766	U15532PN2000PTC014389	AJINKYA DISTILLERY PRIVATE LIMITED
767	U50402PN2000PTC014351	BIKES INDIA PRIVATE LIMITED
768	U74999PN2000PTC014337	COLONELS ACADEMY FOR ADVENTURE AND TOURISM PVT LTD
769	U29305PN2000PTC014342	ADVANI KITCHEN APPLIANCES PRIVATE LIMITED
770	U29308PN2000PTC014344	RAGA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
771	U63040PN2000PTC014343	VEEKAY TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
772	U29299PN2000PTC014330	VISION TOOLS AND JIGS PRIVATE LIMITED

773	U70200PN1998PTC013034	DEVABHUTI REALTIES PRIVATE LIMITED
774	U70200PN1998PTC013036	VIJAYANTA REALTIES PRIVATE LIMITED
775	U72200PN1998PTC013038	AMOGHSIDDHI REALTIES PRIVATE LIMITED
776	U45201PN1998PTC013040	GRUVIN INFRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
777	U72501PN1998PTC013041	SAVY NET PRIVATE LIMITED
778	U32109PN1998PTC013044	SAURABH INSTRUMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
779	L15424PN1998PLC013211	BABANRAO DHAKANE SAKHAR KARKHANA LIMITED
780	U51909PN1998PTC013199	MOPAV EXPORTS PRIVATE LIMITED
781	U55101MH1988PTC048930	MOTEL PICASSO PRIVATE LIMITED
782	U15427MH1989PTC050272	KWALITY CANDIES AND SWEETS PRIVATE LIMITED
783	U55101MH1988PTC050156	HOTEL LAVINA PRIVATE LIMITED
784	U45201MH1989PTC050245	BHALCHANDRA CONSTRUCTIONS PVT LTD
785	U01403MH1988PTC049197	CHICKOO PICKOO FARMS PRIVATE LIMITED
786	U15311MH1988PTC050023	JAY BHAWANI ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
787	U74300MH1990PTC055518	SANDHYA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
788	U70101MH1988PTC050130	SAMAMAH DEVELOPERS AND HEALTH RESORTS PVT LTD
789	U31501MH1990PTC055541	RAVI RAKESH LAMPS PRIVATE LIMITED
790	U70101MH1988PTC049238	PRIME DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
791	U51909MH1988PTC049431	VINCI TRADING COMPANY(PUNE) PVT LTD
792	U29299MH1990PTC055517	INVENTA CONTROLS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
793	U70102MH1988PTC049448	JATHAR DEVELOPERS PVT LTD
794	U25209MH1989PTC054376	GOLDEN POLYMERS PRIVATE LIMITED
795	U15499MH1990PTC055504	JAYESJ FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
796	U01122MH1989PTC054365	SHUCHI FARMS PRIVATE LIMITED
797	U01122MH1989PTC054358	AKSHAR FARMS PRIVATE LIMITED
798	U01122MH1989PTC054355	SHOBHA FARMS PRIVATE LIMITED
799	U22212MH1990PTC055525	SHRADHA INDUSTRIAL PRINTERS AND PUBLICATIONS PVT LTD
800	U17309MH1988PTC049467	KONITECH TEXOCOM PRIVATE LIMITED
801	U51909PN2000PTC015662	AJINKYA NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
802	U15321PN2002PTC017371	JAY BALAJI AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
803	U72200PN2000PTC015672	GRACE NETWORK MARKETTING PRIVATE LIMITED
804	U34300PN2000PTC015675	ANUP AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
805	U24231MH1982PTC027646	ASHOJAY CHEMICALS PVT LTD
806	U51219PN2002PTC017443	KOKAN FOODS TRADING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
807	U51909PN2001PTC016506	SANKALPSIDDHA NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
808	U51909PN2001PTC016505	VIKASGANGA MARKETING AND RETAIL TRADING CO (INDIA) P LTD
809	U18101PN2001PTC016508	SURESH COLLECTIONS PRIVATE LIMITED
810	U29259PN2001PTC015717	ASSOCIATED VENDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
811	U80211PN2001PTC015699	GREAT BEGINNINGS CHILDREN'S INTERACTION CENTERS PVT LTD
812	U72200PN2001PTC016090	INFOWARE E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
813	U29299PN2001PTC016096	TRUESIZE GAUGES AND TOOLS PRIVATE LIMITED
814	U72200PN2001PTC016085	MAK INFOWAYS PRIVATE LIMITED
815	U72200PN2002PTC017307	ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE CONSULTANTS PVT LTD
816	U01122PN2001PTC016059	AQUACON AGRO-TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
817	U45202PN2001PTC016097	SKYLINE DEVELOPERS AND BUILDCON PRIVATE LIMITED
818	U74300PN2001PTC016105	SHARP SCREEN PAGES PRIVATE LIMITED
819	U51909PN2001PTC016114	VIJAYJYOTH NETWORK MARKETTING PRIVATE LIMITED
820	U72200PN2001PTC016121	UNITY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

821	U24231PN2001PTC016131	SILVER-LILLY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
822	U73100PN2001PTC016140	POLYUS TECH PRIVATE LIMITED
823	U85110PN2001PTC016150	HAVLE MEDICARE PRIVATE LIMITED
824	U15433PN2001PTC016169	MITHAS DELICIOUS SWEETS PRIVATE LIMITED
825	U55101PN2002PTC017317	KEYWEST HOTELS PRIVATE LIMITED
826	U24239PN2002PTC017330	S.V. KULKARNI AND COMPANY (CHEM) PRIVATE LIMITED
827	U01122PN2002PTC017354	YASHORAJ AGRO PRIVATE LIMITED
828	U45202PN2002PTC017359	SHARDA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
829	U72200PN2002PTC017363	TRADEI NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
830	U27310PN2002PTC017372	AS CASTINGS AND PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
831	U72200PN2002PTC017382	M5K SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
832	U92312PN2002PTC017366	NEXXUS ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
833	U27105PN2002PTC017362	PHOENIX STEEL TUBES AND STRIPS MILL PRIVATE LTD
834	U74140PN2002PTC017390	MATRUMANDIR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
835	U74300PN2002PTC017381	TRIMAX ADVERTISING PRIVATE LIMITED
836	U21012PN2001PTC016001	GT PAPERS PRIVATE LIMITED
837	U72900PN2001PTC015980	LOGONLINE INDIA PRIVATE LIMITED
838	U72300PN2002PTC017392	BHRIGUS SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
839	U15549PN2002PTC017350	DMRD BEVERAGES PRIVATE LIMITED
840	U51909PN2002PTC017346	AMBROSIA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
841	U01122PN2002PTC017333	SUFALAM BIOTECH PRIVATE LIMITED
842	U36109PN2002PTC017314	HIKRAFT INTERIOR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
843	U31102PN2002PTC017315	SANCHETI TRANSFORMERS AND ELECTRICALS PVT LTD
844	U72200PN2001PTC016160	MERIDIEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
845	U72200PN2001PTC016014	SEPTA SOFT PRIVATE LIMITED
846	U72200PN2001PTC016050	DIMENSION INFORMATICS PRIVATE LIMITED
847	U34300PN2001PTC016045	SHREE VENKATESHWARA AUTO COMP PRIVATE LIMITED
848	U29293PN2001PTC015992	OMSAI PAPER PRIVATE LIMITED
849	U51909PN2001PTC016004	VERSATILE MARKETING PRIVATE LIMITED
850	U63040PN2001PTC015983	PADMAVATI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
851	U74999PN2001PTC016054	WILD CREST CREATIONS PRIVATE LIMITED
852	U85110PN2001PTC016076	BHAIRAV HOSPITALS AND RESEARCH INSTITUTE PVT LTD
853	U51505PN2001PTC016065	CITIZEN MARKETING AND RETAIL TRADING COMPANY PVT LTD
854	U85199PN2001PTC016055	KABIR SWASTHYA YOGA NIKETAN PRIVATE LIMITED
855	U45202PN2001PTC016089	GADRE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
856	U51909PN2001PTC016087	SUVARNAKAMAL MULTIGROW SERVICES PRIVATE LIMITED
857	U30007PN2001PTC016094	CLAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
858	U72200PN2001PTC016080	C D PLANET EDUCATION PRIVATE LIMITED
859	U92199PN2001PTC016158	MEGH MUSIC PRIVATE LIMITED
860	U51909PN2001PTC016143	SHRI SAI-SAMARTH MARKETING PRIVATE LIMITED
861	U72200PN2001PTC016113	FORCEONE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
862	U50101PN2001PTC016138	GOPIRAJ MOTORS PRIVATE LIMITED
863	U29299PN2001PTC016147	SUPERTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
864	U75101MH1982PTC026658	HADAPSAR TRADING CO PVT LTD
865	U72200PN2001PTC016039	OMKAR INFOLINE PRIVATE LIMITED
866	U74999PN2002PTC017339	SOLAPUR BIO-MEDICAL WASTE MANAGEMENT PRIVATE LTD
867	U70102PN2001PTC016013	M.R. REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
868	U45201MH1985PTC035853	LIFE TIME BUILDERS PVT LTD
869	U51909PN2002PTC016984	RACHNA MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
870	U51909PN2001PTC016502	AUTOLINE MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
871	U70101PN2001PTC016512	KORE REAL ESTATES PRIVATE LIMITED

872	U15424PN1999PTC013386	E P AGROTECH PRIVATE LIMITED
873	U01122PN1999PTC013298	JAYKISAN BIOTECH PRIVATE LIMITED
874	U51909PN2002PTC016990	SWA-SHAKTI MARKETING AND CONSULTING SERVICES PVT LTD
875	U15204PN1999PTC013430	PATEL MILK PRIVATE LIMITED
876	U27106MH1983PTC030590	GOKUL ALLOY-STEEL PVT LTD
877	U29248MH1982PTC028620	ASHAPURI TIMBERS PVT LTD
878	U45202MH1991PTC063908	NEELAYAN FARMS PVT LTD
879	U26941MH1991PTC063412	SHRI MAHESH CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
880	U51909MH1991PTC063285	PRIYA COTTON TRADING COMPANY PVT LTD
881	U51101MH1991PTC063263	POPULAR AGRO TRADERS PVT LTD
882	U15543MH1991PTC063165	LALITA GAURI MINERALS PVT LTD
883	U74140MH1991PTC063108	SPARELESS MARKETING CONSULTANTS PVT LTD
884	U45102MH1991PTC063034	LAS VEGAS DEVELOPERS PVT LTD
885	U27101MH1991PTC063033	HEM HIRA METATECH PVT LTD
886	U31909MH1991PTC062996	SUNBEAM AUDIO SYSTEMS PVT LTD
887	U21099MH1983PTC031032	EXACTRO CUIPIERS PVT LTD
888	U12200MH1985PTC036434	SHIV SAGAR POULTRIES PVT LTD
889	U74210MH1984PTC034178	ADVAITA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
890	U36912MH1983PTC031070	PREET CHATTONES INDUSTRIES PVT LTD
891	U22219MH1983PTC031254	DIAMOND PRINTERS AND PUBLISHERS PVT LTD
892	U92112MH1982PTC028845	S P CHITRA PRAKASHAN PVT LTD
893	U55101MH1983PTC029633	INDRAPRASTHA HOTELS PVT LTD
894	U24119MH1985PTC035037	SANTITE STAR CHEM PVT LTD
895	U31200MH1984PTC034734	KULCO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
896	U60231MH1984PTC034916	VAPNA VANATUK SANGH PVT LTD
897	U28112MH1983PTC029669	S G KULKARNI STRUCTURES PVT LTD
898	U29299MH1983PTC030861	DEVI S MACHINERY MANUFACTURES PVT LTD
899	U36102MH1985PTC036145	JESO JIGS AND FIXTURES PVT LTD
900	U29120MH1984PTC032740	ANSUYA CONTROL SYSTEMS PVT LTD
901	U28910MH1983PTC029162	ABLE ENGINEERING PVT LTD
902	U01222MH1985PTC036436	TRIMURTI POULTRIES PVT LTD
903	U74140MH1982PTC028372	VISHWAKARMA SALES PVT LTD
904	U29248MH1982PTC028495	GENUS LABORATORIES PVT LTD
905	U72900MH1984PTC032761	FIVESTAR MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
906	U29299MH1998PTC114560	BRITE FINISHING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
907	U15203MH1984PTC032417	SATCHIDANAND AGRO INDUSTRIES PVT LTD
908	U33125MH1984PTC032004	VAMAN D PURCHIT EQUIPMENTS PVT LTD
909	U24231MH1984PTC031926	ASTRON FINE CHEMICALS PVT LTD
910	U45202MH1983PTC031720	MEENA CONSTRUCTION PVT LTD
911	U24232MH1983PTC030911	DEVIS PHARMACEUTICALS PVT LTD
912	U24117MH1983PTC031119	DAYAL CHEMTREAT PVT LTD
913	U33112MH1983PTC030919	SCAN CURE EQUIPMENTS PVT LTD
914	U01222MH1983PTC030701	PRASHANT FARMS PVT LTD
915	U12230MH1984PTC033412	KOLHAPUR HONEY AND FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
916	U34201MH1984PTC033381	MONALISA AUTO BODY BUILDERS AND FABRICATORS PVT LTD
917	U15499MH1983PTC030862	DEVIS FOOD INDUSTRIES PVT LTD
918	U01222MH1985PTC036446	PADMAJA POULTRIES PVT LTD
919	U26921MH1983PLC029604	BEAUTIFUL BRICKS CO (INDIA) LTD
920	U01222MH1985PTC036445	KRISHIKANCHAN POULTRIES PVT LTD
921	U50300MH1991PTC060269	ROLLINS AUTO PVT LTD
922	U45201MH1989PTC051092	GRAFIKON CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
923	U70102MH1989PTC051113	WARDEKAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
924	U25209MH1991PTC060404	MUGDHA PLASTICS PRIVATE LIMITED

925	U25191MH1990PTC059521	ALFA RUBBER P LTD	
926	U45401MH1990PTC059529	SANGLI BUILDERS TILES MANUFACTURING COMPANY P LTD	
927	U19129MH1991PTC059847	PRAJAKTA LEATHERS P LTD	
928	U25209MH1991PTC059939	MORESHWAR AUTO ANCILLARY P LTD	
929	U34300MH1990PTC056742	HAIKU ENGINEERING PRIVATE LIMITED	
930	U63090MH1989PTC053695	AMBARNATH GOLDEN TRANSPORT INDIA PVT LTD ACTION DROPPED	560
931	U29219MH1990PTC055847	PIYU PUMPS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	
932	U31200MH1989PTC050489	KSHITIJ ELECTRODSYSTEMS PVT LTD	
933	U51496MH1991PTC060031	ALEXIS CHEMICAL COMPANY P LTD	
934	U74999MH1991PTC060034	GAZENIA TRAVELS PVT LTD	
935	U70200MH1991PTC060085	MADHAV KETKAR CONSTRUCTION P LTD DEVKI KRISHNA RAVALNATH DEVELOPERS AND BUILDERS P LTD	
936	U70101MH1991PTC060110	VAIJANATH PLASTICS P LTD	
937	U25209MH1991PTC060117	VAIJANATH PLASTICS P LTD	
938	U51505MH1991PTC060418	ADVENT ELECTRONICS PRIVATE LTD	
939	U25199MH1991PTC060568	WAHI RUBBER RECLAMATIONS PVT LTD	
940	U74999PN1999PTC014069	SG CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED	
941	U70101MH1991PTC060618	SEVA NIKETAN REALTORS PVT LTD	
942	U51101MH1991PTC060888	NAVYUVAK KRISHIUDYOG PVT LTD	
943	U64202PN1999PTC014108	IC COMP TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED	
944	U51909PN1999PTC014008	VIJAYALAXMI ELECTROMECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED	
945	U29299PN1999PTC014117	NIHAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED	
946	U29299PN1999PTC014118	AIRES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	
947	U72200PN1999PTC014120	T-EDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	
948	U29299PN1999PTC014119	CAPELLA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	
949	U45202PN2002PTC017520	CHANDRASHEEL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED SUPRI ADVERTISING AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	
950	U74300PN2002PTC017524	HELIOS INFOTECH PRIVATE LIMITED	
951	U30007PN2002PTC017533	BHAGAWATI FALODDYAN P.LTD.	
952	U01134MH1991PTC064512	VALLABH SALES PRIVATE LIMITED	
953	U51505PN2002PTC017537	PARLI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED ACTION DROPPED***	***560
954	U24232MH1991PTC064399	POKHARAKAR FORGING P LTD	
955	U28910MH1991PTC064353	PAMESH SALES PVT LTD	
956	U63023MH1982PTC028377	CHEMTSU IMPORTERS AND EXPORTERS PVT LTD	
957	U51909MH1983PTC030949	AVIRATNA CONSTRUCTIONS PVT LTD	
958	U45201MH1991PTC062188	MARUTI STEEL TECK PVT LTD	
959	U28111MH1991PTC062993	PARDHE CONSULTANTS PVT LTD	
960	U74140MH1991PTC063195	BENDRE CATALYTIC CONVERTERS PVT LTD	
961	U29231MH1991PTC063888	SHINGOTE ELECTRONIC PVT LTD	
962	U55204MH1983PTC029455	SEAMLESS UNITED ESTATES PVT LTD	
963	U70200MH1991PTC062805	GOLD-STONE PILLARS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	
964	U45202MH1984PTC032759	SPECIAL FUSIONWELD PVT LTD	
965	U51109MH1984PTC033197	POONA INDUSTRIAL GASES PVT LTD	
966	U24111MH1983PTC030383	MUKUND BRICKS AND TILES MANUFACTURING CO PVT LTD	
967	U26921MH1983PTC029275	SHREE TECHNOCRATS COSMETICS PVT LTD	
968	U24246MH1983PTC030481	ACCO PHARMACEUTICALS PVT.LTD.	
969	U24232MH1983PTC029461	MULIKA BAGS MANUFACTURES PRIVATE LIMITED	
970	U25204PN2002PTC017464	INSOLID ELECTRONICS (INDIA) PVT LTD	
971	U51395MH1992PTC065664	JAI JALARAM FABRICATORS PVT LTD	
972	U28112MH1992PTC065559	HARMONY LEATHER CRAFTS PVT LTD	
973	U19202MH1992PTC064717	JUMBO BAG MAKERS PVT. LIMITED	
974	U19129MH1992PTC064899		

975	U31909MH1992PTC064914	WIZARD ELECTRONICS PVT.LTD.
976	U63022MH1992PTC064887	PHOENIX COOLING TOWERS PVT.LTD.
977	U15332MH1991PTC064129	VITSUN POULTRIES PVT.LTD.
978	U25209MH1991PTC064272	NILAY PLASTICS PRIVATE LIMITED
979	U51505PN2002PTC017467	DEEPMALA-RAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
980	U15141PN2002PTC017475	SHREE ASHTAVINAYAK HERBOILS PRIVATE LIMITED
981	U72900PN2002PTC017492	SWAYAMBHU MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
982	U63022PN2002PTC017498	SHREE SHIVSHAKTI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
983	U29299MH1989PTC052884	TWINCITY PROJECTS P LTD
984	U45209MH1989PTC052783	CHINNAPPA CONSTRUCTIONS PVT LTD
985	U51909MH1989PTC052711	SHAHNOOR IMPEX PVT LTD
986	U72200MH1989PTC051904	DHANA-DHARA COMPUTERS AND PROGRAMMERS PVT. LTD.
987	U45201MH1991PTC064490	SARVANAND PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
988	U17119MH1989PTC052208	PENTAGON FABRICATORS PVT LTD
989	U50300MH1991PTC060271	DAMODAR AUTOLINKS P LTD
990	U29302MH1983PTC031372	KANTA STOVES PVT LTD
991	U17239MH1983PTC030682	POLY ROPES PVT LTD
992	U70101MH1991PTC060126	VISTA ESTATE DEVELOPERS PVT LTD
993	U32107MH1988PTC049938	RELI COMP PRIVATE LIMITED
994	U45201MH1988PTC049805	UGAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
995	U31103MH1989PTC053532	MARUTI ELECTRIC MOTORS PVT LTD
996	U29299MH1989PTC052942	RAMCO ENGINEERING P LTD
997	U92199MH1988PTC048914	FANTASY AMUSEMENTS PRIVATE LIMITED
998	U28939MH1988PTC048812	O MICRON GAUGES AND TOOLS PRIVATE LIMITED
999	U51909PN2001PTC016632	GUNRAJ EXIM TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1000	U51497PN2001PTC016631	SIDDHARAM KRISHI PRIVATE LIMITED
1001	U45204PN2001PTC016622	TELE NET CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1002	U45202MH1990PTC054911	SATKIRTI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1003	U74999MH1992PTC064945	PUNE FORGINGS CONSULTANTS PVT LTD
1004	U29248MH1992PTC065209	DYNA SUGARTECH PVT LTD
1005	U26933MH1990PTC055253	JETCO CERAMICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1006	U45202MH1990PTC054898	YUGADI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1007	U27101PN1998PTC012935	OM METALFORM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1008	U70102PN1998PTC012930	SHAYKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1009	U55101PN1998PTC012963	NRA CLUBS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1010	U72900PN2000PTC014936	METALSJUNCTION COM INDIA PRIVATE LIMITED
1011	U50300PN2000PTC014939	POONA PUCH PLAZA PRIVATE LIMITED
1012	U72900PN2000PTC014937	DRIVERSJUNCTION COM INDIA PRIVATE LIMITED
1013	U55101PN1999PTC014304	BHATGHAR RESORTS PRIVATE LIMITED
1014	U15499PN1999PTC014305	HOLISTIC FOODS PRIVATE LIMITED
1015	U31300PN1999PTC014306	MANGALAM CABLE PVT LTD
1016	U14316PN1999PTC014316	ORIGIN INFO TECH PRIVATE LIMITED
1017	U51909PN2000PTC014812	PENTAGON EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1018	U28999PN2000PTC014818	AVINASH KANADE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1019	U45101PN2000PTC014813	KESHAR GHAYAL LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1020	U45101PN2000PTC014816	AT ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1021	U45101PN2000PTC014817	TG CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1022	U55101PN2000PTC014815	SUNITA GHAYAL RESORTS PRIVATE LIMITED
1023	U72200PN2000PTC014823	FORTAN SOFT-TEL PRIVATE LIMITED
1024	U72900PN1999PTC014218	DANFORD SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1025	U70102PN1999PTC014235	AMOL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1026	U01111PN1999PTC014271	PADMAVATI AGROTECH PRIVATE LIMITED
1027	U51432PN1999PTC014283	SHRI ATHARVA TRADING PRIVATE LIMITED
1028	U51432PN1999PTC014283	SHRI ATHARVA TRADING PRIVATE LIMITED

1029	U72200PN1999PTC014289	SHREE COMPUSOFT PRIVATE LIMITED
1030	U24114PN1999PTC014302	MAHESH BENZD TRI CHEM PRIVATE LIMITED
1031	U72200PN2000PTC014836	MIRACLE SOFTWARE DESIGNS PRIVATE LIMITED
1032	U74999PN2002PTC016840	ADITYA SAFTY SERVICES PRIVATE LIMITED
1033	U34300PN1999PTC013566	CHINDY AUTDCOMP PRIVATE LIMITED
1034	U24119PN1999PTC013619	SHIV DUTTA CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1035	U01134PN1999PTC013641	FLDWDEK PRIVATE LIMITED
1036	U65929PN1999PTC013643	ADVENT BUSINESS CREDIT DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
1037	U92199PN1999PTC013644	SOUND OF MUSIC (PUNE) PRIVATE LIMITED
1038	U01122PN2002PTC017513	PADMA NANDINEE AGRICULTURAL AND DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1039	U30007PN2002PTC016781	RAJ COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1040	U55101PN2002PTC016785	GOLDEN ROCK RESORTS PRIVATE LIMITED
1041	U51505PN2002PTC016795	CHAITRALI SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
1042	U74130PN2002PTC016793	RAPID MULTIMARKET RESEARCH PRIVATE LIMITED
1043	U25209PN2002PTC016797	PADMALAYA PLASTICS PRIVATE LIMITED
1044	U63040PN2002PTC016801	HARSHAL TRAVELS PRIVATE LIMITED
1045	U74140PN2002PTC016815	AKIYO CDNSULTANTS PRIVATE LIMITED
1046	U74140PN2002PTC016820	FRESH FORCE BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
1047	U24233PN2002PTC016828	EVERYDAY AYURVEDA PRIVATE LIMITED
1048	U51909PN2002PTC016831	C' NET NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
1049	U63022PN2002PTC016839	SWASTIK COLD STORAGE AND WAREHOUSE PRIVATE LIMITED
1050	U14102MH1990PTC059433	JASA MINTECH PRIVATE LIMITED
1051	U29299PN1999PTC013936	TANIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1052	U72200PN2000PTC014543	RESEARCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1053	U60100PN2002PTC016853	SAI KRUPA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1054	U45202PN1999PTC013977	SHANGRI-LA SHELTERS PRIVATE LIMITED
1055	U27104PN2000PTC014521	AKAR EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
1056	U67120PN2000PTC014511	PHOENIX SHARES AND STOCKS PRIVATE LIMITED
1057	U15143PN2000PTC014510	CHAKAN OIL MILLS PRIVATE LIMITED
1058	U72200PN2000PTC014498	WELLSPRING NETWORKS PRIVATE LIMITED
1059	U22110MH1990PTC059453	PREMIUM PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1060	U15134MH1990PTC059467	GREEN FRUITOLLA FOODS PRIVATE LIMITED
1061	U85110PN1999PTC013883	GAMMAVISION PRIVATE LIMITED
1062	U29299PN1999PTC013928	NIHAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1063	U34300PN1999PTC013932	PMS PRECISION MOTOR COMPONENTS PRIVATE LIMITED
1064	U85110PN1999PTC013934	SHARP HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1065	U29299PN1999PTC013935	SHARON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1066	U15203PN1999PTC013949	GREEN (INDIA) MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1067	U85110PN1999PTC013959	DR R B CHUTKE HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1068	U29299PN1999PTC013926	MIRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1069	U29150MH1990PTC055725	PAWAR STRUCTURES AND CONTROL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
1070	U01111PN1998PTC012637	JEENA-PRADYNA AGROPRODUCTS PRIVATE LIMITED
1071	U72200PN1998PTC012616	NATIVE MARKETING INFORMATION SYSTEMS PVT LTD
1072	U28932PN2000PTC015456	PUJARI TOOLSNES PRIVATE LIMITED
1073	U14753PN2000PTC014753	BAPJI FARMS PRIVATE LIMITED
1074	U72200PN2000PTC014758	ITCOMSYS PRIVATE LIMITED
1075	U51909PN2000PTC015426	INOUS EVENTS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
1076	U24231PN2001PTC016135	PHARMA RETAILERS LIMITED
1077	U74999PN1998PTC012688	RENUKA CABLES PRIVATE LIMITED
1078	U45202MH1998PTC114233	HAPPY HOME ESTATE PRIVATE LIMITED

1079	U65999PN2000PTC015459	POONA STOCK AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
1080	U72200PN2000PTC015458	SOFTORIA INFOTECH PRIVATE LIMITED
1081	U31103PN2000PTC015466	POWERMATCH PRIVATE LIMITED
1082	U31909PN2000PTC015464	GROUP ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1083	U67120PN2000PTC014736	MSM SECURITIES PRIVATE LIMITED
1084	U92141PN2000PTC014722	TEAM WORK PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
1085	U22130PN2000PTC015437	WORLDWAYS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
1086	U55101PN2000PTC014731	TAPOLA-MAHABALESHWAR RESORTS PRIVATE LIMITED
1087	U51909PN1999PTC013632	S R S THERMITS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1088	U15209PN1998PTC012949	ZUTIDA FOODS PRIVATE LIMITED
1089	U25191PN1999PTC013450	SHIVANI PIPE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1090	U72200PN1999PTC013451	BARON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1091	U25209MH1990PTC059612	NEAPY KABLES AND ALLIED INDUSTRIES P LTD
1092	U01122MH1989PTC054352	ANUSHKA FARMS PRIVATE LIMITED
1093	U70102PN2002PTC016838	AMBER REALTY PRIVATE LIMITED
1094	U28939PN2000PTC015434	KESHAVACHARYA SWAMI ABHIYANTRI PRIVATE LIMITED
1095	U51909PN2000PTC014761	ASHWAMEGH MARKETING PRIVATE LIMITED
1096	U29299PN2000PTC015424	SHREE NATH ENGINEERING AND WORKS PRIVATE LIMITED
1097	U25209MH1988PTC049210	SHILPROOF PLASTICS PRIVATE LIMITED
1098	U72200PN2000PTC014949	KADAM BROTHERS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1099	U67120PN2001PTC016263	HOME TRADE ONE LIMITED
1100	U51221PN1999PTC013843	RA-SHI KRISHI PRIVATE LIMITED
1101	U70101PN1999PTC013623	ZAK REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1102	U72200PN2000PTC014828	MERCURY MICRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1103	U72200PN2000PTC014941	NETPULSE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1104	U70102PN1999PTC014278	THORAT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1105	U55101PN2002PTC016913	AVANTI RESORTS PRIVATE LIMITED
1106	U72200PN2000PLC014729	SANT INFOTECH LIMITED
1107	U51221PN2001PTC016191	NAVKOKAN FOOD AND FRUIT INDIA LIMITED
1108	U72200PN2002PTC016889	HRIGVEDA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1109	L72200PN2001PLC016120	TECHNOSOFT NG LIMITED
1110	U55101MH1989PTC050826	SAI HIGH-WAY MOTEL PVT LTD
1111	U15242PN1999PTC013281	SHRI DATTA SHETKARI SAKHAR KARKHANA LIMITED
1112	U52335PN1998PTC012852	PRV ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
1113	U72100PN1998PTC012833	SIMMAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1114	U29292MH1989PTC052731	GONDIL FOUNDRY S PVT LTD
1115	U24233PN2000PTC015601	HERBO-MINERAL PHARMA PRIVATE LIMITED
1116	U74999PN2000PTC015518	PARMJYOT PROMOTION MRKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1117	U31200PN2000PTC015538	DMS CONTROLS PRIVATE LIMITED
1118	U72200PN2000PLC015549	DISCOVER TECHNOLOGIES LIMITED
1119	L17111PN2000PLC015575	SANTOSH GINNING AND PRESSING MILLS LIMITED
1120	U72200PN1999PLC014132	SUPRA INFOSYS LIMITED
1121	U72200PN1999PTC013522	CALAMUS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1122	U28112MH1989PTC053890	GRACE FABRICATIONS P LTD
1123	U74210MH1989PTC054076	ULTRAMATIX TECHNOLOGIES P LTD
1124	U29299PN1999PTC014137	GUNE IRRIGATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1125	U72200PN2000PTC014769	WebThought TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1126	U72200PN2000PTC014747	SAM SOFTWARE VENTURES PRIVATE LIMITED
1127	U55101PN2000PTC015487	ANNPURNA ASHUTOSH HOTELS PRIVATE LIMITED
1128	U45203PN2000PTC015494	SAGUNAMATA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1129	U36999PN1999PTC013995	BALAJI ADHESIVE TAPES PRIVATE LIMITED
1130	U23209PN1999PTC013998	M S PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
1131	U62100PN2000PTC014770	AIRWAYS PRIVATE LIMITED

1132	U01211PN2000PTC015484	SAI DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
1133	U92199PN2000PTC015469	MISSION EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1134	U24246PN2000PTC015479	PADMASHRI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1135	U74950PN2000PTC014950	KAMAL FLEX PACK PRIVATE LIMITED
1136	U74140PN2000PTC014778	SKT COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1137	U01111PN2000PTC014765	NEERA VALLEY AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1138	U51909PN2000PTC014755	TIRUMALAM IMPORTER AND EXPORTER PRIVATE LIMITED
1139	U72200PN2000PTC014793	SILICON SOFTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
1140	U01111PN2000PTC014796	SANMITRA KRISHI UDYOG PRIVATE LIMITED
1141	U15421PN2000PLC014788	HANUMAN SAKHAR KARKHANA LIMITED
1142	U60100PN2000PTC014529	METRO TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
1143	U70102PN2000PTC015429	FENG SHUI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1144	U63022PN2000PTC015444	CAJOLE DEVELOPERS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1145	U15203PN1999PTC013988	NANDAN MILK AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1146	U72200PN1999PLC014136	CADONIX INFOSYSTEMS LIMITED
1147	L25129PN1999PLC013516	SHRI SAIKRUPA BIOFERTILIZERS LIMITED
1148	U31909PN1999PTC013517	KAUSHIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1149	U70101PN1999PTC013508	MAHATAPAS ESTATES PRIVATE LIMITED
1150	U25209PN2000PTC014432	DAVIS-STANDARD PLASTICS EXTRUSION PRIVATE LIMITED
1151	U17309PN2000PTC014481	TAJ'S KNIT PRIVATE LIMITED
1152	U60210PN2000PTC014754	NAVANI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1153	U92132PN2002PTC016854	PUNE TEAM VISION COMMUNICATIONS LIMITED
1154	U51103PN2002PTC016844	ATCON AGRO-TECH IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED
1155	U72900PN2000PTC015490	ORION WEB SURVEYS PRIVATE LIMITED
1156	U15424PN2000PLC014514	CHATURVEDESHWAR SAKHAR KARKHANA LIMITED
1157	U92419PN2000PTC014407	CELEBRITY HILLS GOLF CLUB PRIVATE LIMITED
1158	U01112PN1998PTC012830	HANSRAJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
1159	U51909PN1999PTC013439	YASHOMALA IMPEX PRIVATE LIMITED
1160	U29299PN2001PTC016088	SACHE LEBEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1161	U22110PN2001PTC016058	PHOENIX PUBLICATIONS LIMITED
1162	U51909PN1999PTC013670	WOVENTEX EXPORTS PRIVATE LIMITED
1163	U15424PN1999SGC013399	S R SHINDE BROTHERS SUGAR INDUSTRIES LIMITED
1164	U92412PN1999PLC013396	SATARA SPORTS AND CLUBS LIMITED
1165	U15424PN1999PLC013678	DEVDAIRI SAKHAR KARKHANA LIMITED
1166	U72200PN1999PTC013425	CONCOURD SOFTWARE SYSTEM (INDIA) PRIVATE LIMITED
1167	U15424PN1999PTC013215	TRIVENI SANGAM SUGAR MILLS LIMITED
1168	U25209PN1999PTC013226	SANSAC ORTHO PLAST PRIVATE LIMITED
1169	U01111PN1999PTC013241	KAMAL AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
1170	U17111PN1999PLC013248	SOBER SPINNING AND WEAVING MILLS LIMITED
1171	U74140PN2000PTC014605	CHANGE REENGINEERING PRIVATE LIMITED
1172	U18101PN1999PTC013721	NIHON APPAREL PRIVATE LIMITED
1173	U24119PN1999PTC013884	VEDCHEM COMPOSITIONS PRIVATE LIMITED
1174	U24233PN1999PLC013269	VAGBHAT AYURVED NIKETAN LIMITED
1175	U55101PN1999PTC013355	HOTEL SALUNKHE PRIVATE LIMITED
1176	U63040PN1998PTC012923	ALLISON BROTHERS TOURS AND TRAVELS PVT LTD
1177	U74140PN2002PTC017373	VARAD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1178	U74140PN2002PLC017368	NATURENEED BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT LIMITED
1179	U55204PN1999PLC014140	SONU CATERING LIMITED
1180	U45202PN2002PTC017167	D S Y BUILDERS PRIVATE LIMITED
1181	U55101PN2002PTC017439	ANAND MOTELS PRIVATE LIMITED
1182	L74140PN2001PLC016349	WESTMONT CAPITAL ADVISORS LIMITED

1183	U72200PN2002PTC017060	ORIENTAL INFOCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1184	U72900PN2000PTC015493	SHARDIYA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1185	U01222MH1988PTC048100	POULTRY FIELDS PVT LTD.
1186	U15143PN2002PTC017070	HANUMANT AGRO AND OIL EXTRACTION PRIVATE LIMITED
1187	U24233PN2000PTC015134	HERBICO PHARMA PRIVATE LIMITED
1188	U55101PN2000PTC014953	TORNA HILLSTATIONS HOTELS PRIVATE LIMITED
1189	U72240PN2000PTC014357	RAJ SOFT-TECH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1190	U15203PN2002PTC016884	MAYURESHWAR DAIRY PRIVATE LIMITED
1191	U30007PN2000PTC015407	SUN SOFT INDIA PRIVATE LIMITED
1192	U21091PN1999PTC013597	KUSUM KONES PRIVATE LIMITED
1193	U30007PN2000PTC015418	SAITECH BUSINESSLINK PRIVATE LIMITED
1194	U55101PN2000PTC014967	SUNRISE VALLY RESORT AND DEVELOPER PRIVATE LIMITED
1195	U29299PN1999PTC013985	TOLIMAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1196	U64202PN1999PTC013984	CELL-WAVE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1197	U85320PN2001GAP016266	LIFE AND HOPE INTERNATIONAL FOUNDATION
1198	U15421PN2001PTC016429	ANANDRUSHIJI SAKHAR KARKHANA LIMITED
1199	U64202PN2002PTC016992	APNA TELECOMMUNICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
1200	U15421PN2001PLC015800	SINDHUDURG ZILHA SUGAR AND AGRO PRODUCTS LIMITED
1201	L01115PN1999PLC013549	PUNDLIK SUGARCANE PRODUCTS LIMITED
1202	U45202PN2001PTC016095	TULJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1203	L15424PN1999PLC013550	OMSAINATH SAKHAR KARKHANA LIMITED
1204	L15421PN1998PLC013057	BABURAO PATIL SUGAR MANUFACTURING LIMITED
1205	U29299PN1999PTC013288	SHRM ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
1206	U15424PN1999PLC013283	DEVMOGARA SAKHAR KARKHANA LIMITED
1207	U51311PN1998PTC012801	SHREEKRISHNA WEAVING MILLS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1208	U29299PN1999PTC013445	APV TECHNO SALES PRIVATE LIMITED
1209	U74140PN1998PTC012763	DAS PROJECT SERVICES PRIVATE LIMITED
1210	U01211PN2000PTC015402	AGRO REVOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1211	U32309PN2000PTC015452	RAP MUSIC PRIVATE LIMITED
1212	U55101PN2000PTC015442	PURVA HOTELS PRIVATE LIMITED
1213	U51432MH1989PTC054518	AGARWAL SANGEMARMAR UDYOG PRIVATE LIMITED
1214	U15203PN1999PTC013991	WHITE MEADOWS FOODS PRIVATE LIMITED
1215	U70102PN1998PTC012851	HI-PAN REALTY PRIVATE LIMITED
1216	U72200PN1998PLC012889	TRIVENI INFORMATION SYSTEMS LIMITED
1217	U45201PN2000PTC015622	GOEL GANGA BUILDCON PRIVATE LIMITED
1218	U72200PN2001PTC015727	ANORAK TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1219	U50102PN2001PTC015696	SUYASH CONCEPTS PRIVATE LIMITED
1220	U15511PN2000PTC014664	ATLAS LIQUORS PRIVATE LIMITED
1221	U24231PN1998PTC013012	LAXMAN REMEDIES PRIVATE LIMITED
1222	U29119MH1988PTC048919	SPARK HYDRO PNEUMATICS PRIVATE LIMITED
1223	U15424PN2000PTC014955	SHRIJYOTIRLING GUL AND KHANDSARI PRIVATE LIMITED
1224	L15424PN1999PLC013563	SHRI SHAMBHU MAHADEO SUGAR MILLS LIMITED
1225	L15424PN1999PLC013371	BHAGIRATHI SUGAR INDUSTRIES LIMITED
1226	U63011PN2001PTC016594	OM SAI CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED
1227	U45202PN2001PTC016337	A V APTE CONSTRUCTION CO. PRIVATE LIMITED
1228	U45201MH1989PTC051715	MOHOL BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
1229	U45201MH1989PTC051414	KATARIYA BUILDERS PVT LTD
1230	U18101MH1990PTC055425	SARATOGA READY TO WEAR PRIVATE LIMITED
1231	U72200PN2001PTC016155	DERIVATIVES TECHNOLOGIES RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1232	U51909PN2002PTC017460	ANKITA SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED

1233	U34102MH1990PTC055030	SAHYDRI MOTORS PRIVATE LIMITED
1234	U93090MH1990PTC055641	SHERLEKAR SUITINGS PRIVATE LIMITED
1235	U52999PN2000PTC015480	SWAPNAPURTI MARKETING NETWORK PRIVATE LIMITED
1236	U15139PN2000PTC014785	KHED FOODS PRIVATE LIMITED
1237	U52334MH1988PTC049665	REENA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1238	U51501MH1994PTC079376	KORGAONKAR-PATIL EXPORTS PRIVATE LIMITED
1239	U02001MH1994PTC079503	TREE-GOLD AGRO DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
1240	U15209MH1994PTC079167	YEAST-CULT AGRO PROCESSORS PVT LTD
1241	U55101MH1994PTC079009	SOMJEE HOTELS P LTD
1242	U24331MH1994PTC078909	QUALIFIED CHEMICALS P LTD
1243	U51909MH1994PTC078699	SHWETA BEARINGS P LTD
1244	U60100MH1994PTC078659	JAYASHREE OVERSEAS P.LTD.
1245	U45201MH1994PTC078532	SIMONNE BUILDERS AND DEVELOPES PVT LTD
1246	U01409MH1994PTC078365	OM SHIV-SHAKTI CASHEW PRODUCTS P LTD
1247	U45201MH1994PTC078346	IMPERIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1248	U40200MH1994PTC078344	SOUTH INDIA GAS REFILLERS P LTD
1249	U55101MH1994PLC078321	RATNAPRABHA HOTELS P LTD
1250	U15544MH1994PTC078082	SONIYA ICE AND COLD STORAGE P LTD
1251	U51505MH1994PTC078001	UTTUNG ENGINEERS P LTD
1252	U51909MH1994PTC079040	SANGLI GRAPES AND AGRO EXPORTS P.LTD.
1253	U51909MH1994PTC079943	SAPRE MULAY AUTOPLOTTERS PRIVATE LIMITED
1254	U51215MH1994PTC076715	SAMPADA TISSUE PLANTS PLTD
1255	U17299MH1994PLC081867	KITSONS SPINNERS LIMITED
1256	U15142MH1993PTC072406	RICINUS LABORATORIES PVT.LTD.
1257	U33130MH1988PTC048889	DIGHE ELECTRO SYSTEM PVT LTD
1258	U29120MH1988PTC048565	MINOR IRRIGATION EQUIPMENTS PVT LTD
1259	U45201MH1988PTC048296	PRARAMBH BUILDERS PRIVATE LIMITED
1260	U28999MH1989PTC051597	MASKORT ENGINEERS PVT. LTD
1261	L24129PN1999PLC013309	JAGANNATH AGROTECH LIMITED
1262	U15316PN1998PTC012599	NIRMAL STAPLE FOODS PRIVATE LIMITED
1263	U29119MH1993PTC070725	AJAY AQUATECH PVT LTD
1264	U15499MH1993PTC070830	THAKARSI FOOD PRODUCTS PVT LTD
1265	U45500MH1993PTC070847	MODY CONSTRO MATERIALS PVT.LTD.
1266	U64120MH1993PTC070897	GOLD MEDIA COURIERS PVT.LTD.
1267	U24222MH1993PTC070926	VIJAYA PAINTS PVT.LTD.
1268	U29306MH1994PTC078192	SHIKAR THERMOPLAST PRIVATE LIMITED
1269	U15147MH1994PTC078696	HIRANYAKESHI PANCHGANGA DUDH UTPADAK P LTD
1270	U01222MH1993PTC070951	KWALITY BROTHERS PVT.LTD.
1271	U24222MH1993PTC070939	KANCHANGANGA AGRO-INDUSTRIES PVT.LTD.
1272	U63022MH1993PTC070964	SUNRISE FROZEN EATABLES PVT.LTD.
1273	U75201MH1993PTC070970	AVAM ELECTRO EXIM PVT.LTD.
1274	U25209MH1993PTC070992	YASHASWI POLYMER MARKETING PVT LTD
1275	U27310MH1993PTC071048	SHANTI IRONS PVT LTD
1276	U74300MH1993PTC071070	TRACK ADVERTISING AND SERVICES PVT LTD
1277	U29309MH1993PTC071154	METAL SHAPERS (INDIA) PVT.LTD.
1278	U74140MH1993PTC071156	SURYA TECHNICAL CONSULTANTS PVT.LTD.
1279	U24134MH1993PTC071212	SWADESHI POLYMERS AND ADHESIVES PVT.LTD.
1280	U22110MH1993PTC071415	MITSLASER PUBLISHERS AND PRINTERS PVT LTD
1281	U25209MH1993PTC071404	GALORE PLASTICS PVT LTD
1282	U72200PN2000PTC014862	NIRMITTEE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1283	U45201MH1996PTC098336	SSB PROPERTIES CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1284	U28133MH1994PTC080401	FOURTIN CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1285	U35999MH1994PTC080261	DEEPAK AND COMPANY AUTO PRESS MANUFACTURERS PVT LTD

1286	U45201MH1994PTC079988	INDRAPRASTHA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1287	U45202PN2002PTC017441	ABHIJEET SHELTERS PRIVATE LIMITED
1288	U51909PN2002PTC017435	LIFE TIME CONSUMER GOODS MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
1289	U51505PN2002PTC017438	CHIPLUN ELECTRIC AND ELECTRONICS SERVICES PRIVATE LIMITED
1290	U29299PN2002PTC017432	KADAM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1291	U25202PN2002PTC017430	VAIDYANATH PLAST PRIVATE LIMITED
1292	U52110PN2002PTC017415	VISHNUVAIBHAV GROCERY SERVICES PRIVATE LIMITED
1293	U24115MH1990PTC057177	INDO NM RESIN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1294	U70102PN2002PTC017083	KINARA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1295	U45202MH1990PTC057123	SURAJ ERECTORS PRIVATE LIMITED
1296	U15142PN2002PTC017087	SHIVANI OIL MILLS PRIVATE LIMITED
1297	U45202PN1999PTC014277	CHANDRA ERECTORS PRIVATE LIMITED
1298	U24299MH1990PTC057473	DURGA CHEMICAL CO P LTD
1299	U27105MH1995PTC094294	SHRI TULJABHAVANI STEEL TUBES PRIVATE LIMITED
1300	U45209MH1990PTC057571	PEDNEKAR BUILDERS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1301	U33205MH1995PTC094373	CHIPS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1302	U01122MH1990PTC057086	NAVADEEP KRISHI PURAK UDYOG SAMUH PRIVATE LIMITED
1303	U65192MH1995PTC094341	VIJAY SAKHALA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1304	U45202MH1990PTC057382	HERAMBH BUILDERS PRIVATE LIMITED
1305	U72200PN1999PTC013873	VK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1306	U74300PN1999PTC013856	ACE ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1307	U74140PN1999PTC013854	SONATA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1308	U29251PN1999PTC013835	IDEAL PROCESS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1309	U31909MH1989PTC053974	FUNKTION MODULES PUNE PRIVATE LIMITED
1310	U51434PN1999PTC013857	STUCCO PAINT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1311	U51434PN1999PTC013855	UTKARSHA GRAPHIC SALES PRIVATE LIMITED
1312	U51103PN1999PTC013858	PARMATECH HEAT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1313	U51393PN1999PTC013829	SEWAGIRI TRADING PRIVATE LIMITED
1314	U15204PN1999PTC013833	UTTARESHWAR DAIRY PRIVATE LIMITED
1315	U51228MH1991PTC061341	FERNANDES AND SONS (LIQUOR) PRIVATE LIMITED
1316	U29199MH1991PTC061157	NOVAMATIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1317	U02001MH1991PTC061117	GREEN MAKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1318	U74920PN1998PTC013056	TRISHAKTI SECURITY PRIVATE LIMITED
1319	U72200PN2002PTC017057	SHREEJI NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1320	U72200MH1995PTC094632	SWAYAM COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1321	U31909MH1990PTC056971	K.B. TIWARI ELECTRICALS COMPANY PRIVATE LIMITED
1322	U24239MH1990PTC057628	SHRIRAJ PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1323	U29299MH1990PTC057993	VIJSUN ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1324	U01117MH1995PTC094614	GREEN FIELDS RESORTS MARKETING PRIVATE LIMITED
1325	U51909MH1995PTC094428	NAYAK SONS (AGENCIES) PRIVATE LIMITED
1326	U45202MH1990PTC058092	SATARA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1327	U21099MH1993PTC070839	SWASTIK PAPER CONVERTERS AND PRINTERS PVT LTD
1328	U15326MH1994PTC078194	KALIKAMATA OIL MILL P LTD
1329	U51909MH1994PTC078155	GROWELL BIOTECHNOLOGIES P LTD
1330	U74999MH1994PTC078188	UNICO TECHNOCRAFT P LTD
1331	U55101MH1993PTC071453	HOTEL DUCHEES PVT LTD
1332	U25209MH1993PTC071409	SURYA ADHESIVES PVT LTD
1333	U15204MH1993PTC070998	RAMA MILK PVT LTD
1334	U01111MH1993PTC070949	BHANDE PATIL AND SONS PVT LTD
1335	U29199MH1994PTC078233	TARAHANG ENGINEERING P.LTD.

1336	U72200MH1992PTC068318	DEERAN DIGITAL PRODUCTS PVT LTD
1337	U63023MH1993PTC071988	TALERA WAREHOUSING PVT LTD
1338	U28991MH1993PTC070777	DASHMESH FASTNERS COMPANY PVT LTD
1339	U29296MH1993PTC075438	DUMEC INDIA P LTD
1340	U51505MH1994PTC079889	SAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
1341	U63040MH1994PTC079820	CITY CAB TRAVELS PRIVATE LIMITED
1342	U29307MH1991PTC061632	SOLAR ILLUMINATORS PRIVATE LIMITED
1343	U21093MH1994PTC081480	STERLING TECHNO KRAFT VENTURES PRIVATE LIMITED
1344	U15423MH1994PTC081398	ALANKAR NAISARGIK SAKHAR AND GUL PROCESS PRIVATE LIMITED
1345	U15544MH1994PTC081312	SANGLI ICE FACTORY PRIVATE LIMITED
1346	U15544MH1994PTC081310	SHRI GANESH ICE FACTORY PRIVATE LIMITED
1347	U15424MH1994PTC081318	KRISHNAI SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED
1348	U25111MH1994PTC080796	SLEEK RUBBER PRIVATE LIMITED
1349	U45201MH1994PTC080493	RINGLING HOTELS AND RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
1350	U29309MH1994PTC080464	NIYANTA ENGINEERING AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1351	U15431MH1993PTC075346	OSHO SWEET KISS CONFECTION COSMETICS P.LTD.
1352	U29199MH1993PTC075261	KIRAN COTEX PRIVATE LIMITD
1353	U14102MH1993PTC075224	SHAILAJA MINERALS PRIVATE LIMITED
1354	U27109MH1993PTC075154	SAAKAR PRECISION TOOLS PRIVATE LIMITED
1355	U92413MH1993PTC075055	GOLD HEALTH CLUBS AND RESORTS PVT LTD
1356	U15422MH1993PTC074831	KADGAON SUGAR WORKS PVT LTD
1357	U72999MH1994PTC082256	ULTRA SCIENTIFIC AND SURGICAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1358	U74999MH1994PLC082099	EEL TECHNICAL SERVICES AND EXPORTS LIMITED
1359	U01403MH1994PTC082119	KORDE AGRICULTURAL COMPANY PRIVATE LIMITED
1360	U24219MH1994PTC081673	SPELLBOUND COATS PRIVATE LIMITED
1361	U15419MH1994PTC081559	BHAGY LAXMI TINY SUGAR CUM GAGGERY PLANT PRIVATE LIMITED
1362	U33111MH1994PTC081476	STREAMLINE POOLS AND FITNESS PRIVATE LIMITED
1363	U51507MH1994PTC079917	BIOVISION DRUGS AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
1364	U29196MH1994PTC080346	KARHA IRON WORKS PRIVATE LIMITED
1365	U51397MH1993PTC075444	ALERT MARKETING P LTD
1366	U32109MH1993PTC075389	XCHANGERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1367	U50103MH1993PTC075711	MAHADEO TRANSPORT P LTD
1368	U29305MH1994PTC075978	KUMAJO ELECTROHEAT SYSTEMS P LTD
1369	U45202MH1994PTC076045	BHAGWATI SUPPLY VESSEL REPAIRS AND LOGISTICS SERVICES PRIVATE LIMITED
1370	U19201MH1994PTC076366	CREATIVE FOOTWEAR P LTD
1371	U72501MH1994PTC076665	COKO INFORMATICS P LTD
1372	U27104MH1994PTC076851	FLORA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1373	U26959MH1994PTC076919	OMKAR TILES AND CEMENT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1374	U01220MH1994PTC076936	UTTARA FARMING AND TRADING PRIVATE LIMITED
1375	U15421MH1994PTC077159	SHRI MALLIKARJUN SUGARCANE PROCESS P LTD
1376	U15421MH1994PTC077178	SHIVPARVATI SUGARCANE PROCESS P LTD
1377	U45203MH1994PTC077229	ARCONS ARCHITECTURAL CONSTRUCTORS (INDIA) P LTD
1378	U15142MH1994PTC077352	DILIP OIL MILLS PRIVATE LIMITED
1379	U52110MH1994PTC077390	NILCHIN OVERSEAS PRIVATE LIMITED
1380	U72200MH1994PTC077536	ADAPT COMPUTERS P LTD
1381	U31309MH1994PTC077766	DASNURKAR ARCHITECTS P LTD
1382	U31300MH1994PTC076574	PRASAD WIRES AND CABLES PLTD
1383	U54421MH1994PTC077952	GANGASAGAR SUGARCANE PROCESS P LTD

1384	U33201MH1994PTC078063	CREST FIBRE GLASS P LTD
1385	U15421MH1994PTC076058	SHRI VITTHAL SUGAR CANE PROCESS PRIVATE LIMITED
1386	U22110PN1999PTC013662	SUN INTERACTIVE AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
1387	U01403MH1993PTC070542	LAXMI WASTELAND AND FARMS DEVELOPMENTS PVT. LTD.
1388	U45201MH1993PTC070377	NU-TEK CONSTRUCTION AND ENGINEERS PVT LTD
1389	U26101MH1993PTC070365	DESIGNER GLASS INDUSTRIES PVT LTD
1390	U24134MH1993PTC070317	ABHINAV POLYMER RESINS PVT. LTD.
1391	U51909MH1992PTC070126	CARE LINK MARKETING PVT LTD
1392	U28999MH1992PTC070037	WAGHOLE ENGINEERING PVT LTD
1393	U24222MH1992PTC069953	MARSHAL PAINTS PVT. LTD.
1394	U74991MH1992PTC069786	SHANKAR RAMCHANDRA AUCTIONEERS PVT. LTD.
1395	U15142MH1992PTC069663	LAUKIK AGRO OILS P. LTD.
1396	U74300MH1992PTC069574	MERIDIAN AD-CREATIONS PVT LTD
1397	U24224MH1992PTC068697	NAVANITLAL PAINTS PVT LTD
1398	U15419MH1994PTC079550	JYOTIBA SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED
1399	U01311MH1994PTC079684	RATNAGIRI KRISHI VIKAS ANI PRAKRITYA COMPANY PRIVATE LIMITED
1400	U51909MH1993PTC070548	WESCON IMPEX PRIVATE LIMITED
1401	U29254MH1994PTC079674	AKSHAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1402	U51505MH1994PTC079723	QUALITY MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1403	U15423MH1994PTC079842	SHRI SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED
1404	U25209MH1993PTC075473	MYSTICAL PLASTICS P LTD
1405	U45203MH1993PTC075543	MEGHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1406	U74210MH1993PTC075620	SAMYAK ENGINEERING P LTD
1407	U25202MH1993PTC070883	JAWAS PACKAGING PVT. LTD.
1408	U17116MH1994PLC082016	SHIVARAJ COTSPIN LIMITED
1409	U74140MH1994PTC084048	STARBASEPLUS CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1410	U15127MH1994PTC083251	AMBROSIA AGRO INDUSTRIES LIMITED
1411	U18104MH1995PTC084736	ARIANO ELEGANZA PRIVATE LIMITED
1412	U72200MH1992PTC065906	MICROMAC SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1413	U51433MH1994PTC084051	CERAMIC MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
1414	U74999MH1995PTC087741	GTM IMPEX PRIVATE LIMITED
1415	U01134MH1995PTC084443	TRILOCHAN NATURAL FARMS PRIVATE LIMITED
1416	U15143MH1995PTC084473	ABHAY FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1417	U29120MH1995PTC084497	ARM CONTROLS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1418	L15549MH1995PLC084625	G K SARAF BREWERIES LIMITED
1419	U32209MH1995PTC084602	INFOBANN COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1420	U28910MH1995PTC084715	KHURJEKAR ENGINEERING AND FABRICATION COMPANY PRIVATE LIMITED
1421	U15549MH1994PTC082496	ALPOPAHAR FOODS PRIVATE LIMITED
1422	U15419MH1994PTC082398	BIBADI FASTOOD PRIVATE LIMITED
1423	U51909MH1994PTC082764	SATBHAI IMPORT AND EXPORT PRIVATE LIMITED
1424	U34102MH1994PTC082987	GASOLINE ANCILIARY DEVELOPMENT INDUSTRY PRIVATE LIMITED
1425	U29120MH1992PTC067543	KRIPA INDUSTRIES (INDIA) LTD
1426	U36942MH1992PTC067552	LEGEND TOYS PVT LTD
1427	U31200MH1992PTC067655	BBTT INDUSTRIAL CONTROLS PVT LTD
1428	U55101MH1992PTC066846	PRANAV HOTELS PVT LTD
1429	U28999MH1992PTC067061	PERFECT WIRE INDUSTRIES PVT LTD
1430	U45201MH1992PTC067081	MULTIPLE MAKERS AND PROPERTIES PVT. LTD.
1431	U70101MH1996PTC096926	PARANJPE HOMES PRIVATE LIMITED
1432	U25209MH1995PTC092566	SANKALP POLYMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1433	U24293MH1995PTC091358	AKANKSHA CHEMICALS AND OILS PRIVATE LIMITED

1434	U67120MH1995PTC088851	PANCHKALYANK STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
1435	U27320MH1995PTC089071	INDUCTION MELTINGS PRIVATE LIMITED
1436	U31909MH1995PTC089060	UGAM SYSTEMS AND CONTROLS PRIVATE LIMITED
1437	U25206MH1995PTC089208	SUMY POLYMERS PRIVATE LIMITED
1438	U99999MH1995PTC091454	ERGOTECH STUDIO PRIVATE LIMITED
1439	U36101MH1995PTC090156	SAMMED PLYWOOD PRIVATE LIMITED
1440	U01122MH1995PTC092362	FRANKEES AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1441	U24229MH1995PTC088378	JAGANNATH K.PHARMA FLUIDS PRIVATE LIMITED
1442	U74999MH1995PTC089315	APEX INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
1443	U11190MH1995PTC090316	SONKET STUD AND AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1444	U45102MH1995PTC090186	V A DATA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1445	U29297MH1995PTC090253	INNOCON PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
1446	U62100MH1995PTC090025	CHOUDHARY AIRWAYS PRIVATE LIMITED
1447	U72900MH1995PTC090018	FRONTRANKERS MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
1448	U63040MH1995PTC089791	ALPINE TOURISM PRIVATE LIMITED
1449	U29307MH1995PTC089771	NEW ESEM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1450	U25200MH1995PTC090152	SUMO PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1451	U65991MH1995PTC085534	ABEE SHARES AND STOCK INDIA PRIVATE LIMITED
1452	U63040MH1995PTC091265	SHRIMAN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1453	U29219MH1995PTC089984	DWART AGROTECH PRIVATE LIMITED
1454	U72900MH1995PTC088813	ONLINE CLUB CONCEPT PRIVATE LIMITED
1455	U24219MH1995PTC088682	HARSH FERTILISERS AND AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1456	U51102MH1995PTC088022	SIDDHI GAS AGENCY PRIVATE LIMITED
1457	U51909MH1995PTC088787	URONICA MARKETING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1458	U74999MH1995PTC088489	RAVINA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1459	U29100MH1995PTC088163	DALE AUTOMATION (INDIA) PRIVATE LIMITED
1460	U17220MH1995PTC088196	SUNIDRA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1461	U27104MH1995PTC088913	VIBHUJA STEELS PRIVATE LIMITED
1462	U63040MH1995PTC089536	MAMANJI KARIM TRAVELS PRIVATE LIMITED
1463	U65929MH1995PLC087225	RAJPAL CREDIT AND CAPITAL LIMITED
1464	U15201MH1995PTC087412	SHREE ANNAPURNA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1465	U55101MH1995PTC087188	KURUP HOTELS PRIVATE LIMITED
1466	U21012MH1995PTC088882	PETRON HANDMADE PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1467	U24232MH1995PTC087230	TRANS STERILE PARENTALS PRIVATE LIMITED
1468	U29254MH1995PTC087813	XCHANGERS MANUFACTURING COMPANY P LIMITED
1469	U26914MH1995PTC087847	CERAMICA ROMA PRIVATE LIMITED
1470	U22212MH1995PTC091251	ADVENT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1471	U74900MH1995PTC088078	VRONICA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1472	U01122MH1995PTC092991	MALNAD AGRO FARM PRIVATE LIMITED
1473	U01211MH1995PTC089735	GANESH AGRO AND MILK PROCESSING PRIVATE LIMITED
1474	U28910MH1995PTC094014	CALIBRE PRESSINGS PRIVATE LIMITED
1475	U01122MH1995PTC088802	EVERGREEN MEADOWS HORTICULTURE PRIVATE LIMITED
1476	U01222MH1995PTC089227	ESCADRE AGROFARMS PRIVATE LIMITED
1477	U74999MH1995PTC088456	UNITED BOOKS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
1478	U15499MH1995PTC090518	EVER FRESH INSTANT FOODS PRIVATE LIMITED
1479	U51909MH1995PTC090265	ANISH MARKETING PRIVATE LIMITED
1480	U74950MH1995PTC089556	INDUSTRIAL PARCEL SERVICES PRIVATE LIMITED
1481	U51909MH1995PTC090755	SAMARTH WIRELESS SALES PRIVATE LIMITED
1482	U14109MH1995PTC087861	MULTI MINERALS AND MINING PRIVATE LIMITED
1483	U63090PN2002PTC017051	LOKMANGAL TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
1484	U31909MH1990PTC058045	MICRO-COMPUTER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

1485	U51909PN2002PTC017058	SHRI DATTAKRIPA MARKETING PRIVATE LIMITED
1486	U74140MH1991PTC061309	SURYODAY FINMARK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1487	U45201MH1990PTC055465	SAMANT SONS PRIVATE LIMITED
1488	U24224MH1989PTC051603	KARVEER DYES INTERMEDIATES PVT LTD
1489	U51229MH1990PTC057471	KETUS EXPORTS PRIVATE LIMITED
1490	U24232MH1990PTC057117	PUSHPANJLI CHEMO PHARMA PRIVATE LIMITED
1491	U51909PN2002PTC017081	C AND L EXPORT AND IMPORT PRIVATE LIMITED
1492	U72900PN2002PTC017398	PROCESSOR ALGORITHMS RESEARCH AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1493	U31909MH1994PTC079981	VEENOO EQUIPMENTS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1494	U51395MH1992PTC068419	ACORN ELECTRONICS PVT.LTD.
1495	U15531MH1993PTC075447	KWALITY BREWERIES P LTD
1496	U28939MH1992PTC068646	NAVCOM TOOLS AND DIES PVT LTD
1497	U31200MH1992PTC068698	ELVINA TEST CONTROL EQUIPMENTS PVT LTD
1498	U45209MH1988PTC047919	KOOL ROW HOUSES PRIVATE LIMITED
1499	U72200MH1988PTC048090	BRAINWARE SOFTWARE PVT LTD
1500	U33130MH1992PTC068898	WESTERN CONTROL SYSTEMS PVT.LTD.
1501	U55101MH1992PTC068906	PANTSACHIV HOTELS PVT LTD
1502	U55101MH1992PTC068907	BEIJING CHINESE RESTAURANT AND BAR PVT LTD
1503	U70101MH1992PTC069297	WESTERN COAST LAND AND PROPERTY DEVELOPERS PVT.LTD
1504	U45201MH1993PTC070359	LIQUID GOLD CONSTRUCTIONS PVT LTD
1505	U27106MH1993PTC070381	SHRI SIDDHIVINAYAK METAL WORKS PVT LTD
1506	U77935MH1994PTC077935	GLUCKLICH AGRO FOODS (INDIA) P LTD
1507	U72200MH1994PTC082261	TRIAD DIGITAL INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
1508	U15544MH1994PTC081311	VASANT ICE FACTORY PRIVATE LIMITED
1509	U45201MH1994PTC075920	SANAT LAND DEVELOPERS P LTD
1510	U45202MH1993PTC075344	PRATINIDHI CHAKAN HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1511	U51909MH1994PTC081765	BARAHI IMPEX PRIVATE LIMITED
1512	U51109MH1994PTC080511	MEDINI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1513	U01229MH1997PTC109137	KISAN KALPATARU LIVE STOCK ESTATE AND FARMS PRIVATE LIMITED
1514	U15421MH1993PTC073799	SHRI MAHADEO SUGARCANE PROCESS PVT LTD
1515	U29197MH1993PTC073709	WATECH PURIFICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1516	U27320MH1993PTC073549	SAZ FOUNDRIES P LTD
1517	U01122MH1997PTC107834	NEESH FARMS PRIVATE LIMITED
1518	U70101MH1997PTC107383	LEELASHRI REALESTATES PRIVATE LIMITED
1519	U70101MH1997PTC107302	MAHIDHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1520	U70101MH1997PTC107303	ANAMAY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1521	U29197MH1993PTC073231	JEEVAN RAKSHA CHEMICALS P LTD
1522	U01122MH1993PTC072761	GAZAALA FARMS PVT LTD
1523	U29197MH1997PTC109649	ARPITA AQUA PURIFIERS PRIVATE LIMITED
1524	U72200MH1997PTC109683	GLOWCOM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1525	U70101MH1997PTC108284	BAGEECHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1526	U45202MH1997PTC110186	RUCHI LAND PROMOTERS LIMITED
1527	U70101MH1997PTC110602	SUKRUT REALTORS PRIVATE LIMITED
1528	U17299MH1997PTC109768	SHEWANI PHERWANI TEXTILES PRIVATE LIMITED
1529	U29299MH1997PTC108757	URJA EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1530	U15203MH1997PTC106531	AMOL MILK AND MILK PRODUCTS (INDIA) PVT.LTD
1531	U01122MH1993PTC073963	BACHAWAT AGRO-TECH P LTD
1532	U22219MH1994PTC080549	NAVYUG GRAPHICS PRIVATE LIMITED
1533	U25202MH1997PLC110827	SARDA FLEX PACK LIMITED
1534	U29307MH1997PTC112220	GREEN ENERGY RESOURCES LIMITED

1535	U01119MH1993PTC075122	NAVDEEP PLANTATIONS PVT LTD
1536	U72300MH1993PTC075369	SAMARTHA INFORMATION SYSTEMS P.LTD. SHRI SWAMI SAMARTH MULTY SERVICES PRIVATE LIMITED
1537	U54000MH1997PTC112057	JEZREEL AGRD-PRODUCTS PVT LTD
1538	U01122MH1993PTC073056	ZIESEL CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1539	U29199MH1994PTC081917	MAIMAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1540	U45202MH1997PTC109713	SAWA AGROTECH PRIVATE LIMITED
1541	U01134MH1994PTC080882	KISAN MINI SUGAR PLANT PRIVATE LIMITED
1542	U15419MH1994PTC079938	CLASSIC TOUCH AUTOMATION PRIVATE LIMITED
1543	U51909MH1994PTC081986	SOFT 'M' S INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
1544	U72900MH1994PTC080786	ARJUN TECHNICOS COMPANY PRIVATE LIMITED
1545	U33130MH1994PTC081057	B AMIT CONSTRUCTIONS (PUNE) PRIVATE LIMITED
1546	U45202MH1998PTC112959	TECHNO-PROXIMA IMPEX PRIVATE LIMITED
1547	U28920MH1994PTC081306	SONIYAJI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1548	U33111MH1994PTC079935	SHALINI GRANITES PRIVATE LIMITED
1549	U26933MH1995PTC089538	KAJALE ASSOCIATES PVT. LTD.
1550	U74140MH1992PTC069530	SNAP INFO PRIVATE LIMITED
1551	U72200MH1998PTC112775	ANUMON AGRO FARMS LIMITED
1552	U01111PN1998PLC012690	SCIENTIFIC MACHINE PLANTS PVT LTD
1553	U51103MH1993PTC073862	URMI HOUSING PRIVATE LIMITED
1554	U45202MH1998PTC112874	KADABGAON ELECTRO-ALL PRIVATE LIMITED
1555	U31200PN1998PTC012696	GANGA TOURISM DEVELOPMENT LTD.
1556	U63040MH1992PLC069363	HUMANITY COTTON PROCESSORS PVT LTD
1557	U52311MH1993PTC071827	DHAYRESHWAR ENGINEERING PVT LTD
1558	U29113MH1993PTC071770	VERTEX PLASTICS PRODUCTS PVT LTD
1559	U25206MH1993PTC071483	NAGANE FARM ASSET AND CREDIT COMPANY PRIVATE LIMITED
1560	U65993MH1996PTC104048	M AND S SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1561	U72200MH1996PTC103819	WESTERN FLORITECH PRIVATE LIMITED
1562	U01300MH1996PTC101775	RATNATRAYA PLASTICS PRIVATE LIMITED
1563	U25202MH1996PTC101838	KADAMBARY ENGINEERING (PUNE) PRIVATE LIMITED
1564	U29299MH1996PTC102030	DOLPHIN FILAMENTS PRIVATE LIMITED
1565	U24302MH1996PTC102244	MEDIAWAY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1566	U72200MH1996PTC102297	SHRIRANG BRICKS PRIVATE LIMITED
1567	U26931MH1996PTC103844	NIRMITTEE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1568	U28999MH1996PTC103767	SHIV SAGAR MILK AND MILK PRODUCTS LIMITED
1569	U15204MH1996PLC103655	RAMLING ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1570	U29299MH1996PTC102578	SUMA BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1571	U74140MH1996PTC102423	P D PRECISION CASTINGS PRIVATE LIMITED
1572	U29299MH1996PTC101842	MAHALAXMI PLASTER MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
1573	U26951MH1996PTC101817	BIO LIFE PHARMACEUTICALS (INDIA) LIMITED
1574	U24232MH1996PTC104592	DIMENSIONS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1575	U72200MH1996PTC104544	METEL EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
1576	U74300MH1996PTC101629	SAI VASANT DENTAL SERVICES COMPANY PRIVATE LIMITED
1577	U85120MH1996PTC104265	PRAGATI FORESTS (INDIA) LIMITED
1578	U02001MH1996PTC104151	HADAPSAR VEGETABLES AND FRUITS EXPORTS PVT LTD
1579	U31907MH1977PTC019536	DYNA ELECTRIC MOTORS PVT LTD
1580	U31103MH1977PTC019627	VICTOR MOPDS LTD
1581	L50401MH1975PLC018541	AMRUTANAGAR GRAHAK BHANDAR PVT LTD
1582	U52190MH1993PTC071648	DEEPTI GRUHA PRIVATE LIMITED
1583	U45202PN1999PTC014010	ISHWAR TELECOMMUNICATIONS PVT LTD
1584	U74140MH1993PTC072456	

1585	U32301MH1993PTC072318	VISHWASHREE ELECTRONICS PVT LTD
1586	U74999MH1992PTC068150	ROOPA INDUSTRIAL PAINTERS PVT.LTD.
1587	U28991MH1992PTC069080	SHREE SAI AUTO PRESS PVT LTD
1588	U23209MH1998PTC113930	SAVANT PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
1589	U29299MH1998PTC114084	AGATE SPECIALITY PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1590	U63040MH1998PTC114128	VEDANT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1591	U55101PN1998PTC012662	RABIN HOTELS AND RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
1592	L17118PN1998PLC012671	VISHVA CHAITANAYA KHADI GRAM UDYOG SANGH LTD
1593	U21012MH1992PTC067691	BARAMATI PAPER PRODUCTS PVT LTD
1594	U29150MH1992PTC065968	MUVI TEC ENGINEERS PVT LTD
1595	U27109MH1992PTC066596	PANCHARATNA ISPAT PVT LTD
1596	U27106MH1992PTC065932	SANCHAY ALLOYS AND STEEL PRIVATE LIMITED
1597	U24331MH1992PTC067527	MANDAR PHARMACEUTICALS PVT.LTD.
1598	U15201MH1993PTC073171	MILIND DAIRY AND FARMS PVT LTD
1599	U01403MH1993PTC073259	DHRUV HERBALS P LTD
1600	U15201MH1993PTC072768	JAWAHAR MILK PRODUCTS PVT LTD
1601	U72210MH1993PTC072914	LELO COMPUTER CONSULTANCY PVT LTD
1602	U70101MH1993PTC073307	DHIRAJ BUILDERS P LTD
1603	U15421MH1993PTC073422	JYOTIRLING SUGARCANE PROCESS PVT LTD
1604	U26956MH1993PTC073463	KALIKA SWAMI SAMARTH AGRO PIPE MANUFACTURING P LTD
1605	U24239MH1992PTC067600	UMA HERBAL PVT.LTD.
1606	U16009MH1992PTC067611	SAHYADRI TOBACCO PRODUCTS PVT LTD
1607	U30008MH1993PTC074483	SYSMARK OFFICE EQUIPMENT PRODUCT P LTD
1608	U27310MH1993PTC074361	DIADEM FORGE PVT LTD
1609	U51909MH1992PTC066642	COMPUTER-KONTOR EXPORT (INDIA) PVT.LTD.
1610	U28999MH1992PTC067318	UMPRIL ENGINEERING PVT.LTD.
1611	U29299MH1992PTC066394	SHIMARA ENGINEERING PVT LTD
1612	U51909MH1992PTC066882	HARYTEZ MARKETING PVT LTD
1613	U70101MH1992PTC067196	HEMAL REAL ESTATES PVT.LTD.
1614	U28939MH1992PTC067192	SHIV-TILAK EXTRUSIONS PVT.LTD.
1615	U51399MH1992PTC065800	LEAP MARKETING (INDIA) PVT LTD
1616	U51496MH1992PTC065725	SWARN CHEMICALS TRADERS PVT LTD
1617	U24233PN1998PTC012947	SHRI DHANWANTARI AYURVED SANSHODHAN SANSTHA PRIVATE LIMITED
1618	U51909MH1998PTC112810	BABYLON IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1619	U27310MH1997PTC108597	INDRAYANI RE-ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
1620	U51909MH1992PTC068047	SYMPHYSIS MARKETING PVT.LTD.
1621	U74210MH1992PTC068036	VASTU NIRMITEE CONSULTANTS (PUNE) PVT.LTD.
1622	U74210MH1997PTC111854	FIRMANICHE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1623	U29150MH1997PTC109188	PRIME HANDLERS PRIVATE LIMITED
1624	U45202PN1998PTC012653	IVORY TOWER BUILDERS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1625	U85320PN1998PTC012800	MARIGOLD RECREATION SERVICES PRIVATE LIMITED
1626	U64202MH1997PTC109547	NET PEOPLE SERVICES PRIVATE LIMITED
1627	U51909PN1998PTC012648	ALANJAY RESOURCES PRIVATE LIMITED
1628	U28112MH1998PTC112773	KUNCHLAS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1629	U21012MH1997PTC112377	JANSEVA PAPERS PRIVATE LIMITED
1630	U29299MH1997PTC112224	SAJ MECHANICS PRIVATE LIMITED
1631	U20213MH1997PTC112173	SANKET PACKAGING PRIVATE LIMITED
1632	L91120PN1998PLC012748	GREENROUTE LEISURETIME MANAGEMENT LIMITED
1633	U25201PN1998PTC012792	NUMERO POLYMERS PRIVATE LIMITED
1634	U29150PN1998PTC012741	SHOWPLA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1635	U02221PN1998PTC012733	VARSHA OFFSET PRIVATE LIMITED
1636	U70101PN1998PTC012698	ANUP REALTORS PRIVATE LIMITED

1637	U01117MH1993PTC073506	AMRUTA HERB GROWERS AND EXTRACTIONS P LTD
1638	U25209MH1993PTC072874	CONKUN ENTERPRISES P LTD
1639	U01223MH1947PLC005687	PURE PRODUCTS AND MADHU GANNING LTD
1640	U70102MH1979PTC021679	KARANVAN TRADERS PVT LTD
1641	U72200MH1975PTC018732	ASSOCIATED PUMPS PVT LTD
1642	U22219MH1980PTC022189	FORM PRINTS PVT LTD
1643	U31102MH1980PTC022386	SPARTAN ELECTRICALS PVT LTD
1644	U29299MH1980PTC022393	CHINTAMANI FOUNDERS AND ENGINEERS PVT LTD
1645	U31909MH1980PTC022504	JT MACHINISTS AND ENGINEERS PVT LTD
1646	U29248MH1980PTC023400	BHARANI CHEMICALS AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
1647	U15316MH1975PTC018428	KRISPEE FOODS PVT LTD
1648	L92411MH1976PLC018903	GAYATRI CONSULTANCY SERVICES LTD
1649	U15421MH1964PTC013079	SHRI MAHAN KALI SAKKAR KARKHANA PVT LTD
1650	U21012MH1974PLC017880	ALASSON PAPER LTD
1651	U71109MH1965PTC013240	CHANDAN AND BHARAT PVT LTD
1652	U29199MH1978PTC020371	GHATGE PRECISION ENGINEERING PVT LTD
1653	U72200MH1969PTC014454	KHOSLA NAYLONS PVT LTD
1654	L24224MH1975PLC018128	ANANT DYESTUFF INDUSTRIES LIMITED
1655	U24232MH1949PLC007298	WEST INDIA CHEMICALS LTD
1656	U15209PN2005PLC021561	SADGURU DUDH SANGH LIMITED
1657	U28910MH1981PTC024574	JADE ENGINEERING CO PVT LTD
1658	U24222MH1975PTC018534	STERLING INSULATION CO PVT LTD
1659	U05001PN1981PTC025560	JALSARANG FISH MEAL PLANT PVT LTD
1660	U24292MH1973PTC016652	CHANDUBHAI EXPLOSIVES PVT LTD
1661	L29248MH1961PLC012199	SHRI BASAWESHWAR LIME WORKS LTD
1662	U01122MH1972PTC015588	RAINBOW PLASTICS PVT LTD
1663	U31909MH1978PTC020713	SHUBHADA SARASWAT PUBLICATIONS PVT LTD
1664	U74140MH1979PTC022014	PERFECT STEAMWELD PVT LTD
1665	L29248MH1920PLC000735	THE DECCAN MOTOR SERVICE LIMITED
1666	U29248MH1949PLC007287	PACKO ENGINEERING LTD
1667	U29248MH1947PTC005654	BOMBAY SUPPLY AND TRADING CO.LTD.
1668	U51909MH1973PTC016239	PRECISION AUTO ANCILLARIES PVT LTD
1669	U40109MH1935PLC006662	MIRAJ ELECTRIC SUPPLY CO LTD
1670	U51909MH1987PTC043226	AQUA SALES AND SERVICES PVT LTD
1671	U45201MH1987PTC045374	SAVERA BUILDERS PVT LTD
1672	U55101MH1986PTC040780	JASCO HOTELIERS PVT LTD
1673	L72200MH1987PLC043491	METTA TECHNOLOGY TRANSFER (INDIA) LTD
1674	U72200MH1988PTC046881	KEISANKI SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1675	U73100MH1988PTC046810	QUEST RESEARCH DECCAN PRIVATE LIMITED
1676	U29297MH1986PTC039733	SHRIRAM ENGINEERS PVT. LTD.
1677	U15499MH1988PTC047079	VATSALYA FOODS PRIVATE LIMITED
1678	U15201MH1986PTC038730	PRERANA DAIRY FARMING AND MILK PRODUCTS PVT LTD
1679	U72200MH1986PTC041638	SUPERMIT TECHNOLOGIES PVT LTD.
1680	U24117MH1987PTC043849	TIMEX ORGANICS PVT LTD
1681	U45202MH1988PTC047801	RAMZANALY'S CONSTRUCTIONS PVT LTD
1682	U45201MH1987PTC042260	KARWAY CONSTRUCTIONS PVT LTD
1683	U29222MH1984PTC031884	RADICAL MACHINE TOOLS PVT LTD
1684	U22219MH1985PTC037257	KAS PRINTERS PVT LTD
1685	U25209MH1985PTC037251	SPAN SACKS PVT LTD
1686	U85110MH1987PTC045694	NEWWAYS HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1687	U45201MH1988PTC045937	KHOLE SHAH BUILDERS PRIVATE LIMITED
1688	U17303MH1987PTC045678	INDIA SYNTEX PRIVATE LIMITED
1689	U45201MH1985PTC037870	ANIL SHIROLE DEVELOPERS AND CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD

1690	U45201MH1985PTC037840	AMEYA CONSTRUCTIONS PVT LTD
1691	U28991MH1988PTC047469	SAWIJIT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1692	U24233MH1987PTC045587	CHETANA AYURVEDIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1693	U72200MH1985PTC037174	UNIQUE COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
1694	U25199MH1988PTC047245	AJANTA FOAMS PRIVATE LIMITED
1695	U34300MH1985PTC038427	HORNEY HONKERS (INDIA) PVT LTD
1696	U40200MH1987PTC045719	NOBLE GAS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
1697	U25209MH1988PTC046348	POOJA PLASTICS PRIVATE LIMITED
1698	U74999MH1986PTC038893	JAI BOREWELLS PVT LTD
1699	U15203MH1985PTC038226	NAVNIT MILK PRODUCTS PVT LTD
1700	U64203MH1987PTC045486	MEBA COMMUNICATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1701	U29309MH1985PTC038397	SWASTIK BATTARIES PVT LTD
1702	U29195MH1985PTC037901	SARNAIK POLYPACK PVT LTD
1703	U51505MH1988PTC047428	SHAAN ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1704	U27106MH1987PTC043761	KOLHAPUR MICROALLOYS PVT LTD
1705	U28112MH1987PTC043745	DHARIA FABRICATORS PVT LTD
1706	U15432MH1988PTC046898	MAYUR CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
1707	U15204MH1987PTC043621	KELKAR DAIRY PVT LTD
1708	U28932MH1986PTC039251	SAHADEO INDUSTRIAL AID PVT. LTD
1709	U45208MH1985PTC038219	SHRI CHINTAMANI CONSTRUCTIONS COMPANY PVT LTD
1710	U21012MH1985PTC038109	BAFNA PAPER MILLS PVT LTD
1711	U26954MH1985PTC038258	SHAMAL BRICKS AND TILES PRIVATE LTD
1712	U24232MH1988PTC045965	OM PHARMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
1713	U24119MH1987PTC044300	CHANDGUDE CHEMICALS PVT LTD
1714	U17303MH1988PTC047743	PARASWA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
1715	U52334MH1987PTC043879	GOLD-STAR ELECTRONICS PVT LTD
1716	U29248MH1987PTC045366	AMOL COSMETICS PVT LTD
1717	U24231MH1988PTC047781	GAYLORD LABORATORIES PVT LTD
1718	U01214MH1987PTC043623	KELKAR STUDS PVT LTD
1719	U29197MH1986PTC039029	KOKUSAI SANGYO KAIHATSU (INDIA) PVT LTD
1720	U51312MH1986PTC038931	TEXPOLINE (POONA) PVT LTD
1721	U72900MH1986PTC038934	LINK WAY STEPPER MOTORS PVT LTD
1722	U24119MH1986PTC038860	AHEMEDNAGAR PROGRESSIVE CHEMICALS PVT LTD
1723	U29299MH1986PTC038726	CROWN ENGINEERING PVT. LTD
1724	U55101MH1986PTC039721	CHANDAN HOTELS PVT LTD
1725	U29199MH1978PTC020203	POONA RINGS AND EASTINGS PVT LTD
1726	U01409MH1981PTC024460	SOMVESHVAR POULTRY AND AGRO ENTERPRISES PVT LTD
1727	U25202MH1979PTC021474	SAGAR CONTAINERS PVT LTD
1728	U31200MH1980PTC022162	ROSE COMPUTER AND CONSULTANTS PVT LTD
1729	U19129MH1976PTC019301	PRATIBHA EXPORTS PVT LTD
1730	U51909MH1982PTC026194	RATNA PRAKASH ENGINEERING AND MARKETING PVT LTD
1731	U55101MH1980PTC023490	PRABHAVATI HOTELIERS PVT LTD
1732	U74999MH1980PTC023416	SKYLINE CLEARING AND FORWARDING AGENCY PVT LTD
1733	U72400MH1975PTC018673	MEHTA PACKARD INDUSTRIES PVT LTD
1734	U28910MH1981PTC025748	KULKARNI FASTNERS PVT LTD
1735	U17299MH1972PTC016087	KOLHAPUR BUILDERS PVT LTD
1736	U28991MH1966PTC013450	ROHINI ENGINEERING WORKS PVT LTD
1737	U20299MH1981PTC024008	ACE WOOD WONDERS PVT LTD
1738	U74999MH1981PTC024017	MEHAR SALES PVT LTD
1739	U28992MH1982PTC026141	S J CONTROL EQUIPMENT CO PVT LTD

1740	U29120MH1979PTC021689	SPECIAL TAILORED PUMPS CO PVT LTD
1741	U51909MH1968PTC014096	FOUNDERS UNITED PVT LTD
1742	U01122MH1969PTC014180	COMMINDUS AGRI DEVELOPMENTS COMPANY PVT LTD
1743	U45202PN2003PTC017989	MANGALMURTI PRAMOTERS PVT LTD
1744	U01409MH1981PTC024473	BHIMASHANKAR POULTRY AND AGRO ENTERPRISES PVT LTD
1745	U55103MH1971PTC015391	SHREE PAINTS AND WATER PROOFING INDUSTRIES PVT LTD
1746	U01122MH1949PTC007235	THE JALALPUR FARMS PVT LTD
1747	U15429MH1947PTC006053	JAI HIND AGRICULTURAL INDUSTRIES PVT LTD
1748	U29248MH1942PTC004444	THE MAHARASHTRA ESTATE CORPN PVT LTD
1749	U29248MH1981PTC023992	SHEMBEKAR FOUNDRY PVT LTD
1750	U29248MH1962PTC012386	CIRCLE INVESTORS PVT LTD
1751	U29199MH1978PTC020092	SAAB ENGINEERS AND FOUNDRY PVT LTD
1752	U28939MH1978PTC020160	AVANTI MINING TOOLS PVT LTD
1753	U21099MH1981PTC024883	CHAIRANYA KANIPHNATG PAPER MILLS PVT LTD
1754	U45201MH1978PTC020482	ADVANCED CAST MASTERS PVT LTD
1755	U92112MH1980PTC023312	SHYAMAL SHREE FILMS PVT LTD
1756	U28910MH1981PTC025395	OLYMPIA METAL ENGINEERING PVT LTD
1757	U17111MH1956PTC009729	V J TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED.
1758	U31200MH1980PTC023119	DIGHE ELECTRONICS PVT LTD
1759	U29248MH1981PTC023974	INNOVATIVE WAX PRODUCTS PVT LTD
1760	U24249MH1979PTC021104	GOLDEN NUGGET- CHEMIPLAST PVT LTD
1761	U01222MH1982PTC026136	RAJEE FARMS AND PROPERTIES PVT LTD
1762	U27130MH1979PTC021108	SAMPADA CASTINGS PVT LTD
1763	U51909MH1982PTC026402	JOSHI PRECISION MACHINES PVT LTD
1764	U15511MH1975PTC018073	JOSH FIRE FIGHTING EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1765	U17297MH1966PTC013520	SAHNEY HOTELS PRIVATE LIMITED
1766	U63022MH1964PTC012894	T M STEEL WORKS PVT LTD
1767	U51909MH1965PTC013199	ANDJRA ELECTRONIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1768	U70102MH1977PTC019792	NARMADA NYLONS PVT LTD
1769	U29248MH1981PTC023719	RUBICON METOPLAST PRIVATE LIMITED.
1770	U63090MH1981PTC025258	WEST COAST TRAVELS PVT LTD
1771	U29299MH1974PTC017788	SAHYADRI STRUCTURALS PVT LTD
1772	U34300MH1973PTC016614	MIRAJ GLASS PVT LTD
1773	U20296MH1975PTC018381	WESTERN MICRO FERTILISERS PVT LTD
1774	U29248MH1960PTC011806	MANEESHA CHITRA PVT LTD
1775	U74210MH1982PTC026059	AQNATECH ENGINEERS PVT LTD
1776	U92111MH1980PTC022507	SAGITTARIUS MOVIES PVT LTD
1777	U70102MH1964PTC012824	PITTLE TOOLES PVT LTD
1778	U34102MH1981PTC024310	COVECO VEHICLES PVT LTD
1779	U28910MH1979PTC021476	MARS PRESS METAL PVT LTD
1780	U51228MH1979PTC021379	NAVRACANNA ENGINEERING PVT LTD
1781	U24119MH1987PTC043340	SUSHREE CHEMICALS PVT LTD
1782	U29248MH1986PTC040701	SHREE SWAMI SAMARTH PACKAGING PVT LTD
1783	U45201MH1986PTC040504	SHILPAK CONSTRUCTIONS PVT LTD
1784	U24232MH1986PTC038641	KOVLES PHARMACEUTICALS PVT LTD
1785	U33111MH1987PTC045645	FLASH LONG ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
1786	U45201MH1987PTC044366	PRABIN GUPTEY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1787	U45201MH1986PTC041797	AJIT RAVETKAR AND COMPANY (BUILDERS) PVT. LTD.
1788	U74300MH1986PTC039082	AD VENT (ADVERTISING) PVT LTD
1789	U74210MH1988PTC046278	PUNE INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1790	U15201MH1987PTC042287	VRINDAVAN MILK PRODUCTS PVT LTD
1791	U70101MH1987PTC043790	ARIES ESTATES PVT LTD

1792	U17115MH1986PTC041446	SHIOM TEXTILE PVT LTD
1793	U26942MH1986PTC041798	RAASHI CEMENTS PVT LTD
1794	U15332MH1986PTC040796	SHAHANA POULTRIES PVT LTD
1795	U74140MH1986PTC041239	BIZLINK MARKETING AND CONSULTANCY PVT LTD
1796	U32209MH1987PTC044405	TONOTRONICS (INDIA) PVT LTD
1797	U45209MH1987PTC044301	MARUTI CIVIL WORKS PVT LTD
1798	U27105MH1987PTC043859	ANAND PRECOATED SHEETS PVT LTD
1799	U55109MH1985PTC038033	NEEL KAMAL HOLIDAY HOMES PVT LTD
1800	U74999MH1985PTC037538	MATRIX SYSTEMS PVT LTD
1801	U51397MH1982PTC028335	SHILPA DRUGS AND FINE CHEM PVT LTD
1802	U32109MH1985PTC035597	HEADS ELECTRONIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1803	U28939MH1987PTC043410	BHAVANI ENGINEERS PVT LTD
1804	U29299MH1983PTC029932	PERFECT SPECIAL PURPOSE MACHINES PVT LTD
1805	U24299MH1983PTC029174	PRO CHEM SPECIALIST PVT LTD
1806	U24231MH1982PTC028899	MAHARASHTRA ELECTRIC EQUIPMENT FINISHERS PVT LTD
1807	U27106MH1984PTC033338	BIRNALE METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1808	U28992MH1985PTC034983	NAVA MAHARASHTRA CONTAINERS PVT LTD
1809	U17119MH1984PTC032244	KUPWAD TEXTILES MANUFACTURING AND PROCESSING CO PVT LTD
1810	U74999MH1985PTC035255	SUNFLOWER INDUSTRIAL ENGINEERS PVT LTD
1811	U24298MH1985PTC035299	KARAVEER CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1812	U25199MH1987PTC042471	KOLHAPUR RUBBER PRODUCTS PVT LTD
1813	U15492MH1987PTC043408	RASHEELA FOOD PRODUCTS PVT LTD
1814	U93090MH1987PTC042556	OASIS CLUB PVT LTD
1815	U33125MH1987PTC044124	POONA UDYOG PRECISION MACHINING PVT LTD
1816	U28991MH1987PTC045194	TRUSTEESHIP ENGINEERING ENTERPRISES PVT LTD
1817	U72900MH1986PTC039198	PHOENIX COMPUTER CONSULTANTS PVT LTD
1818	U01409MH1987PTC043370	VRISHALI FARMS PVT LTD
1819	U01409MH1987PTC043369	KELCOM FARMS PVT LTD
1820	U01122MH1987PTC043371	KELKAR ROSES PVT LTD
1821	U01111MH1986PTC040803	JEDHE AGRO INDUSTRIES PVT LTD
1822	U15143MH1986PTC040802	JEDHE OIL MILLS PVT LTD
1823	U55101MH1986PTC041557	SONA HOTELS PVT LTD
1824	U45201MH1987PTC045557	RATANI BUILDERS PRIVATE LIMITED
1825	U72100MH1987PTC045459	SILICON TECHNOLOGIES PVT LTD
1826	U15315MH1987PTC045014	BHAGIRATHI ROLLER FLOUR MILL PVT LTD
1827	U24134MH1987PTC045099	POLYDECOR PUNE PVT LTD
1828	U32101MH1987PTC044732	CYGNUS ELECTRONICS INDUSTRIES PVT LTD
1829	U29223MH1987PTC043858	MADHAV BALL MILLING PVT LTD
1830	U70102MH1987PTC044852	FINE PROCONS DEVELOPERS PVT LTD
1831	U45201MH1988PTC047233	GHORPADE BHOR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1832	U63040MH1983PTC031257	FLAMINGO TRAVELS-N-TOURS PVT LTD
1833	U31909MH1983PTC031252	INSTAKOOL ENGINEERING CO PVT LTD
1834	U31909MH1987PTC044639	ERDMANN KUMAR ELECTROTECHNIK PVT LTD
1835	U15201MH1987PTC042527	KRISHNA MILK AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
1836	U31909MH1986PTC040680	SATARA MECHANICAL WORKS PVT LTD
1837	U29248MH1983PTC031017	INDOCAN ENGINEERING SYSTEMS LIMITED
1838	U29299MH1983PTC030703	MELITA ENGINEERING PVT LTD
1839	U01111MH1983PTC030626	SHANDILYA AGRICULTURAL AND HATCHERIES PVT LTD
1840	U24111MH1982PTC028036	SUPER PETRO-CHEM PVT LTD
1841	U29224MH1988PTC046712	SUN-TECH ABRASION PROTECTION PRIVATE LIMITED
1842	U29309MH1982PTC028436	KONKAN ENGINEERING PVT LTD
1843	U74140MH1982PTC028352	SANCHETI CONSULTANTS PVT LTD

1844	U01401MH1990PTC056784	GANGA IRRIGATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1845	U45201MH1990PTC056112	NITYASEVA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1846	U72200MH1991PTC060430	PROTOCOL SOFTWARE(INDIA) P LTD
1847	U80904MH1991PTC061295	SAKHALKARS PRAKASH CLASSES PRIVATE LIMITED
1848	U52520MH1992PTC065556	SHRI DEEP RETRADERS PVT LTD
1849	U24119MH1990PTC057407	SHREE VARDASHRI CHEMIPAINTS PRIVATE LIMITED
1850	U52335MH1991PTC060203	SAWAI ELECTRO TRADE COMPANY PVT LTD
1851	U27310MH1991PTC061004	SUDARSHAN FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
1852	U29120MH1991PTC062376	R.R.ENTERPRISES PVT LTD
1853	U72200MH1991PTC062458	COREGROUP INFORMATION SYSTEMS(INDIA) PVT LTD
1854	U02004MH1991PTC062856	ADHUNIK POLYPHEN PVT LTD
1855	U01122MH1991PTC063745	FLAVEX AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED
1856	U45201MH1991PTC064459	SANMAN CONSTRUCTIONS PVT LTD
1857	U40101MH1991PTC064628	SUN DANCE POWER GENERATION ENGINEERING P LTD
1858	U24134MH1992PTC065571	GENIOUS POLYSEALS PVT LTD
1859	U51909MH1992PTC065632	VED EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
1860	U29212MH1992PTC065240	PROFILOFORMS ENGINEERING AND TOOLING CO PVT LTD
1861	U01122MH1985PTC035036	SAVIRAJ AGRO INDUSTRIES PVT LTD
1862	U60231MH1983PTC030530	SHRI GANESH SUGARCANE TRANSPORT CO PVT LTD
1863	U14103MH1984PTC033552	AGARWAL STONE UDYOG PVT LTD
1864	U74140MH1984PTC033965	AKSHAYYA MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
1865	U01122MH1984PTC033350	BHAGWAT FARMS PRIVATE LIMITED
1866	U55101MH1984PTC034549	PATEL HOTELING PVT LTD
1867	U29297MH1985PTC038167	SHARVARI MACHINES PVT LTD
1868	U27109MH1983PTC030572	BHISHMACHARYA ENGINEERING PVT LTD
1869	U01111MH1983PTC030620	VISHWAMITRA AGRICULTURAL PRODUCTS PVT LTD
1870	U52603MH1986PTC027634	KIRAN BLICK COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1871	U27310MH1987PTC042808	MAHALAXMI FOUNDERS PVT LTD
1872	U72200MH1987PTC044881	HICALIBRE COMPUTER CONSULTANTS PVT LTD
1873	U01111MH1983PTC030605	DADHICHI AGRICULTURAL DAIRY PRODUCTS PVT LTD
1874	U31909MH1983PTC029931	NANAN PRESS PARTS PVT LTD
1875	U01111MH1983PTC030622	DHAUMAYA AGRICULTURAL AND POULTRY PRODUCTS PVT LTD
1876	U01111MH1983PTC030613	VASISHTHA AGRICULTURAL PRODUCTS PVT LTD
1877	U72200MH1985PTC035176	OPEN SESAME MEMORY MACHINE PVT LTD
1878	U45202MH1984PTC034377	GANPOLE CONSTRUCTION CO. PVT LTD
1879	U45401MH1986PTC041924	CINTA TILES PVT LTD
1880	U01111MH1983PTC030621	BHRUGU AGRICULTURAL PRODUCTS PVT LTD
1881	U01111MH1983PTC030623	SHUKRACHARYA AGRICULTURAL PRODUCTS PVT LTD
1882	U72200MH1986PTC038776	INSTQUIP COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
1883	U29254MH1982PTC028421	RAMON-ROM EQUIPMENTS AND SERVICES PVT LTD
1884	U29306MH1986PTC041178	MIDWEST(DAKKHAN) EQUIPMENTS PVT LTD
1885	U01111MH1983PTC030614	KANVA AGRICULTURAL PRODUCTS PVT LTD
1886	U33130MH1987PTC045165	DESCHON CONTROLS AND SYSTEMS PVT LTD
1887	U29309MH1986PTC040759	SUNDEW HOME APPLIANCESANDPACE ELECTRONICS PVT LTD
1888	U31101MH1986PTC041188	PIPASA HIDRO PVT LTD
1889	U74210MH1986PTC041063	EFFLUENT CHEMICAL CONSULTANTS AND ENGINEERS PVT LTD
1890	U01409MH1987PTC043368	SHIVKRIPA FARMS PVT LTD
1891	U01409MH1987PTC043367	SHREE BHULESHWAR FARMS PVT LTD
1892	U24219MH1986PTC040804	JEDHE AGRO CHEMICALS PVT LTD
1893	U24232MH1987PTC045713	ROTHMAN PHARMA PRIVATE LIMITED

1894	U24116MH1987PTC045148	RUKMY ORGANICS LTD
1895	U11201MH1988PTC046563	LAXMI OXYGEN PRIVATE LIMITED
1896	U70102MH1988PTC046691	SULAXMI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1897	U70101MH1988PTC046347	SAFARI PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
1898	U65993MH1986PTC041579	HARIPRAVA HOTELS AND RESORTS PVT LTD
1899	U15137MH1986PTC041530	ORCHARD FOOD PRODUCTS (INDIA) PVT LTD
1900	U45201MH1986PTC039740	ORBIT CONSTRO(INDIA) PVT LTD
1901	U15041MH1986PTC039024	MAHALAXMI LEMON PRODU CTS PVT LTD
1902	U05004MH1986PTC041068	PRAVARA HATCHERIES PVT LTD
1903	U33205MH1987PTC043322	ZENITH VISION PVT LTD
1904	U17297MH1987PTC045406	CHITNIS DUSTERLON PVT LTD
1905	U24231MH1988PTC046263	CRYSTAL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1906	U15204MH1988PTC046119	MAHALAXMI DUGDHA VYAVASAYA PVT LTD
1907	U55101MH1986PTC040026	SHREE OSTWAL HOTELS PVT LTD
1908	U15313MH1987PTC045451	SHRI VIJAYA DAL MILL PVT LTD
1909	U55101MH1986PTC041104	ASMITA HOTELS PRIVATE LIMITED
1910	U72300MH1987PTC042238	ORION MICRO SYSTEMS PVT LTD
1911	U51909MH1986PTC040316	SUYASH VARN SEALS PVT LTD
1912	U21012MH1986PTC039986	SHIRPUR PAPER MILLS PVT LTD
1913	U25207MH1987PTC043051	CYCLO PLASTICS PVT LTD
1914	U74994MH1987PTC043150	CLASSIC ARTS (POONA) PVT LTD
1915	U01102MH1986PTC041542	AVERAGE PLUS PERTOLEUM PRODUCTS PVT LTD
1916	U45201MH1988PTC047120	A B PATIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1917	L51399MH1986PLC040446	SHINE EXPORTS LTD
1918	U51399MH1986PTC042055	VISHWAS AGENCIES PVT. LTD.
1919	U24232MH1986PTC040445	SELECTO DRUGS PVT LTD
1920	U26931MH1985PTC037745	QUALITY BRICKS AND TILES MANUFACTURING COMPANY PVT LTD
1921	U63012MH1985PTC037559	KIRAN MARINE CRAFTERS PVT LTD
1922	U31200MH1987PTC045650	POWERBANK EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1923	U01401MH1987PTC043356	KRISHI SINCHAN PVT LTD
1924	U31200MH1991PTC061981	AREN CONTROL PANELS PVT LTD
1925	U17125MH1991PTC060738	DESHPANDE AGRO COMMERCIAL INDUSTRIES PVT LTD
1926	U51219MH1980PTC022908	MAAN LIFT IRRIGATION AND AGRO-INDUSTRIAL CO PVT LTD
1927	U29294MH1980PTC022990	PROTOS TYPE-SETTERS PVT LTD
1928	U15419MH1981PTC024575	MONA-FOOD INDUSTRIES PVT LTD
1929	U28999MH1981PTC024103	AGMATHAN ENGINEERING PVT LTD
1930	U51102MH1982PTC026380	WIE CHEMICALS PVT LTD
1931	U29119MH1992PTC065458	ARIHANT BOILER AND ALLIED EQUIPMENTS PVT.LTD.
1932	U29248MH1951PTC008354	ANJALI PRAKASHAN PVT LTD
1933	U51909MH1990PTC056530	CAPCO IMPEX PRIVATE LIMITED
1934	U29248MH1955PTC009656	VENUS MODERN INDUSTRIES PVT LTD
1935	U51909MH1949PTC007174	SHREE JAIBHAVANI SYNDICATE PVT LTD
1936	U25111MH1990PTC056957	MATRIX RUBBER TUBE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1937	U01401MH1990PTC056651	YASHODHAN EXCAVATORS PRIVATE LIMITED
1938	U45201MH1986PTC040551	KING BUILD PVT LTD
1939	U29299MH1991PTC061508	DECCAN REWINDS PRIVATE LIMITED
1940	U01111MH1986PTC041134	HIMALAYA AGRO INDUSTRIES PVT LTD
1941	U24115MH1986PLC041267	ASHIRWAD AGRO INDUSTRIES LIMITED
1942	U45205MH1987PTC043372	KELKAR HYDROPONECS PVT LTD
1943	U27203MH1985PTC038101	SIDDHARTH APPLIENCES PVT LTD
1944	U74140MH1988PTC047456	DESHEKHAR MECHANICAL AND ELECTRICALS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1945	U18101MH1987PTC043773	DEBONAIR GARMENTS PVT LTD

1946	U51397MH1990PTC058573	LASDR DRUGS PVT LIMITED
1947	U74300MH1990PTC057318	SARDAR ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
1948	U27106MH1992PTC019365	SHINGDTE PRDCESED FDODS PVT LTD
1949	U15421MH1991PTC064036	GURUKRIPA RESHELLERS PVT LTD
1950	U64120MH1991PTC061621	HARDIKAR CDURIER SERVICES PVT LTD
1951	U28999MH1981PTC024057	SARGAV ENGINEERS PVT LTD
1952	U34300MH1964PTC012978	SANGAM ELECTRICAL AND MECHANICAL INDUSTRIES PVT LTD
1953	U17115MH1991PTC063446	RISHABH CLOTH MANUFACTURING CD.P.LTD.
1954	U50102MH1962PTC012470	SANGLI AUTDMDBILE AND GENERAL AGENCIES PVT LTD
1955	U63040MH1948PTC006427	BHAGWANT MDTDR SERVICE PVT LTD
1956	U73100MH1991PTC063469	HI-TEK GLDHUES PRIVATE LIMITED
1957	U74210MH1974PTC017926	MAHAJAN AND ASSDCIATES PVT LTD
1958	U27109MH1973PTC016594	KARVEER ISPAT PVT LTD
1959	U33301MH1986PTC040181	P JAIN ARTS (INDIA) PVT. LTD.
1960	U70101MH1981PTC024738	JAYKAR BUILDERS PVT LTD
1961	U29119MH1986PTC041133	LANIR ENGINEERS PVT LTD
1962	U91110MH1974PTC017601	SUMMITS MARKETING AND MANUFACTURING PVT LTD
1963	U34300MH1973PTC016752	DAYASDNS ENGINEERING WDRKS PVT LTD
1964	U24219MH1974PTC017327	APRADNYA CHEMIDALS P LTD
1965	U27310MH1971PTC015366	R C G MALLEABLE CASTINGS INDUSTRIES PVT LTD
1966	U28920MH1974PTC017966	SPK TDDLS PVT LTD
1967	U29224MH1971PTC015078	MECH RITE ENGINEERING PVT LTD
1968	U85110MH1974PTC018019	PAVANA DAIRY FARM PVT LTD
1969	U74999MH1981PTC024318	SADERAT EXPORTS PVT LTD
1970	U26101MH1949PTC006987	DGALE BRDTHERS PVT LTD
1971	U45205MH1981PTC025385	MIMO FILTERS PVT LTD
1972	U28939MH1981PTC024046	GLDBAL INSTRUMENTS PVT LTD
1973	U29197MH1980PTC023018	AIR-O-DYNE FILTERS PVT LTD
1974	U29308MH1972PTC015529	BHARATESH CORNFLAKES INDS PVT LTD
1975	U14102MH1987PTC045755	NAV GRANITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1976	U33205MH1986PTC041533	DEEPLAXMI FILMS AND STUDIOS PVT LTD
1977	U45201MH1988PTC045981	NAVODAYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1978	U23209MH1986PTC042019	IMPEL PETRD PVT LTD
1979	U29299MH1986PTC038540	DATTATREYA FABRICATDRS AND ENGINEERS PVT LTD
1980	U25199MH1988PTC047257	SHELL MDULDERS AND RUBBER INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1981	U28910MH1986PTC040019	WAKIKAR ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
1982	U31909MH1986PTC040969	ELCOPAK DACOBAS INDIA PVT LTD
1983	U29248MH1961PTC012183	SHREE CHITRA PVT LTD
1984	U24297MH1986PTC040067	SEA HDRSE ENGINEERING PVT LTD
1985	U24295MH1981PTC024346	PDDNA PDLY CRAFTS PVT LTD
1986	U74999MH1981PTC024367	KARNIK CDNSULTANTS PVT LTD
1987	U52339MH1988PTC047571	ORCHID SHDPS PRIVATE LIMITED
1988	U01403MH1987PTC045252	PAVANA AGRO FARMS PVT LTD
1989	U74999MH1949PTC007309	SUPER PRDDUCTS MFG CD PVT LTD
1990	U29248MH1949PTC007141	THDPTE ELECTRIC SUPPLY CD PVT LTD
1991	U22212MH1981PTC024006	VERDICT PUBLICATIONS PVT LTD
1992	U17119MH1946PTC004860	DHANANJAY MILLS PVT LTD
1993	U27106MH1980PTC022703	UTKUR FDUNDRIES PVT LTD
1994	U29248MH1961PTC012136	PATWARDHAN INDUSTRIES PVT LTD
1995	U29248MH1949PTC007286	KULCD ENGINEERING WDRKS PVT LTD
1996	U51221MH1972PTC015736	SHREE DYES PVT LTD
1997	U25199MH1974PTC017965	SEKHRI AND ASSDCIATES (CDNSULTING ENGINEERS) PVT LTD

1998	U15412MH1990PTC054968	A V BHAT CONFECTIONERIES PRIVATE LIMITED
1999	U31200MH1981PTC024604	ITR GRAPHIC SYSTEMS PVT LTD
2000	U45203MH1986PTC039299	MAHARASHTRA COCONUT GROWERS AND FARMING COMPLEX PVT LTD
2001	U31909MH1986PTC038902	TRIO ELECTRONICS PVT LTD
2002	U34300MH1989PTC053408	VIJAY TEMPO PRIVATE LIMITED
2003	U15201MH1997PTC110277	SHEWETGANGA DUDH-SHETI UTTAPADAK PRIVATE LIMITED
2004	U45202MH1994PTC081432	PHEROMONE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2005	U74999MH1993PTC073915	PURETECH AQUA INDIA PVT LTD
2006	U25111MH1994PTC077500	KIRAN TYRES PVT LTD
2007	U55101MH1993PTC073024	SAVLI HOTELS PVT LTD
2008	U15204MH1998PTC113434	AHILYA DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2009	U15331MH1993PTC072692	SHIVKAMAL ANIMAL FEED PROCESSERS P LTD
2010	U51909MH1997PTC108093	SPAR IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
2011	U28910MH1998PTC113933	THARA PRECISIONS PRIVATE LIMITED
2012	U05004MH1993PTC075646	GODSONS AQUACULTURE FARMS P LTD
2013	U17117MH1995PTC084996	SNEHVARDHINI WOOLWORTH PRIVATE LIMITED
2014	U29150MH1976PTC019068	SOMJEE MAHA MAN SMRUTI KHANDSARI UDYOG PVT LTD
2015	U72200MH1976PTC019255	RUKARI AGRICULTURAL PRODUCE EXPORTS (P) LTD
2016	U15425MH1978PTC020474	GHOTAVADAKAR JAGGERY COMPANY PVT LTD
2017	U31103MH1977PTC019654	CROWNEH ELECTRICALS AND ENGINEERING CO PVT LTD
2018	U51909MH1978PTC019278	M M FOODS PVT LTD
2019	U01122MH1979PTC021710	NANNAJ DRAKSHA BAGAYATRE AND ADUNIK SHETI SEVA SAUGHT PVT LIMITED
2020	U74999MH1979PTC021475	GEM ARTS (INDIA) PVT LTD
2021	U27310MH1979PTC021258	DE NOVO CASTINGS CO PVT LTD
2022	U15424MH1978PTC020671	SHREE SHIVASHAKTI KANDSARI SUGAR MANUFACTURING COPVT LTD
2023	U31103MH1978PTC020516	MOTROLO EQUIPMENTS PVT LTD
2024	U33301MH1989PTC052456	SAMDEEP WATCHES SALES AND SERVICES PVT LTD.
2025	U63033MH1989PTC052217	KAMCOM FLY PRIVATE LIMITED
2026	U31909MH1990PTC055724	SHANTANU ELECTRIC PRIVATE LIMITED
2027	U74992MH1989PTC051012	PHONEX MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2028	U45201MH1989PTC051352	PUNE R.M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2029	U15499MH1989PTC050412	KALE FOODS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2030	U24224MH1988PTC048954	PRAVARA PAINTS PRIVATE LIMITED
2031	U85110MH1988PTC048835	POPHALE HOSPITAL PVT LTD
2032	U01404MH1988PTC048281	AJIT GREEN FIELD PRIVATE LIMITED
2033	U15139MH1989PTC052676	HOME PRIDE FOOD CRAFTS PVT LTD
2034	U52331MH1976PTC019002	SHRIRAM POTTERIES PVT LTD
2035	U74140MH1976PTC018771	ICHALKARANJI TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED
2036	U51909MH1980PTC022193	SANDJIC SALES AND SERVICE PVT LTD
2037	U26959MH1977PTC019461	WEST COAST ASBESTOS PRODUCTS PVT LTD
2038	U28999MH1980PTC023248	LUNA FABRICATORS AND ERRECTOR PVT LTD
2039	U34300MH1977PTC019577	GUNA NUT BOLT PVT LTD
2040	U01405MH1975PTC018553	TRIAD ELECTRONICS INSTRUMENTS PVT LTD
2041	U28129MH1978PTC020289	SALES WIN CONTAINERS PVT LTD
2042	U29299MH1989PTC053952	HEMADE BROTHERS P LTD
2043	U15511MH1970PTC014664	TRITON ELEKTROMECH MFG CO PVT LTD
2044	U70102MH1969PTC014396	K V BUILDERS PVT LTD
2045	U29212MH1970PTC014812	VASANT FOUNDRY UDYOGA PVT LTD
2046	U15520MH1971PTC014948	DECCAN FARMS AND DISTILLERIES PV LTD

2047	U72200MH1977PTC019778	CREATIVE CHEMICALS PVT LTD
2048	U29248MH1980PTC022374	RANCO ENGINEERING PVT LTD
2049	U29248MH1949PTC007058	CINE UNIT OF INDIA PVT LTD
2050	U28992MH1981PTC025838	DELTA CONTAINERS AND ENGINEERING PVT LTD
2051	U31909MH1990PTC055073	POWERNETIC ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2052	U67120PN1999PTC013675	JIMIKARAN SECURITIES PRIVATE LIMITED
2053	U63040MH1989PTC051635	COLUMBUS TRAVEL AGENTS PVT. LTD.
2054	U74140PN2000PTC015439	CANDELA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2055	U29299PN1999PTC013986	SHRI PADAMAVATI ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2056	U74999MH1987PTC045604	FIST INDIA PRIVATE LIMITED
2057	U24119MH1992PTC066881	DIVA CHEMO-ORGANICS PVT LTD
2058	U72900MH1992PTC066623	CHINTAMANI BUSINESS LINK PVT LTD
2059	U15142MH1992PTC065958	CHINTAMANI OIL INDUSTRIES PVT LTD
2060	U15444MH1992PTC066135	PATIL AND SONS PVT LTD
2061	U74210MH1992PTC066049	SWAYAM ENGINEERS PVT LTD
2062	U51505MH1992PTC066123	MAHA ELECTRICALS PVT LTD
2063	U55101MH1997PTC112276	NATH SAGAR HOTELS PRIVATE LIMITED
2064	U92113MH1993PTC073308	CREATIVE RECORDIST P LTD
2065	L65910MH1994PLC080946	SABLE WAGHIRE PORTFOLIO LIMITED
2066	U24222MH1993PTC074127	EARTH POLY U PAINTS PVT LTD
2067	U24232MH1997PTC110416	RATNA PARENTERALS PRIVATE LIMITED
2068	U01122MH1997PTC107477	JAIDAYAL SHETI AGRICO PRIVATE LIMITED
2069	U51506MH1993PTC073843	PARALLEL TRACK MARKETING COMPANY PVT LTD
2070	U26933MH1997PTC110239	ARRES FLOORS PRIVATE LIMITED
2071	U45202MH1997PTC110184	SUYOG PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED.
2072	U15412MH1998PTC114221	KLASSIC NUTRIENTS PRIVATE LIMITED
2073	U51909MH1998PTC114153	WINWAY SHOPPERS PRIVATE LIMITED
2074	U34300MH1998PTC114156	YOSHODA AUTOMOBILES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2075	U55101MH1998PTC114116	CLIQUE FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2076	U29299MH1998PTC114089	PROMPT TOOLS AND HARDWARE PRIVATE LIMITED
2077	U15543MH1998PTC114050	SANJEEVAN MINERAL WATER COMPANY PRIVATE LIMITED
2078	U51229MH1990PTC057471	KETUS EXPORTS PRIVATE LIMITED
2079	U02221PN1998PTC012733	VARSHA OFFSET PRIVATE LIMITED
2080	U21023MH1980PTC023249	SATARA INDUSTRIAL PACKAGING WORKS PVT LTD
2081	U29248MH1980PTC023554	THE ICHALKARANJI HOSIERY INDUSTRIES PVT LTD
2082	U45203MH1981PTC024992	JAK-M-SAND BUILDERS AND TRADERS PVT LTD
2083	U30007MH1976PTC018791	ABC ALKALINE BATTERIES CO PVT LTD
2084	U51505MH1980PTC023325	DECON PNEUMATIC EQUIPMENTS AND SERVICES PVT LTD
2085	U29292MH1981PTC024928	TRIMURITI CERAMICS PVT LTD
2086	U17299MH1998PTC114579	RAMCHAND KNITTING PRIVATE LIMITED
2087	U25206MH1998PTC114570	LAXBRO PRECISION INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2088	U50909MH1998PTC114697	MARHABA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2089	U24119MH1980PTC022155	AMBA CHEMICALS PVT LTD
2090	U25199MH1977PTC019993	ADITYAPUR RUBBER PRODUCTS PVT LTD
2091	U72300MH1982PTC026083	VANGURAD DATA SYSTEMS PVT LTD
2092	U29197MH1997PTC110356	YAMA FILTERS COMPANY PRIVATE LIMITED
2093	U01122MH1998PTC114634	KALE AGRO HIGHTECH PRIVATE LIMITED
2094	U51909MH1998PTC114689	JACKEL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2095	U51909MH1998PTC113141	PANCHRATNA PURCHASE AND SALES SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED
2096	U34300MH1997PTC110290	MODERN AUTO STAMPERS PRIVATE LIMITED
2097	U72900MH1979PTC021687	SINHAGAD HOTELS PVT LTD
2098	U01222MH1998PTC114208	HAPPY HOME BUILDCON PRIVATE LIMITED

2099	U74300MH1982PTC026032	PROGRAF ADVERTISING PVT LTD
2100	U55101MH1982PTC026074	PESHA HOTELS AND HOLDINGS RESORT PVT LTD
2101	U24239MH1982PTC026053	AKSHAY CONSULTANTS PVT LTD
2102	U17111MH1981PTC024359	VISHWASHANTI SPINNING MILLS PVT LTD
2103	U29111MH1973PTC016750	PRECISION SPARES PVT LTD
2104	U29130MH1982PTC026446	S P GEARS PVT LTD
2105	U23201MH1967PTC013791	APOLLO THEATRES PVT LTD
2106	U27106MH1967PTC013769	MIRAJ SHEET METAL AND STEEL WORKS PVT LTD
2107	U17299MH1972PTC016088	KONKAN SPINNING PVT LTD
2108	U51909PN2001PTC015881	BUSINESS GROUP MARKETING AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2109	U51909PN2001PTC015887	GREEN RESEARCH AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2110	U51909PN2001PTC015901	MILLENIUM SERVICES PRIVATE LIMITED
2111	U93090PN2001PTC015892	AVIRAT HELPLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
2112	U32109PN2001PTC015904	VARADMURTI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2113	U51505PN2001PTC015811	YASHWANT TRADING PRIVATE LIMITED
2114	L51909PN2001SGC015816	TASK MARKETING (I) LIMIED
2115	U72200PN2001PTC015928	WARANA INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
2116	U74940PN2001PTC015915	SHIBIHRAJ STUDIOS PRIVATE LIMITED
2117	U30007PN2001PTC015922	SPAA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2118	U26921PN2001PTC015825	SHETTY REFRACTORIES PRIVATE LIMITED
2119	U45201PN2001PTC015934	GAJANAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
2120	U72200PN2001PTC015826	SHARADA CYBERNETICS PRIVATE LIMITED
2121	U51909PN2001PTC015947	SAI SALES SERVICES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2122	U51909PN2001PTC015946	HIGH-TECH NETWORKS PRIVATE LIMITED
2123	U51505PN2001PTC015931	GROUPMAX MARKETING PRIVATGE LIMITED
2124	U51909PN2001PTC015948	SPIDERNET MARKETING PRIVATE LIMITED
2125	U15203PN2001PTC015833	RAIGAD DAIRY PRIVATE LIMITED
2126	U51909PN2001PTC015863	OPTIONS AND SOLUTIONS MARKETING COMPANY PRIVATE LI MITED
2127	U74140MH1998PTC114401	DK MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIM ITED
2128	U29193PN2002PTC016638	REAL SAFETY EQUIPMENTS MARKETING AND RETAIL TRADIN G COMPANY PRIV
2129	U25206MH1998PTC114570	LAXBRO PRECISION INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2130	U74140MH1998PTC114371	EFFECTIVE SALES SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2131	U55101MH1998PTC114116	CLIQUE FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2132	U29299MH1998PTC114089	PROMPT TOOLS AND HARDWARE PRIVATE LIMITED
2133	U51909PN2000PTC014945	WEB VALUES PRIVATE LIMITED
2134	U74201PN2000PTC014929	DESIGN ENCLAVE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2135	U72200PN2000PTC014902	NANOSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2136	U72200PN2000PTC014884	VARAD COMPUSERVE PRIVATE LIMITED
2137	U51494PN2001PTC015866	KRISHAB TRADING PRIVATE LIMITED
2138	U51909PN2001PTC015939	KUBER MULTI-VISION PRIVATE LIMITED
2139	U55101MH1988PTC048051	COPPER LEAF HOTELS AND ESTATES PVT LTD
2140	U92199MH1989PTC051038	VIJAYANT THEATRES PRIVATE LIMITED
2141	U29244MH1988PTC048054	MECON MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS PVT LTD.
2142	U74140MH1989PTC050811	POONA ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
2143	U45201MH1989PTC050381	PADMA HEIGHTS PRIVATE LIMITED
2144	U15204MH1989PTC050513	ADARSH AGRO DAIRIES PVT LTD
2145	U45201MH1989PTC050663	AMEYA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2146	U26102MH1988PTC049576	CRR FIBRE GLASS CREATIONS PVT LTD

2147	U24246MH1988PTC049453	SHIVRAJ CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2148	U28999MH1988PTC049747	RAHIRKAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2149	U29197MH1989PTC051024	INSTAKLIN FILTERS PRIVATE LIMITED
2150	U15311MH1988PTC049759	GURUKRIPA ROLLER AND FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
2151	U50300MH1989PTC051199	PANCHSHEEL AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
2152	U28920MH1988PTC050148	MANIBHADRA METAL PROCESSORS PVT LTD
2153	U01122MH1989PTC052627	ROYAL FARMS PVT LTD.
2154	U51109MH1998PTC114441	PANCHAVATI MARKETING PRIVATE LIMITED
2155	U29299PN1998PTC012534	TDM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2156	U52110PN1998PTC012753	JASTAR IMPEX PRIVATE LIMITED
2157	U70109MH1992PTC068894	VITRAG ESTATES PVT LTD
2158	U33130MH1992PTC068897	SHIPRA CONTROL SYSTEMS PVT.LTD.
2159	U15203MH1992PTC068818	SAGAR DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2160	U45202MH1997PTC109834	A Y CHAPEKAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2161	U15142MH1997PTC109923	U AND S OILS AND COMPOUNDS PRIVATE LIMITED
2162	U15499MH1997PTC105674	KAYDEE FOOD PROCESSORS PRIVATE LIMITED
2163	U24211MH1997PTC105578	SHRI ATMARAM AGRO IMPEX PRIVATE LIMITED
2164	U17297MH1997PTC111322	PARAS YARNS PRIVATE LIMITED
2165	U29299MH1997PTC106675	AXIS AUTOTECH AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2166	U17119MH1997PTC106354	MANDHANA POLYFILS PRIVATE LIMITED
2167	U27320MH1997PTC110058	SPRA CASTINGS PRIVATE LIMITED
2168	U29230MH1997PTC105536	VENTURE TOOLS AND CASTINGS PRIVATE LIMITED
2169	U51909MH1997PTC105533	SHINO MARKETERES PRIVATE LIMITED
2170	U24119MH1997PTC110570	FLEMIN BIOTEK PRIVATE LIMITED
2171	U27106MH1997PTC110781	R AND J ALLOYS PRIVATE LIMITED
2172	U28991MH1997PTC110529	TITE FASTENERS PRIVATE LIMITED
2173	U29299MH1997PTC108526	MAVERICK SOLUTIONS LIMITED
2174	U01122MH1997PTC111138	SAYADHARI AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2175	U01111MH1997PTC111503	SHIV-SRUSHTI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2176	U64202MH1997PTC111456	MECHMOUNT TELECOM PRIVATE LIMITED
2177	U51909MH1997PTC111275	SUCHIBH MARKETING PRIVATE LIMITED
2178	U01122MH1997PTC111430	S P KRISHIDHAN PRIVATE LIMITED
2179	U15201MH1997PTC111831	YASHODHARA DAIRY AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2180	U34300MH1997PTC111787	SAHAZ TECHNOCRAFT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2181	U74300PN1998PTC012803	KAVISH ASSOCIATS PRIVATE LIMITED
2182	U72200MH1992PTC069334	COMPU SHASTRA (INDIA) PVT.LTD.
2183	U52321MH1993PTC074602	NYSMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2184	U33301MH1993PTC073977	JAI WATCHES PVT LTD
2185	U72200MH1992PTC068240	SHRI SAMARTH PRECISION COMPONENTS PVT LTD
2186	U74140MH1992PTC068368	CLARK ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT.LTD.
2187	U72200MH1992PTC067598	FREEPORT SOFTWARE LABS PVT LTD
2188	U05004MH1992PTC067688	JANJIRA MARINE AQUA FARMS PVT.LTD.
2189	U24132MH1992PTC068381	ORION LATEX PVT.LTD.
2190	U29308MH1992PTC068437	SHRILAXMI EQUIPMENTS PVT.LTD.
2191	U01300MH1992PTC068620	LENYADRI FARMS PVT LTD
2192	U24134MH1992PTC068614	DURGA POLY THERM PVT LTD
2193	U31200MH1992PTC068633	PALCO CAPACITORS PVT LTD
2194	U01404MH1992PTC069200	SUJAY AGRO FARMS AND AGENCIES PVT.LTD.
2195	U15209MH1992PTC069220	NESARI DAIRY PRODUCTS LTD
2196	U51312MH1992PTC069230	ROVINTA MARKETING AND EXPORTS PVT.LTD.
2197	U28920MH1993PTC072609	PUNE METAL SURFACE COATING COMPANY PVT LTD
2198	U01119MH1993PTC074535	RAJASHHAB FARMS AND ACQUACULTURE P LTD

2199	U24134MH1992PTC069173	PUNE ADITYA POLYCHEM INDUSTRIES PVT.LTD.
2200	U15143MH1993PLC074160	NERLA SOYA FOODS LTD
2201	U15424MH1993PTC074034	BANKER AGRO EXPORTS PVT LTD
2202	U15142MH1993PTC073634	RAMSONS OIL REFINERY P LTD
2203	U51101MH1993PTC073714	SARANG COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2204	U51312MH1992PTC069333	KONARK EXPORTS PVT.LTD.
2205	U25029PN1998PTC012636	SUDIN POLYMERS PRIVATE LIMITED
2206	U55101MH1992PTC069465	MUKTA SHANKAR HOTELS PVT LTD
2207	U72300MH1997PTC107060	DEUS BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2208	U28910MH1997PTC106930	SPL PRESSING WORKS PRIVATE LIMITED
2209	U22121PN2000PTC015269	SAKSHI PRINTERS AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
2210	U51909MH1997PTC111175	NAMS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2211	U24129MH1997PTC107599	SAMRUDHHI BIOTECH PRIVATE LIMITED
2212	U23201MH1997PTC108129	SRIRANG OILS AND MINERALS PRIVATE LIMITED
2213	U74210MH1997PTC106897	METRO ARCHPRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2214	U72200MH1997PTC110582	TANISHQ INFOSERVICES PRIVATE LIMITED
2215	U29299MH1997PTC111369	JANUARY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2216	U51909MH1997PTC107247	JAGDISH EXPORTS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2217	U24232MH1997PTC108193	KEMVET PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
		KALPA-TARU NON-EDDIBLE OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMI TED
2218	U15143MH1997PTC111049	
2219	U74140MH1997PTC108213	SRUJAN PROJECT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2220	U29299MH1997PTC108529	RAM BALRAM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2221	U15141MH1997PTC107447	SHRI GODAVARI AGRO OIL PRIVATE LIMITED
2222	U28991MH1997PTC107246	SATARA CHAINS PRIVATE LIMITED
		COMPUTER DATA PREPARATION SERVICES INDIA PVT LTD
2223	U72200MH1992PTC068848	
2224	U51229MH1997PTC107298	GORE IMPEX PRIVATE LIMITED
2225	U74999MH1997PTC106773	ZEN EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED
2226	U15499MH1997PTC108889	KERALA MILK AND FOODS PRIVATE LIMITED
2227	U01122MH1997PTC110577	SHRIRAM MUSHROOM PRIVATE LIMITED
2228	U01212MH1997PTC111202	YASHODEEP GOAT FARMING PRIVATE LIMITED
2229	U51909MH1997PTC112081	AMARSRI SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2230	U75123MH1992PTC068769	PRACHI COMTRAV SERVICES PVT.LTD.
2231	U01122MH1997PTC108595	GREENLAND FORESTS (INDIA) LIMITED
2232	U51420MH1997PTC110550	RAJASHREE (PUNE) TRADING PRIVATE LIMITED
2233	U31300MH1997PTC108512	KOYANA CONDUCTOR PRIVATE LIMITED
2234	U51909MH1997PTC107304	SRI SHIVAJI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2235	U24123MH1997PTC109633	MORYA BIOTECH PRIVATE LIMITED
2236	U29191MH1997PTC106611	MAHA COOL WARM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2237	U55101MH1992PTC066460	MEDHEKAR HOTELS PVT LTD
2238	U15493MH1992PTC066469	TASKEEN OIL INDUSTRIES PVT LTD
2239	U14106MH1992PTC066533	GODAVARI SAND DREDGING COMPANY PVT LTD
2240	U70102MH1992PTC066008	DADOBHA DEVELOPERS PVT LTD
2241	U74210MH1992PTC066002	BHIDE SURVEYORS AND CONSULTANTS PVT LTD
2242	U52339MH1992PTC066997	SWAROOPA ENTERPRISES (INDIA) PVT.LTD.
2243	U45201MH1992PTC067002	DINKAR CONTRACTORS PVT.LTD.
2244	U28991MH1992PTC066970	BHAVANI CHAINS PVT LTD
2245	U40109MH1992PTC066559	HARI PRIYA POWER TECHNOLOGIES PVT LTD
2246	U45209MH1992PTC066528	FINE EDGE BUILD COMP PVT LTD
2247	U24132MH1997PTC107594	JBK THERMOFORMERS PRIVATE LIMITED
2248	U72220MH1997PTC110894	KALEIDO INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2249	U25209MH1997PTC107438	LAUKIK PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2250	U60231MH1997PTC110539	NORTHERN FREIGHT MOVERS PRIVATE LIMITED

2251	U74999PN2001PTC015702	VIDESH POWERS PRIVATE LIMITED
2252	U01122PN2000PTC015595	M R AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2253	U55100PN2000PTC015617	SEA-LORD HEALTH AND RESORT PRIVATE LIMITED
2254	U51909PN2000PTC015600	LAKHANI COMMERCE CENTRE PRIVATE LIMITED
2255	U74140PN2000PTC015619	ICON CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2256	U29299PN2000PTC015613	SONALI ARTS PRIVATE LIMITED
2257	U29130PN2000PTC015624	BHAVANI HEAVY ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2258	U45105PN2000PTC015635	HARMONY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2259	U72200PN2000PTC015644	BALAJI BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2260	U51497PN2000PTC015649	MARUTI AGRO MARKS PRIVATE LIMITED
2261	U25209PN2000PTC015655	APEKSHA POLYMERS PRIVATE LIMITED
2262	U51909PN2001PTC016315	LIFELINK SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2263	U72200PN2001PTC016284	PUNIPRIME.COM PRIVATE LIMITED
2264	U45202PN2001PTC016289	ABHINAV BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2265	U72200PN2001PTC016341	RAVIRAJ INFOTECH PRIVATE LIMITED
2266	U15142MH1990PTC059287	BARAMATI OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2267	U55101MH1990PTC058476	KHEDEKAR HOTELS PRIVATE LIMITED
2268	U51395PN2001PTC016346	AAKASI MARKETING AND TRADING PRIVATE LIMITED
2269	U51909PN2001PTC016335	SIDDHANATH SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2270	U52335PN2001PTC016307	SUN MOON MARKETING PRIVATE LIMITED
2271	U24231PN2002PTC016650	VATSALA PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
2272	U72200PN2000PTC015568	DMS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2273	U45201PN2000PTC015546	G B S S CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
2274	U15203PN2000PTC015545	AUTOLINE AGRO CONCEPT COMPANY PRIVATE LIMITED
2275	U85110PN2000PTC015534	ASHA MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2276	U74140PN2002PTC016675	BIZNET CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2277	U51909PN2002PTC016677	SAHAKARYA MARKETING PRIVATE LIMITED
		NIRMITI TRADING AND MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2278	U51909PN2002PTC016672	
2279	U51909PN2002PTC016668	EARTHNET MARKETING PRIVATE LIMITED
2280	U32109PN2002PTC016658	SARALA ELECTROTELECOM PRIVATE LIMITED
2281	U01222PN2002PTC016648	SHRI WAGHJAIDEVI LIVE STOCK AND AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2282	U51909PN2002PTC016653	BEST WORK NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
2283	U74140PN2002PTC016636	S P LEGAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2284	U74140PN2001PTC015708	THE ALCHEMIST CONSULTING PRIVATE LIMITED
2285	U72200PN1999PTC013757	CROSSOVER INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2286	U25191MH1982PTC028121	SUNBEAM FABRICATORS AND POLYMERS PVT LTD
2287	U72200PN2002PTC016995	PAMS INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2288	U92199MH1988PTC049605	BELOW-FIVE PLEASURES PVT LTD
2289	U27104MH1988PTC049730	KALYANI IRON PRIVATE LIMITED
2290	U34300MH1989PTC053622	PATSON ANTOCRAFT PVT LTD
2291	U22122MH1989PTC053560	KARISHMA PUBLISHER DISTRIBUTORS PVT LTD
2292	U50101MH1989PTC053512	DEV DUTT AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
2293	U17125MH1992PTC065024	RAJARAM BAPU TEXTILE MILLS PVT LTD
2294	U15531MH1991PTC064014	DIAMOND BEER MANUFACTURING COMPANY PVT LTD
2295	U25199MH1989PTC054570	SUJAN POLYMERS PRIVATE LIMITED
2296	U24231MH1989PTC052416	DEV DEVASHRI CHEMICALS PVT LTD
2297	U70101MH1988PTC049810	PANCHSHEEL ESTATE PRIVATE LIMITED
2298	U15549MH1989PTC052754	SUNNYGOLD BREWERIES PVT LTD

2299	U25209MH1989PTC052819	YASH PLASTICS PRIVATE LIMITED
2300	U17115PN2002PTC017538	SHRI YASHOLAKSHMI COTTEX PRIVATE LIMITED
2301	U72200PN2002PTC017501	KEENA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2302	U51909PN2002PTC017516	PANDHARPUR BAZAR PRIVATE LIMITED
2303	U70101MH1992PTC069822	A D AMDAGIRI DEVELOPERS PVT LTD
2304	U74174MH1992PTC068962	VALI FINANCIAL CONSULTANTS AND EXPORTS PVT.LTD.
2305	U24111MH1995PTC093750	RATNAGIRI AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2306	U29297MH1992PLC068601	SUNANO MEDITECH LTD
2307	U17111MH1995PTC093534	SAMARTH RAMDAS SWAMY SPG MILLS PRIVATE LIMITED
2308	U55101MH1995PTC093978	NALAWADE HOTELS PRIVATE LIMITED
2309	U01122MH1995PTC093563	NAVGIRE AND SONS AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2310	U25209PN1999PTC014015	SAINATH PLASTICS PRIVATE LIMITED
2311	U70109MH1995PTC093506	MEHERWAN ESTATES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2312	U17119MH1995PLC093332	SHRI GAGANGIRI MAHARAJ SOOT GIRNI LIMITED
2313	L01119MH1996PLC097121	CAUSE AGROTECH LIMITED
2314	U70101MH1990PTC058537	KELGA DEVELOPMENT CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2315	U29832MH1993PTC071249	PROFILOFORMS CUTTING SYSTEMS PVT.LTD.
2316	U27202MH1993PTC070977	ALDAN ENGINEERING WORKS PVT LTD
2317	U01122MH1992PTC069162	TANANG AGRO INDUSTRIES LTD.
2318	L15116MH1996PLC097271	GAUTAM FOODS LIMITED
2319	U30009MH1996PTC095835	PC NET COMPUTING PRIVATE LIMITED
2320	U15209MH1995PLC095249	SHIVPRASAD MILK AND MILK PRODUCTS LIMITED
2321	U11101MH1995PLC095341	WESTERN SEMBAWANG ENGINEERING LIMITED
2322	U02221MH1995PTC095304	SHALIVAHAN PAPER AND PRINTS LIMITED
2323	U29306MH1995PTC095247	SABROE REFRIGERATION INDIA LIMITED
2324	U29299MH1995PLC095142	NAIDU PROJECTS LIMITED
2325	U50300MH1973PTC017086	TAMHANE MOTORS PVT LTD
2326	U29299MH1995PTC086063	AIROCHEM POLLUTION CONTROL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
2327	L60210MH1996PLC096838	JANHIT TRANSPORT COMPANY LIMITED
2328	U21199MH1993PTC072142	PINGLE GRAPHIC SIGNAGE SYSTEM PVT LTD
2329	L15122MH1993PLC072341	VENSIN FOODS AND FEEDS INDIA LTD
2330	U27109MH1995PTC093547	JARIWALA STEELS PRIVATE LIMITED
2331	L21023MH1995PLC092834	ROHAN PACKAGING PRODUCTS LIMITED
2332	U24239MH1995PTC093729	PRATIBHA BIO-CHEM PRIVATE LIMITED
2333	U19116MH1995PTC093878	YASHASHRI LEATHERS PRIVATE LIMITED
2334	U28939MH1995PTC093931	KALYANI EQUIPMENT AND TOOLS PRIVATE LIMITED
2335	U45309MH1995PLC094543	UNITED DEVELOPMENT CONSTRUCTIONS COMPANY (INDIA) LIMITED
2336	U51395MH1992PTC068636	AMITANJALI ELECTRONICS PVT LTD
2337	U33125MH1992PTC068455	KWALICON INSTRUMENTS PVT LTD
2338	U24299MH1992PTC068435	FULLERENE CHEMICALS PVT LTD
2339	U99999MH1995PTC094935	WOVENTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
2340	U65993PN1992PTC015747	WINEVER INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2341	U70101MH1992PTC069993	JUPITER PARK ESTATES PVT.LTD.
2342	U24239MH1992PTC068442	EPSILON BIO REMEDIES PVT LTD
2343	U70101MH1992PTC069630	SANCHETI BROTHERS PVT.LTD.
2344	U70101MH1992PTC069992	GEMINI PARK ESTATES (PUNE) PVT.LTD.
2345	U99999MH1988PTC047997	AMBAR GRANITES PRIVATE LIMITED
2346	U28999MH1989PTC050507	SUCHINTAN ENGINEERING PVT LTD
2347	U01222MH1989PTC050592	BARAMATI POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
2348	U45201MH1989PTC050634	ABHIRASHI CONSTRUCTION PVT LTD

2349	U70101MH1989PTC050635	MAITHILI ESTATE DEVELOPERS PVT LTD
2350	U29199MH1988PTC048884	DHAVAL FOUNDER PRIVATE LIMITED
2351	U52334MH1988PTC048859	ROHIT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
2352	U25203MH1989PTC050725	KADAM PVC PIPES PRIVATE LIMITED
2353	U74140PN2001PTC016621	ALPHA CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2354	U29249MH1988PTC048584	MAHARASHTRA DRILL ROCK EQUIPMENT PVT LTD
2355	U29219MH1988PTC048575	TECSOFT MARKETING SERVICES PVT LTD
2356	U28999MH1989PTC050813	DANS ENGINEERING PVT LTD
2357	U52334MH1988PTC048768	ARSOM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
2358	U91990MH1988PTC048730	GOLD CLUB PVT LTD
2359	U48750MH1988PTC048750	ULTRA PAINTS PVT LTD
2360	U72200PN2001PTC016628	AVIRAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2361	U29809PN1999PTC013759	HIMANI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2362	U51909PN1999PTC013751	DSV TRADERS PRIVATE LIMITED
2363	U51909PN1999PTC013767	SHREE GEMS EXPORT PRIVATE LIMITED
2364	U15412PN1999PTC013769	SHIVAM BAKERS PRIVATE LIMITED
2365	U55101PN1999PTC013774	SHRI BANSHANKARI FAMILY RESORTS PRIVATE LIMITED
2366	U72200PN1999PTC013771	JANANI INFO-TECH PRIVATE LIMITED
2367	U01403PN1999PTC013797	GREEN VALLEY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2368	U85101PN1999PTC013799	SHATAYU HOSPITAL (PUNE) PRIVATE LIMITED
2369	U24231PN1999PTC013807	ABHANG ORGANICS PRIVATE LIMITED
2370	U92131PN1999PTC013951	COMMUNICATION CORPORATE PUNE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2371	U72900PN1999PTC013719	GODSE COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2372	U55101MH1997PTC112609	S D RESORTS AND FARMS PRIVATE LIMITED
2373	U55101MH1997PTC112726	INDRAYANI RESORTS PRIVATE LIMITED
2374	U02001PN1998PTC012629	SAMIDHA HORTAGROFARMS PRIVATE LIMITED
2375	U51909PN1999PTC013745	KAMDHENU TRADIMPEX PRIVATE LIMITED
2376	U01135PN2001PTC015925	DDN FARM HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2377	U45201PN2001PTC015919	OMEGA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2378	U15203PN1999PTC013684	MOTISAGAR DAIRY AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2379	U74300PN1999PTC013691	KAMAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2380	U01111PN1999PTC013707	VISHWAMOHINI FARMS PRIVATE LIMITED
2381	U15203PN1999PTC013702	SAI SHRADDHA REALTY PRIVATE LIMITED
2382	U25191PN1999PTC013703	SHRI SIDDHESHWAR MILK AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2383	U55101PN1999PTC013705	NEELKAMAL RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
2384	U74140PN1999PTC013720	PRATHAMESH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2385	U72900PN2000PTC015673	RIGHTLINX INDIA PRIVATE LIMITED
2386	U15209PN2000PTC015688	SHANTI MILK AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2387	U50403PN2001PTC015701	PGM AUTOLINE PRIVATE LIMITED
2388	U55101MH1992PTC067977	LAKME HOTELS PVT.LTD.
2389	U51909MH1993PTC072185	DELUXE CRAFT PVT LTD
2390	U74140MH1992PTC067524	RASIGEMA DISTRIBUTORS AND CONSULTANTS PVT.LTD.
2391	U29231MH1990PTC059284	PRAJA DRUGS PRIVATE LIMITED
2392	U52322MH1993PTC072359	PENTAGON APPARELS P LTD
2393	U29305MH1992PTC068056	AVON WELDAID PVT.LTD.
2394	U17111MH1992PTC066274	KARTHIKEYAN SURFOTEX PRIVATE LIMITED
2395	U72200PN1998PTC012626	CIMATECH SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2396	U25104MH1997PTC112148	CIM PIPEFAB PRIVATE LIMITED
2397	U28991MH1997PTC107528	ALSA FASTENERS PRIVATE LIMITED
2398	U01122MH1997PTC108805	KASIRAM AGRICULTURE AND CEMENT PRIVATE LIMITED
2399	U17299MH1997PTC109394	VISHWESHWAR KNITTING PRIVATE LIMITED
2400	U01401MH1997PTC109477	SHERLY AGROTECH PRIVATE LIMITED

2401	U27310MH1997PTC109279	KOLHAPUR FURNACE AND HEAT TREATMENTS PRIVATE LIMITED
2402	U31200PN1998PTC012691	ABHI POWER AND CONTROL SYSTEM PRIVATE LIMITED
2403	U15201PN1998PTC012766	DYANDA DAIRY PRIVATE LIMITED
2404	U74140MH1997PTC107456	MCG INFORMATICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2405	U70101MH1997PTC105687	VIRONA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2406	U31909MH1997PTC105639	NAC COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2407	U21029MH1997PTC106375	DELTA CORRUGATION PRIVATE LIMITED
2408	U15203MH1997PTC106530	KADAM FOOD PROCESSORS PRIVATE LIMITED
2409	U25209MH1997PTC110586	CHANDRANAND PLASTICS PRIVATE LIMITED
2410	U15549MH1997PTC110530	NRA ERECTIONS PRIVATE LIMITED
2411	U29212MH1997PTC110610	SANIL AGROWASTE PRIVATE LIMITED
2412	U14291MH1998PTC113713	KALYANI GEMS PRIVATE LIMITED
2413	U27203MH1998PTC113733	SHEETAL ALUMINIUM AND GLASS PRIVATE LIMITED
2414	U63023MH1998PTC113851	KHONDE WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
2415	U74140MH1998PTC114371	EFFECTIVE SALES SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2416	U34102MH1998PTC114383	NATARAJ VEHICLES AND AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
2417	U92141MH1998PTC114349	NIPA TRAINING PRIVATE LIMITED
2418	U70102PN1998PTC012826	PREKSHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2419	U70102PN1998PTC012824	PAGARIYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2420	U01112PN1998PTC012822	KESARKAR AGRO PRIVATE LIMITED
2421	U25209MH1990PTC059365	BEAUTY WRAPPERS PRIVATE LIMITED
2422	U74999PN2001PTC015907	SPECTRUM EXPOSITIONS AND EVENTS PRIVATE LIMITED
2423	U45201MH1998PTC113000	VISHWA MUDRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2424	U21012MH1998PTC113015	SAINIK PAPERS AND BOARDS PRIVATE LIMITED
2425	U30007MH1998PTC113016	SAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2426	U01122MH1998PTC113130	TORANA SAMRUDDHI AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2427	U27209MH1998PTC113462	NICHRO ELECTROFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED
2428	U15204MH1998PTC113547	SUSUKU DAIRIES PRIVATE LIMITED
2429	U24116MH1998PTC114717	VARDAN DYE-CHEM PRIVATE LIMITED
2430	U24114MH1992PTC067879	ASTRID CHEMICALS PVT. LTD.
2431	U34300MH1997PTC109609	VINOD BRAKES PRIVATE LIMITED
2432	U15201MH1997PTC107546	DIGVIJAY MILK AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2433	U51909MH1992PTC069120	BIOTECH MARKETEERS (INDIA) PVT. LTD.
2434	U24117PN1998PTC012643	RABAL INTERMEDIATES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2435	U55101MH1997PTC109624	SHUKRATARA RESORTS PRIVATE LIMITED
2436	U51909MH1997PTC110355	SAMARTH CHEMICAL-AGRO SERVICES LIMITED
2437	U72200MH1998PTC113274	PIXEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2438	U51909MH1998PTC113632	SPLICE MARKETING PRIVATE LIMITED
2439	U45202MH1997PTC112021	VASTU RACHNA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2440	U15203MH1997PTC112063	GAGANGANGA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2441	U25209MH1998PTC114429	LUCKY STAR POLYMERS PRIVATE LIMITED
2442	U31909MH1997PTC111988	PENTAGON AUTOMATION PRIVATE LIMITED
2443	U60231MH1997PTC109732	THE KOLHAPUR TRUCK OPERATORS PRIVATE LIMITED
2444	U36942MH1997PTC112124	ELCEE GIFTS PRIVATE LIMITED
2445	U25191MH1997PTC109685	VSANSU SEALS PRIVATE LIMITED
2446	U31909MH1997PTC109728	MARKVEN TELECOM PRIVATE LIMITED
2447	U27104MH1997PTC109698	MALIK STEELS PRIVATE LIMITED
2448	U01122MH1997PTC109975	RATNA SINDHU AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2449	U34300MH1997PTC111853	SAMRAJ AUTO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2450	U15421PN2002PTC017203	SHRI SAI SAMARTH SUGAR PRIVATE LIMITED

2451	U45202PN2002PTC017189	OM SAI PROMOTERS BUILDERS AND LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2452	U51909PN2002PTC017161	PRANJAL NEWERA MARKETING PRIVATE LIMITED
2453	U72900PN2000PTC015339	ORBIT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2454	U24244PN2000PTC014335	MICROCARE ADDONS PRIVATE LIMITED
2455	U31904MH1990PTC056115	DATAR SPECIALITY METALS PRIVATE LIMITED
2456	U15424PN2000PTC015263	SHRI SANT KAIKADI MAHARAJ SAKHAR KARKHANA PRIVATE LIMITED
2457	U31909MH1990PTC056256	INVENTA POWERTRONICS PRIVATE LIMITED
2458	U22121PN2000PTC015269	SAKSHI PRINTERS AND PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
2459	U51909PN2000PTC015295	OM-JAY TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
2460	U72200PN2000PTC015290	ASHIYANA NETWORK PRIVATE LIMITED
2461	U24239PN2000PTC015311	SWATI AROMATIC EXTRACTS PRIVATE LIMITED
2462	U70101PN2000PTC015310	SILVER SUN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2463	U52190PN2000PTC015338	NIKHIL DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED
2464	U51399PN2002PTC017248	JAYGANESH TRADING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2465	U24119PN2002PTC017115	BHAGYA SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2466	U74140PN2002PTC017149	JAI SAI FINANCIAL CONSULTANCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2467	U24239PN2002PTC017153	SANSAR HEALTHCARE TRADERS PRIVATE LIMITED
2468	U55101PN2001PTC015739	THE CLUB AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2469	U70109PN2001PTC015733	JAY VYANKATESH MARKETING PRIVATE LIMITED
2470	U51501PN2001PTC015732	RAMASHREE APPLIANCES AND AGRO CONCEPT PRIVATE LIMITED
2471	U74994PN2001PTC015713	ATHARV DECORS PRIVATE LIMITED
2472	U74950PN2000PTC015267	INFINITY PACKAGING PRIVATE LIMITED
2473	U72200PN2001PTC015776	AARYA SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2474	U51909PN2001PTC015780	SHRI SWAMI SAMARTH MARKETING PRIVATE LIMITED
2475	U51909PN2001PTC015775	REAL DREAMS MARKETING PRIVATE LIMITED
2476	U01122PN2001PTC015777	ADARSH AUTO AND AGRO CONCEPT COMPANY PRIVATE LIMITED
2477	U45202PN2001PTC015745	KARUNESH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2478	U51909PN2001PTC015752	GRACE MARKETING CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2479	U29299PN2001PTC015763	PARSON BIOTECH PRIVATE LIMITED
2480	U51909PN2001PTC015754	SAI CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2481	U72900PN2001PTC015764	MEDICAL TRANSCRIBERS ACADEMY PRIVATE LIMITED
2482	U50300PN2001PTC015743	WONDER AUTO CONCEPT PRIVATE LIMITED
2483	U01122PN2001PTC015767	SAMARTH VIHAR AGRO PRIVATE LIMITED
2484	U35914PN2001PTC015751	DHIRAJ SUPER AUTO PRIVATE LIMITED
2485	U72200PN2001PTC015782	QSERIA TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2486	U29291PN2001PTC015753	ZEN HYDRAULIC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2487	U72200PN2001PTC015783	SATARKAR INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2488	U30007PN2001PTC015787	TUPE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2489	U50300PN2001PTC015791	SS NETLINK PRIVATE LIMITED
2490	U28910MH1990PTC056570	EUREKA FERRO-ALLOYS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
2491	U72200PN2000PTC015395	C C TECHSCHOOL PRIVATE LIMITED
2492	U60231MH1990PTC056135	MULA PARISAR SUGARCANE TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
2493	U15136MH1990PTC055974	PANDHARPUR AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2494	U34300MH1990PTC056226	PRUDENT AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
2495	U55101MH1990PTC056210	HEARTLAND CLUBS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2496	U19129MH1990PTC056241	SYMPHONY LEATHER CRAFTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2497	U29299MH1990PTC056280	KALPATARU TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED

2498	U27104MH1990PTC056303	LUCKY ALLOYS PRIVATE LIMITED
2499	U45202MH1990PTC056297	SATHE GODSE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2500	U50200MH1990PTC056286	LA BIKE CAR SCANNERS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2501	U28910MH1990PTC056442	SHAKTI FORGE PRIVATE LIMITED
2502	U28991MH1990PTC056358	GUARDIAN SPRINGS PRIVATE LIMITED
2503	U31909MH1990PTC056502	VIKRAMADITYA ELECTRONICS AND POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2504	U24222PN2002PTC017208	GURU PRASAD COATING AND CATERING PRIVATE LIMITED
2505	U32109PN2002PTC017217	SCAB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2506	U24116PN2002PTC017230	SAHYADRI PETRO-CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2507	U27109PN2002PTC017255	YASHASHRI IRON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2508	U24231PN2002PTC017267	MAHALAXMI HERBOMATICS PRIVATE LIMITED
2509	U51909PN2002PTC017269	SAIDHAN MARKETING PRIVATE LIMITED
2510	U72200PN2002PTC017265	SPIRIT INFOTECH AND COMPUTER TRAINING PRIVATE LIMITED
2511	U72200PN2002PTC017282	CREATIVE SUPERNET PRIVATE LIMITED
2512	U74999PN2000PTC015360	GANESH NATION-WIDE SERVICES PRIVATE LIMITED
2513	U28122PN2000PTC015392	NIRAJ WATER-TECH PRIVATE LIMITED
2514	U51909PN2002PTC016875	RS QUICKLAUNCH NETWORKS PRIVATE LIMITED
2515	U51909PN2002PTC016872	ABLEMASTER MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2516	U14106PN2002PTC016868	ONDULINE BUILDING MATERIALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2517	U72200PN2002PTC016865	NET NCOME MARKETING PRIVATE LIMITED
2518	U74999PN2002PTC016842	BIODYNAMIC PEST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2519	U24231PN1999PTC013558	SAMHITA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2520	U40106PN1999PTC013630	PAWANSARATHI PRIVATE LIMITED
2521	U74920PN1999PTC013634	SATYASHRAY SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2522	U72200PN1999PTC013639	METADATA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2523	U72200PN2000PTC014468	BHUDDH SERVICES PRIVATE LIMITED
2524	U63012PN2002PTC016786	KANISHKA SHIPPING PRIVATE LIMITED
2225	U40108PN1998PTC013140	ENERGEN POWER PRIVATE LIMITED
2526	U40106PN1998PTC013159	PUNE RENEWABLE ENERGY SERVICES COMPANY PRIVATE LIMITED
2527	U30007PN1998PTC013148	INIKIA TECHNOLOGTIES PRIVATE LIMITED
2528	U74140PN1998PTC013150	FOUR-M SERVICES AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2529	U01211PN1998PTC013149	SHIVSHAKTI CATTLE FEEDS PRIVATE LIMITED
2530	U01111PN1998PTC013145	SANKALPSIDDHI AGRO-FARMS PRIVATE LIMITED
2531	L15424PN1998PLC013144	SAMPATRAO DESHMUKH SUGAR MANUFACTURING LIMITED
2532	U34300PN1998PTC013132	HERAMB AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2533	U55101PN1998PTC013122	GIRIJA TOURIST HOTEL PRIVATE LIMITED
2534	U51219PN1998PLC013125	NATH AGRO MARKETING LIMITED
2535	U01122PN1998PTC013117	EDEN FLORATECH PRIVATE LIMITED
2536	U29299PN1998PTC013071	VINIJ PHOTOLABS PRIVATE LIMITED
2537	U13060PN1998PTC013059	EDIVA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2538	U72200PN1998PTC013052	HI-SIGHTSOFTWARE CONSULTQANTS PRIVATE LIMITED
2539	U15203PN1998PTC013049	YASHODHAN DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2540	U55109PN1998PTC013048	SCHOLAR'S INN PRIVATE LIMITED
2541	U55101PN1999PTC013252	JAY VIJAY HAJARE HOTEL PRIVATE LIMITED
2542	U45202PN1999PTC013259	VASTU STHAMBH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2543	U13280PN1999PTC013280	J.M. INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
2544	U15203PN1999PTC013292	SHIVGANGA MILK AND MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED

2545	U63040PN1999PTC013440	GAURI TRAVELS PRIVATE LIMITED
2546	U28920PN1999PTC013444	CEDCOAT PRIVATE LIMITED
2547	U51909PN2002PTC016899	LAXMI PIOUS NETWORKS PRIVATE LIMITED
2548	U29197PN2002PTC016898	BJ SERVIEW EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2549	U17297PN2002PTC016896	SHARDA ZARI YARN PRIVATE LIMITED
2550	U63040PN2002PTC016878	SILVERLINE ENTERPRISES (PUNE) PRIVATE LIMITED
2551	U51909PN2002PTC016876	EAGLE NETWORKS PRIVATE LIMITED
2552	U72200PN2002PTC016858	HELP YOURSELF INFOTECH PRIVATE LIMITED
2553	U72200PN2002PTC016856	NETAPS INDIA PRIVATE LIMITED
2554	U51909PN2002PTC016857	FREEDOM LINK TRADING PRIVATE LIMITED
2555	U51909PN2002PTC016848	TU TU MAI MAI PACKAGE MARKETING PRIVATE LIMITED
2556	U72200PN1999PTC013600	KP SOFTTECH PRIVATE LIMITED
2557	U70102PN1999PTC013595	GUNJAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2558	U70102PN1999PTC013591	GG REALTORS PRIVATE LIMITED
2559	U72900PN1999PTC013588	TIME COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2560	U55101PN1999PTC013576	CRYSTAL CLUBS AND HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
2561	U29299PN1999PTC013579	ABICOR BINZEL PRODUCTION (INDIA) PRIVATE LIMITED
2562	U24219PN1999PTC013585	PUNE PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
2563	U24232PN1999PTC013571	HANKEN (INDIA) PRIVATE LIMITED
2564	U99999MH1999PTC119512	CG COREEL PROGRAMMABLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2565	U01111PN1999PTC013544	VIVEK HITECH AGRO PRIVATE LIMITED
2566	U15204PN1999PTC013528	MALTIDEVI BABASAHEB INGALE DAIRY PRIVATE LIMITED
2567	U45202PN1999PTC013527	DONGALE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2568	U15204PN1999PTC013521	SUPA MILK AND AGRO PROCESSORS PRIVATE LIMITED
2569	U17297PN1999PTC013520	MAHAVENKATESH YARNS PRIVATE LIMITED
2570	U51228PN1999PTC013490	WINEKRAFT PRIVATE LIMITED
2571	U01403PN1999PTC013797	GREEN VALLEY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2572	U51909PN1999PTC013469	VINAYAK MARAKET MAKERS PRIVATE LIMITED
2573	U01112PN1999PTC013478	GOPAL CATTLE FEEDS PRIVATE LIMITED
2574	U31909MH1989PTC053672	CONTECH CONTROLS (INDIA) PVT LTD
2575	U74200MH1989PTC053390	XANTHUS COMMUNICATIONS PVT LTD
2576	U31200MH1988PTC049715	ELTECH POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2577	U20219PN2002PTC017519	INERTIA ERGONOMIC SYSTEM PRIVATE LIMITED
2578	U40106PN2002PTC017468	ASM ECOENERGIES PRIVATE LIMITED
2579	U29197PN2002PTC017466	DYNAQUA FILTRA PRIVATE LIMITED
2580	U51399PN2002PTC017481	CADENCE SYSTEMS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2581	U15429PN2002PTC017477	ALIENS CANDICO PRIVATE LIMITED
2582	U72200PN2002PTC017462	ADVANCED MEDTRANS PRIVATE LIMITED
2583	U32102PN2002PTC017440	ABT CAPACITOR AND CONSULTANT PRIVATE LIMITED
2584	U19119MH1989PTC052437	MAGNUM LEATHER COMPANY PVT LTD
2585	U45201MH1988PTC049949	GULHANE PATIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2586	U74210MH1989PTC053168	JOSHI AND INDULKAR ASSOCIATES PVT. LTD.
2587	U34300MH1989PTC053571	AUTOFIELD ENGINE VALVE EXPORTS PVT LTD
2588	U72200PN2002PTC017489	SIGNS I.T. CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2589	U01551MH1989PTC052722	SUNNYGOLD DISTILLERIES PVT LTD
2590	U45201MH1989PTC053327	OM TOWN HOUSE PVT LTD
2591	U45201MH1989PTC053386	PADMSRI BUILDERS AND SUPPLIERS PVT LTD
2592	U45202MH1989PTC053174	DILIP CHANDGUDE-PATIL DEVELOPERS AND INVESTORS PVT LTD
2593	U45202MH1989PTC053434	GOJAL CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2594	U15209MH1989PTC053494	PANCHALI MILK PRODUCTS PVT LTD
2595	U24239MH1989PTC053499	SINKAR BLUECHEM PVT LTD
2596	U29169MH1988PTC049595	SUNNY LEATHER GARMENTS PVT LTD

2597	U31200MH1988PTC049695	P-WALKAMMAN ELECTRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2598	U15412MH1988PTC049706	UNIQUE BISCUIT AND CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
2599	U31103MH1996PTC100704	KRUTHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2600	U45201MH1996PTC100464	NIMBUS BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2601	U25201MH1996PTC100389	PUNE PLASTO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2602	U51909MH1996PTC100274	SAHYADRI PNEUMATIC AND EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
2603	U29191MH1996PTC100171	SYNERGY AIRCONDITIONING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2604	U52203MH1996PTC100117	DGD AQUAFARMS PRIVATE LIMITED
2605	U25201MH1996PTC100118	SEAQUEEN FISHERNET (INDIA) PRIVATE LIMITED
2606	U29211MH1996PTC099824	CHETAK SHETI AVJARE PRIVATE LIMITED
2607	U45201MH1996PTC099806	HONEYBELL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2608	U99999MH1996PTC099571	PARSHURAM SAFETY VAULTS PRIVATE LIMITED
2609	U45202MH1996PTC099588	AJINKYA VASTU NIRMAN PRIVATE LIMITED
2610	U67120MH1996PTC099509	SHREE LAXMI-LAXMAN MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED
2611	U40101MH1996PTC099514	DONGRAI POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
2612	U05201MH1996PTC098812	KADEKAR BROTHERS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2613	U28999MH1996PTC099189	PERFECT CO AXIAL CABLES PRIVATE LIMITED
2614	U45205MH1996PTC099469	TAKAWALE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2615	U28939MH1996PTC098808	PEARL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2616	U01222MH1996PTC098804	SHIV MALHAR POULTRIES PRIVATE LIMITED
2617	U74210MH1996PTC099456	INDPRO CONTROL PROJECTS PRIVATE LIMITED
2618	U74995MH1996PTC103454	ARTISTIC DESIGNERS PRIVATE LIMITED
21619	U16009MH1996PTC103444	TRIMURTI TOBACCO COMPANY PRIVATE LIMITED
2620	U29120MH1996PTC102817	KRISHI PUMPS PRIVATE LIMITED
2621	U01111MH1996PTC102609	ASHOKSON FARMS PRIVATE LIMITED.
2622	U72200MH1996PTC103613	KANCHI WEBTECH CONVERTERS PRIVATE LIMITED
2623	U74999MH1996PTC100664	SUMEET POWDERCOATING PRIVATE LIMITED.
2624	U15203MH1996PLC102828	SHRI SAI MILK AND MILK PRODUCTS LIMITED
2625	U23209MH1996PTC099323	SURVE PETROLEUM PRIVATE LIMITED
2626	U51909MH1996PTC100274	SAHYADRI PNEUMATIC AND EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
2627	U74999MH1996PLC100202	NAIDU UDYOG LIMITED
2628	U74999MH1996PTC099586	PURA GRIND-TECH PRIVATE LIMITED
2629	U51493MH1993PTC073046	UNISON MARKETING PVT LTD
2630	U01119MH1993PLC074684	WESTERN INDIA TISSUETECH LTD
2631	U15421MH1993PTC074550	SHRI GURUPRASAD AGRO PROCESSORS PRIVATE LIMITED
2632	U24239MH1993PTC074077	SARNOBAT CHEMICALS PVT LTD
2633	U45102MH1994PTC080318	GREENLEBE FARMS AND LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2634	U27104MH1997PTC106824	SHEDJI ISPAT PRIVATE LIMITED
2635	U70101MH1993PTC072691	SHRI TAPASWI ESTATE P LTD
2636	U63040MH1997PTC112432	SANAA TRAVELS PRIVATE LIMITED
2637	U11110MH1994PTC076920	NIRAPUR AGRO CONSTRO TECH PVT LTD
2638	U28939MH1993PTC074730	COMEEX MACHINES TOOLS COMPANY P LTD
2639	U50020MH1994PTC076020	DONSON MARINE PRODUCTS PVT LTD
2640	U15421MH1994PTC076232	SHRI SAMARTHA SUGARCANE PROCESS PVT LTD
2641	L15134MH1997PLC112080	AGRICOS PULP AND JUICE LIMITED
2642	U23209MH1994PTC076253	INDRAYANI PETRO CHEMICALS P.LTD.
2643	U01122MH1994PLC079837	LAXMIRATNA SOYA PRAKRIYA LIMITED
2644	U51397MH1994PTC079860	JANTA PHARMACEUTICAL LIMITED
2645	U15499MH1997PTC108530	SHRI BALESHWAR FOOD PROCESSORS PRIVATE

		LIMITED
2646	L15142MH1994PLC081862	HIRANYAKESHI AGRO PRODUCTS LIMITED
2647	U45202MH1998PTC113014	ROH PAT CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2648	U31909MH1997PTC112301	NELTRONICS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2649	U51909MH1997PTC112585	HAPPY HOME EXIM PRIVATE LIMITED
2650	U51219MH1997PTC112340	JYOTI AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED
2651	U60210MH1997PTC109138	R.K. AGARWAL COMMERCIAL CARRIERS PRIVATE LIMITED
2652	U15332MH1997PTC111140	ASIM FEEDS PRIVATE LIMITED
2653	U15406MH1994PTC078406	DUGDHA AGRO PROCESSING AND REFINING P LTD
2654	U17111MH1997PTC111806	RAUNAK COTSPIN PRIVATE LIMITED
2655	U15204MH1997PTC110585	SHRINATH DAIRY LIMITED
2656	U36911MH1997PTC110626	RADHAKRISHNA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
2657	U70101MH1994PTC077506	KIRAJ REAL ESTATES PVT LTD
2658	U01122MH1993PTC073425	RATHI FARMS PVT LTD
2659	U74300MH1994PTC077776	SOFTOUCH SYSTEMS (PUNE) P LTD
2660	U29309MH1993PTC073187	SUNING ENGINEERING EQUIPMENTS PVT LTD
2661	U34210MH1998PTC113534	RC AUTO PRIVATE LIMITED
2662	U55101MH1993PTC074680	DARSHAN HOTELS P LTD
2663	U24112MH1994PTC077719	KRIPA SURFACTANTS P LTD
2664	U20299MH1989PTC054487	TOUGH WOOD PROCESSERS PRIVATE LIMITED
2665	U18101MH1997PTC112149	J K KNITTING PRIVATE LIMITED
2666	U01122PN2000PTC015582	HARI-VIJAY AGRO PROCESING PRIVATE LIMITED
2667	U24219PN1999PTC013452	SAI-SIDDHI BIO-TECH PRIVATE LIMITED
2668	U01111PN1999PTC013616	MAYURESHWAR AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2669	U45202MH1990PTC055126	RODDS PROPERTIES AND ESTATES PRIVATE LIMITED
2670	U60231MH1992PTC065015	BAKHTAWAR TRANSPORTS PVT LTD
2671	U51909PN2002PTC016863	ARPAN NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
2672	U72200PN2002PTC016804	MASTER BRAIN INFOSYS PRIVATE LIMITED
2673	U51909PN1999PTC013278	SWASTIK WORKS PRIVATE LIMITED
2674	U72200PN2001PTC015741	ANURAG ONLINE PRIVATE LIMITED
2675	U72200PN1999PTC013464	UTKARSH ALU SOFTO SQUEEZE PRIVATE LIMITED
2676	U51909PN2002PTC016871	DREAMWAY.COM NETWDRKS PRIVATE LIMITED
2677	U74999PN1999PTC013258	SUCCESS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2678	U15203MH1990PTC056095	SAM DAIRY AND FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
2679	U27104MH1990PTC056171	VIJAYANJALI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
2680	U92111MH1990PTC056213	SHALAK FILMS PRIVATE LIMITED
2681	U73100MH1990PTC056149	PRECIOUS ROCK AGRICULTURAL RESEARCH UTILIES PROJECT PRIVATED LTD
2682	U05002MH1990PTC056300	TRIDENT FISHERIES PRIVATE LIMITED
2683	U45202PN2002PTC017094	MKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2684	U74999MH1990PTC056235	ALFAB DESIGNS PRIVATE LIMITED
2685	U51909PN2002PTC017291	MAHESHWARI SALES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2686	U72900PN2000PTC015342	CORPORET DESK .COM INDIA PVT LTD
2687	U25199MH1991PTC064306	WAHI RUBBERS PVT LTD
2688	U17119MH1995PTC094607	SHRI PARSHWANATH JUTE PROGRESSORS PRIVATE LIMITED
2689	U15499PN2000PTC015627	MORANA FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
2690	U51909PN2000PTC015598	SKYBIRD MARKETING PRIVATE LIMITED
2691	U45202MH1971PTC015184	EMBASSY SAVING UNIT PVT LTD
2692	U72200PN2000PTC015606	WEBVED PRIVATE LIMITED
2693	U51493MH1993PTC073046	UNISON MARKETING PVT LTD
2694	U45201MH1990PTC056496	HIRA MANEK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2695	U72900MH1996PTC100524	PACE ACADAMY PRIVATE LIMITED
2696	U31909MH1996PTC099840	BRUSH SWITCHGEARS PRIVATE LIMITED

2697	U45209MH1995PTC093858	ISO NATURIC DEVELOPMENTS AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
2698	U25209MH1992PTC066323	PHOENIX ADHESIVE-TAPES (INDIA) PVT LTD
2699	U27106MH1990PTC055482	SAWANT STEEL PRIVATE LIMITED
2700	U01409MH1996PTC098490	RAJYOG FORESTS (INDIA) LIMITED
2701	U28900MH1996PTC104020	YDSHITA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2702	U01211MH1996PTC099527	MAICHI AGROTECH DAIRY PRIVATE LIMITED
2703	U55101MH1996PTC099581	SOLACE MOTELS PRIVATE LIMITED
2704	U55101MH1993PTC073264	SIWAZ HOTELS P LTD
2705	U31909MH1983PTC031347	ABHIJAT ENGINEERS PVT LTD
2706	U29211MH1995PTC092730	SHRI SAI TRACTORS PRIVATE LIMITED
2707	U15201MH1994PTC076495	AHIR DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2708	U67110MH1995PTC086806	BUDGET BROKING PRIVATE LIMITED
2709	U21022MH1995PTC088801	DIVINE PACKAGING PRIVATE LIMITED
2710	U01300MH1996PTC101728	JAMKHED AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2711	U15137MH1996PTC101755	HE-MAN SNACKS PRIVATE LIMITED
2712	U15421MH1995PTC087440	KRISHI DAULAT SUGARCANE PROCESS PRIVATE LIMITED
2713	U17119MH1990PTC055088	SNAGOLA KNITTING COMPANY PRIVATE LIMITED
2714	U55101MH1983PTC030089	CHETANA INN PVT LTD
2715	U45209MH1987PTC044476	BHAGWAT OAK RISWADKAR BUILDERS PVT LTD
2716	U01111MH1985PTC037987	PINGALE FARMS PRIVATE LIMITED
2717	U01409MH1987PTC043373	SHREE NIWAS FARMS PVT LTD
2718	U70101MH1988PTC047089	KHEDKAR PROMOTERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
2719	L32301MH1985PLC035259	MELTRON KALYANI ELECTRONICS LTD
2720	U24117MH1983PTC029244	NAGVEKAR CARBIDES PVT LTD
2721	U27102MH1982PTC027183	METFORM ENGINEERING PVT LTD
2722	U73100MH1985PTC035332	PRATHAMESH RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
2723	U15411MH1985PTC038349	GINIS FOODS PVT LTD
2724	U74300MH1986PTC040005	LINISHUN ADVERTISING PVT LTD
2725	U31909MH1986PTC038764	METRO LIGHT PVT LTD
2726	U55101PN1998PTC013113	GOLDEN RAINBOW RESORTS PRIVATE LIMITED
2727	U15209PN1999PTC013305	SHREE MATHURA CATTLE AND DAIRY FARMING PRIVATE LIMITED
2728	U01211PN1999PTC013496	SHRINATH LIVE-STOCK (INDIA) PRIVATE LIMITED
2729	U01223PN1999PTC013612	SHREE SHUDH MADHU PRIVATE LIMITED
2730	U26942PN1999PTC013620	SAI DUTTA CEMENT PRIVATE LIMITED
2731	U24231PN1999PTC013621	NEEL PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
2732	L24121PN1999PLC013727	SARDA PHOSPHATES LIMITED
2733	U63022PN1999PTC013747	NANDKUMAR COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
2734	U74950PN1999PTC014168	LODHESHWAR WEL-PACK PRIVATE LIMITED
2735	U72200PN2000PTC014739	INDI-GENIUS SOFTWARES PRIVATE LIMITED
2736	U63022PN2001PTC016157	SHANTAI COLD STORAGE AND WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
2737	U51219PN2002PTC017105	HYGIENIC FOOD CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2738	U51397PN2002PTC017147	GALACTIC MARKETING PRIVATE LIMITED
2739	U33201PN2002PTC017154	ABHYANKAR OPTICIANS PRIVATE LIMITED
2740	U30007PN2002PTC017165	TRANSTRACK SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2741	U17115PN2002PTC017169	INDO COUNT TEXTILE VENTURES PRIVATE LIMITED
2742	U64203PN2002PTC017176	VARROS TELECOM PRIVATE LIMITED
2743	U13203PN2002PTC017183	LAMBS MINING PRIVATE LIMITED
2744	U85199PN2002PTC017188	MY HEALTH CARE AND FITNESS PRIVATE LIMITED
2745	U72200PN2002PTC017192	YASHAWANT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2746	U51909PN2002PTC017144	UKAY CONSUMER MARKETING PRIVATE LIMITED

2747	U52110PN2002PTC017205	NINAI BAZAR PRIVATE LIMITED
2748	U27205PN2002PTC017209	W H PETHE GEMS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
2749	U25206PN2002PTC017212	ANVITA EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
2750	U51399PN2002PTC017229	AAKANSHAPURTI TRADING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
2751	U22110PN2002PTC017245	BUSINESS INN PUBLICITY PRIVATE LIMITED
2752	U24231PN2002PTC017252	ARYAN CHEMICALS AND HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2753	U24239PN2002PTC017256	KHUSHBOO HEALTH AND CARE PRIVATE LIMITED
2754	U72200PN2002PTC017263	GROW PLUS SOFTTRADE PRIVATE LIMITED
2755	U51399PN2002PTC017264	SHREE PUSHKRAJ HOME APPLIANCES MARKETING PRIVATE LIMITED
2756	U01122PN2002PTC017266	SANDHYA CHHAYA AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2757	U74210PN2002PTC017271	SAIKALPAVRUKSHA DESIGNS AND CONCEPTS PRIVATE LIMITED
2758	U45202PN2002PTC017280	SAMRUDHI PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2759	U51909PN2002PTC017286	SAIKRISHNA TRADING PRIVATE LIMITED
2760	U32309PN2002PTC017288	MILLENIUM OPTICAL DISC PRIVATE LIMITED
2761	U40108PN2002PTC017295	VAIDYANATH POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
2762	U74999PN2002PTC017298	UNITE BIZLINK PRIVATE LIMITED
2763	U64120PN2002PTC017309	TATKAL COURIER PRIVATE LIMITED
2764	U74999MH1996PTC097942	HARIT KANCHAN FORESTS (INDIA) LIMITED
2765	U20221MH1996PTC097886	OSTRICH FURNITURE PRIVATE LIMITED
2766	U72200PN1996PTC020589	IDEAWINGS TOWNSHIPS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2767	U45201MH1996PTC097929	LAKAKI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2768	U51102MH1996PTC100040	SHAMALA AUTOMOBILES SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2769	U55204PN2005PTC020436	SHITALA CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED
2770	U45202MH1998PTC113980	MATERE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2771	U01407MH1996PTC101147	DART AGRO PRIVATE LIMITED
2772	U24232MH1996PTC101503	HARSHAL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2773	U72900MH1996PTC101017	VHF FOUNTAINHEAD COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2774	U21014MH1996PTC100895	MERU PAPER PRIVATE LIMITED
2775	U45202MH1996PTC100873	GANGA TOWNSHIP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2776	U27106MH1996PTC100961	SHREENIWAS WIRES AND STRIPS PRIVATE LIMITED
2777	U45201MH1996PTC101605	GOLD-COIN PROMOTORS PRIVATE LIMITED
2778	U29219MH1996PTC099618	SAMIYO TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2779	U27320MH1996PTC098609	QUICK-CAST ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2780	U55101MH1996PTC101154	AJIT MOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2781	U74993MH1996PTC101388	SAHAYADRI OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
2782	U45202MH1996PTC104434	RAJA S CONSTRO PRIVATE LIMITED
2783	U29255MH1996PTC100763	RUTTEN SPELLBOUND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2784	U01222MH1997PTC105280	PRAVARA POULTRY AND FOODS PRIVATE LIMITED
2785	U72200MH1996PTC098473	MACSIM SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2786	U70109MH1996PTC100844	PRIMAL EARTH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2787	U29292MH1996PTC097474	YASHWANT CIRAMICS AND BRICKS PRIVATE LIMITED
2788	U99999MH1996PTC098033	JAIN PARMAR ELECTRONICS COMPANY PRIVATE LIMITED
2789	U01119MH1996PTC098391	GOODLUCK FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2790	U27203MH1995PTC086095	SANKALP METAL POWDERS PRIVATE LIMITED
2791	U31909PN1998PTC012556	BENTRON ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
2792	U28920MH1996PTC097417	MOONLIGHT ELECTROMECHANICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

2793	U80102MH1996PTC100969	THORNS KNOWLEDGE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2794	U74999MH1996PTC101029	KHARE PHOTO STUDIO PRIVATE LIMITED
2795	U01211MH1996PTC101421	SARAF DAIRY PRIVATE LIMITED
2796	U74140MH1996PTC101006	TRIDENT INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES PRIVATE LIMITED
2797	U72200MH1996PTC099132	SUMY SYSTEM AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2798	U74210MH1996PTC099088	SONA TECH PRIVATE LIMITED
2799	U74210MH1996PTC099086	ISHANI PROJECTS PRIVATE LIMITED
2800	U40101MH1996PTC099080	QUANTUM ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
2801	U74300MH1996PTC098852	YOGI PRINTERS PRIVATE LIMITED
2802	U29299MH1996PTC103421	NIVARGI PROCESSERS PRIVATE LIMITED
2803	U72200MH1996PTC103365	MUDGAL SANKHYAYANA PRIVATE LIMITED
2804	U45309MH1996PTC103346	SUYOG DEVELOPERS AND ESTATE AGENTS PRIVATE LIMITED
2805	U24233MH1996PTC103361	SHRI SWAMY HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2806	U28910MH1996PTC103224	ELEGANT FORGINGS LIMITED
2807	U73100MH1996PTC104477	IMMUNOSCIENCE RESEARCH PRIVATE LIMITED
2808	U29299MH1996PTC101214	B AND G BROMIDES PRIVATE LIMITED
2809	U51909MH1996PTC100846	ASTRAL EXPORT AND IMPORT PRIVATE LIMITED
2810	U01409MH1996PTC097437	SEVEN UNITED AGRO FARMS PRIVATE LIMITED.
2811	U74210MH1996PTC104354	JESVIN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2812	U01211MH1996PTC097979	DATAKRUPA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2813	U27108MH1996PTC098080	HARSHVARDHAN STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2814	U45209MH1996PTC098190	RAGSON BIOTECH PRIVATE LIMITED
2815	U15205MH1996PTC098265	HEMAN HEALTH ICE CREAM PRIVATE LIMITED.
2816	U02006MH1996PTC098402	GURUKRIPA FARMS PRIVATE LIMITED
2817	U29199MH1996PTC104714	DATUM-LINE COMPU SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2818	U60210MH1996PTC104733	RAJ (PUNE) TRAVEL LINES PRIVATE LIMITED
2819	U27203MH1996PTC104795	OLYMPIA ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2820	U55101MH1997PTC104906	HOTEL SAROVERINN PRIVATE LIMITED
2821	U45201MH1997PTC104879	TUPE-AVHAD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2822	U70101MH1997PLC104933	CHAKAN PROPERTY DEVELOPERS LIMITED
2823	U45201MH1997PTC105151	BAKABU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2824	U29299MH1996PTC104594	MULTICUT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2825	U15543MH1996PTC104662	TRIVES MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
2826	U50101MH1997PTC105310	SINGH CAR S PRIVATE LIMITED
2827	U50101MH1997PTC105379	AUDUMBAR SALES AND SERVICE PRIVATE LIMITED
2828	U51909MH1997PTC105373	PRAJAKTA IMPEX PRIVATE LIMITED
2889	U55101PN2000PTC014856	A R ADKAR AND HOTELS PRIVATE LIMITED
2830	U74999MH1995PTC090298	SPAN ASSOCIATES AND FILTERATIONS PRIVATE LIMITED
2831	U29299MH1995PTC086749	OEMETA SPAN (INDIA) PRIVATE LIMITED
2832	U74210MH1996PTC104340	VISPA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2833	U29299MH1996PTC104548	G B GADRE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2834	U74210MH1996PTC104357	FABULOUS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2835	U74210MH1996PTC104339	BETTY ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2836	U45102MH1996PTC098570	BADRINARAYAN LAND DEVELOPERS LIMITED
2837	U25201MH1996PTC101511	PLASTIC PACKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2838	U74210MH1996PTC101080	DESIGN--TECH PRIVATE LIMITED
2839	U74140MH1996PTC099129	KAROLINE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2840	U15142MH1996PTC102975	SHIVNERI OILS PRIVATE LIMITED
2841	U19202MH1996PTC098968	KARISHMA HAWAI CHAPPALS PRIVATE LIMITED
2842	U01211MH1996PLC099168	GANGA DOODH PRAKRIYA LIMITED
2843	U28910MH1996PTC101554	BOPARAI AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED.

Sl No.	Company Number	Name of the Companies
2844.	097841	M/s. Poona Coffee House Private Limited.
2845.	017196	M/s. Fortune Entertainment Private Limited.
2846.	017148	M/s. Hutatma Chitra Private Limited.
2847.	101475	M/s. Maha Granite Private Limited.
2848.	097562	M/s. Ascent Interactave Multimedia Private Limited.
2849.	098097	M/s. Namashkar Airhostess Training Academy Private Limited.
2850.	098193	M/s. Laxurm Enterprises Private Limited.
2851.	104757	M/s. Sunland Goat Farming Company Private Limited.
2852.	098604	M/s. Ramsukh Constructions Private Limited.
2853.	098795	M/s. Sudarshan Aerotrol Systems Private Limited.
2854.	105402	M/s. Deeplaxmi Engineers Marketing Private Limited.
2855.	104435	M/s. Susajja Construction Private Limited.
2856.	104421	M/s. Bismilla Transport Private Limited.
2857.	046628	M/s. Parmar Export and Import Private Limited.
2858.	099327	M/s. Ramco Automatics Private Limited.
2859.	055554	M/s. Saroj Castings Private Limited.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Pune

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Mata Metal and Allied Products Private Limited

Shillong-793001, the 7th April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec. 560/2008/00435/11—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Mata Metal and Allied Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies :—

Coimbatore-641005, the 10th April 2008

No. ROC/CBE/560(5)/2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl No.	Company Number	Name of the Companies
1	2	3
467.	660	M/s. Blue Mountain Construction and Allied Industries Private Limited.
468.	667	M/s. Kanthevel Steels Private Limited.
469.	690	M/s. Southern Leather Works Private Limited.
470.	693	M/s. F.I.C. Manufacturers Private Limited.
471.	695	M/s. B. K. B. Agro Agencies Private Limited.
472.	701	M/s. Balaji Minerals and Metals Private Limited.
473.	706	M/s. Goldwin Filcs and Tools Private Limited.
474.	732	M/s. Thirumalai Gopal Chit Fund Private Limited.
475.	735	M/s. Sathay Livestock Farm Limited.
476.	740	M/s. Coimbatore Electro Carbons Private Limited.
477.	754	M/s. Allets Prints and Arts Private Limited.
478.	775	M/s. Panographis (India) Private Limited.
479.	1464	M/s. Unity Marketing Associates Private Limited.
480.	1480	M/s. Shanbagam Tubes Private Limited.
481.	1503	M/s. Luna Machine Tools Private Limited.
482.	1505	M/s. H. Mohammed Hussain Coir Rope Company Private Limited.
483.	1519	M/s. Ananda Natraj Hotels Private Limited.
484.	1523	M/s. SNG Group Investments Private Limited.
485.	1550	M/s. Srimagal Chit Promoters Private Limited.
486.	1562	M/s. Narmada Chemicals Private Limited.

1	2	3	1	2	3
487.	1614	M/s. G.V.R. Steels Private Limited.	514.	4162	M/s. Aptech Peripherals Private Limited.
488.	1628	M/s. Choodambiga Forgings Limited.	515.	4165	M/s. Jai Ambal System Services Private Limited.
489.	1630	M/s. Superfine Starch and Chemicals Private Limited.	516.	4167	M/s. Erode Udayam Boards and Chemicals Private Limited.
490.	1635	M/s. K. R. Consultancy Services Private Limited.	517.	4170	M/s. Omega Garments Private Limited.
491.	1640	M/s. Velco Cement Industries Limited.	518.	4174	M/s. Classic Synthetic Diamonds Private Limited.
492.	1644	M/s. Kayunvee Chit Funds Private Limited.	519.	4175	M/s. Royal Park Holiday Resorts Private Limited.
493.	1648	M/s. Kongu Chit Private Limited.	520.	4186	M/s. Friends Security Services Private Limited.
494.	1652	M/s. Palaniappa Paper Boards Private Limited.	521.	6565	M/s. Aniketh Securities and Investments Limited.
495.	1656	M/s. Kalind Financial and Management Services Private Limited.	522.	7365	M/s. Rajmohan Rubber Factory Private Limited.
496.	1657	M/s. Matador Engineering Company Private Limited.	523.	7370	M/s. Bestmen Garments Private Limited.
497.	1658	M/s. Wilman Radiators Limited.	524.	7371	M/s. Sri Muthunatchiar Integrated Agro Farms Private Limited.
498.	1660	M/s. Pentagon Minerals Private Limited.	525.	7372	M/s. Jay Jay Kay Estates Limited.
499.	1662	M/s. Hotel Givior Private Limited.	526.	7373	M/s. TSK Print Media Private Limited.
500.	1669	M/s. Prakrits Engineers Private Limited.	527.	7374	M/s. Attur Sago and Starch Effluent Treatment Plant Company Limited.
501.	1681	M/s. Ziaudeen Ahmed Coir Rope Co. (Tamilnadu) Private Limited.	528.	7375	M/s. V. S. K. Comp Inst Private Limited.
502.	1701	M/s. S. M. Mihibaah Heavy Engineering Company (India) Private Limited.	529.	7376	M/s. Navadhanya Agro Products Private Limited.
503.	1703	M/s. Yercaud Polysaks Private Limited.	530.	7378	M/s. Ace Threads Private Limited.
504.	1712	M/s. Shoba Export Private Limited.	531.	7383	M/s. Veelgee Construction Private Limited.
505.	1729	M/s. Good Hope Polypacks Private Limited.	532.	7386	M/s. M-Factor Business Strategists Private Limited.
506.	1737	M/s. Animal Germplasm Private Limited.	533.	7388	M/s. Nagoor Andavar Rubber Works Private Limited.
507.	1738	M/s. Sree Singaravelan Chit Fund Private Limited.	534.	7390	M/s. Vital Med Systems Private Limited.
508.	4107	M/s. Esons Boards and Plywoods Private Limited.	535.	7397	M/s. Lead Travels Private Limited.
509.	4110	M/s. Junior Tex (India) Private Limited.	536.	7399	M/s. Sri Sasthra Velayutha Spinners Private Limited.
510.	4111	M/s. Junior Garments Private Limited.	537.	7402	M/s. Hit Tektronics Private Limited.
511.	4119	M/s. Kongu Paper and Boards Private Limited.	538.	7409	M/s. Sivasakthi Office Automations Private Limited.
512.	4126	M/s. Eddy Software Private Limited.	539.	7414	M/s. Jeyasooriyaa Exports Private Limited.
513.	4158	M/s. Chemtech Energy Private Limited.			

1	2	3	1	2	3
540.	7420	M/s. Kanakavalli Engineering Industries Private Limited.	565.	9734	M/s. Sun United Consumer Trade Private Limited.
541.	7422	M/s. Rajmohan Trading Company Private Limited.	566.	9736	M/s. Kovaijobs Career Management Company Private Limited.
542.	7429	M/s. Shankar Blue Metals and Precast Limited.	567.	9737	M/s. Tamilnadu Computer Education Private Limited.
543.	7447	M/s. Siva Bala Textiles Private Limited.	568.	9749	M/s. Chentan Electrodes Private Limited.
544.	7452	M/s. Sri Meenakshi Sundaresvarar Textiles Private Limited.	569.	9751	M/s. Lighthouse Enterprises Ooty Private Limited.
545.	7458	M/s. Parivar Super Market Private Limited.	570.	9756	M/s. Maruvloor Arasi Hotels Private Limited.
546.	7460	M/s. Thimmi Granites and Marbles Private Limited.	571.	9758	M/s. Suraksha Merchant Exim Private Limited.
547.	7461	M/s. Sri Ranjitha Fabrics Private Limited.	572.	9766	M/s. Visissha Spintrans Marketing Private Limited.
548.	7468	M/s. Kezia Cotton Mills Private Limited.	573.	9768	M/s. Technotech Info-Solutions India Private Limited.
549.	7473	M/s. Nitesh Soft Sys Private Limited.	574.	9771	M/s. Coimbatore Spindle Tapes Private Limited.
550.	7474	M/s. Pyo-Free Plasto Medicomp Private Limited.	575.	9773	M/s. Best Vision Educational Services Tamilnadu Private Limited.
551.	7754	M/s. Impasto Industrial Coatings Private Limited.	576.	9778	M/s. Gemway Consumer Marketing (Tamilnadu) Private Limited.
552.	7781	M/s. SPP Electricals and Electronics Private Limited.	577.	9779	M/s. La Bame Marketing Madurai Private Limited.
553.	7790	M/s. Elvin Homemakers Private Limited.	578.	9780	M/s. Aaccurate Consumer Marketing Erode Private Limited.
554.	7793	M/s. Vijaya Nayaki Textiles Private Limited.	579.	9783	M/s. Baston Solutions India Private Limited.
555.	7800	M/s. Jhaiv Tex Limited.	580.	9784	M/s. Luxury Marketing Salem Private Limited.
556.	7830	M/s. Vamadev Exports Private Limited.	581.	9787	M/s. Lacro Net Work Marketing India Private Limited.
557.	7838	M/s. Chairtek Furniture Products Private Limited.	582.	9789	M/s. Great Multilevel Network Erode Private Limited.
558.	7955	M/s. Krishnappa Valves Salem Private Limited.	583.	9790	M/s. Vyo Soft Solutions Private Limited.
559.	9701	M/s. Shri Ohm Herbal Products Kovai Private Limited.	584.	9791	M/s. Chinnamman Maarketer Private Limited.
560.	9703	M/s. Phoenix Institute of Information Technology Covai Private Limited.	585.	9795	M/s. Infotech Taskforce Coimbatore Private Limited.
561.	9713	M/s. Bitcode Soft-Tech India Private Limited.	586.	9796	M/s. Goldline Seeds India Private Limited.
562.	9722	M/s. Oneway Marketing India Private Limited.			
563.	9723	M/s. Gee Yes Iswarya Real Estates (Coimbatore) Private Limited.			
564.	9731	M/s. Visudhayaa Garments Private Limited.			

1	2	3
587.	9798	M/s. Agnimitra Marketing Abaya Private Limited.
588.	9799	M/s. Gold Drops Marketing Coimbatore Private Limited.
589.	9802	M/s. Richway Marketing Services Private Limited.
590.	9804	M/s. Lakshmi Goldcoins Network Erode Private Limited.
591.	9806	M/s. Gain Marketing Coimbatore Private Limited.
592.	9807	M/s. DSE Goldmine Marketing India Private Limited.
593.	9810	M/s. Nirmal Media Works India Private Limited.
594.	9812	M/s. Golden Moments Marketing Coimbatore Private Limited.
595.	9814	M/s. K. N. Multi Products Consultant Private Limited.
596.	9815	M/s. Gold Lion Infotech Marketing Service Private Limited.
597.	9822	M/s. E-Powernet Marketing India Private Limited.
598.	9826	M/s. Net Inflow Solutions India Private Limited.
599.	9827	M/s. Netkadai Com India Private Limited.
600.	9828	M/s. Lifeway Multilevel Consumer Trade Kovai Private Limited.
601.	9830	M/s. Inter Trade Business Associates Covai Private Limited.
602.	9832	M/s. Narbhajan Infotech Coimbatore Private Limited.
603.	9833	M/s. Sri Bhuvaneswari Info Tech Private Limited.
604.	9977	M/s. Amuthasurabhy Marketing Private Limited.
605.	9982	M/s. Ervin Systems Coimbatore Private Limited.
606.	9983	M/s. Mgate Soft-Tech Private Limited.
607.	9993	M/s. Best Infoway India Private Limited.
608.	9996	M/s. Vetri Bio Energy System Private Limited.

1	2	3
609.	10003	M/s. Vinoviyam Digital Media Private Limited.
610.	10004	M/s. Cibi Online Private Limited.
611.	10009	M/s. Lord S Tranztek Solutions Private Limited.
612.	10011	M/s. Jabson Esoft Systems Private Limited.
613.	10018	M/s. Imac Pumps Coimbatore Private Limited.
614.	10021	M/s. V.P.V. Constructions Private Limited.
615.	10023	M/s. Salem Stabilizers Private Limited.
616.	10040	M/s. Easten IT Shoppe India Private Limited.
617.	10041	M/s. Ashirwad Heritage Tours India Private Limited.
618.	10047	M/s. Kapila Digital Syscorp Private Limited.
619.	10052	M/s. Lord S Mailing and Advertising Private Limited.
620.	10057	M/s. Devon Integrated Farms Nilgiris Private Limited.
621.	10059	M/s. Appadurai Power Systems Private Limited.
622.	10061	M/s. A.G.A. Computers Private Limited.

P. RAJAGOPALAN
Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Emgee Cybernation Private Limited

Ernakulam-682021, the 3rd April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec. 560/2008/00348.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Emgee Cybernation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S. M.
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tropical Cashews Private Limited

Ernakulam-682021, the 3rd April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec. 560/2008/00354.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tropical Cashews Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S. M.
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Furson Packaging and Publishing Company Private Limited

Panaji, the 8th April 2008

No. 24-0001183/8652—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Furson Packaging and Publishing Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Bhanmali Resorts Private Limited

Panaji, the 8th April 2008

No. 24-001142/8565—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhanmali Resorts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Konkan Pharmaceuticals Private Limited

Panaji, the 8th April 2008

No. 24-000606/8568—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Konkan Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shrisidha Mining Industries Private Limited

Panaji, the 8th April 2008

No. 24-000140/8571—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrisidha Mining Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Spring Mineral Water Trading Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002881/8611—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spring Mineral Water Trading Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Theos Information Technologies Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-001392/8614—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Theos Information Technologies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rahili Health Resort Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002479/8617—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rahili Health Resort Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Autohome Marketing Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-003005/8620—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Autohome Marketing Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Secon Securities Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-003045/8623—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Secon Securities Private Limited has

this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Millennium Distilleries Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002812/8626.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Millennium Distilleries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidhata Steel and Alloys Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002854/8629.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidhata Steel and Alloys Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goan Majestic Resorts Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002851/8632.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goan Majestic Resorts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Verna Residential Catering College and Resorts Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-003158/8635.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Verna Residential Catering College and Resorts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jehovah Properties Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-003119/8638.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Jehovah Properties Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Aunty Honk Garage Software and Services Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002963/8641.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aunty Honk Garage software and Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heiland Impex Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002853/8644.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heiland Impex Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rashika Steel and Fabricators Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002856/8647.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rashika Steel and Fabricators Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpha Netbiz Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002948/8650.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alpha Netbiz Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryan Concepts Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002965/8653.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aryan Concepts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gandharv Steels Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002855/8656.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gandharv Steels Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Luaz Imports and Exports Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-002947/8659.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Luaz Imports and Exports Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Digital Arts Private Limited

Panaji, the 10th April 2008

No. 24-003051/8662.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Digital Arts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore, the 31st March 2008

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company Number	Name of the Companies
1.	9440	M/s. Harmony Consultants Private Limited.
2.	25512	M/s. Signet Software Private Limited.
3.	25873	M/s. Dacs Software Private Limited.
4.	25660	M/s. Vyoma Media Private Limited.
5.	27993	M/s. Silera Software (India) Private Limited.
6.	4276	M/s. Farmland Finance and Trading Limited.
7.	37697	M/s. CCA Strategies India Private Limited.
8.	44257	M/s. TLC Tech Solutions (India) Private Limited.
9.	34043	M/s. Learning Beam Private Limited.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore, the 31st March 2008

No. ROCB/ROC/TA-MM/560(3)/2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company Number	Name of the Companies
1.	11985	M/s. Alankar Pearl Plaza Finance Private Limited.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. ROCB/TA/AHN/560(3).—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

S.No	Reg No	Company Name
1	12001	M/s Sunworldwide private limited
2	12030	M/s Krishna combines private limited
3	12047	M/s Sahyadri watches limited
4	12054	M/s sentum software private limited
5	12056	M/s Spirit engineering private limited
6	12072	M/s Cauvery tubes and bulbs private limited
7	12083	M/s Lhasa tours and travels private limited
8	12104	M/s Hemagiri finance and Investments private limited
9	12106	M/s Treasure stones private limited
10	12142	M/s Swathi castings private limited
11	12173	M/s Sri Kodandarama sericulture private limited
12	12180	M/s Madhu sericulture private limited
13	12183	M/s Veegee fashions private limited
14	12185	M/s Eswar steels and tubes private limited
15	12196	M/s Bramhappa Tavanappanavar vanaspati oils private limited
16	12202	M/s Supra Advertising private limited
17	12229	M/s Transcity exports private limited
18	12231	M/s Maruti mercantile private limited
19	12250	M/s Rainbow lamps private limited
20	12252	M/s Archana woodcrafts private limited
21	12550	M/s EMM ERR Technologies private Limited
22	12554	M/s Master Hire purchase and finance private limited
23	12566	M/s H.R. Gaviappa Enterprises private limited
24	12575	M/s Primrose Business services private limited
25	12580	M/s Namaste Foundation private limited
26	12582	M/s Fairgrowth securities private limited
27	12589	M/s Harilaxmi investments and finance private limited
28	12594	M/s Deccan poultry feeds limited
29	12595	M/s Gayatri fisheries private limited
30	12632	M/s Amba granites private limited
31	12646	M/s Indra Housing finance corporation limited
32	12676	M/s Usha bricks Co.private limited
33	12680	M/s Maheswari Housing development finance company limited
34	12705	M/s Shri Siddhivinayaka oil extractions limited
35	12258	M/s Multitech metal impregnations private limited
36	12262	M/s Optical coating laboratories private limited
37	12378	M/s Spot Auto finance and Investments private limited
38	12403	M/s Kolar lamps private limited

39 12409	M/s Nishant Rolling Mills private limited
40 12422	M/s Power orbit engineering private limited
41 12436	M/s Karnataka soya products private limited
42 12472	M/s Sony leathers garments private limited
43 12541	M/s Sathyadev finance private limited
44 12545	M/s Bangalore commodity Trade waves limited
45 12302	M/s Jyoti Agrotherm products private limited
46 12346	M/s P.T.K. Exports private limited
47 12743	M/s Amreen plastics private limited
48 12748	M/s High Rick Granite and Marbles private limited
49 12761	M/s Gajanana Inorgnics private limited
50 12767	M/s chamundi ceramics private limited
51 12794	M/s Excel Rocks private limited
52 12810	M/s Geetha granites private limited
53 12828	M/s Ojha electronics private limited
54 12835	M/s Stripline Microwave products private limited
55 12879	M/s Spas chits and finance private limited
56 12932	M/s Sambrani Land Developers private limited
57 12936	M/s Synergic International limited
58 12940	M/s Arun productions private limited
59 12942	M/s Peninsula Textile company private limited
60 12944	M/s Harakere Investments private limited
61 12945	M/s Expert compaid systems private limited
62 12946	M/s Veeaar types on lines private limited
63 12956	M/s Manahattaan impex private limited
64 12961	M/s Total circuit Technology private limited
65 12965	M/s Venkateshwra Vinyl farms private limitd
66 12968	M/s Agwa pharmaceuticals private limited
67 12970	M/s Concept solar and composities technologies private limitd
68 12973	M/s Unisteel Industris private limited
69 12976	M/s Finlink(India) Limited
70 12986	M/s Chandra orgnics private limited
71 12991	M/s Civison Builders and Devlopers private limited
72 12993	M/s Lavira machine Tools limited
73 12995	M/s Deepu chemicals private limited
74 12999	M/s Unanimous financial services private limited
75 13003	M/s Kitandur properties and Investments private limited
76 13019	M/s Veekay realtors private limited
77 13030	M/s Sundhar homes Apartments private limited
78 13039	M/s Commandos detectives private limited
79 13045	M/s M/s Mudugal Finance and Investments private limited
80 13059	M/s Inland container service private limited

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. Suo-Moto/560(5)/KM/2007-2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette :—

<u>SL.NO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
001)	25024	DANUBE INDIA INFORMATION PRIVATE LIMITED
002)	25049	NETSDLTECHNDLOGIES PRIVATE LIMITED
003)	25078	MYSON MEDIA PRIVATE LIMITED
004)	25093	VYASA HERBAL RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED
005)	25096	SARATHY SOFTWARE RESEARCH AND MARKETING(P) LTD
006)	25104	SHANKAR RESIDENCY PRIVATE LIMITED
007)	25136	N.R.ROYAL BRUSHES PRIVATE LIMITED
008)	25142	VINKDFF HOLDINGS PRIVATE LIMITED
009)	25147	PHINX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
010)	25149	SONA BIO-TECH PRIVATE LIMITED
011)	25170	CZARS CURRENCY EXCHANGE PRIVATE LIMITED
012)	25171	PREMSON BOTTLERS PRIVATE LIMITED.
013)	25172	LIITA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
014)	25177	ALFA MIN IMPEX (BAGALKOT) PRIVATE LIMITED
015)	25682	SONYS DEALERS AND TRAVEL LINES PRIVATE LIMITED
016)	25214	LAKSHMINARASIMHA TRANSPORT AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
017)	25236	SHASHANK POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
018)	25241	SEEDLING HOUSE PLANTATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
019)	25247	MANAMANDIR MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
020)	25258	GALAXY INFOTECH PRIVATE LIMITED
021)	25259	ABEEKAY ENGINEERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
022)	25262	SHRINIDHI WATER PUMPS PRIVATE LIMITED
023)	25266	BHOSALE AND NAGATHAN SOLVENT EXTRACTION CO. PRIVATE LIMITED
024)	25279	ROYAL TRACKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
025)	25287	VARIDHI AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED
026)	25305	GREEN DREAMS RESORT PRIVATE LIMITED
027)	25308	ADARSHA INFO-SERVICES (I) PRIVATE LIMITED
028)	25321	EAST WEST TRANSCRIPTIONS PRIVATE LIMITED
029)	25326	S AND A CONCEPTS MARKETING PRIVATE LIMITED

030)	25328	S.N. SAFE DEPOSIT LOCKERS PRIVATE LIMITED
031)	25332	CROSS PHARMALAB PRIVATE LIMITED
032)	25336	QWALITY FREEZERS PRIVATE LIMITED
033)	25338	RESTWELL SHELTERS PRIVATE LIMITED
034)	25369	ANJANEYA TECHNO-PLAST (INDIA) PRIVATE LIMITED
035)	25370	GARUDA BUSINESS FORMS PRIVATE LIMITED
036)	25377	SPANTEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
037)	25383	ALLMIN SECURITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
038)	25386	BANGALORE INSTITUTE OF ACCOUNTANCY PRIVATE LIMITED
039)	25392	SRI KEMPAMMADEVI OUT DOOR FILM UNIT (P) LIMITED
040)	25396	M.S.RESORTS AND FARMS BANGALORE PRIVATE LIMITED
041)	25398	HUTTI COFFEE ESTATES PRIVATE LIMITED
042)	25688	GREEN GARDEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
043)	25426	MAYASHREE LABORATORIES PRIVATE LIMITED
044)	25433	ANVIL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
045)	25437	ADRISHTA EMPLOYMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
046)	25449	VENUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
047)	25452	HALLMARK CEILINGS PRIVATE LIMITED
048)	25453	NOVICE LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
049)	25456	AEROLATEX INDIA PRIVATE LIMITED
050)	25465	ANTAR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
051)	25480	CESCON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
052)	25482	SRI MENTHA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
053)	25483	KOTTAYAM KIDNEY HOSPITAL PRIVATE LIMITED
054)	25501	ENGLER AND PRANTHLE ARTS AND PAINTS (P) LIMITED
055)	25533	JALAL TRADERS PRIVATE LIMITED
056)	25534	RAINEO INFOTECH PRIVATE LIMITED
057)	25549	SHRII ARIHANT PETROCHEM PRIVATE LIMITED
058)	25575	PANAMBUR RUBBER PRIVATE LIMITED
059)	25576	MARSEILLE MARVELS APPARELS PRIVATE LIMITED
060)	25581	INDSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
061)	25582	LORDMAN ELECTRICS PRIVATE LIMITED
062)	25592	LAKSHMI POWER PLANTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
063)	25599	JASMEET WIRES PRIVATE LIMITED

064)	25626	SOBER FOODS PRIVATE LIMITED
065)	25629	CREATIVE LEARNING ORGANISATION PRIVATE LIMITED
066)	25638	NIMBUS HARDWARE AND DEVICES PRIVATE LIMITED
067)	25646	CHAYA ASTRALS PRIVATE LIMITED
068)	25652	THALACAUVERY COMPUTERS PRIVATE LIMITED
069)	25656	NIRVANA OUTDOOR MOKSHA PRIVATE LIMITED
070)	25663	NETWORK LEARNING PRIVATE LIMITED
071)	25680	SREE RAJARAJESWARI SPICES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. Suo-Moto/560(5)/KM/2007-2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette :—

<u>SLNO.</u>	<u>CO. NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
001)	25702	VRG NET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
002)	25717	HALDIPUR FLUID POWER PRIVATE LIMITED
003)	25723	BABA POWER PRIVATE LIMITED
004)	25726	SONA EXIM PRIVATE LIMITED
005)	25727	CHARLITZ SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
006)	25742	SILVERPEAK LOGISTICS PRIVATE LIMITED
007)	25743	SRICHAKRA PARLOURS PRIVATE LIMITED
008)	25744	KUTTIKANDATHIL ESTATE PRIVATE LIMITED
009)	25764	ENIGMA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
010)	25766	PRODIGE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
011)	25780	MINDWAVE INTERNET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
012)	25784	BHOOMIKA CINE PRIVATE LIMITED
013)	25801	RENAISSANCE CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
014)	25802	AWAD GARMENTS PRIVATE LIMITED
015)	25808	BOMBHORE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
016)	25810	WORLDCON (INDIA) PRIVATE LIMITED
017)	25811	BLUELINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
018)	25816	BEVER SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
019)	25817	DIVINE CARDS AND RELATED DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
020)	25825	BULLS EYE PRIVATE LIMITED
021)	25839	UTTAM'S MEDIA COMMUNICATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
022)	25853	BIO-MINTECH AND FOOD PROCESSING PRIVATE LIMITED
023)	25858	ARABICA COFFEE PRIVATE LIMITED
024)	25867	ENTEL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
025)	25884	GOURI GANESH FARM SALES PRIVATE LIMITED
026)	25906	SRI SAI CHANDANA POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
027)	25918	OJUS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
028)	25921	SHREYANS ESTATES PRIVATE LIMITED

029)	25930	SACHIDA HOTELS AND COMPLEX PRIVATE LIMITED
030)	25942	PRUTHVI CONCRETE BLOCKS AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE - LIMITED
031)	25948	DECCAN HYBRID SEEDS COMPANY PRIVATE LIMITED
032)	25953	SHEELPA CONSUMER PRODUCT MARKETING COMPANY PRIVATE -LIMITED
033)	25966	SIDDARTH SOFTWARES PRIVATE LIMITED
034)	25987	MAVINAKERE ENGINEERING AND PRECISIONS PRIVATE LIMITED
035)	25991	WIS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
036)	26317	FRIENDS BUILDERS AND INNOVATIVE DESIGNERS PRIVATE LIMITED
037)	26004	PLENARY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
038)	26026	VIECOMPU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
039)	26032	EC BUSINESS CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
040)	26033	OTTER PHARMA PRIVATE LIMITED
041)	26034	SREE VISHNU IMPEX PRIVATE LIMITED
042)	26038	TRILLINIUM SOFTTECK PRIVATE LIMITED
043)	26045	MEENAKSHI MASS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
044)	26067	DSP CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED
045)	26083	INERTIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
046)	26116	BKH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
047)	26118	PASAR SOFTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
048)	26128	P V S SCRIBES PRIVATE LIMITED]
049)	26131	JG DRUGS AND SURGICALS PRIVATE LIMITED
050)	26137	LALWANI AGENCIES PRIVATE LIMITED
051)	26139	SHAKTHI FINSERV PRIVATE LIMITED
052)	26148	SRI RAMULU HEALTH FOODS PRIVATE LIMITED
053)	26149	BROADCAST COMMUNICATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
054)	26150	NEWBEN INFOTECH PRIVATE LIMITED
055)	26172	MS DOT COM PRIVATE LIMITED
056)	26178	QUICK BITE FOODS PRIVATE LIMITED
057)	26180	GEMMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
058)	26189	SYOB INTERNET SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
059)	26191	VIVA INFOTECH PRIVATE LIMITED
060)	26203	MALITAS BEACH RESORT PRIVATE LIMITED
061)	26206	HIPACE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
062)	26211	B B BEVERAGES PRIVATE LIMITED

063)	26230	GOUTHAM TRANSPORT PRIVATE LIMITED
064)	26253	ALMOND SOFTFIN PRIVATE LIMITED
065)	26254	PALM CLOVE SOFTFIN PRIVATE LIMITED
066)	26259	MURUDESHWARA MARKETING PRIVATE LIMITED,
067)	26274	ICAFES NET (INDIA) PRIVATE LIMITED
068)	26278	ECARD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
069)	26283	BLUESKY EXPRESS CARGO MANAGEMENT SERVICE PRIVATE LIMITED
070)	26284	ESGE AGRO FUEL PRIVATE LIMITED
071)	26287	BRAIN WAVES INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
072)	26297	ALL SEASONS VACATION PRIVATE LIMITED

C. V. SAJEEVAN
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. Suo-Moto/560(5)/KM/2007-2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette :—

<u>SLNO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
001)	26321	RIZ HERBS AND SPICES PRIVATE LIMITED
002)	26354	SPOORTHY COURIERS PRIVATE LIMITED
003)	26356	SREE MANGALAM CHROME PLATERS PRIVATE LIMITED
004)	26360	TEXAS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
05)	26370	ESPY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
006)	26377	BANGALORE PRINTO GRAPHICS PRIVATE LIMITED
007)	26386	K.R.TOURS N TRAVEL PRIVATE LIMITED
008)	26411	APOORVA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
009)	26413	SAFE TRANSCRIPTIONS PRIVATE LIMITED
010)	26415	FORTUNE SOFTSCRIBE PRIVATE LIMITED
011)	27032	INFOPACE DOT COM PRIVATE LIMITED
012)	26419	TUFF STONE MARKETING PRIVATE LIMITED
013)	26426	RESAPRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
014)	26432	MEDHA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
015)	26434	SUNRISE PERIPHERALS AND INFOSYSTEMS (P) LIMITED
016)	26465	SAI GAUTAM CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
017)	26469	METAPHOR SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
018)	26470	SRI CHAMUNDI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
019)	26481	JRK TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
020)	26496	GURUKRUPA OFFICE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
021)	26504	NECTAR SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
022)	26511	SHAKTI WINES PRIVATE LIMITED
023)	26514	VENUS STOCKS PRIVATE LIMITED
024)	26516	NOSTRO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
025)	26541	AVS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
026)	26553	NOSTRO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
027)	26554	WEBMART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
028)	26563	TEMPEST CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
029)	26574	JAYADURGA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

030)	26581	TOTAL SUPPLIES.COM PRIVATE LIMITED
031)	26582	MEDTRACK BIOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
032)	26585	JUBA INFOTECH PRIVATE LIMITED
033)	26593	JTP .COM PRIVATE LIMITED
034)	26603	QUANTUM MACHINES PRIVATE LIMITED
035)	26604	INFO SEARCH NETWORK PRIVATE LIMITED
036)	26605	OM PETROLEUM PRIVATE LIMITED
037)	26630	ALTRABIT NETWORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
038)	26631	VYOMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
039)	26640	VISHWAM IMPEX PRIVATE LIMITED
040)	26655	DHANA VARSHA NETWORK PRIVATE LIMITED
041)	26659	ETERNITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
042)	26668	PROGENIX INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
043)	26691	EAST COAST CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED
044)	26705	GURUSHIKSHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
045)	26716	HERAMB EXIM PRIVATE LIMITED
046)	26731	QUASAR FRAME MACHINES PRIVATE LIMITED
047)	26744	PRISTINE HERBIVITA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
048)	26749	LAHARI MEDIA.COM PRIVATE LIMITED
049)	26780	FSWAS SDLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
050)	26781	BANGALORE TECHNOFABS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
051)	26796	SUDATHI THECNOLOGIES PRIVATE LIMITED
052)	26806	ECLATON eBUSINESS DEVELOPMENT UNIT INDIA PRIVATE LIMITED
053)	26812	GREEN CITY CARD PRIVATE LIMITED
054)	26815	INFO TECH KIDS PRIVATE LIMITED
055)	26817	SUTRA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
056)	26823	Ez SOLUTIONZ PRIVATE LIMITED
057)	26854	IRIDIUM INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
058)	26863	MAVERICKS DOTCOM PRIVATE LIMITED
059)	26875	ICONTACT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
060)	26877	PSQ INFOTECH PRIVATE LIMITED
061)	26887	RAMSONS GREENFIELDS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
062)	26894	EYECODE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

063)	26901	RADICAL INFO SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
064)	26904	BIJAPUR MILKDAIRY AND AGRO PRODUCTS LIMITED
065)	26913	ALNOXON (INDIA) SYSTEMS PRIVATE LIMITED
066)	26925	iQUEST (INTERNATIONAL) PRIVATE LIMITED
067)	26955	WISDOM e- TECH PRIVATE LIMITED
068)	26963	CYBERSDFT WEB SOLUTIDNS PRIVATE LIMITED
069)	26965	INFOSAT DATALINK SERVICES PRIVATE LIMITED
070)	26970	YASHASWI EXPORT HOUSE PRIVATE LIMITED
071)	26973	iWAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
072)	26983	SRI JAGATHGURU BASAVESHWARA COLD STDRAGES PRIVATE LIMITED
073)	27016	SARVASHAKTI ROAD CARRIERS PRIVATE LIMITED
074)	27026	SANICONS POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Bangalore, the 31st March 2008

No. Suo-Moto/560(5)/KM/2007-2008.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette :—

<u>SINO.</u>	<u>CO.NO.</u>	<u>NAME OF THE COMPANY</u>
001)	27038	M/s. ACCIDENT CARE PLUS PRIVATE LIMITED
002)	27073	M/s. MERACITY.COM PRIVATE LIMITED
003)	27085	M/s. KARNATAKA NETCOM PRIVATE LIMITED
004)	27086	M/s. CEDILLA INFOTECH PRIVATE LIMITED
005)	27099	M/s. NAVILESOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
006)	27107	M/s. STREETSMART MAPPING PRIVATE LIMITED
007)	27108	M/s. VIRTUAL DYNAMICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
008)	27146	M/s. AISWARYA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
009)	27148	M/s. MELCI FORGINGS PRIVATE LIMITED
010)	27157	M/s. METAPARADIGM SFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
011)	27168	M/s. QUADRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
012)	27183	M/s. HALDA OFFICE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
013)	27192	M/s. ROGER'S SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
014)	27198	M/s. LIVE-ADS (INDIA) PRIVATE LIMITED
015)	27217	M/s. ANVESHANA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
016)	27225	M/s. SAPTHAGIRI TARPULINS AND PACKING MATERIALS PRIVATE LIMITED
017)	27243	M/s. NETIZEN INFORMATICS PRIVATE LIMITED
018)	27247	M/s. SIGNET NETWORKS PRIVATE LIMITED
019)	27251	M/s. EKADANTHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
20)	27252	M/s. REELPLAY INTERNET PRIVATE LIMITED
021)	27260	M/s. AKSHAY FREIGHT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
022)	27261	M/s. ADVAITH IMPEX PRIVATE LIMITED
023)	27267	M/s. HIGHTEK NETWORKING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
024)	27278	M/s. CHOWDESHWARI TRAVELS PRIVATE LIMITED
025)	27289	M/s. DIVYASHREE SOFT TECH PRIVATE LIMITED
026)	27300	M/s. SUTHERLAND SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
027)	27311	M/s. NISCHEY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
028)	27304	M/s. MAAYE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
029)	27317	M/s. REPAL LASERCURE PRIVATE LIMITED
030)	27359	M/s. ALL CHEMISTRY.COM PRIVATE LIMITED
031)	27360	M/s. FINAD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
032)	27361	M/s. HEXATRIS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
033)	27372	M/s. SRI VIGNESH ESSENTIALS PRIVATE LIMITED
034)	27379	M/s. ELECTROSYS NETWORK PRIVATE LIMITED
035)	27415	M/s. PRATHAMA AGENCIES PRIVATE LIMITED
036)	27416	M/s. GOEDICKE MACHINES (INDIA) PRIVATE LIMITED

037)	27424	M/s. NIMISHAMBA RECOVERIES PRIVATE LIMITED
038)	27445	M/s. KUTIRA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
039)	27461	M/s. ALPHA DMEGA CONFECTIONS PRIVATE LIMITED
040)	27467	M/s. JUPITER E-COM AND NETWORKS SERVICES PRIVATE LIMITED
041)	27515	M/s. MAMMOTH INFOTECH PRIVATE LIMITED
042)	27518	M/s eLife Software Private Limited
043)	27771	M/s. COMPLETE INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
044)	27520	M/s. ITWEBEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
045)	27524	M/s. IMPACT EVENTS INDIA PRIVATE LIMITED
046)	27527	M/s. POLYMORPHIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
047)	27528	M/s. HINDUKUSH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
048)	27536	M/s. ROOPAM MARKTECH PRIVATE LIMITED
049)	27539	M/s. MARK CONNECTRDNICS PRIVATE LIMITED
050)	27541	M/s MAHALAKSHMI GLOBAL TRADERS PRIVATE LIMITED
051)	27549	M/s. SIMRIO EXPORTS PRIVATE LIMITED
052)	27560	M/s. ADS INDIA DIGITAL PRE-PRESS PRIVATE LIMITED
053)	27563	M/s. SHALOM GRANITES PRIVATE LIMITED
054)	27764	M/s. MAGNUM CONNECT PRIVATE LIMITED
055)	27610	M/s. TIRTHANKAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
056)	27653	M/s. SOUTHERN RETAIL AUTOMATION SERVICES (TAMILNADU) PRIVATE LIMITED
057)	27665	M/s. OPENMIND RETAILING PRIVATE LIMITED
058)	27667	M/s. DODDAMANE BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
059)	27676	M/s. BEAU ROCK COLUMNS PRIVATE LIMITED
060)	27680	M/s. KMS INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
061)	27682	M/s. LING SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
062)	27688	M/s. SRI AURO MIRA WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
063)	27689	M/s. MAHASHAKTHI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
064)	27692	M/s. M.C.S. PROPERTIES PRIVATE LIMITED
065)	27726	M/s. SRI SRINIVASA DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
066)	27727	M/s. LAKSHMI NARASIMHA SILK EXPORTS PRIVATE LIMITED
067)	27730	M/s EBENEZER GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
068)	27738	M/s. MANGALORE TOURISM DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
069)	27741	M/s. BHAVANI PRESERVATIONS PRIVATE LIMITED
070)	27748	M/s. SHODH INFOTECH PRIVATE LIMITED
071)	27752	M/s. SILICDN MEGA MEDIA PRIVATE LIMITED
072)	27759	M/s. DHAKSHA SOFTWARE PRIVATE LIMITED

C. V. SAJEEVAN
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008